

प्रज्य वाप्रजीवो

श्रीमहात्मागाँधीजीके साहित्यका उपयोग
करनेकेलिये श्रीनवजीवन ट्रस्ट
अहमदाबादसे अनुमति
ले ली गयी है।

कुछ शब्द

मैं जून १९५० में ईस्ट आफ्रिकाकी यात्रामें गया था। वहाँ जानेका मेरा एक ही उद्देश्य था और वह यह कि वहाँ हजाराँ माइल दूर जाकर निवास करनेवाले मेरे हिन्दु और मुसलमान् भाई किस प्रकारसे, किस रीति और नीतिसे, किस वेपभूषा और किस विचारसे अपना कालनिर्गमन करते हैं, इसका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करना। इसके साथ ही यह भी एक उद्देश्य तो था ही कि वहाँ के हिन्दु भाइयोंमें थोड़ी सी सच्ची धार्मिक जागृति पैदा करनी। धार्मिक जागृतिसे मेरा तात्पर्य यह कभी नहीं समझना चाहिये कि शैव-वैष्णवोंका कलह अथवा हिन्दु-मुसलमानोंमें अन्तर-वृद्धि। मेरे शब्दकोषमें धर्मशब्दके यह अतिगौण अर्थ हैं। धर्म शब्दका मुख्य अर्थ—जिसे मैं समझता और मानता हूँ—सत्य और सदाचार है। निरपेक्ष सत्य तो केवल ब्रह्म ही माना गया है। तदतिरिक्त सभी सत्य सापेक्ष हैं। ब्रह्मरूप निरपेक्ष सत्य करोड़ों और अरबों मनुष्योंमेंसे एक दोकेलिये ही उपादेय है। परन्तु सापेक्ष सत्य करोड़ोंमेंसे करोड़ोंकेलिये और अरबोंमेंसे अरबोंकेलिये आवश्यक और उपादेय वस्तु है। सदाचार उसी सत्यका एक अङ्ग है। तो भी उसकी पृथक् गणना होनी ही चाहिये। धर्मका पुत्र मैत्र यदि यह कहे कि मेरी माँ धर्मकी पत्नी है, अथवा यह अपनी माको धर्ममाया कहकर संबोधन करे तो इसमें असत्य कुछ भी नहीं है; शत प्रतिशत सत्य ही है। परन्तु यह व्यवहार सदाचार नहीं है। इसी अन्वयमें धर्म और सदाचाररूप धर्ममें जागृति पैदा करना चाहता

या ! इस जागतिकेलिये घन अथवा स्वार्थसे निरपेक्ष प्रचारककी आवश्यकता है। मैं अपनेको ऐसा ही प्रचारक मानता हूँ। मैंने उस देशमें अपनी योग्यता और अपनी शक्तिका अपने हिन्दूभाइयोंके लिये यथावसर उपयोग किया। कितने ही शहरोंमें तो हिन्दुओंके अतिरिक्त मुसलमान और जैन आदि भाइयोंने भी मेरे विचारोंसे पूर्णतया लाभ उठाया, ऐसा मैं जान सका हूँ।

पूर्व आफ्रिकासे ही मुझे यूरोपकी यात्रामें जाना था। सब निश्चित था। परन्तु समय-सयोग सब निश्चयोंको बदल देता है। मेरे निश्चयमें भी परिवर्तन हुआ। उसका एक बहुत बड़ा आरूपक कारण हुआ।

मैं गं० स्व० श्रीसतोष चहिन जोषी और उनके माई थी० एम० डी० जोषी B. A. के आमन्त्रण और आमहसे हो पूर्ण आफ्रिकाकी यात्राके-लिये निकला था। मेरा केन्द्र भी मोम्बासामें उन्हींके वहाँ था। वहाँ ही मुझे एक श्रीमान् श्रीबानजी भाई मेघजी नामक सज्जन मिले। उनकी छुट्टा माता श्रीमोतीबाईजीके दर्शन भी मुझे वहाँ ही हुए। आप दोनोंकी उदारतासे ही मैं ईस्ट आफ्रिकाके अतिदूर विभिन्न प्रान्तोंमें धर्मप्रचारार्थ भ्रमणकर सका। मैं अब समुद्रतटीय यात्रा पूरी करके मोम्बासा आया और कम्पाला, जिजा, नीला (नाइल) नदी आदिकी ओर जानेवाला था उससे पूर्व ही मोम्बासाके प्रतिष्ठित और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीयुत पी० डी० मास्टर साहेबने भारतपारिजात पद लिया था। वह एक विद्याप्रेमी सज्जन हैं। उनके घरमें उनका अपना एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है जिसमें कई हजार अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी के पुस्तक हैं। भारतपारिजात पदनेके पश्चात् उनकी इच्छा हुई कि यह अप्राप्य ग्रन्थ पुनः

मुद्रित हो और यह अधूरा ग्रन्थ पूरा भी हो। उन्होंने अपनी यह इच्छा तबतक किसीके समक्ष प्रदर्शित नहीं की जबतक उन्हें कोई दानवीर नहीं मिला। एक दिन उन्होंने वहाँके परम उदार, अतिशय सुशील, भक्त-हृदय, लक्ष्मीके कृपापान उपयुक्त श्रीमान् कानजी भाई मेघजीसे इस ग्रन्थ के प्रकाशन और परिपूर्णताकेलिए सफल विचार किया। श्री० कानजी-भाईने अपनी पूज्य मातुश्रीकी आज्ञा लेकर इस ग्रन्थको सम्पूर्ण कराकर प्रकाशनकेलिये श्रीमास्टरजीको अनुमति दे दी। उस दिन श्रीमास्टर-साहेब जिस प्रसन्न वदनसे मेरे पास आये थे, वह आज भी मेरे स्मृतिपटपर अङ्कित है। इस ग्रन्थकी परिपूर्णता और प्रकाशन दोनों ही उनकेलिये महान् उत्सव था। श्रीकानजीभाई और श्री० बाथी दोनों ही मेरे पास प्रतिदिन प्रातःकाल ८ बजे आया करते थे। दूसरे दिन यह इतने शान्त थे कि उनकी प्रसन्नता उनकी उदारता और गंभीरता में छिपी हुई पड़ी थी। यही तो दानीकी महत्ता है। बाथीने भी कुछ नहीं कहा। जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्रीमास्टरसाहबने मुझे कहा था कि श्रीकानजीभाईने कहा है कि यह बात मैं न जान सकूँ कि इतने बड़े धनराशिका निस्स्वार्थभावसे निरभिमान होकर अर्पण करनेवाले कौन भाग्यशाली बन्धु हैं।

इस ग्रन्थमेंसे किसी हस्तक आय होनेकी सम्भावना तो की गयी है। इस ग्रन्थके तीन भाग हैं। प्रत्येक भागकी दो दो सहस्र प्रतियाँ छापी गयी हैं। कुल ६ सहस्र प्रतियाँ मुद्रित हुई हैं। तीनों भागोंकी एक एक सहस्र प्रति योग्य विद्वानों और स्वदेश-विदेशके ग्रन्थालयों, विरनविद्यालयों और विद्यालयोंको अमूल्य दौट दी जायेंगी। अवशिष्ट

तीन सहस्र प्रतिशे विक्रयसे धन प्राप्त होगा, उसकेलिये एक कमेटी लगभग नियुक्त हो चुकी है। उस धनपर उस कमेटीका नियन्त्रण रहेगा और समयपर योग्य लेखकों द्वारा किसी भी आवश्यक भाषामें ग्रन्थ या ट्रैक्ट लिखाकर तथा उसी निधिद्वारा उसे प्रकाशित कराकर श्रीमहात्माजीके सिद्धान्तोंका वहाँ ही प्रचार किया जायगा। एक सहस्रद्वय योग्य दाताके दानका इससे अच्छा दूसरा उपयोग नहीं हो सकता।

सात्त्विक दानिवीर श्रीफानजी भाई तथा इस पवित्र दानकेलिये आशाप्रदान करनेवाली उनकी और हमारी सबकी श्रेष्ठ माताजी ग० स्व० श्रीमती मोतीबाई तथा उनके बड़े भाई श्रीरामजी भाईको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी उदार सहायतासे इस महँगीके समय यह ग्रन्थ इस सजघजके साथ प्रकाशित हो सका है।

एव, श्री० पी० डी० मास्टरसाहेबके श्रद्धा भक्ति-पूर्ण उस मनको धन्यवाद देता हूँ जिसने उन्हें इस कार्यकी लगनसे विह्वल बना रखा था।

अहमदाबाद
१५-४-५१ ई०

}

शुभचिन्तक
स्वामी भगवदाचार्य

भारतपारिजातस्य सर्गक्रमेण विषयसूची

प्रथमे सर्गे

मङ्गलाचरणम् । भारतवर्षस्य वर्णनम् । काटियावाडप्रदेशस्य (सोराष्ट्रस्य) वर्णनम् । तत्र सुदामापुरीतिनाम्नो हेतु द्योतयितुं सुदाम्नः कथा । श्रीगण्धिमहात्मनः पितामहस्य पित्रोश्च वर्णनम् । श्रीमत्या पुत्तल्या रात्रौ दृष्टायाश्चमत्कृतेर्वर्णनम् । भगवद्वाणी । भगवतोऽन्तर्धानम् ।

द्वितीयस्मिन्सर्गे

श्रीमहात्मनो गर्भवासः । गर्भमासवर्णनम् । गर्भस्य देवकृतगर्भ-रक्षणस्य च वर्णनम् । श्रीपुत्तल्याः समुद्रतटे गमनं समुद्रकृतश्च तस्याः सत्कारः । माघादिकार्तिकान्तमासवर्णनम् । अवतारवर्णनम् ।

तृतीयस्मिन्सर्गे

श्रीमोहनस्य नामकरणसत्कारः । यज्ञोपवीतसत्कारः । विद्यारम्भ-सत्कारः । श्रीकर्मचन्द्रस्य पौरचन्द्रं परित्यज्य राजकोटगमनं तत्रैव श्रीमोहनदासस्याध्ययनम् । शैशवम् । बालविवाहो दाम्पत्यं च । स्कूल-जीवनम् । धूमवर्ति (बीडी) पानं तत्परिणामश्च । अङ्ग्रेजान्भारता-द्विष्टकृतुं बलासये मासभक्षणम् । संस्कृताध्ययनम् । मैट्रिकयुलेशनपरीक्षो-त्तीर्णता । लन्दनगमनम् ।

चतुर्थे सर्गे

श्रीमोहनस्य लन्दननिवासः । बैरिष्टरत्वप्राप्तिः । लन्दनाद्दम्बय्याम् । राजकोटनिवासः । बम्बयीगमनम् । पुना राजकोटगमनम् । मेराण्ड सेवा । दक्षिणाफ्रिकागमनम् ।

पञ्चमे सर्गे

श्रीमोहनस्य नातालगमनम् । तत्र भारतीयानामपमानकल्पना । तत्र धूमयानविश्रामकेन्द्रे (स्टेशने) स्वागतम् । तत्र न्यायालये श्रीमहा-

त्मन उष्णीषम् । नातालतः प्रिटोरियागमनम् । भारीत्सवर्गं तस्यापमानः ।
 चास्संयतनाद् जोहानिसवर्गगमनम् । अधिमार्गं तस्याग्नेजैः कृत ताडनम् ।
 स्पष्टदंते भारतीयैः सह सम्मेलनम् । जर्मोष्टने विप्रम् । यस्याभियोगस्य
 कृते महात्मा मोहनः प्रिटोरिया गतस्तस्य समाप्तिः । पुनर्नाताल आगमनम् ।
 भारत प्रत्यागन्तु सजा । मानसभा । फार्थक्रमे परिवर्तनम् । भारतमागन्तुं
 प्रयाणम् । भारत आगमनम् ।

षष्ठे सर्गे

अहमदाबादे सत्याग्रहाश्रमप्रतिष्ठा तस्याश्रमस्य च नियमाः ।
 आश्रमेऽन्यज्ञप्रवेशस्तद्विपयिणी चिन्ता च । त्रयोदशसहसराजतमुद्राणा
 गुप्तदानावाप्तिः । अन्यजानामाश्वासनम् । भारतोद्धारचिन्तापरीतात्मनो
 महात्मनस्तस्याश्रमे निवासः ।

सप्तमे सर्गे

धम्पारनसत्याग्रहः । तत्र विजयः । अहमदाबादं प्रत्यागमनम् ।

अष्टमे सर्गे

खेडासत्याग्रहः । तत्र विजयः । अहमदाबादं प्रत्यागमनम् ।

नवमे सर्गे

श्रीमहात्मनि रोगान्कान्तिः । राउलेट्बिलम् । महात्मनश्चिन्ता ।
 राउलेट्बिलेन सह युद्धोद्यमः प्रतिज्ञापत्रं च । प्रतिज्ञापत्रस्य समाचारपत्रेषु
 प्रकाशनम् । अमनिवारणार्थमेकं वक्तव्यपत्रम् । राउलेट्बिलस्य ऐक्यरूपेण
 परिवर्तनं तस्य विरोधश्च । १९१९ तमे वीशवीयसवत्सरे एप्रिलमासस्य पष्ठ्या
 तियौ समस्ते भारते सर्वेषां भारतीयानामुपवासः । पञ्जावेऽशान्तिः । पञ्जावे
 सैनिकशासनम् (मार्शल लॉ) । जलियानवालेत्याख्य उद्यानेऽत्याचारः । अन्ये-
 ऽत्याचाराः । लखपुरम् (लाहोर) । पञ्जाबं प्रविशतो महात्मनो निरोधस्तस्य
 च प्रभावः । लखपुरेऽन्याया अत्याचाराश्च । गुजरानवालानगरेऽत्याचाराः ।
 पण्डितमोतीलालस्य प्रभावेण कसूरनगरे जनानां प्राणदण्डनिरोधः । श्रीमहा-
 त्मनश्चिन्ता ।

दशमे सर्गे

पञ्चमजार्जाय महात्मना प्रेषितः सन्देशः । पञ्चमजार्जस्यौ-
दासीन्यम् । असहयोगघोषणा । नेतृणा निरोधो दण्डश्च । श्रीमहात्मनः
श्रीशङ्करलालवैङ्करस्य च निरोधः । अहमदावादे शाहीवागे विशिष्टन्याया-
लयेऽभियोगारम्भः । न्यायालये महात्मनो मौक्तिकं निवेदनम् । तत्रैव
लिखितं निवेदनम् । तत्र न्यायाधीशस्य निर्णयः । न्यायाधीशकृता महात्मनः
स्तुतिः । श्रीशङ्करलालवैङ्करस्यापि कारादिदण्डः । प्रजाभिः कृता महात्मनः
स्तुतिः ।

एकादशे सर्गे

यरोडाकारातो महात्मनो मुक्तिः । सत्याग्रहाश्रमे तस्य निवासः ।
लवपुरे महासभा । पूर्णस्वराज्यस्य तत्र घोषणा । सम्मतिस्तत्र महात्मनोऽपि ।
अंग्रेजशासनेन सहान्तिमयुद्धविषयकः सत्याग्रहाश्रमे मन्त्रः । वाइसराय-
सधिषे पात्रप्रेषणस्य विचारः । महात्मनस्तत्पत्रं यद्वाइसरायधिषे श्रीरेजि-
नाल्ड रेनोल्ड्जः प्रापयत् ।

द्वादशे सर्गे

रासग्रामे श्रीवल्लभभाईनिरोधः । दांडीयात्राया घोषणा । घोषणामा-
कर्ष्य तस्यां रात्री स्त्रीपुंसानामहमदावादात् आश्रम आगमनम् । महात्म-
विषयिणी प्रजाकृता चिन्ता । आश्रमे सायङ्काले महात्मनः प्रवचनम् ।
व्याख्यानभूमेर्महात्मनो गमनं जनानां तत्रैतारात्रि निवासश्च ।

त्रयोदशे सर्गे

प्रातःकाले जनेषु निन्ताव्याप्तिः । सैनिकेभ्यो महात्मना कृत उर-
देशः । सैनिकैः सह महात्मन आश्रमन्महाभिनिष्क्रमणम् । महिलाभिः
कृता तस्य पूजा । पुष्पवृष्टिः । एलिसब्रिजे द्वारनिर्माणं साक्षात्तच ।
पण्टोत्तमरोदरं प्राप्य परस्यहस्तेभ्यो धनेभ्यस्तत्कृत उरदेशः । ततो
गमनम् । असत्यस्वीकारः ।

चतुर्दशे सर्गे

असलालीग्रामे महात्मनः स्वागतम् । प्रवचनम् ।

पञ्चदशे सर्गे

असलालीतः प्रयागम् । मार्गेषु स्वागतम् । वारेजग्रामे नित्यकर्मो-
पासनमुपदेशश्च । नवागावः, चासणा, मातरः, डभागः, नडियादक्ष ।
नडियादे सन्तराममन्दिरे निवासः । देसाईश्रीमहादेवस्य श्रीदत्तानेय-
कालेकरस्य च तत्रागमनम् । महात्मनो भाषणम् । विश्रमः ।
सैनिकेभ्यो नियतरूपेण सूत्रनिर्माणस्यानुशासनम् । नडियादतः प्रयागम् ।
बोरियादी व्यागन्दश्च । व्यागन्दे प्रवचनम् । तदनन्तरं विश्रमाय
शिविरे गमनम् ।

षोडशे सर्गे

व्यागन्दतो नापागमनम् । ततो बोरसदगमनम् । बोरसदे
प्रवचनम् ।

सप्तदशे सर्गे

बोरसदात्प्रयाणम् । जनतादर्शनम् । रासग्रामप्राप्तिर्भोजनादिकाः
क्रियाश्च । रासग्रामे भाषणम् ।

अष्टादशे सर्गे

कङ्कापुरम् । कारेली । गजेरा । पुराणिश्रीछोटालालेन सह
महात्मनो वार्ताल्पः । प्रार्थना भाषणं च । जम्बूसर प्रति प्रयाणम् ।
तत्र स्वागतम् । नेहरूश्रीपण्डितमोतीलालस्य तत्रागमनम् । नेहरूपण्डि-
तश्रीबवाहिरलालस्याप्यागमनम् । आन्ध्रदेशान्गुम्भव्याश्च कतिपयाना
नेतृगामागमनम् । महात्मनो भाषणम् । श्रीखुर्रैदमहोदयायाः कुमार्याः
श्रीमृदुलायाश्च युद्धे स्त्रीणा निवेशान समागताना पत्राणां समाया-
मुल्लेखः । पण्डितमोतीलालस्य तत्पुत्रस्य पण्डितबवाहिरलालस्य च
स्वाख्यानम् । समाभवनाद्यत्यागमनम् ।

एफोनविशे सर्गे

बन्धुसरादानोदः । व्याख्यानम् । समनी तत्रोरदेशश्च ।
 प्रालया तत्रोरदेशश्च । देरोलम् । भरुचनगर भागमनं तत्र स्वागतं
 समा च । अद्दलेश्वरं गन्तुं नीमिः भीनमंदां तरीतुं नर्मदातटगमनम् ।
 तदानीन्तनदृश्यगमनम् । भीनमंदांछिरागच्छन्तं महात्मानमवलोक्य ।
 भीनमंदां दृष्ट्वा महात्मन उचिः । नमनं नामंदबलस्पर्शश्च । नीयर्गनम् ।
 श्रीमदन्नासतोम्यबजीमहोदयेन भीमत्या नायद्वगरोबिनीदेव्या च सह नावा-
 रोहगम्महात्मनः । नीप्रस्थानम् । नर्मदागारं गत्वा महाजनसम्मर्देऽदृश्यी-
 भयति महात्मनि भरुचवाशिनीं नगरं प्रत्यागमनम् ।

विशे सर्गे

अद्दलेश्वर भागमनं तत्रोरदेशश्च । सद्दोटं, मागरोलं, रायमा,
 ठवराठी, शाहोलं, भटगायः । भटगाये महात्मनो हृदयविद्रावर्कं प्रवचनम् ।
 देलाटं तत्र प्रवचनम् । छापराभाटा । तापीमुष्ठीयं सुरतागमनम् । तत्र
 सभायां गमनं प्रवचनं च । टौडोली, बासं, जलालपुरं, नवसारी । नवसायो
 प्रवचनम् । धामिट्टूदेव्याः काशांग प्रशंसनम् । नवसारीतः प्रयागम् ।
 पेयाग कराडी च । महात्मनः ऐनिकानां नामनिर्देशः । दर्शनं स्वागतं
 रात्री तथैव निरासश्च ।

एफविशे सर्गे

दाडीप्रयागम् । समुद्रवर्णनम् । दाण्डयो प्रवचनम् । छत्रगानुशासन-
 मद्गः । समस्ते भारते लवगानुशासनमद्गः । दाण्डीतः पुनः कराड्याम् ।
 छारवाडा तत्र मापगम् । श्रीदेसाईमहादेवस्य निग्रहः । कराचीस्यस्य
 श्रीजयरामदासस्यांप्रेजटताहनचर्चा । युद्धं क्षमयितुमंप्रेजानां प्रयत्नः
 कराडीतः श्रीमहात्मनो वाइसरायं प्रति प्रेषयितुं पत्रलेखः । तस्यामेव रात्री
 महात्मनो निग्रहः ।

द्वार्षिंशे सर्गे

महात्मनः पदे श्रीमदन्नासत्री । धरतण्यायां युद्धाय युद्धसमिते रचना ।

धरासगाया युद्धाय श्रीमदम्बासस्य प्रयाणम् । महात्मना लिखितस्य पत्रस्य
वाइसरायसविधे प्रापणम् । कराड्यामग्नेजरीनिजानामागमनमम्बासमहोदयं
प्रति सेनामद्गादेशश्च । श्रीमदम्बासकृतमनुशासनोल्लङ्घनं तस्य तत्सेनायाश्च
निग्रहश्च । श्रीकस्तूराम्बाकृतमम्बासपूजनं विसृष्टिश्च । श्रीमती सरोजिनीनायडू
सैनापत्ये । धरासगाया युद्धारम्भः । लीडरज्जुमिल्वगभूमि परितोऽङ्ग्रेजैः
कृतः परिवेषः । श्रीसरोजिनीदेव्या युद्धम् । उष्णतोऽन्तपति सूर्ये निरा-
वृतप्रदेशे आतपे देव्या उपवेशनम् । अग्नेजैर्यष्टिप्रहारा देव्याः सैनिकेषु
कृताः । श्रीसरोजिनीदेव्या निग्रहः । सैनापत्ये इमामसाहिधः । तस्य
निग्रहः । श्रीमतः प्यारेलालस्य निग्रहः । युद्धम् । गाधीश्रीमणिलालस्य
निग्रहः । श्रीमतो नरहरिपरिस्वस्य युद्धम् । स ताडितो मूर्च्छितः । शिबिरे
तदानयनम् । युद्धम् । नत्र सत्याग्रहशिबिरेऽङ्ग्रेजैः कृतं लुण्ठनम् ।
श्रीनरहरिपरिस्वस्य निग्रहः । तन्कृता घोषणा । न्यायालये तस्योक्तिः । सत्या-
ग्रहशिबिरः श्रीमदम्बालालपटेलस्याधिकारे । तस्य श्रीत्रिभुवनदासस्य च
निग्रहः । सत्याग्रहशिबिरे पुनरङ्ग्रेजसैनिकानामाक्रमणम् । तत्कृत शिबिर-
लुण्ठनम् । त्रिभीषण युद्धम् । आगमनेन वर्षतोऽयुद्धस्थगनम् । भूमिकरा-
प्रदानयुद्धम् । श्रीमहात्मनो विजयः । तेन सह वाइसरायकृतः सन्धिः ।
सर्वेषा महात्मनः सैनिकाना मुक्तिः । लन्दने राउन्डटेबलकान्फेन्से गन्तुं
महात्मनो यात्रा ।

त्रयोविंशो सर्गो

तत्र गोलपरिषदि तस्य प्रवचनम् । भारत आगमनम् । पण्डित-
जवाहरलालान्दुल्हाफूपारखांश्रीशिवानीप्रभृतीना निग्रहसमाचारप्राप्तिः ।
मुम्बय्या व्याख्यानम् । मुम्बापुरीतः वाइसरायं प्रति पत्रप्रेषणम् । तेन
वाइसरायस्य क्रोधोत्पत्तिः । मुम्बापुर्या रात्रौ मणिभुवनतो महात्मनोऽप-
हरणम् ।

चतुर्विंशो सर्गो

यरोडाकारागारे महात्मनो निवासः । अन्त्यजाना पृथङ्निर्वाचनसमा-
चारेणामरणान्तमुपवासघोषणा । तामाकर्ष्य भारतीयनेतृणा सर्वासु दिक्षु

प्रयासः । उपवासदिक्सेषु कारागारे एव निवासस्य महात्मनोऽभिलाषः । सात्ररमत्या सत्याग्रहाश्रमाय महात्मनः पत्रम् । श्रीबानकीदेव्यै महात्मनः पत्रम् । विलियशरस्य पत्र महात्मकृतं तदुत्तर च । शतारम्भे महात्मनः काचिदुक्तिव्रतारम्भश्च । तदानीं तत्र तद्दर्शनार्थं नेतृणामागमनम् । महात्मनो विजयः । श्रीकस्तूराम्नाकरकमलदत्तस्सपानपूर्वकं महात्मकृतः व्रतविसर्गः । महात्मनः कारातो मुक्तिः । पुण्यपत्तने (पूनाया) पर्णकुटीरे निवासः ।

पञ्चविंशो सर्ग

पुना राजाशमङ्गः । पुनर्निरोधः । अन्यजसेवार्थमाज्ञापार्थनं शासनकृतस्तदनङ्गीकारस्तदर्थं पुनरुपवासश्च । पुनर्मुक्तिः । पुनः पर्णकुटीरे पुण्यपत्तने । सात्ररमत्या सत्याग्रहाश्रमस्य महात्मकृत विसर्जनम् । रासग्रामे सत्याग्रहाय तस्य प्रयाण निग्रहश्च । मुक्तिः । महत्तप आदत्तं तस्याग्रहः । स्वसचिवमण्डलेन परामर्शः । श्रीवजाज-यमुनालालकृत श्रीमहात्मानयन वर्धानगरे । शैवावकुटीरः । ऋतुवर्णनम् । तप फलम् । महासभायाः धारासभासु शासनप्राप्तिः ।



भारतपारिजातके सर्गोंकी विषयसूची

प्रथम (१) सर्ग

मङ्गलाचरण । भारतवर्षका वर्णन । काठियावाड़का वर्णन । “सुदामापुरी” इस नामका कारण बतानेकेलिये सुदामाब्राह्मणकी कथा । श्रीमहात्माजीके पितामह, पिता और माताका वर्णन । श्रीमती पुतलीबाईने रात्रिमें जिस चमत्कारको देखा था, उसका वर्णन । भगवद्वाणी । भगवान्का अन्तर्धान होना ।

द्वितीय (२) सर्ग

श्रीमहात्माजीका गर्भवास । गर्भवासका वर्णन । गर्भ और देवकृत-गर्भरक्षाका वर्णन । श्रीपुतली बाईका समुद्रतटपर जाना और समुद्रकृत सत्कार । माघमासका वर्णन । फाल्गुन मास । चैत्र । वैशाख । ज्येष्ठ । आषाढ़ । श्रावण । भाद्रपद । आश्विन । कार्तिक । अवतार वर्णन ।

तृतीय (३) सर्ग

नामकरण । यज्ञोपवीत । विद्यारम्भ । श्रीकर्मचन्द्रगाधीका पोरबन्दर छोड़कर राजकोट जाना और वहाँ ही महात्माजीका अध्ययन । बाल-बीचन । बालविवाह और दाम्पत्य । स्कूलजीवन । बीड़ी पीना और उसका परिणाम । अंग्रेजोंको देशसे निकालनेकी भावनासे बलप्राप्तिके लिये मांसभक्षण । सस्कृताध्ययन और मैट्रिकपरीक्षाका पास करना । विलायत यात्रा ।

चतुर्थ (४) सर्ग

लन्दननिवास । बैरिष्टर बनना । लन्दनसे बम्बई । राजकोट निवास । बम्बई-गमन । पुनः राजकोट । मेर जातिकी सेवा । दक्षिण अफ्रिकागमन ।

पञ्चम (५) सर्ग

श्रीमहात्माजी नाताल आये । वहाँ भारतवासियोंके अपमानकी कल्पना । स्टेशनपर स्वागत । कचहरीमें श्रीमहात्माजीकी पगड़ी । नातालसे प्रिटोरिया गमन । मारीत्सवर्गमें अपमान । चार्ल्सटाउनसे जोहानिसवर्ग गमन । मार्गमें अंग्रेजोंने महात्माजीको मारा । स्टण्डर्टनमें भारतीयोंसे मिलाप । जर्माटनमें विधन । जिस मुकदमेकेलिये महात्माजी प्रिटोरिया गये थे उसकी समाप्ति । पुनः नातालमें आना । हिन्दुस्तानमें लीटनेकी तैयारी । मान-सभा । कार्यक्रमका परिवर्तन । हिन्दुस्तानकेलिये प्रयाण । हिन्दुस्तान पहुँचना ।

षष्ठ (६) सर्ग

अहमदाबादमें सत्याग्रह आश्रमका स्थापन और उसके नियम । आश्रममें अन्त्यजप्रवेश और उसकी चिन्ता । १३००० रुपयोंका गुप्तदान महात्माजीको प्राप्त हुआ । अन्त्यजोंको आश्वासन । भारतोद्धारचिन्ताके साथ आश्रममें निवास ।

सप्तम (७) सर्ग

चम्पारन सत्याग्रह । विजय । अहमदाबादमें आगमन ।

अष्टम (८) सर्ग

खेडा सत्याग्रह । विजय । अहमदाबादमें आगमन ।

नवम (९) सर्ग

श्रीमहात्माजीकी बीमारी । राउलेट् ऐक्ट । श्रीमहात्माजीकी चिन्ता । राउलेट् ऐक्टके साथ लड़नेकी तैयारी और प्रतिज्ञापत्र । उक्त प्रतिज्ञापत्रके समाचारका पत्रोंमें प्रकाशन । भ्रमनिवारणार्थ श्रीमहात्माजीका एक वक्तव्य जो उक्त प्रतिज्ञापत्रके साथ पत्रोंमें छपा था । राउलेट् ऐक्टका बनना और उसका विरोध । ६ एप्रिल १९१९ का उद्घाटन । पञ्जाबमें अशान्ति

पंजाबमें फौजी कानून । जलियानवाला बाग । दूसरे अत्याचार । लाहौर । श्रीमहात्माजीकी, पञ्जाबमें प्रवेश करते समय गिरिफ्तारीका पञ्जाबमें प्रभाव । लाहौरमें अन्याय और अत्याचार । गुजरानवालामें अत्याचार । कसूरमें अत्याचार । पण्डित मोतीलाल नेहरूके प्रभावसे कसूरमें फौजीका हुकम रद्द । श्रीमहात्माजीकी चिन्ता ।

दशम (१०) सर्ग

महात्माजीका पञ्चमजार्जको सन्देश । पञ्चमजार्जकी उदासीनता । महात्माजीकी असहयोगकी घोषणा । नेताओंकी गिरिफ्तारी और सजाएँ । श्रीमहात्माजी और श्रीशंकरलाल बैँकरकी गिरिफ्तारी । शाहीबाग (अहमदाबाद) की स्पेशलकोर्टमें महात्माजीका अभियोग । अभियुक्त होनेके बाद महात्माजीका मौखिक निवेदन (कोर्टमें) । श्रीमहात्माजीका लिखित निवेदन (कोर्टमें) । जजका फैसला । सजा । जजकृत श्रीमहात्माजीकी स्तुति । श्रीशंकरलाल बैँकरको भी सजा । प्रजाकृत श्रीमहात्माजीकी स्तुति ।

एकादश (११) सर्ग

यरोडा जेलमेंसे श्रीमहात्माजीका छुटकारा । सत्याग्रह आश्रममें श्रीमहात्माजीका निवास । लाहौरमें महासभा । पूर्ण स्वराज्यकी घोषणा । श्रीमहात्माजीकी सम्मति । सत्याग्रह आश्रममें सरकारके साथ नियमित और अन्तिम युद्धकी मन्त्रणा । बाइसरायके पास पत्र भेजनेका विचार । श्रीमहात्माजीका वह पत्र जो वाइसरायके पास श्रीरेजिनल्ड रेनोल्ड्जके द्वारा भेजा गया था ।

द्वादश (१२) सर्ग

श्रीवल्लभभाईजीकी रासमें गिरिफ्तारी । दाडीयात्राकी घोषणा । घोषणा सुनकर उस रात्रिमें लंगोका आश्रममें आगमन । लोगोंकी श्रीमहात्माजीकेलिये चिन्ता । आश्रममें श्रीमहात्माजीका सायङ्कालमें

भाषण । व्याख्यानभूमिसे श्रीमहात्माजीका जानी और लोगोका रात्रिभर आश्रममें निवास ।

त्रयोदश (१३) सर्ग

प्रातःकाल । लोगोकी चित्ता और कलकल शब्दका सुनना । सैनिकोको उपदेश । श्रीमहात्माजीका आश्रमसे निकलना । बहिनोंने उनका पूजन किया । पुष्पवृष्टि । एलिसत्रिजपर दरवाजाका बनाना और सत्कार । घण्टोला तालाबसे हजारों आदमियोंको महात्माजीका उपदेश और विदाई । असलाभी गाँव ।

'चतुर्दश (१४) सर्ग

श्रीमहात्माजीका स्वागत । महात्माजीका भाषण ।

पञ्चदश (१५) सर्ग

असलालीसे प्रयाण । रास्तेमें स्वागत । वारेजमें नित्यकर्म और उपदेश । नवागाँव, वासणा, मातर, डमाण और नडियाद । नडियादमें श्रीसन्तरामजीके मन्दिरमें निवास । महादेवभाई और श्रीकाना कालेलकर आदिका वहाँ आगमन । महात्माजीका भाषण । विश्राम । सैनिकोको नियमित सूत कातनेकी आशा । नडियादसे प्रयाण । घोरियावी । आणन्द । आणन्दमें भाषण । महात्माजीका विश्रामकेलिये वासभूमि-शिविरमें जाना ।

षोडश (१६) सर्ग

आणन्दसे नापा और घोरसद । घोरसदमें भाषण और प्रयाण ।

सप्तदश (१७) सर्ग

घोरसदसे विदाई । जनतादर्शन । भोजनादि । रासमें भाषण ।

अष्टादश (१८) सर्ग

कङ्गापुर, कारेली, गजेरा । पुराणी श्रीछोटालालसे बातचीत । प्रार्थना । भाषण । जम्बूसरकेलिये प्रयाण । महात्माजीका जम्बूसरमें स्वागत ।

श्रीपण्डित मोतीलाल नेहरूका आगमन । श्रीपण्डित जवाहिरलाल नेहरूका आगमन । आन्ध्रदेश और चम्पईसे कुछ नेताओंका आगमन । जम्बूसरमें श्रीमहात्माजीका भाषण । खुशंदबहिन आर श्रीमृदुलाबहिनके, लड़ाईमें छियोंको शामिल करनेकेलिये, आये हुए पत्रका समामे उल्लेख । सभाके आग्रहसे पण्डित मोतीलालजीका भाषण । पण्डित जवाहिरलालजीका भाषण । श्रीमहात्माजीका सभाभवनसे लौट आना ।

एकोनविंश (१९) सर्ग

जम्बूसरसे आमोद । आमोदमें भाषण । समनी । समनीमें उपदेश । बालसा । बालसामें उपदेश । देरोल । भरुच । भरुचमें स्वागत । भरुचमें सभा । अङ्गलेश्वर जानेकेलिये नौकाद्वारा श्रीनर्मदानदीको पार करनेकी इच्छासे नर्मदा जाते सभयका वर्णन । महात्माजीको आते हुए दूरसे ही देखकर नर्मदोक्ति । नर्मदाको देखकर श्रीमहात्माजीकी उक्ति । नमन । नर्मदाके जलका स्पर्श । नौकाओंका वर्णन । श्रीमहात्माजीका श्रीअम्बास तैयबजी और श्रीसरोजिनी नायडूके साथ नौकारोहण । नौकाका चलना । उस पार पहुँचकर भीड़में श्रीमहात्माजीके अदृश्य हो जानेपर भरुच निवासियोंका पीछे लौटना ।

विंश (२०) सर्ग

अङ्गलेश्वरमें पहुँचना । अङ्गलेश्वरमें उपदेश । अङ्गलेश्वरसे चलकर सजोड पहुँचना । मागरोल, रायमा, उपराछी, शाहोल, भटगॉव । भटगॉवमें दुःखित हृदयसे भाषण । देलाड । श्रीखुशंदबहिन, श्रीमृदुलाबहिनने देलाडकी सफाई की । देलाडमें भाषण । छापराभाटा । तापी नदीको पार करके सूरत पहुँचना । वहाँकी सभामे जाना । सूरतमें भाषण । डींडोली, बाँस, जलालपुर, नवसारी । नवसारीमें महात्माजीका भाषण । श्री मिट्टूबाहिनके कार्योंकी प्रशंसा । नवसारीसे प्रयाण । प्रयाण । कराडो । श्रीमहात्माजीके सैनिकोंकी नामावली । लोगोंने श्रीमहात्माजीका दर्शन किया । स्वागत । रात्रिमें कराडोमें ही निवास ।

एकविंश (२१) सर्ग

टाहीकेलिये प्रयाग । लोगोकी भीडमें भीमदा माजी चले जा रहे हैं । समुद्रका वर्णन । समुद्र दर्शन । टाहीमें भाग । श्रीमहात्माजी नमक पानून भद्र करते हैं । श्रीमहात्माजीके मैनिवोंने भी नमककानून तोड़ा । देशभरमें और टाहीमें रोज नमक-कानून भद्र । टाहीसे पुनः कराड़ी । छागवाला । छागवाडामें भाग । महादेवभाईकी गिरफ्तारीका जिक्र । जयरामदास (कराची) के मार पडनेकी चर्चा । युद्धके रोकनेका सकारी प्रयत्न । कराड़ीसे वाइसरायको महात्माजीका पत्र । उसी रात्रिमें श्रीमहात्माजीकी गिरफ्तारी ।

द्वाविंश (२२) सर्ग

श्रीमहात्माजीकी लडाईको श्रीअन्वासजी समालने लगे । घरासगाकी लडाईकेलिये युद्धसमितिका निर्माण । श्रीअन्वासजीको घरासगा युद्धकेलिये घोषणा । महात्माजीका लिगना हुआ पत्र वाइसरायके पास भेजना । कराड़ीमें अग्नेजी सिपाहियोंका आना । श्रीअन्वासजीको तितर बितर हो जानेकी आशा देना । उनका इनकार । उनकी और सभी सैनिकोंकी गिरफ्तारी । श्रीवस्तूरवाकृत अन्वासजीका पूजन और विदाई । श्रीसरोजिनी नायडूका सेनापतित्व । सकारी सिपाहियोंने नमकके ब्यारोको तारकी बाढ ल्या दी । श्रीसरोजिनी नायडूका युद्ध । धूपमें भूते और प्यासे युद्ध करना । सैनिकोंकी भर्ती । मारपीट । सेनापतिके पदपर इमाम साद्वेष । उनका पकडा जाना । श्रीप्यारेलालजीकी गिरफ्तारी । युद्ध । श्रीमणिलाल गाधीकी गिरफ्तारी । श्रीनरहरिभाईका युद्ध । मार खाकर वेहोश होना । शिबिरमें उनका ले जाया जाना । युद्ध । सत्याग्रह शिबिरमें सकारी लूट । श्रीनरहरिभाईकी गिरफ्तारी । उनकी घोषणा । फोर्में उनका बयान । सत्याग्रह शिबिर श्रीअम्बालाल पटेलके हाथमें । अम्बालाल और त्रिभुवनदासजीकी धरपकड । सत्याग्रह शिबिरपर पुनः सकारी धावा । शिबिरका लूटा जाना । भयङ्कर युद्ध । वर्षाऋतुके कारण युद्ध स्थगित ।

करव-दोकी लड़ाई। श्रीमहात्माजीका विजय। बाइसरायसे समझौता। सब कैदियोंकी रिहाई। राउन्डटेबल-कॉन्फ्रेंसकेलिये महात्माजीकी लन्दनयात्रा।

त्रयोविंश (२३) सर्ग

वहाँ काफ़्रेसमें भाषण। भारतमें आना। पं० जवाहिरलाल, श्रीअबुलगाफ़ारख़ाँ, शिरवानी आदिकी धरपकड़के सम्राचार। बम्बईमें भाषण। बाइसरायको बम्बईसे पत्र। पत्र पढ़कर बाइसरायका क्रोध। मणिभुवन (बम्बई) से रात्रिमें महात्माजीकी गिरिफ्तारी।

चतुर्विंश (२४) सर्ग

यरोडाजेलमें श्रीमहात्माजीका निवास। अन्यजोंके पृथक् निर्वाचनपर श्रीमहात्माजीकी, मरणान्त पवित्र उपवासकी घोषणा। इस घोषणापर भारतीयनेताओंके भिन्न भिन्न प्रयत्न। श्रीमहात्माजीका उपवासके दिनोंमें जेलमें ही रहनेकेलिये सर्कारसे आग्रह। सत्याग्रह आश्रम साबरमतीको महात्माजीका पत्र। श्रीजानकीबाईको महात्माजीका पत्र। विलियम् शररका पत्र और उनको महात्माजीका उत्तर। व्रतके प्रथम दिनमें महात्माजीका वक्तव्य और व्रतारम्भ। यरोडा जेलमें महात्माजीके अन्तिमदर्शनके लिये नेताओंकी मारी भीड़। महात्माजीका विजय। अकस्तरवाके हाथसे रसपान। सबका आनन्द। श्रीमहात्माजीकी मुक्ति। पर्णकुटीर पूनामें निवास।

पञ्चविंश (२५) सर्ग

पुनः राजाशाभङ्ग। पुनः गिरिफ्तारी। अन्यजोंकी सेवाकेलिये जेलमें आहा मोंगना और सर्कारी इन्कार। पुनः उपवास। पुनः छुटकारा। पुनः पर्णकुटीर (पूना)। सत्याग्रह आश्रमका भग्न करना। राठकेलिये प्रयाण। पकड़ा जाना। मुक्ति। तप-त्या करनेका महात्माजीका निश्चय। अपने कार्यसचिवमण्डलसे परामर्श। आबमनालालजी बजाजका आश्रममें आना और वहाँ श्रीमहात्माजीकी लै जाना। शेर्गॉवकी कुटिया। ऋतुदर्शन। तपत्याका फल। महासभाकी सत्ताकी प्राप्ति।

आभार

जिस समय मैं इस ग्रन्थके तीनों भागोंकी प्रकाशित करानेके लिये मोम्बासासे भारत-अहमदाबादकेलिये निकल रहा था, उस समय मोम्बासाके धर्म प्रेमी नागरिक व धुबोंने जिस उत्साहसे इजारोंकी सख्यामे “हिन्दू-युनियन” में उपस्थित होकर मुझे विदाई दी थी और श्रीमानजी भाईकी श्रीमाताजीने—जि हैं मैं भी और सारा मोम्बासाका हिन्दू समाज भी माताजी ही कहते हैं—जिस वात्सल्य और मातृ प्रेमसे मेरे गलेमें आशीर्वादात्मक पुष्पहार पहिनाया था उसका विचार करके मैं हैरान था कि मैं जिस कार्यके लिये भारत जा रहा हूँ वह कैसे पूर्ण होगा ? सन् १९४० के अन्तिम सत्याग्रह समाप्त तककी तो मेरे पास समी सामग्री उपस्थित थी, ग्रन्थ भी मैं लिख चुका था, वह प्रकाशित भी हो चुका था परन्तु तीसरे भाग की कोई भी सामग्री मेरे ग्रन्थालयमें नहीं थी। मेरी दृष्टि श्रीमान् किशोरलाल घ० मशरूवालाजी ओर गयी। मैंने उनसे इस विषयमें सहायता माँगी और उन्होंने तत्काल ही मुझे अमरु ग्रन्थोंकी सूचना दी। मैं मानता हूँ, लाखों करोड़ों विद्वान् ऐसा ही मानते होंगे कि श्रीमहात्माजीकी नवखली (नोवाखली) यात्रा उनके जीवनकी अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ सुवास थी। श्री महात्माजीने अपने समस्त जीवनमें अनेक आश्चर्यमय घटनाओंको जन्म दिया है। परन्तु मैं समझता हूँ कि दाढीकूच, सन् १९४२ का “भारत छोड़ो” सत्याग्रह और नोवाखला यात्रा, यह उनके अनेक कार्य मालाओंके मुमेरु हैं। इसीलिये मैंने “भारत पारिजात” में दाढी कूचको, पारिजातापहारमें “भारत छोड़ो” सत्याग्रहको और “पारिजात सौरभ” में नोवाखली यात्राको मुख्य स्थान दिया है। नोवाखलायात्राके समी प्रसङ्ग मुझे कहींसे प्राप्त होंगे, मेरे इस प्रश्नका उत्तर श्रीकिशोरलाल भाईजीने ही दिया कि इसके लिये महुवा

(सीराट्र) में श्रीकृमारी मनु गाधीजीके पास जाना चाहिये । राजकोट (सीराट्र) के श्रीपुरोत्तम भाई गाधीजीने श्रीमनु बहिनको सूचना दी कि मैं उनके पास जानेवाला हूँ । मैं महुवा पहुँचा । श्रीमनु बहिन गाधीको मिला । मैंने उनकी उस आलमारीको देखा जिसमें पू० बा और पू० बापूजीके अनेक सस्मरण भरे पडे थे । श्रद्धा और भक्तिकी साक्षात् मूर्ति मनु बहिनने हर एक वस्तुके ऊपरसे तुलसी और पुष्प हटा हटाकर मुझे दिखाना और उसका विवरण करना शुरु किया । यह कार्य बहुत बड़ा और बहुत पवित्र था । जगत्के एक महापुरुषका एक महान् जीवन उस आलमारीमें सनिहित है । उनकी चरणपादुका है । उनके चप्पल हैं जिनकी उन्होंने अपने हाथों मरम्मत की थी । उनकी टूटी फूटी, सड़ी-गली शालका एक बहुत पुराना, छोटा सा टुकडा है जिसे वह कभी शरीर टाँफनेको ओढ लेते थे, और जिसके मध्य भागमें उन्होंने अपने हाथों पैरन्द लगाया था । उनके हाथके कते हुए सूत हैं । उनकी दाढीके बाल भी थोडेसे वहाँ एक छोटी सी डब्बीमें सुरक्षित हैं । दो तीन कटे हुए मुर्दार नखके टुकडे भी पडे हैं । उनकी एकाध धोती है । एकाध रुमाल है । उनके कितने ही स्वाक्षरयुक्त पत्र हैं । श्रीबा की साडी है । और भी कितनी ही पवित्र वस्तुओके साथ-साथ श्रीबा की वह पवित्र दो चूडियों भी हैं जो चिताकी राखमेंसे ज्योंकी त्यों निकल आयी थीं । यह पाच थीं । तीन श्रीदेवदास भाई गाधीके सप्रहालयमें हैं । इन सब अलभ्य दर्शनीय वस्तुओंके दर्शनके बाद मैंने उनके मुखसे बापूके नोवाखलीके इतिवृत्त कुछ सुने, कुछ भावनगर समाचारमें प्रकाशित डायरीके पत्रोंमें पडे । आँख रो रो पडती थीं । हृदय मचलता था । मन विह्वल होता था । मस्तिष्क घूमता था । जीभ निर्व्यापार थी । अस्तु, मुझे महुवासे बहुत कुछ मिला । मैंने वहाँसे आनेके बाद भी कितने ही प्रश्न उनसे पत्रद्वारा पूछे और निरन्तर तत्काल मुझे उत्तर मिलते रहे ।

वहाँसे ही मैं पोरबन्दर पू० बापूके स्मारक कीर्तिमन्दिर देखने गया था जिसे सीराट्र दानवीर श्रीनानजी भाई कालिदासने एक महान्

व्ययके पश्चात् तैयार कराया है। उसमें मुखमण्डपकी दोनों ओर पू० बापूजीके जीवनकी लगभग सभी घटनाएँ संगमरमरके विशाल डुकड़ोंमें अङ्कित कराकर बह भीतने लया दिये गये हैं। शीघ्रताके कारण मैं उन घटनाओंकी तारीख सन् आदिकी लिपिवद्ध नहीं कर सका था। पीछेसे यहाँके अमिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर श्रीबैजूभाई तथा पाजरापोलके डा० श्रीचयन्तीलाल भाईने श्रम करके लिख-लिखाकर मेरे पास भेज दिया।

श्रीमहात्माजीके कितने ही भापणोंको समझनेमें मुझे कभी-कभी कठिनता होती थी क्योंकि उनमें उनके सिद्धान्तोंके कुछ मूल रहस्य होते थे। उनका स्फोट भी मुझे श्रीमाननीय किशोरलाल मशरुवालाजीसे ही प्राप्त होता रहता था।

मुझे ऐसी ही एक बहुत बड़ी सहायता फाशीके श्रीगाधीजी ग्रन्थमोलासे प्राप्त हुई है। मैंने उनमें सगृहीत महापुरुषोंके लेखों और बचनोंका उपयोग किया है।

अत्र पू० बापूजीके सभी साहित्य नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबादके अधिकारमें सुरक्षित हैं। ट्रस्टकी आज्ञा बिना अब कोई श्रीमहात्माजीके लेखों, पुस्तकों, पत्रों, भापणोंका उपयोग नहीं कर सकता। मैंने उसके लिये आज्ञा और अनुमति प्राप्त करनेकी उस ट्रस्टके व्यवस्थापक श्रीमान् जं वणजी भाई देसाईसे प्रार्थनाकी और वह अविलम्ब बिना किसी बाधाके स्वीकृत हुई। किंच शिक्षण और साहित्यकी ९ वर्षोंकी सन्पूर्ण फाइलका लाभ लेनेके लिये उन्होंने मुझे वह फाइलें दे दी थीं।

एवं भाई श्रीनरहरि परित्तजीने मुझे अपनी अमूल्य सभ्यति इस भागके निर्माणमें दी थी। श्रीयुत भाई परीक्षितलाल मजूमदार, श्रीमान् कीकूभाई देसाई आदिसे मुझे अमुक-अमुक विषयोंमें स्पष्ट विचार प्राप्त हुए हैं।

मैं इन सब माननीय बन्धुओंके प्रति आदरपूर्वक उपकार भाव अपने हृदयमें सुरक्षित रखता हूँ। इनकी उदारता, इनके श्रम, और

इनके हार्दिक प्रेमके बलसे इस कार्यको—इस भागको इतनी शीघ्रतासे केवल दो महीनोंमें लिखकर, हिन्दी टीकाकर, प्रेस कॉपीकर—पूरा करनेमें मैं इस वृद्धावस्थामें समर्थ हो सका हूँ ।

अन्तमें मैं ज्योतिषप्रकाश प्रेस काशीके अग्र्यष्ठ पण्डित श्रीबालकृष्ण शालीजीको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इन तीनों भागोंको लगभग दो महीनोंमें छापकर पूराकर दिया है । प्रूफ रॉचनेमें मुझे उनकी बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुई है । उनके सारे स्टाफने भी भारी दिलचस्पी इस मेरे कार्यमें ली है । मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ ।

श्रीमन्माननीय पण्डित गोपालशास्त्री दर्शनकेसरीजीने भी कुछ प्रूफ और कुछ शुद्धाशुद्धपत्र तैयार करनेमें मेरी सहायता की है । मैं उनका उपकृत हूँ ।

— स्वामी भगवदाचार्य



“महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति”

नमो नमो भारतभूजन्यै

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-परमहंसपरिव्राजक-श्यामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराज-प्रणीतम्
म्योपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकासहितम्

भारतपारिजातम्

(श्रीमहात्मगांधिचरितम्)



प्रथमः सर्गः



श्रियः शरण्यं सकलापदापगापतिप्रबुद्धातितरङ्गताडिताः ।

समाश्रयन्ते यदिहार्तिनाशनं तदेव पादाब्जरज्जो ह्युपास्महे ॥ १ ॥

समस्त विपत्तियोंके बड़े-बड़े तरङ्गोंसे ताड़ित होकर लोक, जगदम्बाके शरणागतरक्षक और दुःखविनाशक चरणकमलकी जिस धूरिका आश्रय लेते हैं उसी धूरिकी में उपासना करता हूँ ॥ १ ॥

जयत्वजस्रं जगदम्बिकाम्बकद्वयी यया सर्वमिदं निरीक्ष्यते ।

महाघभाजोऽपि कटाक्षिता यया परां समृद्धिं नितरां वितन्वते ॥ २ ॥

जगदम्बाके धे नेत्र सदा विजयी रहें जो समस्त जगत्का निरीक्षण कर रहे हैं और जिनसे कटाक्षित होकर बड़े-बड़े पापी भी परा समृद्धि = मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

जयन्तु ते श्रीगुरुपादरेणवो यदीयसामर्ध्यलवादपि प्रभुः ।
महाकवीनां सरणिं समादरान्निपेवितुं चाहमनुष्णधीरपि ॥ ३ ॥

श्रीगुरुचरणकमलोंकी वह धूरि जयको प्राप्त हो, जिनके सामर्थ्योंमें से एक अल्पसामर्थ्यसे भी, मैं मन्दबुद्धि होता हुआ भी, डरता-डरता अथवा आदरके साथ महाकवियोंके मार्गमें चलनेकेलिये प्रभु=समर्थ हुआ हूँ ॥ ३ ॥

जयत्वसौं कोऽपि महायमीश्वरोऽपवित्रयत्रीणि जगन्ति योऽञ्जसा ।
दयाभयाचारविचारशिक्षणान्महात्मगाधिः सकलश्रुतिश्रुतः ॥ ४ ॥

जिन्होंने दया, अभय, आचार और विचारकी शिक्षासे तीनों लोकोंको सर्वथा पवित्र कर दिया है, वह कोई अपूर्व 'महान् सयमी और सर्वलोकविश्रुत महात्मागाधीजी विजयी रहें ॥ ४ ॥

पुरा समस्तं जगद्ध्यभासयत्प्रदानतो ज्ञानमहामणेरलम् ।
अशिक्षयत्जीवनपर्वशर्वरीविभेदनं यत्प्रथमेऽरुणोदये ॥ ५ ॥

यहसे १२ वें श्लोक तक भारतदेशका वर्णन है । इन ६ श्लोकोंमें 'जहाँ-जहाँ यत् या यत्र शब्द आया है उसका सम्बन्ध १३ वें श्लोकके भारतमेदिनीतल शब्दसे है ।

जिस भारतवर्षमें प्रथम 'अरुणोदयमें अर्थात् सृष्टिके आरम्भमें ज्ञानरूप-महामणिके दानसे समस्त जगत्को प्रकाशित किया और जीवनके मार्गमें रहे हुए अन्धकार-अज्ञानका नाश करना सिराया— ॥ ५ ॥

समाततं मोहमहातमश्चयं निरोद्धुमज्ञानकलाविवर्जितः ।
यसुन्धरायां श्रुतिभास्करप्रभाः प्रकाशयामास च यत्र स प्रभुः ॥ ६ ॥

और जिस भारतवर्षमें उस सर्वशक्तिमान् भगवान्ने पृथिवीपर फैलेहुए मोहरूप महान् अन्धकारका निरोध करनेकेलिये वेदरूप सूर्यकी प्रभाको जन्म दिया— ॥ ६ ॥

यदा यदा धर्मधियः पराहताः सदा तदा यत्र परात्परः प्रभुः ।
अवातरद्धर्मपथव्यवस्थितिं धिनिर्ममेऽनन्ततनुः पुनः पुनः ॥ ७ ॥

और जिस भारतवर्षमें जत्र-जत्र धर्मबुद्धिका प्रलय हुआ तत्र-तत्र परात्पर तथा अनन्तरूप भगवान्ने अवतार लिया और फिर-फिरसे धर्म-मार्गकी व्यवस्था की— ॥ ७ ॥

वृषाकपायो च वृषाकपिर्हरिस्तनूनपादाशुग ईश उज्ज्वलः ।
परप्रसादात्स्वत एव सन्निधिं समर्थयन्ते किल यत्र सर्वदा ॥ ८ ॥

पार्वती, लक्ष्मी, महादेव, विष्णु, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर, यह सब देवता परमप्रसन्नतासे स्वतः ही जिस भारतवर्षमें सदा निवास करते हैं— ॥ ८ ॥

मनुर्मनायी च भगीरथो नृपः स भानुरिक्ष्याकुरनन्तकीर्तिमान् ।
अजो दिलीपोऽजमुतो रघुस्तथा रघूत्तमो यत्र जनिं गृहीतवान् ॥ ९ ॥

मनु, शतरूपा, भगीरथ, भानु, इक्ष्वाकु, दिलीप, रघु, अज, दशरथ और श्रीरामने जिस भारतवर्षमें जन्म लिया— ॥ ९ ॥

स सत्यवान्सा च तदङ्गना सती सती च सीता जगदेकपावनी ।
पुरस्सरो लक्ष्मण ऊर्ध्वरेतसां वभूव यत्रैव च केकयीसुतः ॥१०॥

सत्यवान्, सावित्री, जगत्को पति करनेवाली सीता, ब्रह्मचारि-शिरोमणि लक्ष्मण और धर्मात्मा भरतने जिस भारतवर्षमें जन्म लिया था— ॥ १० ॥

महायशोरन्ननिधिर्युधिष्ठिरो महाबलः कृष्णसखोऽर्जुनश्च सः ।
पतिव्रता सा द्रुपदात्मजा जनिं मुदाऽप्रहीद्यत्र सतीश्वरी शिवा ॥११॥

बड़े यशस्वी युधिष्ठिर, तथा बड़े बन्धुमान् कृष्ण जिनके मित्र थे उस अर्जुनने और पतिव्रता, सतीशिरोमणि, परमकल्याणी द्रुपदीने जिस भारतवर्षमें जन्म लिया था— ॥ ११ ॥

यदुक्षयोऽसभृदार्तसंश्रयः शरण्यरक्षापणकौतुकान्वितः ।
महाशिवाध्वादिमहोपदेशकः स कृष्णचन्द्रः समपीपवच्च यत् ॥१२॥

यदुधोका नाश करनेवाले, दीनोंके आश्रय, शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले, महाकल्याणके मार्गके आदि महोपदेशक भगवान् कृष्णचन्द्रने जिस भारतवर्षको पवित्र किया था ॥ १२ ॥

अनारतं तत्र जगद्रण्यति प्रभारते भारतमेदिनीतले ।
स काठियावाड उदारसंप्रहो विराजते ख्यातयशा प्रदेशकः ॥१३॥

उसी निरन्तर अतिप्रभावान् और जगद्गुरु भारतवर्षमें, बड़े-बड़े धीरों और महात्माओंका जिसमें समूह है ऐसा प्रसिद्ध काठियावाड प्रदेश सुशोभित हो रहा है ॥ १३ ॥

अयं च सौराष्ट्रपदेन बोधितः पुरा पृथिव्यां प्रथितो महायशाः ।
विहाय वृन्दावनभूमिमागतं व्यधाच्छरण्यं शरणे महाप्रभुम् ॥१४॥

पहिले सौराष्ट्रनामवाले इस काठियावाडने वृन्दावनका त्याग करके आनेवाले महाप्रभु भगवान् कृष्ण को अपने यहाँ (द्वारकामे) आश्रय दिया था ॥ १४ ॥

महादरिद्रो द्विजराजवंशज सुतस्य नन्दस्य सतीर्ष्यपेशलः ।
उवास तत्रैव तपस्वितां गृह्णन् मुदामनामा सह भार्ययोदजे ॥१५॥

पहिले भारतवर्षका वर्णन हुआ । पश्चात् तदन्तर्गत काठियावाडका वर्णन हुआ । अब महात्मागान्धीजीकी जन्मभूमि मुदामापुरी-पोरन्दरके वर्णनका आरम्भ होता है ।

उसी काठियावाडमें नन्दकुमार कृष्णके सहपाठी महादरिद्र ब्राह्मण मुदामा तपस्वियोंके समान किसी शोषणमें अपनी स्त्रीके साथ निवास करते थे ॥ १५ ॥

निपीडिता निर्धनतानृशंसताप्रह्वारतलाद्विजराजवह्म ।
समृद्धशोका व्रजिह्वं हरे, पूरीं नियोजयामास पतिं कदाचन ॥१६॥

दृष्टितासे पीडित शोचने मुदामाकी स्त्रीने मुदामाने भगवान्की पुरी द्वारकामे जानेकेलिये एक दिन प्रार्थना की ॥ १६ ॥

जगामविप्रः प्रियया प्रणोदितो मुहुर्मुहुः स्वस्य विखिन्नमानसः ।
प्रियस्य मित्रस्य पुरीं विभित्सया दरिद्रतादुर्गमदुर्गसंसदः ॥१७॥

अपनी स्त्रीसे बार-बार प्रेरित होकर (मित्रसे धन मागना अच्छा नहीं है अतः) दुःखितमनसे सुदामा दरिद्रताके दुर्गम दुर्गके भवन तोड़नेकी इच्छासे प्रिय मित्र श्रीकृष्णकी पुरीको गये ॥ १७ ॥

शनैः शनैर्विप्रवरेण गच्छता विचारमाला विविधाः प्रतन्वता ।
अकारि लोकोत्तरकान्तिशालिनी हरेः पुरी नेत्रपथातिथिर्मुदा ॥१८॥

भगवान् पहचानेंगे या नहीं, प्रेमसे मिलेंगे या नहीं, वह क्या पूछेंगे, मैं क्या कहूँगा, धनकी प्रार्थना उनसे मैं कैसे करूँगा, इत्यादि विचार करते जाते हुए सुदामाने धीरे-धीरे आनन्दसे द्वारकापुरीका दर्शन किया ॥१८॥

हिरण्यभारै रघितान्महागृहानलण्डदीप्तिप्रचयातिशालिनः ।
प्रकाशपुञ्जैरिव नैजशृङ्गैः प्रभाकरं रोद्धुमिषोत्थितान्द्विजः ॥१९॥

इस श्लोकके द्विज इस कर्तृपदवा २१ वे श्लोकके ऐक्षत इस क्रिया-पदके साथ सम्बन्ध है ।

ब्राह्मण सुदामाने सोनेके बने हुए महाप्रकाशवाले बड़े-बड़े भवनोंको देखा । सुदामाको ऐसा मालूम हुआ मानो वे भवन अपने सुवर्णमय-विलोक्य तस्यां पुरि नैजसम्पदां तिरस्कृतिं कर्तुमत्तिन्नयोग्यतान् ।
महेर्ष्यया सन्ततमुष्णरश्मिना गृहान्प्रदग्धानि च काञ्चनाननान् ॥२०॥

द्वारकाके सत्र भवन सोनेके थे । वह मदा अग्निके समान प्रकाशमान थे । उन स्वाभाविक प्रकाशमान घरोंके लिये सुदामा उत्प्रेक्षा करते हैं :—

सूर्यने जन देखा कि द्वारकाके भवन मेरे ऐश्वर्य-प्रकाशको भी तिरस्कृत करनेमें समर्थ हैं अर्थात् मुझमें भी अधिक प्रकाशमान हैं तब उसने ईर्ष्यासे द्वारकाके घरोंमें आग लगा दी हो और उससे जलते हुएोंके समान उन घरोंको सुदामाने देखा ॥ २० ॥

महार्णवे तान्प्रतिविम्बितान्गृहान् प्रकम्प्यमानान्स्तरलैस्तरङ्गकैः ।

तदीयदौर्भाग्यविशेषवस्तुना निमज्जतस्तोयनिधाविवैक्षत ॥२१॥

द्वारकापुरी समुद्रके तटपर बसी हुई है। उसके भवन समुद्रमें प्रतिविम्बित होते रहते हैं। तरङ्गोंकी चञ्चलतासे वह प्रतिविम्बित भवन काँपते हुएसे प्रतीत होते हैं। उसके लिये सुदामा उत्प्रेक्षा करते हैं कि यह भवन मेरे दुर्भाग्यसे भय लाकर काँपते हुए समुद्रमें निमग्न हो रहे हैं। अर्थात् वह डूब जाना पसन्द करते हैं परन्तु मुझ जैसे दुर्भगको देखना पसन्द नहीं करते हैं। श्लोकार्थः—

सुदामाने, महासागरमें प्रतिविम्बित तथा समुद्रके तरल तरङ्गोंसे प्रकम्पित उन भवनोंको अपने दुर्भाग्यके कारण समुद्रमें डूबते हुएके समान देखा ॥ २१ ॥

कथं कथंचित्समतीत्य गोपुरं पुरीप्रवेशं कृतवान्भयाकुलः ।

द्विजो व्यलोकित् बहुत्र संस्थितान्विवेकयुक्तान्प्रहरीन्यशस्विन् ॥२२॥

किसी-किसी प्रकार डरते-डरते सुदामाने गोपुरको लाघवर पुरीमें प्रवेश किया। बहुत स्थानोंपर विवेकी और यशस्वी पहरेदारोंको उन्होंने खड़े देखा ॥ २२ ॥

मनोहरैः पादर्घगतैश्च हृष्टकैः सुसज्जितानश्चरथादिसङ्कुलान् ।

अदृष्टपासुं स्तरपङ्क्तिशोभितान्महापथान्विप्रवरो व्यलोकत ॥२३॥

सड़ककी दोनों ओर मनोहर बाजारोंसे सुसज्जित, घोड़ागाड़ी आदिसे भरे हुए, वृक्षमालासे शोभित साफ स्वच्छ सड़कोंको सुदामाने देखा ॥२३॥

शिशुप्रबोधाय विनिर्मितान्वहृच्छिशुप्रपूर्णाच्छुभशिक्षणालयान् ।

अवेक्ष्य सर्वप्रथमाश्रमोद्भवं स्मृतौ स्थितिं वृत्तमुपाददेऽस्य तत् ॥२४॥

बच्चोंको पढ़ानेके लिये, बच्चोंसे भरे हुए, बने हुए बहुतसे सुन्दर विद्यालयोंमें देखकर सुदामाकी स्मृतिमें उनकी शैशवावस्थाके सब वृत्तान्त उपस्थित हो गये। अर्थात्, सुदामाने अपने गालपनका सारण किया ॥ २४ ॥

कलालयान्यन्त्रगृहानितस्ततश्चलत्पताकान्विपुलान्गृहानपि ।
जय स्वदेशेति स दक्षरान्वितान्स काष्ठखण्डान्वहुशो व्यलोकत ॥२५॥

सुदामाने बहुतसे हस्तकलाओंके भवन, यन्त्रोंके भवन, उड़ती हुई पताकाओंसे युक्त दूसरे बड़े-बड़े भवनोंको तथा जहाँ तहाँ “जयस्वदेश” इन अक्षरोंसे युक्त काष्ठखण्डों (साइनबोर्डों) को देखा ॥ २५ ॥

विलोकयन्नेवमयं शनैः शनैर्निकेतनद्वारि हरेरुपस्थितः ।
दिदृक्षमाणः स्वसखं पदं न्यधाद्विष्टुष्कवक्त्रो हरिवेदमवर्त्मनि ॥२६॥

इस प्रकारसे धीरे-धीरे द्वारकापुरीको देखते हुए सुदामा भगवान् कृष्णके राजमहलके द्वार पर जा पहुँचे । अपने मित्रको देखनेकी इच्छा-वाले उन्होंने, डरके मारे सूजतेमुँहसे राजमहलके अन्दर पैर रखा ॥२६॥

निवारितो द्वारजनेन दीनवाक्सवेपथुर्विप्रवरो जगाद तम् ।
सुदामनामाहमनन्तवैभवं द्विजो दिदृक्षे हरिमर्तिनाशकम् ॥२७॥

द्वारपालने उन्हें अन्दर जानेसे रोक दिया । वह दीन होकर कहने लगे कि सुदामा मेरा नाम है, मैं ब्राह्मण हूँ, अनन्तवैभव भगवान्का दर्शन करना चाहता हूँ ॥ २७ ॥

पुरः प्रतीहारनियुक्तकिङ्करो महाप्रभोः प्राप्य मिलत्करद्वयः ।
समागतं कञ्चिदपूर्वदर्शनं निवेदयामास बहिःस्थितं द्विजम् ॥२८॥

द्वारपालने भगवान्के सामने जाकर, हाथ जोड़कर बाहर खड़े हुए ब्राह्मणके आनेकी सूचना दी ॥ २८ ॥

प्रवेशितं द्वारजनेन दुर्गतं विशीर्णदुश्चीवरखण्डमण्डितम् ।
चिराद्भिज्ञाय सखायमात्मनो हरिः स रात्रासनतो व्यधावत ॥२९॥

द्वारपालने सुदामाको अन्दर भेजा । दुरवस्थामें प्रातः चीथड़ेहाल अपने मित्रको जरा देरमें पहिचानकर भगवान् अपने आसनको छोड़कर उठकर दीड़े ॥ २९ ॥

दयासरस्वान्भगवाञ्जगत्पतिः सधारिनेत्रो भृतरौमहर्षणः ।
समुद्धरो निर्भरमात्मसत्सखं समालिलिङ्गाशु चिरेण सङ्गतम् ॥३०॥

दयासागर, जगत्पति भगवान्की ओंखोंमें बल आ गया, और शरीरमें रोमाञ्च हो गया । बहुत दिनोंके पश्चात् मिले हुए अपने सन्निवको, आनन्दके साथ, उन्होंने छातीसे लगा लिया ॥ ३० ॥

निवेशयामास हरिर्महोन्नते महाव्यरत्नावलिसङ्कुलासने ।
द्विजं पुनस्तत्पदधावनक्रियां स्वयं स्वहस्तेन मुदा समापयत् ॥३१॥

भगवान्ने सुदामाको स्तनबद्धित महासिंहासनपर बैठाकर स्वयं अपने हाथोंसे उनके चरणका प्रक्षालन किया ॥ ३१ ॥

शरीरभागे कृशता द्विजन्मनः कपोलयोगीर्त उतापि चक्षुषोः ।
अगृहता जत्रुयुगे विपादिकाः पदद्वये श्रीहरिमत्यरोदयन् ॥३२॥

सुदामाके शरीरकी कृशताने, गालों और ओंखोंके खड्डेने पसलियोंकी बाहर दीरानी हुईं हड्डियोंने और पैरोंकी विवाइयोंने भगवान् कृष्णको रुला दिया ॥ ३२ ॥

कथं न नामाहमये तव स्मृतिं गतोऽद्ययावद्यदिमां दृशां गतः ।
प्रियो धयस्यस्त्वमिति प्रबोधयन्पुनर्हरिः शोकसमाकुलोऽभवत् ॥३३॥

आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आप यदि इस दीनदशाको प्राप्त हुए तो आपने मेरा स्मरण क्यों नहीं किया ? ऐसा कहते-कहते भगवान् पुनः शोकसे व्याकुल हो गये ॥ ३३ ॥

ददौ द्विजायाथ स भक्तवत्सलः सुरासुराणां मनसापि दुर्लभाम् ।
परां समृद्धिं भयनं गतोपमं स्वयं सुदासादिसमन्वितं हरिः ॥३४॥

भक्तवत्सल भगवान्ने मुरों और असुरोंको मनसे भी दुर्लभ—ऐसी महती सम्पत्ति, दासदासियोंसे परिपूर्ण, निरुपम सुन्दर भयन सुदामाकेलिये स्वयंप्रदान कर दिये ॥ ३४ ॥

तदाप्रभृत्येव तदीयनामतः प्रसिद्धिमापन्नगरीयमञ्जसा ।
परश्च तस्वामभवत्प्रतिष्ठितो द्विजो महानुत्तमचन्द्र आख्यया ॥३५॥

तउत्ते ही वह पुरी सुदामाके नामसे प्रसिद्ध हुई । अर्थात् उसका नाम सुदामापुरी हुआ । उसी पुरीमें एक बड़े प्रतिष्ठित उत्तमचन्द्रनामक श्रेष्ठ द्विज निवास करते थे ॥ ३५ ॥

सुदामपुर्या नृपतेः परं मतः स सत्यसन्धः प्रथमं प्रमन्त्रिताम् ।
गतः परं केनचनार्पिहेतुना जगाम जूनागढभूसुगाश्रयम् ॥३६॥

श्रीउत्तमचन्द्रजी बड़े ही सत्यवादी थे । अतः वह सुदामापुरीके राणासाहेबके अत्यन्त आदरत थे । वह पहिले वहाँके छुदीवान थे । परन्तु किसी कामगविशेषसे कुछ परस्पर वैमनस्य हो गया और श्रीउत्तमचन्द्रजी † जूनागढके नवाबके यहाँ चले गये ॥ ३६ ॥

ननाम गत्वा स नवावसाहिवं करेणवामेन शिरः स्पृशन्वदन् ।
प्रदत्त एवास्ति तु दक्षिण. करः सुदामपुर्या क्षितिपालकाय मे ॥३७॥

श्रीउत्तमचन्द्रजीने जूनागढके नवाबको बाएँ हाथसे सलाम किया । पूछनेपर उत्तर दिया कि उनका दाहिना हाथ सुदामापुरी—पोरन्दरके राणासाहेबको दिया जा चुका है ॥ ३७ ॥

* Prime minister = प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धप्रान्तमें दीवान कहा जाता है ।

† जूनागढ काठियावाडमें एक बड़ा स्टेट था । मुसलमानोंके हाथमें था । हिन्दुओंके पवित्र तीर्थ गिरिनार और प्रभास इसी राज्यमें थे । सोमनाथ महादेवका वह प्रख्यातमन्दिर जिसे गजनीने कई बार लूटा था, इसी राज्यमें पट्टणमें समुद्रके किनारे था । आज भी उसका भग्नावशेष यात्रियोंके हृदयोंको अपनी ओर खींचनेमें समर्थ है । यहाँ ही प्रभास है जहाँपर भगवान् श्रीकृष्णने यदुओंका महार किया था । यहाँसे ही भगवान् कृष्ण परधाम गये थे । इसी राज्यमें प्रभासके पास ही वह स्थल है जहाँपर ब्याधने श्रीकृष्णभगवान्को बाण मारा था । अब वह स्टेट सौराष्ट्र सर्कारके हाथमें है और सोमनाथ मन्दिरका उद्धार हो रहा है ।

ततः प्रतिष्ठां परमां समाश्रयन्नुपेयिवांस्तत्र पितृत्वमावसन् ।

क्रमेण पण्णां स उदारसत्क्रियापरः सुतानां भगवत्कृपावशात् ॥३८॥

इस स्पष्टवादितासे उनकी वहाँ बहुत प्रतिष्ठा हुई । सत्कर्मपरायण रहकर, वह भगवत्कृपासे ६ पुत्रोंके पिता बने ॥ ३८ ॥

सुतेषु तेषु श्रितभूरिभाग्यकः स कर्मचन्द्रः प्रथितोऽधिभूतलम् ।

विशोभयामास च कार्यभारितां चिरं विवेकेन हि पौरवन्दरे ॥३९॥

उन ६ पुत्रोंमेंसे सबसे बड़ेभाग्यशाली पुत्र, “कर्मचन्द्र” इस नामसे संसारमें प्रख्यात हुए । उन्होंने पौरवन्दरमें बहुत दिनोंतक कारभारीके पदको सुशोभित किया ॥ ३९ ॥

ततः परं तत्र स राजसंसदः सदस्य आसीत्परमः प्रतिष्ठितः ।

पदं दिवानस्य च ॐ राजकोटके तथा च † बॉकानिरकेऽग्रहीत्ततः ॥४०॥

उसके पश्चात् वह पौरवन्दरमें ही राजसभाके प्रतिष्ठित सदस्य नियुक्त हुए । राजकोटमें और उसके बाद बॉकानेरमें उन्होंने दिवानके पदको ग्रहण किया ॥ ४० ॥

स राजकोटे जनता सुरावहं पदं दिवानस्य चिरं विभूषयन् ।

यथाक्रमं राजनियोजितां ययौ प्रतिष्ठयाऽऽमृत्यु हि वृत्तिभोगिताम् ॥४१॥

वह राजकोटमें दिवानपदपर बहुत दिनोंतक रहकर, मृत्युपर्यन्त प्रतिष्ठाके साथ स्टेटसे पेन्शन पाते रहे थे ॥ ४१ ॥

स औत्तमिः सत्यपथातिनिष्ठतामुदारतां कोपकरस्वभायताम् ।

पुषोप शूरत्वमनन्यभावतो नराधिपे भक्तिभरं महाशयः ॥४२॥

वह उच्चमचन्द्रके पुत्र श्रीकर्मचन्द्रजी सत्यवादी, उदार और प्रोधी-स्वभावके थे । वह बड़े शूर और राजमक्त थे ॥ ४२ ॥

ॐ राजकोटक अर्थात् राजकोट । राजकोट काठियावाड़में एक बड़ा हिन्दूरान्य था । भव सौराष्ट्र सरकारकी यह राजधानी है ।

† बॉकानिरक अर्थात् बॉकानेर । यह भी राजकोटके पास एक हिन्दूरान्य था । भव सौराष्ट्र सरकारके हाथमें है ।

न तेन सेहे नृपतेर्विमानना कदाचिदेकेन कृताऽऽङ्ग्लभूमुवा ।
गतस्तु कारां घटिकां न च क्षमानिवेदनेहां प्रकटीचकार सः ॥४३॥

एक समय किंगी अङ्गेजने राजफोटके टापुरमाहेवरा अपमान कर दिया । श्रीकर्मचन्द्रजी उसे न मह सके । उचित उत्तर देनेपर वह एक घण्टेकेलिये जेलमें चले गये परन्तु क्षमाप्रार्थनाकी इच्छा भी प्रकट न की ॥४३॥

कदापि नोत्कोचमयं महाजनः कुतोऽपि केनापि पथा गृहीतयान् ।
मितम्पचत्वं न पुषोप तेन नो स संचिकायार्थनिधिं यदृच्छया ॥४४॥

उन्होंने कभी भी, किसी प्रकारसे भी, किसीसे भी घूस नहीं ली ।
वह कंजूस नहीं ये अतः यद्येष्ट धन सङ्ग्रह भी नहीं कर सके थे ।

स जीवनान्तावसरे द्विजाप्यतः कुतश्चिदध्येत विमोहभेदिनीम् ।
मुत्सेन गीता हरिणा प्रवर्तितामनन्तजन्मार्जितपापमार्जनीम् ॥४५॥

उन्होंने अपने अन्तिम समयमें किंगी ब्राह्मणसे मोहविनाशिनी तथा
अनन्तजन्मोंके पापोंको नष्ट करनेवाली भगवान् श्रीकृष्णकी गीताका
अध्ययन किया ॥ ४५ ॥

गृहे महाभाग्यभुजो यमुन्धरामहारमेवास्य पतिव्रताप्रणीः ।
सहैव तेनाधिकसत्कृताप्रियं मनो दधाना विललास पुत्तलिः ॥४६॥

महाभाग्यशाली उन श्रीकर्मचन्द्रजीकी स्त्रीका नाम पुतलीबाई था ।
वह पृथिवीकी महालक्ष्मी थी । पतिव्रताओंमें श्रेष्ठ थी । पतिके साथ ही
वह उत्कर्मोंमें लगी रहती थी ॥ ४६ ॥

कथं नु कस्यापि यचोविदग्धता महानियत्या उपवर्णने क्षमा ।
जगद्गनन्या इय मुत्तलेर्भवेत्सुतो हि यस्या अविचिन्त्यशक्तिभूः ॥४७॥

किसकी यागीमें इतनी चतुरता है कि जो अतिशक्तिमान् पुत्रही
माता श्रीपुतलीदेवीका सुगदर्शन पर लफे ? ॥ ४७ ॥

यया समुत्पाव सुरेशसन्निभं गुरुं गुरागामिय चित्रवर्चमम ।
मुतं हरिश्चन्द्रमिय प्रभासितं जगद्वयं धन्यतमा कथं न सा ॥४८॥

जिन श्रीपुतलीबाईने इन्द्रसमान, सुरगुरुके समान, और हरिश्चन्द्रके समान आश्चर्यप्रद—तेजोयुक्त पुत्रको जन्म देकर भारतको प्रकाशित किया वह क्यों न सबसे अधिक धन्य हों ? ॥

अतिप्रवीणा भगवत्पदाम्बुजद्वयीसमर्चाविधिषु स्वभावतः ।
न दर्शनात्रापि समर्चनादृते कदापि सान्नां वुमुजे हरेः सती ॥४९॥

वह स्वभावसे ही भगवत्पूजासेवामें अत्यन्त निपुण थी । भगवान्‌के दर्शनके बिना उ-होंने कभी भी अन्नग्रहण नहीं किया ।

सदैव मासांश्चतुरो जलस्रुतो व्रतेन दानेन महोत्सवेन च ।
निनाय सा विघ्नसहस्रसङ्कुलाप्यनार्तभावेन महाध्व्यैष्णवी ॥५०॥

श्रीपुतलीबाई सदा ही अनेक विघ्नोंके होनेपर भी व्रत, दान, और महोत्सवके द्वारा छ-चातुर्मासको शान्तिसे व्यतीत किया करती थी क्योंकि वह परम वैष्णवी थी ॥ ५० ॥

† अथ गतवति काले श्रीहरेः सेवनेन
प्रतिदिनमतिरम्यश्रीकथास्वादनेन ।
विमलहृदयभावा मध्यरात्रे शयाना,
किमपि किमपि चित्रं सा कदाचिद्दर्श ॥५१॥

ऐसे ही, भक्तिमें उनके कुछ दिन बीत गये । भगवत्सेवा और भगवत्कथाश्रवणसे उनका हृदय निर्मल हो गया था । एक दिन आधी-रातको लेटी हुई उन्होंने कुछ आश्चर्य जैसा देखा ॥ ५१ ॥

छ गुजरात और सौराष्ट्रमें भापाड शुरू एकादशीसे कार्तिक शुरू एकादशी तक शास्त्राज्ञानुसार चातुर्मास्यनियम पालन किये जाते हैं । अनेक व्रत, दान, पुण्य आदि इस देशमें किये जाते हैं । छोटी २ बचियाँ भी इस चातुर्मास्य—चौमासेमें भाग लेती हैं और कठिन व्रत करती हैं ।

† यहाँसे लेकर हम सर्गके अन्तक मालिनीछन्द है ।

निखिलभुवनसारं श्रौतसन्दर्भसारं
रिपुमथनविसारं योगिनांकण्ठहारम् ।

प्रहसितदशनाभासंहृतध्वान्तधार,

कमपि च तमकस्मादागतं सा ददर्श ॥५२॥

उन्होंने क्या आश्चर्य देखा, उन्हें कहते हैं:—समस्त ब्रह्माण्डमें एक मात्रतत्त्ववस्तु, वेदोंके प्रतिपाद्यवस्तुका मुख्यतत्त्व, शत्रुओंके नाशकरनेमें समर्थ, योगिजनोंके सारणकी प्रियवस्तु, तथा अपने मन्दहास्यसे खुले हुए दाँतोंकी प्रभासे अन्धकारको नाश करते हुए अपूर्व भगवत्स्वरूपको, श्रीपुतलीबाईने, अपने सामने आये हुए देखा ॥ ५२ ॥

हृदयजलजमध्ये यामधिश्याममूर्तिं
प्रतिदिवसमुपास्त श्रेयसे शुद्धचेता ।

चकितचकितभावा तां पुरो वीक्ष्य हृष्टा

प्रणतिमधिततानासावुदस्रा पदाब्जे ॥५३॥

जिस दिव्यमूर्तिका वह अपने हृदयमलमें सदा ध्यान करती थी, उसी मूर्तिको अपने सामने पड़ी देखकर, आश्चर्यके साथ उठकर, श्रीपुतलीबाईने चरणोंमें प्रणाम किया । अर्धे प्रेमाश्रुसे भर गयी ॥ ५३ ॥

इह विविधसमर्चाचर्चितोऽद्यैव वत्से !

तव परमपवित्रं गर्भगेहं विशामि ।

प्रसरदतिकुयिथाकल्पितानेकरूढि-

व्यथितजनशुभायेत्याह सा दिव्यमूर्तिः ॥५४॥

॥ जब कोई भी किमीकी भक्तिमें तदाकार बन जाता है तब उसे प्रतिक्षण उस इष्टदेवका दर्शन हुआ ही करता है । इष्टदेव अपनी सच्ची भक्ति करनेवालेकी ओर सदा दयाभाव रखते हैं । इसीलिये भक्त पुतलीबाईको उनके इष्टदेव भगवान्ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया । ऐसे दर्शनका रहस्य मेरे अन्य ग्रन्थोंमें शोधना चाहिये ।

उस दिव्यमूर्तिने कहा कि हे पुत्रि ! तुमने मेरी अनेकविध प्रेमसे मेबा की है ! मैं प्रसन्न हूँ । फैलती हुई अविद्यासे कल्पित अनेक रुदियेसि व्याकुल जनोका कल्याण करनेके लिये मैं तुम्हारे गर्भमें प्रवेश कर रहा हूँ ॥ ५४ ॥

विकसितमुखपद्मा पुत्तली कान्तकान्ती

रघुपतिपदपद्मप्रचट्टिर्निपण्णा ।

हृदयपटलजतानर्गलप्रेमसिन्धौ

प्रभुगमनमजानान्नैव ममा तदानीम् ॥५५॥

श्रीपुतलीबाईका मुखकमल खिल हुआ था । शोभा घटी हुई थी । स्थिर होकर रघु=जीवों के । पति=रक्षक । भगवान् के चरणोंमें दृष्टि लगायो हुई थी । हृदयमें जो अपार प्रेमसागर उत्पन्न हुआ था उसीमें वह डूब गयी थी अतएव भगवान् कब अन्तर्धान हो गये, इसे वह न जान सकी ॥ ५५ ॥

अहरहरधिवृद्धध्यानहर्यङ्घ्रियुग्मा,

प्रभुवचनसमृद्धप्रत्यया पुत्तली सा ।

निजतनुपरिचर्या पर्यचारीद्धिनम्रा,

वसति सकलजन्तोर्वासभूमिर्हि तत्र ॥ ५६ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिवाजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाच्यमहाराज-

प्रणीते भारतपारिजाते

प्रथमः सर्गः

श्रीपुतलीबाई प्रतिदिन अधिक २ भगवान्के चरणोंका ध्यान करने लग गयी थी । भगवान्के वचनमें उनका पूर्ण विश्वास था । अतः नम्रभावसे वह अपने शरीरकी रक्षा करने लग गयी । क्योंकि समस्त प्राणियोंके आश्रयभूत भगवान् उनके शरीरमें निवास कर रहे थे ॥ ५६ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिवाजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाच्यमहाराजप्रणीते

श्रीपद्मभारतराष्ट्रभाषाटीकासहित

भारतपारिजाते प्रथमः सर्गः

❀ द्वितीयः सर्गः

धासो न येपामतिदैन्यभाजामासीच्छरीरावरणाय किञ्चित् ।
तेषां प्रकेम्पाय समुद्यतोऽसौ मासः सहस्यः सहसाऽऽजगाम ॥१॥

श्रीमहात्माजीके गर्भवासका समय माघमासका होता है । अतः उसका वर्णन ५ श्लोकसे करते हैं:—

जिन दीनोंके शरीर ढाँकनेके लिये कोई भी वस्त्र नहीं था उनको कँपानेकेलिये माघमासका आगमन हुआ ॥ १ ॥

मासोऽयमागत्य तुपारपातैः कायातिभेदे कुशलैः प्रशीतैः ।
वातैः कृपाशून्यतयेव नित्यं कोपीव कोऽपि प्रजहार दीनान् ॥२॥

यह माघमास आकर किसी मोधी व्यक्तिके समान शरीरको फाड़देने-वाले अत्यन्तशीतलवायुसे, निर्दयतापूर्वक दीनोंपर प्रहार करने लगा ॥ २ ॥

उष्णीषकं नापि वपुश्छदो नो नो कम्बलं नापि करच्छदश्च ।
नोपानदन्यत्किमपि प्रसोढुं हेमन्तवाणान्न हि दुर्विधानाम् ॥३॥

गरीबोंके पास न तो पगडी सिर ढाँकनेकेलिये थी, न कुर्ता था, न कम्बल था, न हाथके मोजे थे, न जूते थे और न कोई धन्य ऐसी वस्तु थी जिससे कि वह हेमन्तके बागोंको सहन कर सकते ॥ ३ ॥

केचिन्निराहारपरायणा वा केचित्सदाधोऽदरभोजना वा ।
केचिद्वितीयेऽहनि केऽपि तार्तीयिके सदाऽभुञ्जत दुःखदुःखम् ॥४॥

उस समय कोई तो भूखे ही मरते थे, कोई आधा पेट खाकर जीते थे, कोई दूसरे दिन और कोई तीसरे दिन महाकष्टसे भोजन पा सकते थे ॥ ४ ॥

येन प्रकारेण मनुष्यजातिर्दुःस्था तथामनुष्यशवोऽपि नूनम् ।

नम्राः कथंकारमिमे सहन्तां हैमन्तिकांस्तीव्रशराननाथाः ॥५॥

उस समय जिस प्रकारसे मनुष्यजाति दुःखित थी वैसेही पशु भी पीड़ित थे । वे विचारे नम्रावस्थामे हेमन्तके तीव्रबाणोंको कैसे सहते ? ॥ ५ ॥

विपत्तिरिष्ये निखिलेऽत्र लोके हाहेतिशब्दे वितते जगत्सु ।

मासे सहस्ये जगदेकनाथः श्रीपुत्तलेर्गर्भगृहं विवेश ॥६॥

प्रथमसर्गमें कहा जा चुका है कि भगवान् माता श्रीपुतलीबाई के गर्भ में पधारे थे । वह कम पधारे इसका वर्णन करते हैं:—

इस प्रकारसे जब सबलोक दुःखसे नष्ट हो रहे थे, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था तब माघमासमें भगवान् श्रीपुतलीबाईके गर्भमें विराजे ॥ ६ ॥

जगत्रयान्तर्यमयन्महेशो गम्यः सता सर्वगुरुः शरण्यः ।

तस्थौ समाश्रित्य स पुत्तलिं यद्गर्भो गुरुस्तेन बभूव तस्याः ॥७॥

समस्त लोकमें व्याप्त होकर रहनेवाले, सत्पुरुषोंसे प्राप्य, सबके महागुरु और शरणागतरक्षक भगवान् श्रीपुतलीबाईके आश्रित होकर निवास करते थे अतः उनका गर्भ गुरु हुआ ॥ ७ ॥

नित्यं प्रयत्नैर्गुणविश्रुताया देव्याश्च तस्याः सविधे स्थितं तत् ।

घृन्दं सुरीणां समुपेत्य नाकाद्रभं सिपेवे श्रितदेवदेवम् ॥८॥

स्वर्गसे आयाहुआ देवियोंका झुण्ड परमगुणवती श्रीपुतलीबाईके पासमें बैठकर भगवन्निवासभूत उस गर्भकी सेवा करता था । पुतलीबाई की सेवाही गर्भकी सेवा थी ॥ ८ ॥

श्रीपुत्तलिं स्वीयतटे विहृतुं दृष्ट्वाऽऽगतां रत्ननिधिर्महाब्धिः ।

प्रक्षालयामास पद्मै स तस्या रत्नाधिरत्नस्य महाधरिज्याः ॥९॥

परमहृपालु देवता समवन्मम पर योग्य आत्माओंकी सख प्रकारसे, भद्रदृश्य होकर रक्षा करते हैं । यह अत्यन्त सत्य घटना है ।

महासागर अपने तटपर घूमने फिरनेकेलिये आयी हुई श्रीपुत्तलीघाई को देखकर उनके चरणोंको धोताथा क्योंकि उन्होंने रत्नोंके रत्न भगवान्को धारण कियाथा ॥ ९ ॥

निर्जावरत्नाकरतां गतोऽहं, चिद्रूपमेवा वहतीति मत्या ।
आवेद्य रत्नानि महार्घ्यभाञ्जि, पूजां ससर्जातितराममुष्याः ॥१०॥

समुद्र यह विचारकर कि—मैं तो जड़ रत्नोंका आकर हूँ और यह चिद्रूप—भगवान्को धारण करनेवाली हूँ—नहुमूल्य रत्नोंको उन्हें अर्पण करके उनकी पूजा करता था ॥ १० ॥

माभूद्दयथाऽस्या इति पीतुरहि शैत्येन सेवा विदधेऽथ नक्तम् ।
वह्निः प्रसादाय समुत्कआसीत्तेने च तेनेयमतीव हर्षम् ॥११॥

श्रीपुत्तलीघाईको शीतसे कष्ट न हो अतः दिनमें भगवान् सूर्य और रात्रिमें उनकी प्रसन्नताकेलिये अग्निदेव उपस्थित रहते । इससे वह अत्यन्त हर्ष पाती थी ॥ ११ ॥

मासस्तपाः प्राणिरणं निपीड्य कामं स्वकीयेर्निशि सम्प्रहारैः ।
प्रातः समन्युर्मिहिकामिषेण पश्चात्तपन्सर्वजनैः स दृष्टः ॥१२॥

रातभर मंत्र प्राणियोंको अपने प्रहारसे पीड़ित करके, प्रातःकाल ओसके गहानेसे ॐ रोतेहुए—पश्चात्ताप करते हुए माघमासको लोगोंने देखा ॥ १२ ॥

स्मृत्यैव सल्युस्तपसोऽपराधं कोष्णोऽभवत्फाल्गुनिकोऽथ मासः ।
अन्तं गतं सर्वजनस्य दुःखं किञ्चित्तदानीं शिशिरातुरस्य ॥१३॥

फाल्गुन मास आया । वह अपने मित्र माघके अपराधको देखकर थोड़ा गर्म हो गया । इससे शीतसे व्याकुलजनोंने दुःख कुछ शांत हो गया ॥ १३ ॥

ॐ दूरे लोग भी अन्यायमें किसीको पीड़ित करके पश्चात् रोते और पश्चात्ताप करते हैं ।

आजम्भतुस्तौ मधुमाधवौ द्वौ हरेः सपर्या क्रमतो विधातुम् ।
परा प्रफुल्लान्नयणाञ्जरन्तीमामोदवीचि नितरा दधानौ ॥१४॥

गर्मस्य भगवान्की सेवा करनेकेलिये आम्रवृक्षोंकी सुगन्धिको धारण करते हुए क्रमसे चैत्र और वैशाख मास आये ॥ १४ ॥

कृजत्पिकौ गुह्यदलित्रजाह्यावारक्तपद्मसङ्घरभ्यौ ।
त्रैविध्यमाराद्धतौ शिवस्य वायो समैतामुपकारशीलौ ॥१५॥

क्रोड़लें जिनमें कृज रही थी, भ्रमर गूँज रहे थे, थोड़ी थोड़ी लालिमा छा रही थी ऐसे पत्तोंसे लदे हुए वृक्षोंसे शोभित, और शीतल, मन्द, सुगन्ध वायुको लिये हुए, उपकारपरायण चैत्र और वैशाख मास आये ॥ १५ ॥

ज्येष्ठो निशा अल्पतमाश्चकार प्राखर्यमर्काय ददाबुदारः ।
औन्यं नदीनामभिमानताने विस्तारयामास तपन्प्रतापैः ॥१६॥

ज्येष्ठ मास आया । उसने रात्रिकी थोड़ी (छोटी) घर दी । सूर्यमें तेजी पैदा कर दी । नदियोंके अभिमानमें न्यूनता कर दी । ज्येष्ठ तपने लगा ॥ १६ ॥

आपाढ आगत्य जलाभिपेकैस्तप्तः भुवं शीतलतां निनाय ।
गर्जद्विरभ्रैः कृपिकारसङ्घमाह्लादयामास धृतिं प्रदाय ॥१७॥

आपाढ मासने आकर जलवर्षण करके सन्तप्त पृथिवी को शीतल बनाया । गर्जते हुए बादलोंसे किसानोंको उसने धैर्य देखाया ॥ १७ ॥

वृक्षान्पशून्पक्षिगणान्मनुष्यान्भूमिर्नदीर्निर्झरिणीस्तटाक्षान् ।
अन्ध्रंश्च वापो परिव्याश्च सातान्सन्तर्पयामास नभो जलौचैः ॥१८॥

श्रावणने सूख जल वर्षाकर वृक्षों, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, भूमि, नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों, खाइयों और सड़कोंको नृत कर दिया ॥ १८ ॥

एषं नभस्योपि हरेः पदाब्जयुग्मप्रसादाय कृतप्रयाणः ।
नित्यं जगर्जाय वषर्षं वारि धाराधरेणैज्यमवाप्य साधु ॥१९॥

भाद्रपदमास भगवच्चरणारविन्दकी सेवाकेलिये आकर बादलोंके साथ अच्छी मित्रता करके रोज़ गर्जता और वर्षता था ॥ १९ ॥

सर्वं जगन्छोहरिकामजन्यं तस्मादिदं सर्वममुष्य हृद्यम् ।
हृद्यस्य सन्तर्पणतोऽतितृप्तस्सन्वृत्तिभाक्सोऽपि भवत्यप्रयम् ॥२०॥

राधा होती है कि गर्जने वर्षनेसे भूमि आदि, अथवा किसानोंको सुख मिला । इसमें भगवच्चरणारविन्दकी क्या सेवा हुई ? उत्तर देते हैं कि:—

यह सब जगत् भगवान्की इच्छासे—सङ्कल्पसे ही पैदा हुआ है अत एव यह भगवान्को प्रिय है । प्रियके तृप्त करनेसे, (यद्यपि भगवान् पहिले से ही अतितृप्त हैं तो भी) अनर्थ ही तृप्ति प्राप्त करते हैं ॥

सेवा समेषामिह जन्मिनां या सैवास्ति सेवा जगदीश्वरस्य ।

पञ्चतयो जन्मफलं प्रपन्नाः संसेवमाना भगवत्प्रजास्ताः ॥२१॥

हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा इन पाँच ऋतुओंके भगवत्प्रजाकी सेवा करके अपने जन्मको सफल कर लिया । ॐ क्योंकि जीवोंकी सेवा ही भगवान्की सेवा है ॥ २१ ॥

ॐ शास्त्रमें कहा है कि:—

न मे पूज्यश्चतुर्वेदी पूजयन्भक्तिवर्जितः ।

न मे पूज्यः सदा चासौ मङ्गलः श्वपचोऽपि वा ॥

तस्मै देयं ततो प्राण स च पूज्यो यथा एहम् ।

अर्थात् भगवान् कहते हैं कि यदि भक्तिरहित चतुर्वेदवाक्य भी हो तो वह अपूज्य है और मेरा भक्त श्वपच हो तो भी पूज्य है । मेरे भक्तको ही देना चाहिये और उमीरते धर्मोपदेश ग्रहण करने चाहिये । भगवत्जनकी पूजा उस प्रकारसे करनी चाहिये जैसे कि मेरी—भगवान्की । यह खोह बैरगणोंके धीसम्प्रदायके पूर्वाचारों द्वारा रची हुई है ।

ऐसे ही भटविषमनिमें भी भगवन्-जनके उपाय धरना और प्रेम करनेकी भावना हुई है । यथा:—

ऊर्जः सहा यत्र च तत्र काले सम्प्रापतुर्दर्शनमीश्वरस्य ।
शोकोर्जनात्सोऽभवदूर्ज एव तद्दुःखसंसोढृतया सहाः सः ॥२२॥

कार्तिक और मार्गशीर्ष यह दो मास उस समय भगवान्‌के दर्शन नहीं कर सके अतः शोकाधिक्यसे कार्तिका नाम ऊर्ज पडा और उस दुःखको सहनेके कारण ही मार्गशीर्षा नाम सहा पड गया ॥ २२ ॥

एवं शनैः प्राप स सूतिमासो नाम्नाश्विनोऽसौ जगतां नमस्यः ।
यस्मिन्वरा भागवती नृमूर्तिर्मोदाद्भवं भाग्यवतीं चकार ॥२३॥

इस रीतिले धंरे-धीरे जन्ममास—आश्विन मास आया जिसमें भगवान् की उस मनुष्य मूर्ति ने दसुन्धराको भाग्यवती बनाया ॥ २३ ॥

श्री विक्रमाब्दे सुपदे शराक्षिप्रहेनसंरयामित ऐश्वरी सा ।
कृष्णे च पक्षेऽवततार यर्हि सा द्वादशी रेज उदप्रतेजाः ॥२४॥

आश्विनमास, कृष्णपक्ष, द्वादशीतिथि और विक्रमका १९२५ सब्द या जिसमें भगवान्‌की उस मूर्तिना—श्रीमोहनदास गाधीना अवतार हुआ ॥ २४ ॥

सर्वाननिष्टाञ्छमयिष्यमाणो लोकांश्च भद्राण्युपनेष्यमाणः ।
भूमिं पुनीतेऽय जगन्त्रियासस्तुङ्गैस्तरङ्गैर्विततस्ततोऽग्निः ॥२५॥

सर्व अनिष्टोको शान्त करनेकेलिए तथा लोगोंको कल्याण देनेकेलिए आज जगदाधार भगवान् पृथिवीपर अवतीर्ण हो रहे हैं अतः समुद्र अपने विशाल तरङ्गोंसे विलुप्त हो गया ॥ २५ ॥

मद्भक्तजनचात्सल्यं पूजायां चानुमोदनम् ॥
स्वयमभ्यर्चनं चैव मद्गर्थं दम्भवर्जनम् ॥
मत्कथाश्रवणे प्रीतिः स्वरनेग्राहविक्रिया ।
ममानुसरणं नित्यं यद्य मां नोपजीवति ॥
भक्तिरष्टप्रिधा होया यस्मिन्मलेच्छेऽपि वर्तते ।
स विप्रेन्द्रो मुनिः श्रीमान् न यतिः स च पण्डितः ॥

श्रीभारताभीलमहार्णवस्य संशोषणाय क्षमता दधानः ।
गृह्णाति विष्णुर्जनिमित्यहृष्यन्सन्तो विनिर्धूतमनःकृपायाः ॥२६॥

भारतके दुःखसागरको सुगामेमे समर्थ, भगवान् जन्म ग्रहण कर रहे हैं, यह जानकर निर्मल मन वाले सज्जन प्रसन्न हो गये ॥ २६ ॥

निर्वुद्धितासन्तमसप्रवृद्धवाधातित्राधापरिकल्पनाय ।
चिद्राक्षिरेपोऽवतरत्यवन्वामित्यर्तिभाजा हृदि मोद आसीत् ॥२७॥

दुःखिजनोको इसलिये आनन्द हुआ कि अज्ञानरूपः अन्धकारकी बाधाको बाधा पहुँचानेकेलिए अर्थात् उसका नाश कानेकेलिए इस जानभण्डारका अवतार हो रहा था ॥२७॥

नानाऽपराधं हरिमन्दिरेषु चेपा प्रवेशः प्रतिपिद्ध आसीत् ।
नेपा ममो हर्षभरो न वित्ते संचिन्त्य सर्वोद्धृतिकृत्प्रसूतिम् ॥२८॥

बिना अपराधके ही जिन लोगोका भगवान्के मंदिरमे जाना निषिद्ध था, उन्होंने जब सोचा कि उनके उद्धार करनेवाले महापुरुषका जन्म हो रहा है, तब उनका आनन्द उनके मनमें नहीं समाया ॥ २८ ॥

स द्वारकाधीश उपेत्य पूजा योऽगात्प्रसादं खलु चार्मिकरीम् ।
श्रीरामचन्द्रः शवरीश्वरोऽपि मायामयोऽनाय इयाय हर्षम् ॥२९॥

जो श्री कृष्णजी चमारकी पूजाको ग्रहण करके प्रसन्न हुए थे और जो रामजी भिहडनी शवरीके स्वामी थे, मायासे परे होते हुए भी मायामय थे दोनों † हर्षको प्राप्त हुए ॥ २९ ॥

औदार्यवित्तप्रथितो महेशो धत्ते कुवेपं यदभीष्टसिद्धयै ।
तत्पूर्तये श्रीहरिरेष एतीत्येवं विचिन्त्यातिमुदं प्रपेदे ॥३०॥

ॐ भगवान् श्रीकृष्णने एक समय साक्षात् प्रकट होकर चमारभक्तके हाथका पकाया हुआ भोजन स्वीकार किया था। यह बात आबालवृद्ध प्रसिद्ध है।

† भगवान् राम और भगवान् कृष्ण ये दोनों भी सर्वोद्धारक हैं

मलिनवेपकी भी पूजा करना लोग सीखें, इसी विचारसे श्रीमहादेवजीने कुवेप-जटाजूट-मुण्डमाला, भस्म आदि धारण किया है। श्रीशिवजी यह विचारकर प्रसन्न हुए कि जिस अभीष्टकी सिद्धिकेलिए-अष्टदशतानिवारण-के लिए मैंने यह कुवेप धारण किया है, उसीकी पूर्तिकेलिए श्रीविष्णु-भगवान् भी आ रहे हैं ॥ ३० ॥

स्युः कञ्चरा वा विमलार्थका वा निर्णिक्तवासः पिहिताङ्गका वा ।
स्युर्भूरिधूरिश्रितनक्तका वा तेषां समेषां स हरो दयालुः ॥३१॥

चाहे कोई मलिन हों, चाहे निर्मल मनवाले हों, चाहे खूबधुलेहुए कपड़े कोई पहिने हुए हों, चाहे शर्दगुन्वारसे भरे हुए चियड़े ही कोई पहिने हों, भगवान् शिवजी सबपर दयाभाव रखते हैं ॥ ३१ ॥

और महाभागंधीजीभी सर्वोद्धारक ही होनेवाले हैं। अतः वह दोनों प्रसन्न हुए थे।

† पद्मपुराणमें लिखा है:—

प्रत्युद्गम्य प्रणम्याथ निवेद्य कुशविष्टरे ।
पादप्रक्षालनं कृत्वा तत्तोयं पापनाशनम् ॥
शिरसा धार्य पीत्वा च वन्यैः पुष्पैरथार्चयत् ।
फलानि च सुपक्वानि मूलानि मधुराणि च ॥
स्वयमासाद्य माधुर्यं परीक्ष्य परिभक्ष्य च ।
पश्चान्निवेदयामास राघवाभ्यां दृढव्रता ।
फलान्यास्वाद्य काकुत्स्थस्तस्यै मुक्तिं परां ददौ ॥

अर्थात् शयरी अष्टदशतानिमें पैदा होकर भी वैदिक तपस्विनी थी और भगवान् श्रीरामने उसका जलफल सब कुछ स्वीकार किया था। यद्यपि यहाँके श्लोकसे यह प्रगीत होता है कि भगवान् रामने शयरीके जूटे फल खाये थे। परन्तु श्रीशारंगीश्वरामायणमें ऐसा नहीं है। यहाँ भी अर्थ करना चाहिये कि यह खाकर, परीक्षा करके वृक्षसे फल तोड़ लयी थी और उन्हे भगवान्ने स्वीकार किया।

ये ब्राह्मणा ये च भुजाधिजाता ये चोरुजाता अपि येऽङ्घ्रिजाता ।
ये घातिशूद्रा विविधापराधाः सर्वान्दूरो वीक्षत एकदृष्टया ॥३२॥
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र तथा अनेक अपराध
वालोंको भी श्रीशङ्करजी एक ही दृष्टिसे देखते हैं ॥ ३२ ॥

तदर्शनस्पर्शनभक्तिभाजां वाधाप्रदाने कथमस्य हर्षः ।
लोकप्रणीतानयमार्जनाय समागतं श्रीहरिमन्वमंस्त ॥३३॥

ऐसे समदर्शां शिवजीके दर्शन और स्पर्शरूप भक्तिकरनेवालोंको
बाधा पहुँचानेमें उनको हर्ष कैसे हो सकता था ? अत एव लोगोकी
अनीतिका मार्जन करनेकेलिए भगवान्के अवतारका उन्होंने अनुमोदन
किया ॥ ३३ ॥

ये दुर्जनाः स्वार्थपरायणा वा ये वा परार्थाभिहतिप्रसन्नाः ।
मायाभ्यवस्कन्दनतुल्लचित्तास्तेशोकसम्पातमुपार्जिजन्त ॥३४॥

जो दुष्ट थे, स्वार्थां थे, परार्थहानिसे प्रमन्न होनेवाले थे, मायाके
जाटसे व्यथितचित्तवाले थे, उन लोगोको इस अवतारसे बड़ा मारी
शोक हुआ ॥ ३४ ॥

येषां न विद्या न तपःप्रभायो धर्मो न धृत्तिर्न रतिर्विवेके ।
ते पापपङ्कातिकलङ्कितास्तु शोकानले चिक्षिपुरात्मचित्तम् ॥३५॥

जिनके पास न विद्या थी, न तप था, न जिनकी धर्ममें धृति थी
और न विवेकमें रति थी ऐसे पापी लोगोंने शोकानलमें अपने मनको
डाल दिया ॥ ३५ ॥

दुर्मैथसां श्रीहरिभक्तिगङ्गास्पर्शद्रुहां मूढधियां जनानाम् ।
पापण्डिनां चापि पराचित्तानां सन्तापपापं प्रबलं बभूव ॥३६॥

जो दुष्ट बुद्धिवाले थे, जो भगवद्भक्तिगङ्गास्पर्श भी नहीं
करते थे, जो मूर्ख थे, पापण्डो थे, दूसरोसे जो पल रहे थे ऐसे निकम्मोंको
बड़ा मारी सन्ताप हुआ ॥ ३६ ॥

नैत्येन शोभां महतीमपुष्पान्पृथ्वीरुहाः सा सरसा रसाऽऽसीत् ।
पात्रं प्रवृद्धं सरितां प्रकृष्टं याता दुरध्वा अपि सत्यथत्वम् ॥३७॥

श्रीमहात्मागाधीजी के जन्मसे वृक्षोंमें नीलिमा आ गयी । पृथिवी सरसा बन गयी । नदियोंका पाट-विस्तार प्रमन्न होकर बढ गया और सरार मार्ग भी अच्छे बन गये ॥ ३७ ॥

तस्मिन्दिने श्रीहरिरात्तवात्यः श्रीपुत्तलेरुत्तमभाग्यसीम्नः ।
सृनुत्वमापद्विपदा पदानां विध्वंसनं तत्र मुद्रामपुर्याम् ॥३८॥

उस दिन भगवान्ने बालभाव स्वीकारकरके परमभाग्यशान्तिनी श्रीपुत्तलीबाईका पुनत्व मुद्रामपुरीमें स्वीकार किया । यह पुनत्व सर्व आपत्तियोंके स्थानोंका नाश करनेवाला है ॥ ३८ ॥

स्वप्रायमानं किल भारतीयं भाग्यं जजागार पुनः क्षणेन ।
स्वाधीनताया वदने च हास्यमास्ये च दुःखं परतन्त्रतायाः ॥३९॥

स्वप्रवत् प्रतीयमान भारतवर्षका भाग्य पुनः क्षणभरमें जागरित हो गया । स्वाधीनताके मुखपर हँसी और पराधीनताके मुखपर विषाद जागरित हुआ ॥ ३९ ॥

केनापि पुण्येन पुराजितेन श्रीकर्मचन्द्रो महतां महीयान् ।
आपत्पितृत्व स्पृहणीयमेवं मर्त्यैस्तथा निर्जरसां समाजैः ॥४०॥

ऐसे पितृत्वको, जिसकी स्पृहा सभी मनुष्य और सभी प्रकारके देवता करते हैं, श्रीकर्मचन्द्रजीने किसी पूर्वजन्मके पुण्यसे ही प्राप्त किया था ॥ ४० ॥

नो शैशवं यस्य न यौवनं नो स्त्रीत्वं न पुस्त्वं न नपुंसकत्वम् ।
वृद्धिक्षयाभ्यां रहितश्चिदात्मा लीलावपुष्पाब्धिच्छुर्ता प्रपेदे ॥४१॥

जिस चिदात्माकी न तो शैशवावस्था है, न युवावस्था है, न स्त्रीत्व है, न पुरुषत्व है और न नपुंसकत्व है, जो वृद्धि और क्षयसे रहित है, वह लीलाशरीर धारण करके शिशुभावको प्राप्त हुआ ॥ ४१ ॥

ॐ आकण्य श्रुतिमुखदां प्रवृत्तिमिष्टां
 तत्काले मुखभरविस्मृतस्वकोऽसौ ।
 श्रीगांधीं श्रियमधिकां कथा क्यतारी-
 दाहय द्रुतमतिदीनरुणलोकान् ॥४२॥

इति सर्वतत्प्रत्यतत्परमहंसपरिवाजकस्यामिध्रीमद्गवदाचार्यमहाराज-
 प्रणीते भारतपारिजाते
 द्वितीय सर्ग

‡ श्रीपद्मागाधीने—श्रीकर्मचन्द्रगाधीने जब कर्णमुखद, इस समाचार-
 को—पुत्रजन्मको सुना तो उसी समय वह आत-द और हर्षसे अपनेको
 भूल गये । शीघ्र ही अत्यंत दीनों और रोगियोंको बुलाकर नून र्गमति
 उ-होंने टटा दी ॥ ४२ ॥

इति सर्वतत्प्रत्यतत्परमहंसपरिवाजकस्यामिध्रीमद्गवदाचार्यमहाराजप्रणीते
 न्योपनभारतराष्ट्रभाषाटीकामहिते
 भारतपारिजाते द्वितीय सर्ग



ॐ प्रदक्षिणी एवम् ।

‡ श्रीकर्मचन्द्रगाधीनेको ही लोग कथा गाधी बढते थे ।

तृतीय सर्गः



श्रद्धाधरणिशौभाग्यधात्रा पित्रा क्रमेण सः ।

वेदवाणीपरायत्तैः संस्कारैः संस्कृतः सुतः ॥१॥

श्रद्धारूपधरणीके शौभाग्यविधाता अर्थात् श्रद्धात्रु पिता श्रीकर्मचन्द्रजी-
ने क्रमसे सब संस्कार अपने पुत्रके किये ॥ १ ॥

कान्तसंहननस्यास्य पिता नामाकरोन्मुदा ।

लक्ष्मीमूहिष्यते यस्मात्तस्मान्मोहन इत्यसौ ॥२॥

यह बालक लक्ष्मी—याह्य और आभ्यन्तर शोभाको धारण करेगा
अतः पिताने इस सुन्दरशरीरवाले बालकका नाम लक्ष्मीमोहन रखा ॥ २ ॥

अथवा स्वसदाचाराद्विचाराद्दुत्तमोत्तमात् ।

सर्वेषां मोहनादेप सुनाम्ना मोहनोऽभवन् ॥३॥

अथवा यह बालक अपने आचार और उत्तमोत्तम विचारोसे सबको
मोहित करेगा अतः इसका नाम मोहन पड़ा ॥ ३ ॥

❀ मोहन शब्द मा + उहनसे बना है । माका अर्थ है लक्ष्मी ।
उहनका अर्थ है प्राप्त करनेवाला । लक्ष्मीको जो प्राप्त करे उसे मोहन
कहते हैं । लक्ष्मीका अर्थ है शोभा । शोभा दो प्रकारकी होती है ।
याह्य और आभ्यन्तरिक । सद्विचार और सङ्गति यह आभ्यन्तरिक
शोभा है । आचरित्वैतिष्ठ्य, सद्गोष्ठी, परोपकार आदि याह्य शोभा है ।
तात्पर्य यह निकला कि जिसके विचार उत्तम हों, व्यवहार उत्तम हों,
शरीरकी रचना उत्तम हो, सङ्गुरपेकि ही धीचमं जो रहता हो, जो
परोपकारमय जीवन व्यतीत करता हो उसे मोहन कहते हैं ।

ज्ञानधाराधराम्रयोऽसौ सर्वसम्पत्समन्वितः ।
उपनिन्द्ये चिदात्मानं जनकः स्वतनूजनिम् ॥४॥

विद्वान् और सम्पत्तिशाली पिताने अपने पुत्रका यशोपवीत संस्कार
किया ॥ ४ ॥

सम्प्राप्ते पञ्चमे वर्षे मायाप्रन्थिविमोक्षणम् ।
कावागांधी स्वपुत्रस्य विद्यारम्भं व्यधीघपत् ॥५॥

श्रीपुत कावागांधीजीने ५ वें वर्षमें अपने पुत्रका विद्यारम्भ संस्कार
किया ॥ ५ ॥

शैशवं क्रीडया नीतं नापीतं मोहनेन तत् ।
क्रीडासक्तसहाय्यायिवालानामेव सद्गमात् ॥६॥

मोहनने खेलाडी सहाय्यायियोंके संगसे कुछ पढ़ा लिखा नहीं और
बाल्यावस्था ऐसी ही बिता दी ॥ ६ ॥

सप्त वर्षाण्यतीतानि मोहनस्यायुपस्तदा ।
मुकुमारकुमारस्य सुन्दरे पोरबन्दरे ॥७॥

पोरबन्दरमें कुमार मोहनके ऐसे ही सात वर्षे बीत गये ॥

फर्मचन्द्रोऽस्ततन्द्रोऽसौ विजहौ पोरबन्दरम् ।
राजफोटं गतो राजसभासभ्यो बभूव सः ॥८॥

आलरयान्य—पुरुषार्थी फर्मचन्द्रजीने पोरबन्दरफो छोड़ दिया
और वहाँ राजसभामें राजसभाके गम्य बन गये ॥ ८ ॥

मोहनोऽपि समानीतः फर्मचन्द्रेण गांधिना ।
तत्रैव पाठशालायां नियमेन प्रवेक्षितः ॥९॥

० श्री० महात्माजीने पिता फर्मचन्द्रजीको ही लोग कावागांधी
कहा करते थे ।

श्रीकर्मचन्द्रजी अपने साथ ही मोहनको भी लेते गये और उन्होंने उसे पाठशालामें प्रविष्ट करा दिया ॥ ९ ॥

शिक्षकाणां मनास्येष शिष्टाचारेण मोहयत् ।
मोहनो नामधेयं स्वं चारितार्थ्यमुपानयत् ॥१०॥

शिक्षकोंके मनोंको शिष्टाचारसे मोहित करते हुए मोहनने अपने नामको चरितार्थ कर दिया ॥ १० ॥

- घण्टावादनवेलाया पाठशालामुपागमत् ।
अन्तिमे घण्टिकानादे गृहमेवागमत्सदा ॥११॥

मोहन सदा घण्टा बजनेके समय स्कूलमें जाते थे और छुट्टीका घण्टा बजते ही घर चले आते थे ॥ ११ ॥

न कदाचिच्चकारायं कालातिक्रममध्वनि ।
विज्ञानस्त्रिव कालस्य शैशवेऽपि महार्घ्यताम् ॥१२॥

कभी भी उन्होंने मार्गमें समय नहीं बिताया । मानो लटकपनमें भी वह समयकी बहुमूल्यताको जानते थे ॥ १२ ॥

हरिश्चन्द्रमुपाख्यानं नाटकीये च मन्दिरे ।
द्रष्टुमाज्ञापित. क्वापि पितृभ्यां मोहनो गतः ॥१३॥

एक समय मातापिताकी आज्ञासे मोहन नाटकशालामें हरिश्चन्द्र नाटक देखने गये ॥ १३ ॥

तदा समापतं वस्तु नाटकीयं विलोम्य स ।
स्फुटं स्रोद् भूपस्य कष्टं तथ्यं विभाज्य च ॥१४॥

उस समय नाटकमें उस उपाख्यानको देखकर, थीर हरिश्चन्द्रके कष्टोंको सत्य मानकर वह स्तब्ध रोये ॥ १४ ॥

⊗ कितने लोगोंका मत है कि हरिश्चन्द्रका समस्त उपाख्यान

हरिश्चन्द्रो यथा सेहे कष्टं सत्यस्य रक्षणे ।

सहेरन्नपरे किं नेत्येष तर्हि परामृशत् ॥१५॥

उन्होंने उस समय विचार किया कि यदि हरिश्चन्द्रने सत्यकी रक्षामें इतने कष्ट सहन किये तो अन्य लोग भी वैसेही कष्ट, सत्यकी रक्षामें क्यों न सहें ? ॥ १५ ॥

आगत्य पाठशालातोऽभ्यस्याऽनभ्यस्य वा क्वचित् ।

पाठ्यानि पुस्तकान्येष भवनेऽन्यदवाचयत् ॥१६॥

मोहन पाठशालासे आकर कभी पाठ्यपुस्तकोंका अभ्यास करते, कभी न करते और घरपर अन्य पुस्तक बर्चा करते थे ॥ १६ ॥

श्रवणपितृभक्त्याऽयं पुस्तकं कर्हिचिन्मुदा ।

वाचयामास सन्तोष गमयामास मानसम् ।

किसी दिन वह श्रवणपितृभक्ति नामक जादुकी बड़े प्रेमसे पढ़कर बहुत सन्तुष्ट हुए ॥ १७ ॥

वीवधे स्थापयित्वा च मातरं पितरं क्वचित् ।

श्रवणं नीतवन्तं स वाचचित्रे व्यलोकत ॥१८॥

एक दिन शीशामें चित्र दिखानेवाले तमाशगारने उन्हें चित्र दिखाये । उसमें वैश्वरमें मातापिताको ले जाते हुए श्रवणको उन्होंने देखा ॥ १८ ॥

कोशलेशस्य बाणेन घातिते ऽश्रवणे तयोः ।

अन्धयोः स विलापानामक्षराण्यमहीत्स्फुटम् ॥१९॥

सायता के प्रचारनेजिये भरिपत है । कल्पित हो मोभी, यह उत्कृष्ट-कल्पना ही भारतीयमन्त्रिकके उत्कर्षकी समर्थिका है ।

इसितने ही वाक्योसे यह प्रतीत होता है कि अन्धमातापिताके बाल्यका नाम श्रवण नहीं था प्रसुत अन्धपितृका ही यह नाम था । भय रूप यह बालक श्रवणकुमार बड़ा जाता है ।

यहोसे लेकर ३४ वें श्लोकतककी निया एक है और वह ३४ वें श्लोकमें ही भूपयामासुः यह नियापद है ।

मतवाले छाथी, बड़ते मदवाले निर्भद हाथियोंके बचे, दग्धिनियों और बड़े-बड़े गजराज ॥ ३१ ॥

तुङ्गास्तुरङ्गमा रथ्या विनीताश्च घनायुजाः ।

पारसीकाः सहेपाढ्या आजानेयाः सहस्रशः ॥३२॥

बनायुदेशके, पागस देशके बड़े बड़े कुलीन और सुशिक्षित घोड़े दिनदिनाते हुए हजारों, रथमें जुते हुए और बिना जुते हुए उस समय वहाँ आये ॥ ३२ ॥

सौराष्ट्रसंभवा वंद्या दर्शनीया महावल्गः ।

गन्धर्वा वडवा हृष्टाः किशोराश्च सहस्रशः ॥३३॥

सुन्दर सुन्दर काटियावाडी घोड़े व घोड़ियों और घोड़ोंके बचे सहस्रोंकी संख्यामें उस समय वहाँ आये ॥ ३३ ॥

लसत्पताभाः सुर्या गवोद्धा नयनाहराः ।

काशागांधिगृहाभोगं भूपयामासुरञ्जसा ॥३४॥

जिनपर पताभाएँ लहरा रही थीं ऐसे रथ, मनोहर बेलोंकी जोड़ियों, यह सब श्रीकर्मचन्द्रगार्धीके मकानके अहातेको सुशोभित कर रहे थे ॥ ३४ ॥

चूर्णकुन्तलशोभाढ्यः काकपक्षसुशोभितः ।

अञ्जनाञ्चितदीर्घाक्षरदिम्पुञ्जप्रकाशितः ॥३५॥

- यहाँ से ४० वें श्लोक तकका ४० वें श्लोकमें आये हुए आसीत् नियापदके साथ सम्बन्ध है ।

टेढ़ेबालोंसे और काकपक्षसे सुशोभित, अजनवाली नदी-पड़ी आँसोंके तेजसे प्रकाशित—॥ ३५ ॥

तिलकं मस्तके न्यस्तं कुण्डले कर्णयुग्मके ।

पवित्रोरःस्थले शुभ्रा रम्या प्रालम्बिका दधत् ॥३६॥

मस्तकमें ऊर्ध्वपुष्ट्र; फानोमें कुण्डल और छातीपर सुन्दर लंगी सोनेकी माला धारण किये हुए—॥ ३६ ॥

अद्भुलिं दीपयन्स्वस्य महस्योमिक्रया तदा ।

दधानः कङ्कणे शुभ्रे दीनोद्वरणदस्तयोः ॥३७॥

बहुमूल्य अद्भुठीसे अपनी अद्भुलिमें प्रकाशित करते हुए दीनोद्वारक दोनों हाथोंमें कङ्कण पहिरे हुए—॥ ३७ ॥

निष्प्रयाणिच कौशेयमुष्णीपं मस्तके वहन् ।

दुकूलं धौदवस्त्रं च युतकं च महाधनम् ॥३८॥

शिरपर नयी रेशमी पगड़ी, रेशमां घोली और बहुमूल्यनाले जामा = युतकको धारण किये हुए—॥ ३८ ॥

सौराष्ट्रजन्मनि प्रोच्चैरश्वे यत्नां करान्तरे ।

गृह्णन्विश्वमनोहारि मन्दहास्यं विभासयन् ॥३९॥

काठियावाड़ी घोटेपर, लगाम हाथमें लेकर, विद्वमनोहर मन्द हास्य करते हुए ॥ ३९ ॥

महाभिलापः कस्तूरपाणिप्रहणकर्मणि ।

मोहनो मोहनो हासीत्स गच्छब्दवशुरालयम् ॥४०॥

धीकरूरबाईके पाणिप्रहणकी इच्छावाले, समुरार जाते हुए मोहन, निश्चय ही सबको मोहित कर रहे थे ॥ ४० ॥

अनयरागुणैर्वन्दो मोहनो विदयमोहनः ।

अघातारि ह्याशशु योग्यानां करपल्लवैः ॥४१॥

प्रशस्तगुणोंसे वन्दनीय, विदयमोहन मोहनको यहाँ पर योग्य लोगोंने अपने हाथोंसे शीघ्र घोडेसे उतार लिया ॥ ४१ ॥

शनैः शनैः पदन्यासं व्यधाशाम्बिचारवान् ।

शीघ्रता नैव कुन्वापि क्षोभाया आस्वदं भवेत् ॥४२॥

दशरथके चागोसे श्रवणके मारे जानेपर, उन अन्ध मातापिताके विलापको उन्होंने रूय श्रवण किया ॥ १९ ॥

श्रावणेनेव पुत्रेण नूनं भाव्यं मयाऽप्यथ ।

इत्येवं बाल्यकालेऽसौ मनसा समकल्पयत् ॥२०॥

श्रवणके समान ही मैं भी बनेँगा इस प्रकारसे बचपनमें मोहनने सङ्कल्प किया ॥ २० ॥

हारमोनियमित्याख्ये वादित्रे च पुनः पुनः ।

अन्धयोर्दुःखिमनसोरक्षराणि स गीतवान् ॥२१॥

हारमोनियम पर मोहन उसी अन्ध मातापिताके विलापके गीतको कईबार गाया करते थे ॥ २१ ॥

व्यापारैरेवमन्यैः स सत्यनिष्ठामपूपुपत् ।

मातापितृपदार्चाया आदर्शं समपूपुजत् ॥२२॥

इन कामोंसे तथा अन्य व्यवहारोंसे भी उन्होंने सत्यनिष्ठाका रक्षण किया । मातापिताकी सेवाके आदर्शको भी महत्त्व दिया ॥ २२ ॥

भविष्ये प्रभविष्णूनां परिपाठ्या गुणागमः ।

भवत्येवात्र दृष्टान्तो मोहनोऽयं हि गृह्यताम् ॥२३॥

होनहार बालकोंको क्रमसे गुणोंकी प्राप्ति होती रहती है इसमें मोहन ही उदाहरण है ॥ २३ ॥

शान्तिश्चे गुरुशुश्रूषा दीनसेवाऽस्य मौनिता ।

सत्यनिष्ठा मनःशुद्धिरासन्बालसखा इव ॥२४॥

शान्ति, मातापिताकी सेवा, दीनोंकी सेवा, मौन रहना, सत्यनिष्ठा और मानसिक पवित्रता ये सब मोहनके बालमित्र समान थे ॥ २४ ॥

पुरा काले तु सर्वेषां शरदां पञ्चविंशतिम् ।

ब्रह्मचर्यं ध्रुवं पाल्यमासीच्छ्रुतिपथान्वितम् ॥२५॥

प्राचीन समयमें २५ वर्ष तक वैदिकमर्यादाके अनुसार ब्रह्मचर्य
सम्पन्नो पालना पड़ता था ॥ २५ ॥

अष्टवर्षा भवेद्द्वीरीत्यादिव्याख्यानुसारतः ।

भारते बालदान्पत्यमनिष्टं वर्ततेऽधुना ॥२६॥

आजन्तुह भारतवर्षमें “अष्टवर्षा भवेद्द्वीरी” इत्यादि आधुनिक
पण्डितोंके क्चनानुसार बचपनमें ही अनिष्टकारक पतिपत्नी भाव वर्तमान
है ॥ २६ ॥

रूढ्या हि तथा रूढ्या पितरौ पुत्रवत्सलौ ।

वर्षं त्रयोदशे बालं सपत्नीकं प्रणिन्यतुः ॥२७॥

इसी प्रचलितरूढिसे मातापिताने मोहनको १३ वर्षकी अवस्थामें
विवाहित कर दिया ॥ २७ ॥

अन्तिमो मोहनः पुत्रस्तेन द्रविणराशयः ।

व्ययिता मुक्तहस्ताभ्यां पितृभ्यामत्र कर्मणि ॥२८॥

मोहन अन्तिम पुत्र थे अत एव मातापिताने दिल खोलकर रूप
विवाहकार्यमें व्यय किया ॥ २८ ॥

आगच्छतोपविशता तथा पचतभृञ्जता ।

अभीतपिषता चासीत्क्रिया द्वित्रैष्वहस्वपि ॥२९॥

आओ, बैठो, पनाओ, राओ, पीओ, दो तीन दिनोंतक यही क्रिया
शेती रही ॥ २९ ॥

दूराद्दूरतरादायँस्लोकाः परिणयोत्सवे ।

सादराः सादरं सर्वे नूनमामन्त्रितास्तदा ॥३०॥

इस विवाहमें सादर सभसे आमन्त्रण भेजा गया था अत एव दूर
दूरसे लोग बड़े आदरके साथ उस समय आये थे ॥ ३० ॥

गजा महोत्पटा मञ्चा निर्मदाः करिषारकाः ।

पेनुषाः सपरिष्कारा गजनायाधिरक्षिताः ॥३१॥

मुन्दरविचारवाले मोहन धीरे-धीरे चलने लगे क्योंकि शीघ्रता वही भी शोभा नहीं देती है ॥ ४२ ॥

श्रौतेन विधिना तत्र श्रौतमार्गप्रवर्तकः ।

मोहनः श्रीलक्ष्मुरदेव्याः पाणिमपीडयत् ॥४३॥

वेदमार्गप्रवर्तक श्रीमोहनने वैदिक विधिसे श्रीकस्तूरदेवीका ❀ पाणि-
ग्रहण किया ॥ ४३ ॥

तातिका घानिकाः शिल्पिश्रेष्ठा दौन्दुभिका अलम् ।

मार्दङ्गिकाश्च निपुणं स्वकलाः समदर्शयन् ॥४४॥

उस समय तातिक, घानिक, दौन्दुभिक, मार्दङ्गिक आदि शिल्पियोंने
भले प्रकार अपनी अपनी कलाएँ दिखायीं ॥ ४४ ॥

मनोहत्यागताः सर्वे मोदकान् प्रत्यवस्य ते ।

कणेहत्य पयः पीत्वाऽथाऽलं कृत्वौदनं गताः ॥४५॥

आये हुए सब लोग खूब लड्डू खाकर, दूध पीकर और मोजन
समाप्त करके तब गये ॥ ४५ ॥

वालोद्वाहविनाशायोपयमं शैशवेऽकरोत् ।

नाशयन्ति जना नूनं विषं पीत्वा विषाशरम् ॥४६॥

खालबिवाहका नाश करनेके लिये ही मोहनने अपना बालविवाह
स्वीकार किया । जगत्में भी देखा जाता है कि विष खाकर लोग विषके
प्रभावको नष्ट करते हैं ॥ ४६ ॥

दाम्पत्यविधिना रेमे ततो बालोऽपि मोहनः ।

धर्मपत्न्या तया सार्धं भवः केन पराजितः ॥४७॥

श्री मोहन बालक थे तो भी अपनी धर्मपत्नी श्रीकस्तूरबाईके साथ

❀ प्रियाभ्यास और विवाह यह दोनों बातें केवल हिन्दुसत्सारमें
ही हो सकती हैं । महात्मा गांधी

दाम्पत्यभावसे बर्तने लगे । यदि कोई शङ्का करे कि भगवदवतारको यह शोभा नहीं देता है तो उसका उत्तर है कि “ससारको किसने जीता है !” ॥ ४७ ॥

यस्मिन्कस्मिन्समाचारपत्रेऽपाठीत्स कस्यचित् ।

निबन्धमतिनिर्वन्धं दर्शयन्तं शुचित्रते ॥४८॥

श्रीमोहनने किसी समाचारपत्रमें, किसी लेखकका पवित्रताके विषयमें आग्रहपूर्ण एक लेख पढ़ा ॥ ४८ ॥

एकपत्नीव्रतं सर्वैः पतिभिः पालयतामिति ।

पपाठ तत्र बालोऽसौ सावधानमना ननु ॥४९॥

उस लेखमें बालक मोहनने बहुत सावधानीके साथ पढ़ा कि सब पतियोंको एकपत्नीव्रत पालन करना चाहिये ॥ ४९ ॥

तदानीमेव तेनैतद्व्रतं सङ्कल्पपूर्वकम् ।

उच्चावचं विचार्यैव स्वीचक्रे धर्मसाधकम् ॥ ५० ॥

उसी समय श्रीमोहनने सब विचार करनेके पश्चात् धर्मसाधक उस एक पत्नीव्रतको सङ्कल्पपूर्वक ग्रहण किया ॥ ५० ॥

हाइस्कूले समारब्धवामधीति सोऽजहान्नहि ।

प्रदास्यः सर्वदाचासीच्छिक्षकाणां मनस्विनाम् ॥ ५१ ॥

विवाहके पश्चात् भी मोहनने हाईस्कूलका पढ़ना नहीं छोड़ा । मनस्वी शिक्षकों की दृष्टिमें उनकेलिये बहुत प्रतिष्ठा थी ॥ ५१ ॥

सत्याचारे सदाचारे प्रेमाधिक्यं प्रणीतवान् ।

न सेहेऽसावुपालम्भं कस्यचित्कर्हिचित्कचित् ॥ ५२ ॥

सत्य और सदाचारमें मोहनका प्रेम अधिक अधिक बढ़ता गया । कभी भी उन्होंने किसीका उलाहना नहीं मढ़ा ॥ ५२ ॥

कस्यचिद्वोप्रियस्यैव दुस्सद्भाद् दुर्गदिप्रदात् ।

प्रारेभे मोहनं पातुं निदृष्टा भूमवर्षिकाम् ॥ ५३ ॥

श्रीमोहनने किसी अपने सम्बन्धीके दुष्ट ससर्गसे अत्यन्त छ निवृष्ट बीड़ीया पीना शुरू किया ॥ ५३ ॥

एकदा वर्तिकाभावे द्रव्याभावे च मोहनः ।

तस्य दुष्टस्य साहाय्यादात्मघाते मनोदयो ॥ ५४ ॥

एक समय श्रीमोहनके पास न तो बीड़ी थी और न उसके लिये पैसे थे । अतः उस दुष्टसम्बन्धीकी सहायतासे † आत्मघात कर डालनेका उन्होंने विचार किया ॥ ५४ ॥

संगृह्योन्मत्तबीजानि बालकाभ्यां निशामुखे ।

केदारमन्दिरं गत्या घृतदीपः समर्पितः ॥ ५५ ॥

उन दोनों बालकोंने—श्रीमोहन और उनके सम्बन्धी साथीने—सायङ्काल घतूरेके बीजको लेकर राजकोटमें केदारमन्दिरमें जाकर केदारजीको घीका दीया जलाया ॥ ५५ ॥

छ मेरे काराको बीड़ी पीनेकी आदत थी । उनको और अन्योको धूँआ निकालते देखकर हमें भी वैसी ही इच्छा हो गयी । पैसे तो मिलते नहीं थे अतः काका बीड़ी पीकर जब पैक दें तो उसी जूटे टूँटेको हमने चुराना शुरू किया । लेकिन इससेसे धूँआ अधिक नहीं निकलता था । अतः नौकरके पैसोकी चोरी शुरू की । एक सप्ताह ऐसा ही चला ।

। बड़ी उम्रमें बीड़ी पीनेकी मुझे कभी इच्छा ही नहीं हुई । और मैं सदा मानने लग गया कि बीड़ी पीनेकी आदत जगली, गन्दी और हानिकारक है । महात्मा गांधी ।

† हमने सुना कि एक प्रकारका एक वृक्ष होता है, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसकी टहनियाँ भी बीड़ीके समान ही सुलगती हैं और पियी जा सकती हैं । हम दोनों मित्र उसीको पीने लग गये । परन्तु हमको सन्तोष नहीं हुआ । हमारी पराधीनता हमको खटकती थी । बड़ोड़ी आडा बिना कुठ नहीं हो सकता, इसका दुःख हुआ । हमने व्याकुल होकर आत्मघात करनेका निश्चय किया । महात्मा गांधी

केदारदर्शनं कृत्वा रहसि द्वौ समागतौ ।

साहसं न परं जातं तयोर्जाहुलभक्षणे ॥ ५६ ॥

केदारजीका दर्शन करके वह दोनों बालक एकान्तस्थानमें गये । परन्तु वहाँ विष भक्षण करने की हिम्मत उन दोनोंकी न हुई ॥ ५६ ॥

त्रयं चतुष्टयं वापि बीजानां गिलितं हठात् ।

बालकाभ्यां परं पश्चात्मृत्योर्भयमुपागतम् ॥ ५७ ॥

उन दोनोंने घतूरेके ३-४ बीज तो खा लिये परन्तु पीछेसे उन्हें मृत्युका भय लगा ॥ ५७ ॥

रामस्य दर्शनं कृत्वा गत्वा श्रीराममन्दिरम् ।

शान्त्या स्थेयं पुनर्जातु नैवं कार्यमिति स्थितम् ॥ ५८ ॥

श्रीराममन्दिरमें जाकर, रामजीका दर्शन करके दोनोंने यह निश्चय किया कि शान्तिसे रहना चाहिये और फिर कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिये ॥ ५८ ॥

देशरक्षां पुरस्कृत्य जगद्रक्षां च यो विभुः ।

ईश्वरोऽग्र समायातः स कथं निष्कलो ब्रजेत् ॥ ५९ ॥

जो ईश्वर देश और जगत्की रक्षाकेलिये आया है वह विषमशगादिके द्वारा प्राणघात करके निष्कल कैसे जा सकता है ! ॥ ५९ ॥

तस्य कश्चित्सहाध्यायी मांसाहारपरायणः ।

मोहनेऽपि तथा कर्तुमाग्रहं नित्यमाचरत् ॥ ६० ॥

श्रीमोहनका कोई सहपाठी मांसाहारी था । वह मोहनको भी मांस खानेकेलिये नित्य आग्रह करता था ॥ ६० ॥

श्लोक्तं मित्रेण यद्वचः कुलीना राजकोटगाः ।

अनेके मांसमश्रन्ति छात्राश्चापीति सर्वदा ॥ ६१ ॥

वह मित्र इन्हें रोझ कहा करता था कि राजकोटके बहुतसे कुलीन लोग, तथा अनेक छात्र भी मांस खाते हैं ॥ ६१ ॥

अन्तरेणैव मांसाशं निरतेजस्का वयं प्रजाः ।

अङ्ग्रेजास्तं च कुर्वाणा राज्यमस्मासु कुर्यते ॥ ६२ ॥

उसने यह भी कहा कि हम लोग मास नहीं खाते अत एव निर्बल प्रजा बने हुए हैं । और अंग्रेज मास खाते हैं, अत एव वह हमपर राज्य करते हैं ॥ ६२ ॥

मांसाशनैव मां पश्य दृढाङ्गं बहुधावनम् ।

मांसाहारेण नश्यन्ति शीघ्रमेव घृणादयः ॥ ६३ ॥

उसने कहा, मुझे देखो, मैं मास खाता हूँ, अत एव मेरा शरीर दृढ है । मैं अधिक दौड़ सकता हूँ । मास खानेसे फोड़े-फुन्सियों शीघ्र अच्छी हो जाती हैं ॥ ६३ ॥

मांसाहारं हि कुर्वाणा बलवृद्धिसमन्विताः ।

ययमाङ्ग्लान्पराजेतुं शक्ताः स्यामेति निश्चितम् ॥ ६४ ॥

यह निश्चय है कि मासाहार करनेसे, हम लोग भी खूब बलवान् होकर, अंग्रेजोंको हरानेमें समर्थ होंगे, ऐसा उसने कहा ॥ ६४ ॥

शिक्षका अपि खादन्ति मांसमस्मात्सखे प्रिय ।

भक्षणीयं त्वयाप्येतद्भवितासि ततो बली ॥ ६५ ॥

मास्टर लोग भी मास खाते हैं अतः प्रियमित्र ! तुम भी मास खाओ । उससे बलवान् बनोगे ॥ ६५ ॥

एवमादिप्रलोभेन मोहितो मोहनोऽपि सः ।

मांसाशने प्रवृत्तोऽभूद्भलेच्छुर्निभृत्तं क्वचित् ॥ ६६ ॥

इस प्रकारके प्रलोभनसे मोहित होकर श्रीमोहन भी कभी कभी मासाहार छुपकर करने लगे ॥ ६६ ॥

मांसाहारे न तस्यासीजिह्वास्वादः प्रयोजकः ।

बलं प्राप्य विदेशीयविजिगीषैव कारणम् ॥ ६७ ॥

जीभके स्थादकेलिये भीमोहन गाँव नदी ताते मे प्रत्युत इसलिये
जाते मे कि बल प्राप्त करके विदेशियोंको जीत सकेंगे ॥ ६७ ॥

श्रद्धां लोकोत्तरां पित्रोर्मोहनश्रापुपत्सदा ।

मिथ्याभाषां न सोऽघाच्छीतयोरमे फदाचन ॥ ६८ ॥

भीमोहनकी अपने मातापितामें भगवत् श्रद्धा भी, अतः यह उनके
समक्ष कभी भी छूट नहीं भोलना चाहते मे ॥ ६८ ॥

मातृमान्पितृमान्बालो मोहनो धर्मभावनः ।

मातापित्रो रतो भक्तौ प्रसितः सेवने तयोः ॥ ६९ ॥

मोहनकी माता प्रशस्ता थी और पिता भी प्रशस्त थे । अतः उनकी
धर्म में भावना थी । मातृभक्त और पितृभक्त मोहन मातापिताकी सेवामें
तत्पर मे ॥ ६९ ॥

नित्यं पिष्टपदाम्भोजसंघाहनपुरस्सरम् ।

मूर्ध्ना प्रणम्य तत्पादौ नक्तं निद्रामुपेयिष्यान् ॥ ७० ॥

सदा, मोहन पिताके चरणकी सेवा करके, प्रणाम करके तब रात्रिमें
सुप्त करते मे ॥ ७० ॥

पितरौ वैष्णवौ मे लो गच्छुलं चापि वैष्णवम् ।

जानीयातां यदीदं मे कर्म येदस्तायोर्भवेत् ॥ ७१ ॥

एकदा स विचिन्त्येति सत्यसंरक्षणाय च ।

पापादस्मान्निवृत्तोऽभून्मोहनो गच्छु धार्मिकः ॥ ७२ ॥

एक दिन भीमोहनने विचार किया कि मेरा कुछ वैष्णवकुल है । मेरे
मातापिता भी वैष्णव ही हैं । यदि उनमें यह मेरा मातापिता-कर्म मातृपुत्र
हो जायगा तो उन्हें बहुत श्रेय होगा । इस लिये और सत्यकी रक्षाके लिये
भी भीमोहन इस पापसे सदाके लिये दूर गये ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

सस्मिन्स्वभायपूर्वोऽपि ये ये दोषा विहीयिताः ।

ते तु लीलाभसिद्धयर्थं सत्समित्यवधायताम् ॥ ७३ ॥

श्रीमोहन तो भगवदवतार होनेके कारण स्वभावसे ही पवित्र थे। उनमें जो यह सब दोष थाये थे वह तो लीलाजी सिद्धिके लिये ही थे अर्थात् लोग सीरें कि पापोंमेंसे किस प्रकारसे बच जाना चाहिये। मातापितासे छुपाकर कुठ भी नहीं करना चाहिये। जिस कार्यसे माता-पिताको कष्ट हो, उसे नहीं करना चाहिये इत्यादि ॥ ७३ ॥

अथाध्येतुं समारेभे देवभाषां स मोहनः ।

काठिन्यादेव तद्भाषाध्ययनात्स पराजितः ॥ ७४ ॥

इन सबको छोड़कर स्कूलमें अब श्रीमोहनने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। परन्तु उसकी कठिनतासे वह घबड़ा गये ॥ ७४ ॥

कृष्णाशङ्करनामा तं तद्भाषाध्यापकस्तदा ।

बालबुद्धिं विपीदन्तं समाश्वासयदर्भकम् ॥ ७५ ॥

उस समय संस्कृतके अध्यापक, उस स्कूलमें, श्रीकृष्णा-शङ्करजी थे। उन्होंने बालकबुद्धि, बालक मोहनको चिन्तातुर देखकर आश्वासन दिया ॥ ७५ ॥

ततः पश्चादभर्त्यानां सस्नेहमपठद्विरम् ।

तस्मै सुशिक्षकायासौ सततं बहुधारयन् ॥ ७६ ॥

उसके पश्चात् तो श्रीमोहनने बड़े ऋप्रेमके साथ संस्कृतका अध्ययन किया और पण्डित कृष्णाशङ्करजीका बहुत आभार स्वीकार किया ॥ ७६ ॥

वत्सरेऽष्टादशे प्राप्ते स हि मैट्रिक्युलेशनम् ।

परीक्षामुत्तताराथ विदेशं गन्तुमैक्षत ॥ ७७ ॥

श्रीमोहनने १८ वें वर्षमें मैट्रिककी परीक्षा पास की और उसके बाद विदेशमें जानेकी इच्छा की ॥ ७७ ॥

ऋषयान् मुझे विदित हुआ कि किसी भी हिन्दु बालकको संस्कृतके सुन्दर अभ्यासके बिना नहीं रहना चाहिये। महात्मा गांधी

वैष्णवेन न कर्तव्या सिन्धुयात्रा कदाचन ।

इत्याक्रोशः समुत्पन्नः सर्वेषामेव वक्त्रतः ॥ ७८ ॥

उस समय सबके मुँहसे यही बात निकलने लगी कि वैष्णवों को समुद्रयात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ७८ ॥

पिता स्वर्गं गतश्चासीत्पितृव्यः पोरबन्दरे ।

सर्वादां वैष्णवीं पुष्पन्कोऽनुमन्येत तन्मतिम् ॥ ७९ ॥

पिता श्रीकर्मचन्द्रजीका देहान्त हो चुका था । चाचाजी पोरबन्दरमें थे । अतः कोईभी वैष्णव उनके विचारको बल देनेवाला नहीं था ॥ ७९ ॥

मातास्य विधवा वृद्धा निर्धनापि तपस्विनी ।

तथापि सा समुत्साहा ज्यायान्भ्राताऽपि साहसी ॥ ८० ॥

उनकी माता बेचारी वृद्धा और निर्धन हो रही थीं; तथापि उनका उत्साह मन्द नहीं था । श्रीमोहनके बड़े भाई भी साहसी थे ॥ ८० ॥

मोहनो नोहनेऽदक्षो विदेशगमनोत्सुकः ।

ताभ्यामनुमतश्चक्रे सामग्रीसंचयं मुदा ॥ ८१ ॥

माता और ज्येष्ठबन्धुजी आज्ञासे विचारकुशल श्रीमोहनने विदेश यात्राकी सामग्री तैयार कर ली ॥ ८१ ॥

महाविद्यालयं त्यक्त्वा मिलित्वा स्नेहिमण्डलम् ।

आशीर्वादान्गुरूणां च गृहीत्वा निर्ययौ ततः ॥ ८२ ॥

कॉलेज छोड़कर, स्नेहियोंसे मिलकर, गुरुओं से आशीर्वाद लेकर मोहन कॉलेजसे आये ॥ ८२ ॥

मात्रा प्रणोदितः श्रीमान्प्रतिशुश्राव मोहनः ।

कदापि नैव सेविष्ये मांसं मद्यं परस्त्रियम् ॥ ८३ ॥

माताकी प्रेरणासे श्रीमोहनने प्रतिज्ञा की कि मैं मांस, मद्य और परस्त्री सब इनका सेवन कभी नहीं करूँगा ॥ ८३ ॥

श्रीमोहन तो भगवदवतार होनेके कारण स्वभावसे ही पवित्र थे। उनमें जो वह सब दोष भाये थे वह तो लीलामी सिद्धिके लिये ही थे अर्थात् लोग सीखें कि पापोंमेंसे किस प्रकारसे बच जाना चाहिये। मातापितासे छुपाकर कुछ भी नहीं करना चाहिये। जिस कार्यसे माता-पिताको कष्ट हो, उसे नहीं करना चाहिये इत्यादि ॥ ७३ ॥

अयाध्येतुं समारेभे देवभाषां स मोहनः ।

काठिन्यादेव तद्भाषाध्ययनात्स पराजितः ॥ ७४ ॥

इन सबको छोड़कर स्कूलमें अब श्रीमोहनने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। परन्तु उसकी कठिनतासे वह घबड़ा गये ॥ ७४ ॥

कृष्णाशङ्करनामा तं तद्भाषाध्यापकस्तदा ।

बालबुद्धिं विपीदन्तं समाश्वासयदर्भकम् ॥ ७५ ॥

उस समय संस्कृतके अध्यापक, उस स्कूलमें, श्रीकृष्णा-शङ्करजी थे। उन्होंने बालकबुद्धि, बालक मोहनको चिन्तातुर देखकर आश्वासन दिया ॥ ७५ ॥

ततः पश्चादमर्त्यानां सस्नेहमपठद्विरम् ।

तस्मै सुशिक्षकायासौ सततं बहुधारयन् ॥ ७६ ॥

उसके पश्चात् तो श्रीमोहनने बड़े स्नेहके साथ संस्कृतका अध्ययन किया और पण्डित कृष्णाशङ्करजीका बहुत आभार स्वीकार किया ॥ ७६ ॥

यत्सरेऽष्टादशे प्राप्ते स हि मैट्रिक्युलेशनम् ।

परीक्षामुत्ताराथ विदेशं गन्तुर्मेहत ॥ ७७ ॥

श्रीमोहनने १८ वें वर्षमें मैट्रिककी परीक्षा पास की और उसके बाद विदेशमें जानेकी इच्छा की ॥ ७७ ॥

स्नेहपश्चात् सुल्ले विदित हुआ कि किसी भी हिन्दु बालकको संस्कृतके सुन्दर अध्यासके बिना नहीं रहना चाहिये। महात्मा गांधी

वैष्णवेन न कर्तव्या सिन्धुयात्रा कदाचन ।

इत्याक्रोशः समुत्पन्नः सर्वेषामेव वक्रव्रतः ॥ ७८ ॥

उस समय सबके मुँहसे यही बात निकलने लगी कि वैष्णवको समुद्रयात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ७८ ॥

पिता स्वर्गं गतश्चासीत्पितृव्यः पोरबन्दरे ।

मर्यादां वैष्णवीं पुष्पन्कोऽनुमन्येत तन्मतिम् ॥ ७९ ॥

पिता श्रीकर्मचन्द्रजीका देहान्त हो चुका था । चाचाजी पोरबन्दरमें थे । अतः कोईभी वैष्णव उनके विचारको बल देनेवाला नहीं था ॥ ७९ ॥

मातास्य विधवा वृद्धा निर्धनापि तपस्विनी ।

तथापि सा समुत्साहा ज्यायान्भ्राताऽपि साहसी ॥ ८० ॥

उनकी माता बेचारी वृद्धा और निर्धन हो रही थी; तथापि उनका उत्साह मन्द नहीं था । श्रीमोहनके बड़े भाई भी साहसी थे ॥ ८० ॥

मोहनो नोहनेऽदक्षो विदेशगमनोत्सुकः ।

ताभ्यामनुमतश्चक्रे सामग्रीसंचयं मुदा ॥ ८१ ॥

माता और ज्येष्ठपन्धुकी आज्ञासे विचारबुधाल श्रीमोहनने विदेश यात्राकी सामग्री तैयार कर ली ॥ ८१ ॥

महाचिद्यालयं त्यक्त्वा मिलित्वा स्नेहिमण्डलम् ।

आशीर्वादान्गुरुणां च गृहीत्वा निर्ययौ ततः ॥ ८२ ॥

कॉलेज छोड़कर, स्नेहियोसे मिलकर, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर मोहन कॉलेजसे आये ॥ ८२ ॥

मात्रा प्रणोदितः श्रीमान्प्रतिशुश्राव मोहनः ।

कदापि नैव सेविष्ये मांसं मद्यं परस्त्रियम् ॥ ८३ ॥

माताकी प्रेरणासे श्रीमोहनने प्रतिज्ञा की कि मैं मांस, मद्य और परस्त्री संग इनका सेवन कभी नहीं करूँगा ॥ ८३ ॥

पतिप्रेमपराधीनां पत्यनुद्धानुयर्तिनीम् ।

पत्नीं रहः समाश्रास्य निर्जगाम, गृहादयम् ॥ ८४ ॥

पति के प्रेमसे पराधीन, पतिकी आज्ञानुसार चलनेवाली श्रीमत्सूर-
बाईको एकान्तमें दादर देकर श्रीमोहन घरसे निकले ॥ ८४ ॥

मातुराशीर्वचोयर्मरकितः शिष्टशेमुपिः ।

भूयो भूयः प्रणम्यासौ मातृपादौ विनिर्गतः ॥ ८५ ॥

माताके आशीर्वादरूप कनकसे सुरक्षित, उत्तमबुद्धिवाले मोहन
माताके चरणोंमें बार बार प्रणाम करके घरते निकले ॥ ८५ ॥

प्राप्तो मोहमयीं दिव्यां नगरीं ज्ञायसा सह ।

समयप्रातिकूल्येन सिन्धुयात्रां न्यरुद्ध सः ॥ ८६ ॥

घरसे निकलकर श्रीमोहन बडेभाईके साथ दिव्य नगरी बम्बई गये ।
परन्तु उस समय समुद्रमें तूफान था अतः समुद्र यात्राको बन्दरखा ॥ ८६ ॥

ॐ भासानसौ कतिपयानथ मोहमय्यां,

नीत्वा स्वजातिवचनानि तृणाय भत्वा ।

शान्ते च शम्बरनिधौ परदेशयात्रां,

पादारपणं रचयितुं विदधे तरण्याम् ॥ ८७ ॥

इति सर्वतल्लस्वतल्लपरमहंसपरिधाजकस्वामि श्रीमद्भगवदाचार्यमहाराज
प्रणीते भारतपारिजाते
तृतीयः सर्गः

श्रीमोहनने कुछ मास बम्बईमें ही बिताकर, स्वजातिवालोंके
समुद्रयात्रानिषेधक वचनोंकी कुछ भी परवा न करके, समुद्रके शान्त
होनेपर, विदेशयात्रा करनेकेलिये जहाजमें पदारपण किया ॥ ८७ ॥

इति सर्वतल्लस्वतल्लपरमहंसपरिधाजकस्वामि श्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते तृतीयः सर्गः

❀ चतुर्थः सर्गः

श्रीरामभद्रस्मरणं विधाय पोटं विवेशोपविवेश धीरः ।

क्रीते निजस्थान उदारचेताश्चचाल पोटः शनकैश्च तस्मान् ॥ १ ॥

भगवान् रामका स्मरण करके धीर मोहनने जहाजमें प्रवेश किया और अपने खरीदे हुए स्थान पर वह बैठा। वह बहाज वहाँसे धीरे धीरे चला ॥ १ ॥

श्रीभारतीयामवनिं स मूर्ध्ना नवेन सश्रद्धमथो ननाम ।

युवा समस्तान्विससर्ज वन्वूनुपस्थितान्सिन्धुतटे विनम्रः ॥ २ ॥

उस युवा मोहनने मस्तक झुकाकर भारतभूमिको श्रद्धाके साथ प्रणाम किया। समुद्रके तटपर उपस्थित सम्वन्धियोंको नम्र होकर बिदा किया ॥ २ ॥

सद्रत्नमाच्छिद्य पलायमानो दयातिगो दस्युरिवाधिपोतः ।

आदाय तं मोहनमाशु सर्वलोकेक्षणध्वान्तघरो विलुप्तः ॥ ३ ॥

जैसे कोई निर्दय चोर-झाकू (फिरीके) बहुमूल्य रत्नको छीनकर भागता हो जैसे ही वह जहाज मोहनको लेकर क्षीमदी सबकी आँखोंसे छिप गया ॥ ३ ॥

हरन्नयं मोहनदीप्तरत्नं कृतार्थतामा मनि मन्यमानः ।

जयध्वनिं चारचयं † अकार कषन्धचिमुट्मुमनांस्यभीक्षणम् ॥ ४ ॥

वह बहाज मोहनरूप देदीप्यमान रत्नको हरण करताहुआ अपने मनमें कृतार्थताना अनुभव करताहुआ, और जयध्वनि करताहुआ बन्धु-विन्दुरूप पुष्पोंको पारवार विगैरेने लगा ॥ ४ ॥

❀ इस सर्गमें उपजाति एम्द है।

† क विशेषे ।

मध्येसमुद्रं सहसा विलोक्य सर्वत्र नीलामलनीरराशिम् ।
ऊर्ध्वं ततं नीलनभोवितान सर्वं जगच्छयाममयं स मेने ॥ ५ ॥

बीचसमुद्रमें चारों ओर निर्मल नील नीरसमूहकी देखकर तथा ऊपर नीलाकाशरूप चन्द्रबाकी देखकर मोहनने सारे जगत्को श्याममय अनुभव किया ॥ ५ ॥

शनैः शनैः प्राप स तं प्रदेशं मायानटी नृत्यति यत्र नित्यम् ।
लीलाश्च लक्ष्मीर्वितनोति यत्र यो भारतं शास्ति निजार्थहेतोः ॥ ६ ॥

धीरे धीरे मोहन उस प्रदेशमें पहुँचे जहाँ नित्य माया-नटीका नृत्य होता है, लक्ष्मी अपनी लीला करती रहती है और जो प्रदेश अपने ही लाभकेलिए आज भारतका शासन कर रहा है ॥ ६ ॥

सदाचचारैव सदा विदेशे वसन्प्रतिज्ञात्रयमप्यजस्रम् ।
मातुः पुरस्तच्चगृहीतमेव सुखेन धीरो निरुवाह वीरः ॥ ७ ॥

विदेशमें निवास करते हुए धीर और धीर मोहनने माताके सामने ली हुई तीनों ऋषिप्रतिज्ञाओंका मुलके साथ अराण्डितरूपसे निर्वाह किया ॥ ७ ॥

यदाकदाचित्स्वल्पनोन्मुखोऽभूत्तदा सदाऽरक्षदमुं मुकुन्दः ।
हृत्पुण्डरोकेऽस्य सदा विहारी भक्ताधिराजस्य दयापयोधिः ॥ ८ ॥

जब जब वह अपनी प्रतिज्ञासे स्वल्पित होनेकी स्थितिमें आ पहुँचते थे तब तब उनके परमभक्त हृदयकमलमें विहार करनेवाले दयासागर मुकुन्द--सर्वपापोंके विनाशक श्रीराम उनकी रक्षा कर लेते थे ॥ ८ ॥

कदाचिदाङ्गप्रतिकर्मणाऽसौ कदापि दीनप्रतिकर्मणाऽपि ।
चातुर्यधुर्यं विनतोऽधिस्थ प्रतिष्ठितो वर्षगणं निनाय ॥ ९ ॥

ऋषिचरित्राद्योग, मांसत्याग और सुरापानत्याग यही तीन प्रतिज्ञाएँ उन्होंने अपनी माताके सामने विलायत चलते समय ली थीं ।

मोहनने विलायतमें चातुर्यधुर्यम् अधिकृत = बहुत चतुरताके साथ, नम्रताके साथ, कमी अंग्रेजोंकी पोशाक पहिनकर और कमी दीनजनयोग्य पोशाक पहिनकर, प्रतिष्ठापूर्वक कई वर्ष वहाँ व्यतीत किये ॥ ९ ॥

स भोस्त्रभार्या मधुरामतीव लेटिनारं चापि समध्यगोष्ट ।
कालेन तेनैव समस्तविद्यामहापगानाथपदं प्रतीच्छन् ॥ १० ॥

उसी समयमें समस्तविद्यासागरके पदको प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने अत्यन्तमधुर फ्रेंचभाषाका और लेटिन् भाषाका भी अध्ययन किया ॥ १० ॥

यूरोपकार्यं च समाप्य वर्षत्रयेण वैरिष्टर एव भूत्वा ।
नैकानुभूतीर्निपुणं गृहीत्वा स्वजन्मभूमिं प्रतिमम्प्रतस्थे ॥ ११ ॥

यूरोपका कार्य पूरा करके—तीन वर्षमें वैरिष्टर बनकर, अनेक अनुभवोंको भले प्रकार ग्रहण करके अपनी जन्मभूमिके लिये छुट्टी उग्रीने प्ररधान किया ॥ ११ ॥

गत्या जनन्याः पदयोः पतामि पुनस्तादाशीर्यचनं भजामि ।
आत्मोपनत्या च मनोऽपि तस्याः प्रमोदयामीति मनोरथालिः ॥ १२ ॥

जाजर माके घरगोंमें प्रणाम करूँगा, पुनः उनके आशीर्वाद ग्रहण करूँगा, अपनी उपस्थितिसे उनके मनको मुदित करूँगा, यह सब मोहनकी मनोरथमालाएँ थीं ॥ १२ ॥

तद्यत्कृतं यद्य विचेष्टितं मे यद्वाप्यधीतं महता श्रमेण ।
सोढानि दुःखानि च यानि तानि निवेदयिष्ये क्रमशो जनभ्यै ॥ १३ ॥

जो कुछ मैंने विदेशमें किया है, जो मेरी संघाएँ थीं, जो कुछ मैंने महान् श्रमसे पढ़ा है, जो दुःख मैंने सहन किये हैं, सभी बातें क्रमसे माफो गुनाऊँगा ॥ १३ ॥

छा. १०-१-१८९१ ई. को वैरिष्टर हुए और ता. १२-६-९१ को हिन्दुस्तानके लिये चल दिये ।

प्रेम्णो गतायाः किल पारतन्त्र्यं तस्याः करस्पर्शमवाप्य भूयः ।
अपाकरिष्यामि च तद्वियोगाद्दुःखं मदीये हृदि लब्धजन्म ॥ १४ ॥

प्रेमपरतन्त्र माके पुनः करस्पर्शको प्राप्त करके, उसके वियोगसे जो
दुःख मेरे हृदयमें उत्पन्न हुआ है, उसको दूर करूँगा ॥ १४ ॥

परस्सहस्रा सुविचारमाला जगन्मार्गं सुधियां धरिष्ठः ।
परन्तु देवेन विचारितं यत्कथं च तन्निष्फलतां समेतु ॥ १५ ॥

इसी प्रकारकी सहस्रों विचारमालाएँ मोहनने गूँथ डालीं, परन्तु
ईश्वरकी जो इच्छा होती है वह कभी निष्फल नहीं जाती ॥ १५ ॥

समागतो मोहमयीं समुत्को बाष्प्यास्तरेः सोवततार तूर्णम् ।
ज्यायांसमायातमुदस्रचक्षुर्वन्धुं नतेन प्रणनाम मूर्ध्ना ॥ १६ ॥

बन्धुई पहुँचकर मोहन शीघ्र ही जहाजसे नीचे उतरे । आये हुए
बड़ेभाई को देखकर उनकी ओरिं भोज गयीं । सिर झुकाकर उन्होंने
उन्हें प्रणाम किया ॥ १६ ॥

चिराद्वाप्तं निजसोदरं तं ज्यायानपि प्रेमभरेण बन्धुः ।
समालिलिङ्गाशु मुदा चुचुम्ब शिरःप्रदेशं तदमूल्यबन्धोः ॥ १७ ॥

बड़े भाईने मी चिरकालके पश्चात् अपने सगे भाईको पाकर शीघ्र
ही छातीसे लगा लिया । उस अमूल्य बन्धुके शिरको प्रसन्न होकर चुम्बन
किया ॥ १७ ॥

निशम्य बन्धोर्मुखतो जनन्याः स्वर्गं निवासं चिरिदे परं सः ।
एतस्य संकल्पितवर्धितायामाशालतायामशान्तिः पपात ॥ १८ ॥

भाईके मुखसे माताका स्वर्गवास सुनकर मोहनको अत्यंत दुःख
हुआ । संकल्पित और वर्धित उनकी आशालता पर बिबली गिर
गयी ॥ १८ ॥

भ्रात्रा च सत्रा स जगाम तस्मान्नातिप्रहृष्टो हृदि राजकोटम् ।
प्रणम्य मान्यान्सुसखान्मिलित्वा पप्रच्छ सर्वान्कुशलं विद्मघः ॥ १९ ॥

माताके समाचारसे वह अत्यन्त दुःखितमनसे ही भाईके साथ राजफोट गये । बड़ोंको प्रणाम किया । सन्निवृत्ति मिलकर सबका कुशल समाचार पूछा ॥ १९ ॥

आराधयन्तीं पतिदेवताया हिताय नित्यं कुलदेवतां सः ।

कस्तूरदेवीं धिरहामिदग्धां पत्नीं चकाराथ भुजान्तरे ताम् ॥ २० ॥

जो अपने पतिदेव (मोहन) के कल्याणकेलिये अपनी कुलदेवताकी आराधना करती थीं, पतिवियोगमें जो जल चुकी थीं उन श्रीकस्तूरदेवीका उ-होने आलिङ्गन किया ॥ २० ॥

पतिप्रयासोपनताद्वियोगानलद्वितप्तां प्रथितैकवेणीम् ।

आलिङ्गय यां शान्तिमुपानिनायत्तमश्च तां वर्णयितुं भवेत्कः ॥ २१ ॥

पतिके प्रयाससे प्राप्त जो वियोगानल, उससे तपी हुई तथा पतिवियोगसे त्रि-होने छ वेगी बंध रखी थी, उन कस्तूरबाईका आलिङ्गन करके उन्हें जो † मुप्त प्राप्त हुआ उसके वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ २१ ॥

गतेष्वनेहस्मु च राजकोटात्स प्राड्वियाद्भोहनदासगाधी ।

स्वप्राड्वियाक्त्यं व्ययहर्तुकामो जगाम मुन्त्रां प्रियबन्धुनुन्नः ॥ २२ ॥

कुछ दिन बीत जानेपर, वह वैरिष्टर मोहन, अपने प्रियभाईकी प्रेरणासे वैरिष्टरी करनेकेलिये बम्बई गये ॥ २२ ॥

परदेशे स्थिते पत्यौ धर्मभीरुः पतिप्रता ।

न तैलाभ्यञ्जनं केशशृङ्गारं नापि धारयेत् ॥

जब पति परदेशमें हो तो भारतीय छियाँ न तो अपने शरीरमें तैलपुलक लगाती हैं और न यान्त्रिक शृङ्गार करती हैं । आ बेणी बंध जाती है ।

† पत्नीका अनेके अल्प प्रेम देग्यर प्रसन्न होना रिस्तो भी मुपनिवेशिये म्याभाविक शृंगार है ।

पर न तत्र स्थितिरस्य जाता चिरं ततो भूय इयाय कोटम् ।
कथंकथंचित्पदमत्र मान्यः आरोपयामास मनाद्भ्रान्तस्वी ॥ २३ ॥

परन्तु चिरकालतक उनकी वक्षों स्थिति नहीं हुई अतः पुनः वह राजकोट गये । राजकोटमें किसी किसी तरहसे माननीय मोहनने अपना पैर जमाया ॥ २३ ॥

श्वेताह्न आसीदिह कोपि राजकर्मा प्रकृत्याऽसरलोऽभिमानो ।
स एकदा मोहनदासमेनं क्षणादवामानयदुद्धतेशः ॥ २४ ॥

यहाँपर एक कोई अङ्ग्रेज राजकर्मचारी था वह स्वभावसे नूर और अभिमानी था । उस महान् उद्धतने एक दिन मोहनका अपमान कर दिया ॥ २४ ॥

यो मानभङ्गं सहते मनुष्यो वृथा पृथिव्यामिह तस्य सत्ता ।
मत्वेत्युदीता हृदयेऽस्य काह्लाऽभियोगमादर्तुमदोविरुद्धम् ॥ २५ ॥

यह विचार कर कि "जो मनुष्य मानभङ्गका सहन करता है, पृथिवीमें उसका जोना व्यर्थ है" मोहनके हृदयमें उस अङ्ग्रेजके विरुद्ध मानहानिके अभियोग करने की इच्छा हुई ॥ २५ ॥

फीरोजशाहः प्रचया विवेकी न्यायालये लब्धमुकीर्त्यकीर्तिः ।
निपेधयामास स मोहनं दुर्व्यापारतोऽस्मात्परिणामदुःखात् ॥ २६ ॥

फीरोजशाह एक बैरिष्ठर थे । बृद्धावस्था थी । बड़े विवेकी थे । कोटमें उनका यश था । उन्होंने मोहनको अभियोगरूप दुर्व्यापारसे-जिसका परिणाम दुःख था, रोक दिया ॥ २६ ॥

एतद्धि नामास्ति तु पारतन्त्र्यं स्थिते च यस्मिन्नपमानराशिः ।
सोढव्य एवेति भवानुपास्तां मौनं स इत्यप्यवदत्तमार्तम् ॥ २७ ॥

ध्याकुल बने हुए मोहनको श्रीफीरोजशाहने यह भी कहा कि "इसीका नाम तो पारतन्त्रता है । इसके रहते रहते अनेक अपमान सहन करने ही पड़ेंगे, अतः आप चुप रहिये" ॥ २७ ॥

धृष्यसौ तस्य वचो निशम्य शर्मं प्रपेदे विरहाद्गतीनाम् ।
न व्यस्मरत्किन्तु निखातमेतच्छल्यं मनस्वेव महामनीषी ॥ २८ ॥

यद्यपि मोहनने, अथ उपाय न होनेसे, श्रीकीरोजशाहके कहनेसे शान्तिका अचलम्बन ही क्रिया परन्तु उस महाविद्वान्ने मनमें गड़े हुए काँटेके समान उसे भुला नहीं दिया ॥ २८ ॥

तस्यैव चाङ्गलस्य सदाधिपत्ये तन्मण्डपे मोहनवृत्यजातम् ।
दैनन्दिनं वृत्तमतोऽतिगह्यं तत्प्राड्विवाक्यं नितरां स मेने ॥ २९ ॥

उसी अङ्ग्रेजकी इजलासमें मोहनका हमेशा कार्य रहा करता था ।
अतः वह बैरिष्टरी मोहनको बहुत दुःखदायी हो गयी ॥ २९ ॥

न चेतप्रसन्नः स तदा तदीयं कृत्यं समर्तं परिवर्तयेत् ।
मिथ्यास्तुतिस्त्रोमनयं विधातुं नैच्छत्ततो व्याकुलतां प्रपेदे ॥ ३० ॥

यदि वह अग्नेज प्रसन्न न रहे तो मोहनके सब कामोंका उलटपलट कर दे । और वह मिथ्याप्रशंसा करना चाहते नहीं थे अतः वह बहुत घबड़ा गये ॥ ३० ॥

मुदामपुर्याः सितयर्ष्महस्तेष्यासीत्तदा शासनमर्निपूर्णम् ।
मेराः प्रतुन्नाः सकला बभूवुः करातिवृद्धिं बहुधा समीक्ष्य ॥ ३१ ॥

उस समय मुदामापुरी (पोरबन्दर) का शासन अंग्रेजोंके हाथोंमें था और वह दुःखपूर्ण था । मेरजातिके लोग तरह तरह के टैक्सोंकी वृद्धि देखकर बहुत व्यथित थे ॥ ३१ ॥

साहाय्यमाधातुमना. स तेषां श्रीमोहनः प्रायतत न्वशक्त्या ।
सहग्रथाऽप्याचरितैः प्रयत्नेर्वार्या न रेखा परमत्र दैवा ॥ ३२ ॥

उनकी गहागायी इच्छासे मोहनने अपनी शक्तिसे अनुगार प्रयत्न तो किया । परन्तु देवी रेखा महसूस प्रयत्नोंके परन्पर भी दृश्यी नहीं आ सकती ॥ ३२ ॥

तदैव तद्राज्यपतीं च कश्चिद्राज्याधिकारः परिकल्प्य आसीत् ।

लब्धाधिकारेष्वथ भूमिपाले जाता न मेरा व्यथया विमुक्ताः ॥ ३३ ॥

उसी समय मुद्रामापुरीके राणासाहेबको कुछ सत्ता दी जानेवाली थी ।
राणासाहेब सत्ता तो पा गये परन्तु मेर लोग दुःखसे न छूटे ॥ ३३ ॥

नो साधनं तत्सविधे तदासीद्वरिष्ठघर्माधिपमण्डपाश्र्वे ।

पुनर्विचाराय निवेदनेन विना तदर्थस्य महार्थकस्य ॥ ३४ ॥

उस महार्थक—परमावश्यक कार्यको हाई कोर्टमें पुनः विचार करनेके
लिये प्रार्थना करनेके सिवाय मोहनके पास दूसरा कोई भी उपाय
नहीं था ॥ ३४ ॥

न्यायस्तु तत्रापि सुदुर्लभः स्यात्कालव्ययश्चापि वृथाश्रमोऽपि ।

अत्याकुलेनापि हितैपिणाऽपि न्यपेवि मौनं तत एव तेन ॥ ३५ ॥

समय भी जायगा और श्रम भी होगा, तथापि हाईकोर्टमें भी न्याय
मिलना तो कठिन है अतः मोहन यद्यपि मेरोका हित चाहते थे, उसके
लिये वह बहुत व्यग्र भी थे, तथापि चुप रह गये ॥ ३५ ॥

इमा अकल्प्या घटना अकस्माद्दूनं मनो मोहनदासगांधिः ।

व्यधुर्न्यपेविष्ट ततो नितान्तमौदास्यमारादुपकारशीलः ॥ ३६ ॥

इन सब अकल्पनीय घटनाओंने मोहनके मनको अकस्मात् दुःखित
बना दिया । अतः उपकारपरायण मोहन उदात्त रहने लग गये ॥ ३६ ॥

तस्मिन्कठोरे समयेऽस्य घन्धोः पार्श्वे शुभावेदकनेकपत्रम् ।

कस्यापि लक्ष्मीवति मोमिनस्य सभागतं साप्रहमाहित्कातः ॥ ३७ ॥

उसी ही कठिन समयमें उनके भाईके पास आक्रिवासे एक मेमन
खातिके व्यापारीका शुभगूचक आम्रहूर्ण पत्र आया ॥ ३७ ॥

प्रयत्नमानोऽस्यभियोग एको न्यायालयेऽत्रैव महान्धिरेण ।

नमेति तन्मोहनदासमत्र प्रेष्यागुगृह्णातु भयान्द्रुतं माम् ॥ ३८ ॥

दो श्लोकोंमें उस पत्रका सार कहा जाता है:—यहाँ पर कोर्टमें बहुत दिनों से मेरा एक मुकदमा चल रहा है। शीघ्र ही श्रीमान् मोहनको यहाँ भेजकर मुझे अनुग्रहीत करें ॥ ३८ ॥

यद्यप्यनेकेऽत्रमयाऽवरुद्धा वैरिष्टरा बुद्धिवरा वकीलाः ।

तथापि चेदत्र स एति नूनं साहाय्यमस्माकमुपस्थितं स्यात् ॥ ३९ ॥

यद्यपि मैंने यहाँपर बहुतसे बुद्धिशाली वैरिष्टर और वकील रोक लिये हैं तो भी यदि श्रीमोहन यहाँ आवें तो अवश्य मुझे बड़ी सहायता मिले ॥ ३९ ॥

प्राप्येति पत्रं मुमुक्षे स बन्धुमाहूय तत्कालमुदासितारम् ।

श्रीमोहनं तद्वल्लगभेष्टं निवेद्यामास विदां वरेण्यम् ॥ ४० ॥

इस पत्रको पाकर बड़े भाई बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय उदार मनवाले बुद्धिमान् श्रीमोहनको बुलाकर उन्होंने पत्रका वृत्तान्त सुना दिया ॥ ४० ॥

षट्प्रेजितोऽनिष्टसमाजवृद्धदोषानुवृत्त्या निजदेशवासम् ।

विहातुकामः स च तत्र गन्तुमूरीचकाराथ बभार हर्षम् ॥ ४१ ॥

समाजमें अनिष्ट दोषोंकी प्रतिदिन वृद्धि देखकर मोहन व्याकुल हो चुके थे। स्वदेश छोड़नेकी इच्छा ही कर रहे थे। अतः उन्होंने अफ्रिका जानेको स्वीकार कर लिया। वह बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४१ ॥

स्वर्गं गताऽऽसीजननी तदीया काष्ठा परा प्रेममहार्णवस्य ।

ततो न दुःखाय बभूव किञ्चिद्भार्यायियोगेन विना तदानीम् ॥ ४२ ॥

प्रेमसागरकी अन्तिम सीमा होती है, वह तो पहिले ही स्वर्गवा-
सिनी हो चुकी थी अतः उस समय मोहनको स्त्रीदियोगके सिवाय और कुछ भी दुःखदायी नहीं था ॥ ४२ ॥

अजायतास्यात्मजरत्नयुग्मं परं न बन्धाय बभूव तस्य ।

कार्या न भार्याप्रियता तदानीमासीत्परं तस्य यमीश्वरस्य ॥ ४३ ॥

उस समय उनके दो पुत्र भी हो चुके थे परन्तु उनका कोई बन्धन नहीं था । उस समय उनके लिये स्त्रीका प्रेम अनिवार्य था ॥ ४३ ॥

यद्वातरि प्रेममहाव्यरत्नं हृदि स्वकीये कुशलो ररक्ष ।

न तत्ससर्जाधिकमाधिमस्य तदाज्ञयैवैप उपक्रमो यत् ॥ ४४ ॥

कोई आक्षेप करे कि स्त्रीका इतना प्रेम और जिस भाईने उनके लिये इतना प्रेम प्रदर्शन किया, सुखकी सब व्यवस्थाएँ कीं; उसके लिये कोई ममता मोहनके मनमें नहीं थी ? इसका समाधान करते हैं :—

कुशल मोहनने अपने बड़े भाईके प्रति अपने हृदयमें जिस प्रेम-महारत्नको धारण किया था वह उनके लिये दुःखद नहीं हुआ; क्योंकि उन्हींकी आज्ञासे ही तो वह आफ्रिका जा रहे थे । तात्पर्य यह है कि गुरुजनकी आज्ञामें प्रसन्नता ही होनी चाहिये ॥ ४४ ॥

स्वजन्मभूमेर्वहुलो वियोगः सोढो विदेशे घसता च तेन ।

वर्षत्रयं तेन हि तद्वियोगो नातीव दुःखाय बभूव तस्य ॥ ४५ ॥

मातृभूमिके वियोग-दुःखका परिहार करते हैं:—अपनी जन्मभूमिके वियोगका दुःख तो उन्होंने विलायतमें ३ वर्षोंके निवाससे सहन कर लिया था अतः उसका वियोग भी बहुत दुःखदायी नहीं हुआ ॥ ४५ ॥

एकेन वर्षेण पुनः समेत्य भवीयभोगान्दृश्येश्वरीह ।

आवामशोको विविधान्विधानैर्भोक्ष्यावहे मा शुचमत्र कार्षीः ॥ ४६ ॥

अब श्रीरत्नरत्नकी सान्त्वनाका क्रम वर्णन करते हैं :—हृदयेश्वरि ! एक वर्षमें ही मैं पुनः वापस आऊँगा । निश्चिन्त होकर हम दोनों विधिपूर्व सासारिक भोगोंको भोगेंगे । अतः शोक मत करो ॥ ४६ ॥

नात्राधिवासो मम लाभकारी भवेदिदानीं समुपद्रुतस्य ।

विघ्नैः सहस्रैर्मदमुप्रिये तन्मुदानुजानीहि ननु प्रसीद ॥ ४७ ॥

इस समय सहस्रों विघ्नोंके कारण मेरे साथ यहाँ बहुत उपद्रव है अतः यहाँका अधिक निवास मेरे लिये लाभदायक न होगा । अतः दे प्रागप्रिये ! प्रसन्न हो और मुझे जानेकी आज्ञा दे दो ॥ ४७ ॥

यद्याग्रहं त्वं रचयिष्यसीह प्रिये निवासाय ममातिमात्रम् ।
सहिष्यसे तर्हि मया सहैवाऽपदां पदं तेन भव प्रसन्ना ॥ ४८ ॥

हे प्रिये ! यदि तुम मुझे यहाँ ही रहनेकेलिये अत्यन्त आग्रह करोगी तो मेरे साथ ही तुम भी दुःख सहन करोगी। अतः प्रसन्न हो जाओ ॥ ४८ ॥

वचोभिरेतैः परिवोध्य भार्या तदुःखभारं लघु लाघवं सः ।
नीत्या तया चानुमतो मनीषी स्वास्थ्यं प्रपेदे हृदि वीतरागः ॥ ४९ ॥

किसी रीतिसे श्रीकस्तूरवाइको समुझा बुझाकर उनके दुःखको शीघ्र ही हलका करके, उनकी अनुमति प्राप्त करके वीतराग श्रीमोहन हृदयमें प्रसन्न हुए—स्वस्थ बने ॥ ४९ ॥

अथ प्रतस्थे व्रजितुं सहिष्णुमुंदाप्रिकां भाग्यपरीक्षणाय ।
मुग्धापुरीतो गुरुवाप्पनावमारुह्य सद्भारतभूमिसूनुः ॥ ५० ॥

इसके पश्चात् भारतभूमिके प्रियपुत्र परमसहिष्णु मोहन भाग्यपरीक्षाके-
लिये बम्बईसे जहान्पुर चढ़कर अफ्रिका जानेकेलिये प्रसन्नतासे चल दिये ॥ ५० ॥

ॐ विश्वार्तिनाशनसमर्थपरार्थसिद्ध्या-
धानेद्धबुद्धिविभवोहसिताननेन्दुः ।

श्रीमोहनोऽतिमदमत्तसिताङ्गवर्ग-
कौर्यस्य मूर्ध्निपदमाफ्रिकमुन्यघात्सः ॥ ५१ ॥

इति सर्वतघ्नस्वतघ्नपरमहंसपरिव्राजकस्वामिधीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
भारतपारिजाते
चतुर्थः सर्गः

विश्वके दुःखको नाश करनेमें समर्थ, परार्थसिद्धि = परोपकार-में लगे हुए तीव्र बुद्धिरूप विभवसे प्रगन्नमुत्तवाले श्रीमोहनने, मदोन्मत्त अंग्रेजोंकी कुरताके सिरपर और अफ्रिकाकी पृथिवीपर, साथ ही अपना पैर रखा अर्थात् वह अफ्रिका पहुँच गये ॥ ५१ ॥

इति सर्वतघ्नस्वतघ्नस्वामिधीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
स्वोपज्ञभारतारोड्रभाषाटीकासहिते
भारतपारिजाते चतुर्थः सर्गः

❀ पञ्चमः सर्गः

प्रायेण भासेन समुत्सुको जगत्कल्याणकल्पप्रतिभासनक्षमः ।

नातालभापप्रतिकूलभावनैः श्वेताङ्गकैः पूर्णमसौ च मोहनः ॥ १ ॥

समस्तजगत्के कल्याणके प्रातःकालको प्रकाशित करनेमें समर्थ, और उत्सुक श्रीमोहन, एक महीनेमें, विरुद्धभावनावाले अंग्रेजोंसे परिपूर्ण नातालमें पहुँच गये ॥ १ ॥

नातालपोताशय एव बुद्धिमान्दृष्ट्वा सिताङ्गव्यवहारपद्धतिम् ।

श्रीमोहनो भारतभूमिजन्मनां घोरापमानं बहुधाऽन्यमास्त सः ॥२॥

नातालबन्दरपर ही बुद्धिमान् मोहनने अंग्रेजोंकी व्यवहारपद्धतिको देखकर भारतवासियों के भयङ्कर अपमान का अनुमान कर लिया ॥ २ ॥

येनायमाहूत इयाय चाफ्रिकां नाम्नाऽवदुष्टा धनिकालितलजः ।

आनेतुमासीदथ कर्मचन्द्रि यातः स्वयं स्वागतिकत्वमेत्य ॥ ३ ॥

जिन्होंने मोहनको बुलाया था वह तेठ अब्दुल्ला भी बन्दरपर स्वागत करनेवालेके रूपमें मोहनको लेनेकेलिये स्वयम् आये थे ॥ ३ ॥

प्राक्कोटमुत्कृष्टतमं फलेवरे शीर्षे च बद्धोपममुल्यणौजसि ।

सोष्णीपमुष्णद्युवितुल्यतेजसं लोकास्तमैश्चन्त यसानमद्गतम् ॥ ४ ॥

उठ समय शरीरपर तो सुन्दर प्राक्कोट और तेजस्वी शिरपर बद्धालियोंके समान पगड़ी पहिने हुए, एतिसमान तेजस्वी भीमोहनको लोगोंने एक भजनवीके समान देखा ॥ ४ ॥

नीतोऽवदुष्टाधनिकेन सोऽगमन्यायालयं द्रष्टुमयो कदाचन ।

सोष्णीपमेतं परिवीक्ष्य मण्डपे न्यायासनस्याधिपतिः चुकोप सः ॥५॥

किसी दिन श्रीअच्छुआबोठ श्रीमोहनको कचहरी दिखानेको छे गये ।
पगडी पहिने हुए इनको इजलासमें देरकर जज बडा क्रुद्ध हुवा ॥ ५ ॥

न्यायासनस्वामितया विवर्धिनीमत्यन्तमोहक्षणदाक्षणच्छटाम् ।
आहाथ सोऽर्थागनुसृत्य मोहनं कर्तुं शिरोवेष्टमधः स्वमूर्धतः ॥ ६ ॥

न्यायाध्यक्ष होनेके कारण, बढनेवाली अत्यन्त मोहरानिकी क्षणिक
छटाके अनुसार उस, जबने मोहनको सिरसे पगडी नीचे उतारनेको
करा छ ॥ ६ ॥

सोऽपि स्वभावात्सरलोऽपि कोपतो भानाधिकश्रीरतिमत्तमानहृत् ।
त्यक्त्वाशु तं न्यायमहालयं यथा प्राणास्त्यजेयुर्न हि मानमीश्वरः ॥ ७ ॥

श्रीमोहन स्वभावसे सरल थे तो भी मानवान् थे और मदोन्मत्तोंके
मानको हरण करनेवाले थे । अतः क्रोधसे शीघ्र ही कचहरी छोडकर बाहर
चले गये । ठीक ही है—महान् लोग प्राण भले छोडदें परन्तु मान नहीं
छोडते ॥ ७ ॥

पत्नी प्रियां प्राणसमौ च देहज्ञौ यस्मात्स्वजन्मावनिमुत्ससर्ज सः ।
तदुःखमत्रापि तमन्यगादिति ररत्यं ततापाथ बभूव शान्तिभृत् ॥ ८ ॥

जिष्ठ दुःखसे श्रीमोहनने प्रियपत्नी, प्राणसमान प्रिय दो पुत्रों, 'और
अपनी बन्धुभूमिको छोडा वह दुःख अभी भी उनके पीछे लगा था, अतः
वह थोडासा स्थिर हुए और पश्चात् शान्त हुए ॥ ८ ॥

शौचं तदेवातिमहत्प्रशस्यतां धत्ते यदल्पे न दधाति मूर्खनाम् ।
दुष्टा न चेत्स्थुर्ननु साधुपुरुषव्यक्तिः यथं स्यादथ मर्त्यभूतले ॥ ९ ॥

महान् लोग उसी शूरताकी प्रशंसा करते हैं जो क्षुद्रोंपर प्रकट नहीं की

छे सीधा सादा अर्थ यह है—यह जज था अतः उसको अभिमान
था । उसी जजपनेके अभिमान से उसने श्रीमोहनको सिरसे पगडी उतार
देनेको कहा ।

जाती । यदि दुष्ट न हों तो इस सप्ताहमें साधुपुरुषोंका पृथक्करण कैसे हो ? ॥ ९ ॥

त्याज्यं दिशोवेष्टनमाङ्गलटोपिका धार्येति तद्देतसि धारणाऽऽगता ।
अब्दुह्मत्या प्रतिरोधितो हठादुञ्ज्ञाश्चकार स्वमति स तां तदा ॥१०॥

श्रीमोहनके मनमें यह विचार हुआ कि पगड़ी छोड़कर टोप पहन लें। परन्तु अब्दुह्मत्याके हठसे उन्होंने इस विचारको छोड़ दिया ॥१०॥

सा वृत्तपत्रेषु कथा प्रवेशिता न्यायालयीया किल तेन कुत्सिता ।
तत्रातिचर्चा चलितेयमद्भुता तेन प्रसिद्धिं समवाप मङ्क्षु सः ॥११॥

श्रीमोहनने कचहरीकी इस पगड़ी उतारनेवाली बाहियात बातको पत्रों में लिखकर भेज दी । इसपर विचित्र चर्चा होने लगी । इस रीतिसे श्रीमोहन शीघ्र प्रसिद्धिको प्राप्त हो गये ॥ ११ ॥

देशात्स्वकीयादभियोगकर्मणि यस्मिन्नियुक्तोऽगमदाफिकामसौ ।
तस्यैव हेतोर्नगरं प्रिटोरियां गन्तुं समादिक्षदमुं धनाधिपः ॥ १२ ॥

जिस मुकदमेमें नियुक्त होकर स्वदेशसे आफ्रिका यह गये थे उसी अभियोगकेलिये शेर अब्दुल्लाने प्रिटोरिया जानेको उन्हें कहा ॥ १२ ॥

श्रेणीं समग्र्यामथ धूमसद्रथे श्रीमोहनः शान्तमना व्यभूषयत् ।
नो सोऽप्रहीत्किन्तु परां निदर्शनीं स्वस्वापहेतुं द्रविणव्ययोद्धिया ॥१३॥

श्रीमोहन रेलगाडीमें समाया धंणी = फर्स्टक्लासमें शान्तिसे बैठ गये । परन्तु उन्होंने द्रव्यव्ययके भयसे सोनेकेलिये टिकट नहीं लिया ॥ १३ ॥

एतं च तेन द्रविणाधिपेन नो पश्यामि कार्पण्यविधानकारणम् ।
औन्यं धनस्येश्वरसम्प्रसादतो नो विद्यते मे न मनोऽस्ति तुच्छकम् ॥१४॥

शेर अब्दुल्लाने कहा कि व्ययमें कृपणता करनेका कोई कारण नहीं होना चाहिये । भगवान्की कृपासे मुझे धनकी कमी नहीं है । मेरा मन भी तुच्छ—फंसी नहीं है ॥ १४ ॥

भारीत्सवर्गं स यदाप मोहनः कश्चित्तमागात्रिकपाऽऽधिकारिकः ।
पाश्चात्यभागे गमनाय तद्रथे प्रोवाचसत्याप्रहिणं हठी स तम् ॥१५॥

जब मोहन भारीत्सवर्गमें पहुँचे तो उनके पास एक रेलवे कर्मचारी
आया और उस हठीने सत्याग्रही श्रीमोहनको गाडीके पिछले भागमें
जानकेलिये कहा ॥ १५ ॥

श्रीता मयेयं हि निदर्शनी यदा स्थातुं प्रमुख्यासन एव तत्कुतः ।
गन्तव्यमेतत्परिहाय पश्चिमे स प्रत्युधाचेति तमाधिकारिकम् ॥१६॥

श्रीमोहनने उस कर्मचारीसे कहा कि जब मैंने फर्स्टक्लासना टिकट
लिया है तो इसे छोड़कर पिछले डब्बेमें क्यों जाऊँ ॥ १६ ॥

भूयः स तं भर्त्सयति स्म चेद्भवान्नायातरिष्यद्व्यधतारणे तदा ।
नूनं न्ययोक्ष्ये पुलिसं स मोहनः कर्तुं तथैवाकथयत्तमुद्धतम् ॥ १७ ॥

उसने पुनः श्रीमोहनको धमकी दी कि यदि आप नहीं उतरेंगे तो मैं
आपको उतारनेकेलिये पुलिसका प्रबन्ध करूँगा । श्रीमोहनने उसे कहा
कि तुम पुलिसका प्रबन्ध कर लो ॥ १७ ॥

नैर्घृण्यभाकोऽपि स दण्डधृद्बहिर्हस्ते गृहीत्वा च समाचकर्प तम् ।
यानं गतं तस्य परिच्छदोऽखिलः संरक्षितो रेलरथाधिकारिभिः ॥१८॥

कोई एक निर्दय दण्डधृत् = पुलिसमैन आया और श्रीमोहनको हाथ
पकड़कर, बाहर खींच लिया । गाडी चली गयी और उनके सब सामानको
रेलवे अधिकारियोंने रक्ष लिया ॥ १८ ॥

सत्याग्रहित्यान्न निजं परिच्छदं परस्पर्शं हस्तादपि मोहनस्तदा ।
शैत्यप्रकोपाद्वसनासनादिभिर्हीनो महादृशमयाप यदापि ॥१९॥

ॐ यदि यह अपने सामानको सभाल लेते तो यह स्वेच्छासे उतरना
गिना जाता । अपनी भरपि प्रकट करने और रेलवे अधिकारियोंके
अर्नाचि'पवे प्रति क्रोध प्रकट करनेका यही एकमात्र उपाय था कि यह
कष्ट सहते ।

श्रीमोहनने सत्याग्रही होनेके कारण अपने सामानको हाथसे स्पर्श भी नहीं किया; यद्यपि अत्यधिक टंडके कारण ओदने और बिलोनेके बिना कष्ट पाते रहे ॥ १९ ॥

योद्धव्यमाहोस्विदिहातिदुर्मदैः श्वेताङ्गैर्मैऽप्यधिकारलब्धये ।
गन्तव्यमस्मादथवा तु भारतं श्रीमोहनः स्वे मनसीत्यचिन्तयत् ॥२०॥

श्रीमोहनने अपने मनमें विचार किया कि या तो इन महाभिमानी अंग्रेजोंसे, अधिकार प्राप्तिकेलिये; मुझे लड़ना चाहिये और या तो भारत चले जाना चाहिये ॥ २० ॥

सर्वा विपद्वा अथवाऽवमाननाः प्रीटोरियां प्राप्य समाप्य तां कृतिम् ।
पश्चात्स्वदेशाभिगमो वरो भवेदित्यं पुनश्चेतसितेन निश्चितम् ॥२१॥

फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि सब अपमानोंको सह लेना चाहिये और प्रीटोरिया पहुँचकर, उस कार्यको समाप्त करके तब भारत जाना अच्छा होगा ॥ २१ ॥

गौराङ्गकाणां हृदयाद्धि रङ्गिकं द्वेषं समुन्मूलयितुं यथावत् ।
सर्वाणि दुःखानि विपद्वा चोद्यमः कर्तव्य इत्यप्यथ स व्यचिन्तयत् ॥२२॥

उन्होंने यह भी निश्चय किया कि अंग्रेजोंके हृदयमेंसे रङ्गद्वेषको निर्मूल करनेकेलिये, सब दुःखोंको सहकरके भी, यथाशक्ति उद्यम करना चाहिये ॥ २२ ॥

कल्पे स तारेण महाप्रबन्धकं रेलीययानस्य गतार्थसूचकम् ।
शीघ्रं सभाचारमजीह्यत्तथा नातालिकं तं यवनं धनाधिपम् ॥२३॥

प्रातःकाल श्रीमोहनने रेलवेके मैनेजरको, उनके साथ रेलवेकर्म-चारियोंके जो व्यवहार किया था, तारद्वारा उसकी सूचना भेज दी तथा नातालिके उन धीअन्दुरा शेटको भी इस घटनाकी सूचना तारसे ही भेज दी ॥ २३ ॥

मारोत्सवर्गे च निवासिनो जना अब्दुल्लतारेण विबुध्य तत्कथाम् ।
श्रीभारतीयास्वरितं गताश्च तं रात्रौ रथेनाथ ययौ प्रिटोरियाम् ॥२१॥

नेट अब्दुल्लाने श्रीमोहनके तारको पाकर मारीत्सवर्गमें रहनेवाले भारतीय बंधुओंको तारसे सूचना दी । वह लोग श्रीमोहनके साथ बनी हुई उस घटनाको जानकर शीघ्र ही उनके पास स्टेशनपर आये । श्रीमोहन रातकी गाडीमें प्रिटोरिया चले गये ॥ २४ ॥

प्रीटोरियां यावदथो पुरा रथो बाष्पप्रनुन्नो न च गच्छति स्म ह ।
तच्चाल्सटाउनितिनाम विभ्रती गत्या पुरीं सोऽवततार यानतः ॥२५॥

पहिले बाष्पप्रनुन्नः—भापसे चलनेवाला रथ अर्थात् रेलगाडी प्रिटोरियातक नहीं जाती थी अतः श्रीमोहन चाल्सटाउन जाकर गाडीसे उतर पडे ॥ २५ ॥

तस्माच्च जोहानिसवर्गपत्तनं गम्यं सुरङ्गाधिरथेन केवलम् ।
तत्रापि गौराङ्गमुवोऽतिदुर्मंदात्तं पीडयामासुरलं विनिर्घृणाः ॥२६॥

वहाँसे—प्रिटोरियासे जोहानिसवर्ग केवल घोडागाडीसे ही जाया जाता था । वहाँ भी घोडागाडीमें भी दुर्मंद और निर्दय अग्रेजोंने उन्हें बहुत चष्ट दिये ॥ २६ ॥

अन्तःप्रवेशस्तु पुरैव दुर्मुत्सैरावारितम्वेन हि बाह्य आसने ।
तस्थौ स तस्मादपि चापसारणे यन्नो महास्तेरभवत्समाहृतः ॥२७॥

घोडागाडीमें अन्दर बैठनेको तो पहिलेसे ही दुष्ट गोरोंने मना कर दिया था अतः वह बाहरकी सीटपर जाकर बैठ गये थे । उन गोरोंने श्रीमोहनको वहाँसे भी उठानेका महान् प्रयत्न किया ॥ २७ ॥

प्रायाचि केनापि खलेन दुर्मंदाच्छ्लुत्रिप्रतिकाशतनुं च विभ्रता ।
स्थेयं त्वयाऽधस्तन इत्यदो वचस्तन्मोहनोऽमंस्त न मानसद्धनः ॥२८॥

किसी कोटियलशरीर—गोरे दुष्टने श्रीमोहनसे कहा कि तुम नीचे

बैठ जावो। मोहनने उसकी बातको नहीं माना; क्योंकि मान ही तो उनका उत्तम धन था ॥ २८ ॥

केचिद्दुर्दुःकुलजन्मसेविनो गालीश्च तस्मा अपरे चपेटिकाः ।
केचिद्गृहीत्वा मणिवन्धके च तं व्याक्रुद्दुमिद्धं यतनं वितेनिरे ॥२९॥

किन्हीं नीचोंने उन्हें गालियों दीं और किन्हींने थप्पड़ मारे। और कोई कलई पकड़कर उन्हें खींचनेका प्रयत्न करने लग गये ॥ २९ ॥

एवं निकृष्टातिनिकृष्टकैरपि प्रताड्यमानो बहुधाऽन्ययात्रिषु ।
केनापि कारुण्यसमार्द्रचेतसा संमोचितो दिंशगगात्स दुर्मदान् ॥३०॥

इस प्रकारसे वह महानीच अंग्रेज श्रीमोहनको मार और हैरान कर रहे थे। दूसरे जो यानी बैठे थे उनमेंसे किसी एकको दया आयी और उनको उन हिसकोफे हाथसे छुड़ा लिया ॥ ३० ॥

अस्यां जगत्यां बलराजमाश्रिता दीनान्सदैव व्यथयन्ति दुर्जनाः ।
तस्मात्समुद्धारयितुं च निर्बलानीशात्परः को दधते मनस्विताम् ॥३१॥

इस ससारमें सबल हुए लोग निर्बलको सदा हैरान करते ही रहते हैं। दुष्टोंसे दीनोंको बचानेमें श्रीरामके बिना अन्य कौन समर्थ है ? ॥ ३१ ॥

अस्तं गतो भानुरथागता निशा स्तण्डर्टनं प्राप्य विलोक्य भारतान् ।
तत्स्यागतायैव समागतान्परं तोषं पुपोपाशु तदा स मोहनः ॥३२॥

एषांस्त हुआ। रात्रि आ गयी। स्तण्डर्टन पहुँचकर अपने स्वागतके लिये आये हुए भारतीयोंको देखकर श्रीमोहन अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ॥३२॥

श्रुत्वा च ते भारतवर्षवासिनस्तस्याननाद्धर्मकथाः समूचिरे ।
नैतन्नयं किञ्चिद्विहासि खेददं नित्यापमानं विषहामहे धयम् ॥३३॥

भारतीय पन्थुओं ने श्रीमोहनके मुँहसे मार्गकी कथाओंको सुनकर

कहाकि इसमें चिन्ताजनक कोई भी नयी वस्तु नहीं है। हमलोग तो छिनित्यापमान सहते हैं ॥ ३३ ॥

गन्ता भवान्प्रातरितः प्रिटोरियां प्राप्ता कथंचिन्नहि सन्निदर्शनीम् ।
श्रेण्या च गन्तुं परया द्वितीयया लब्धाऽवरस्यैव च वर्गकस्य ताम् ॥ ३४ ॥

लोगोंने कहा, कहूँ आप प्रायः यहाँसे प्रिटोरिया जायेंगे। परन्तु फर्स्ट या सेकेण्डक्लासका टिकट आप नहीं पा सकेंगे। निचली श्रेणीका ही टिकट आप पावेंगे ॥ ३४ ॥

तां ट्रान्सवालीयजनाधिधिर्नीं वृत्तान्तमाला म्वजनैः समर्पिताम् ।
श्रीमोहनोऽसौ हृदयेन सन्दधत्सस्माररामं व्यथितोऽतिचिन्तया ॥ ३५ ॥

ट्रान्सवालवासी भारतीयमनुष्योंकी मानसिक पीडाको बढ़ानेवाली, उस स्वबनोके द्वारा समर्पित वृत्तान्तमालाको हृदयमें धारण करते हुए, अत्यन्त चिन्तामें व्यथित होकर, मोहनने श्रीरामका स्मरण किया। फर्स्ट-क्लासमें ही बैठकर प्रिटोरिया गये ॥ ३५ ॥

प्रोचेऽथ वाष्पीयरथैरियासता श्रेष्ठेन वर्गेण हि यास्यते मया ।
चिन्ताकुले चेतसि धारता भृशं संजायते सत्पुरुषस्य सर्वदा ॥ ३६ ॥

गियासता = प्रिटोरिया जानेकी इच्छा वाले श्रीमोहनने कहा कि मैं वाष्पीयरथे = रेलगाडीमें फर्स्टक्लासमें ही जाऊँगा। ठीक ही है, सत्पुरुषोंक चिन्ताकुल चित्तमें अत्यन्त धैर्य पैदा होता रहता है ॥ ३६ ॥

वर्गेण सोरात्प्रथमेन मोहनः प्रीटोरियां धूमरथे न सन्मना ।
प्रत्यूहमायावगपास्य धैर्यतो मार्गेषु जर्मीष्टननामके पदे ॥ ३७ ॥

जर्मीष्टनमें थोडासा ऽ विपन्न आया, उसे धैर्यपूर्वक दूर करके पवित्र

छिनित्यापमानसे तात्पर्य उस अपमानसे है जिसकेलिये यह धारणा हो गयी हो कि इसका नाश नहीं हो सकता। उस समय वहाँके भारतीय यही समझते थे कि यह रोग अचिकित्स्य है।

† ट्रेन चली जर्मीस्टन पहुँची। वहाँ गाई टिकट देखनेकेलिये

विचारवाले श्रीमोहन गाड़ीमें फस्टक्लासमें ही बैठकर प्रियोरिया गये ॥ ३७ ॥

एकेन वर्षेण तदाभियोगिकं कार्यं स्वमेधाबलतः प्रसाध्य सः ।

भूयश्च नातालमुपेत्य भारतं श्रीमोहनः प्राप्नुभियेष सर्वथा ॥ ३८ ॥

श्रीमोहनने अपनी बुद्धिके बलसे उस अभियोग को एक वर्षमें ही अपने अनुकूल सिद्ध करके, फिर नातालमें आकर, भारतमें ही आनेकी इच्छा प्रकट की ॥ ३८ ॥

धन्योऽब्रह्मण परिमोदसंयुतो मानं प्रदातुं पुरुषोत्तमाय सः ।

आमन्त्रयामास सिङ्गहमे बहूल्लोकान्सभां चापि चकार सम्मदः ॥ ३९ ॥

घनिक श्रीअब्रह्मणसेठने परमप्रसन्नता के साथ पुरुषोत्तम श्रीमोहनको मान देनेकेलिये सिङ्गहमें बहुतसे लोगोंको आमन्त्रित किया और एक सभा भी की ॥ ३९ ॥

धारासभासभ्यवराधिकारिता नातालदेशे वसतां च हिन्दिनाम् ।

गर्हति तस्याः समुदासनाय तच्चर्चा च धारासमितौ तदाभवत् ॥ ४० ॥

नातालमें रहनेवाले भारतीयोंकी, वहाँकी धारासभाके सम्य बननेकी अधिकारिता दूषित थी अर्थात् धारासभाके सम्य हिन्दुस्तानी नहीं हो

आया । वह मुझे देखकर ही चिढ़ गया । अङ्गुलिये इशारा करके मुझे बता कि "तीसरे दर्जेमें जावो" । मैंने अपना फस्टक्लासका टिकट दिखाया । गार्डने कहा, "इसका कुछ नहीं, जावो तीसरे दर्जेमें ।" इसी हठधर्ममें एक अंग्रेज गुसाफिर बैठा था । उसने गार्डको धमकाया कि "तू इस गृहस्थको क्यों इरान करता है ? तू देगता नहीं है कि इसके पास फस्टक्लासका टिकट है, इसके यहाँ बैठनेसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है" इतना कहकर उस अंग्रेजने मेरी ओर देखा और कहा कि "तुम निश्चित बैठे रहो ।" "तुमको कुत्तेके साथ बैठना हो तो इसमें मेरा क्या ?" इतना कहकर गार्ड चला ।

—महात्मा गांधी ।

सकते थे । हिन्दुस्तानियोंके सम्य वननेके अधिकारको नष्ट करनेकी चर्चा उस समय धारासभामें चल रही थी ॥ ४० ॥

पत्रे च कस्मिंश्चिदिति व्यलोकत पत्राणि तत्रैव सिङ्गन्हमे तदा ।
श्रीमोहनः सम्परिवर्तयन्नथो धन्योऽबुद्ध्यामपि तद्व्यजिज्ञपत् ॥४१॥

उस समय उसी सिङ्गन्हममें ही किसी समाचारपत्रके पत्रे उलटते पुलटते श्रीमोहनने इस — उपर्युक्त समाचारको देखा और शोठ अबुद्ध्याको भी इसकी सूचना कर दी ॥ ४१ ॥

सम्मेलने तत्र समागतेषु धी-श्रीमांश्च कश्चित्पुरुषो जगाद तम् ।
गन्तुं स्वदेशं परिहाय भावनां मासं यदि स्या इह युद्धमस्तु तत् ॥४२॥

उस सम्मेलनमें आये हुए प्रतिष्ठित लोगोंमेंसे बुद्धिमान् और श्रीमान् किसी एक पुरुषने कहा कि “यदि भाप देश जानेके विचारको छोड़कर एक मास यहाँ रहे तो यह लड़ाई लड़ी जाय” ॥ ४२ ॥

श्रुत्वा तदीयामिति हार्दिकीं गिरं देशप्रयाणस्य मतिं न्यरुन्ध सः ।
संरक्षितुं तन्निजदेशगौरवं वर्षाण्यनेकानि तु तत्र तस्थिवान् ॥४३॥

उन सबके इस हार्दिक वचनको सुनकर श्रीमोहनने देशकेलिये प्रयाणकरनेके विचारको रोक दिया और स्वदेशगौरवकी रक्षाकेलिये अनेक वर्षों तक वह यहाँ ही रहे ॥ ४३ ॥

अन्यायधाराशतकं प्रवर्तितं गौराङ्गकैः स्वार्थविसारहेतवे ।
स्वार्थस्य राज्ये प्रसूते विचिन्तनं हानेः पदार्थस्य न कुर्वते जनाः ॥४४॥

गौरोंने अपने स्वार्थ — प्रसारकेलिये सैकड़ों अन्यायपूर्ण कायदे चला दिये । जत्र स्वार्थका राज्य फैल जाता है तत्र लोग अन्योंकी हानिका विचार नहीं करते ॥ ४४ ॥

संस्थाय तत्रैव विरोधनाय तद्गौराङ्गसम्पादितपापवारिधेः ।
स्वप्राड्विघातत्वेन च जीविवर्जनं धर्म्यं स मेनेऽथ तदेव संव्ययात् ॥४५॥

वहाँ गोरोके पापसागरका विरोध करनेकेलिये, वहाँ ही रहकर बैरिष्टरी-से अपनी जीविकाका निर्वाह करना श्रीमोहनने धर्मानुबूल समझा और तबसे वह बैरिष्टरी करने लगे ॥ ४५ ॥

यत्रैः सहस्रैश्च निरन्तरैः श्रमैः श्रद्धाधनानां मुहृदां च योगतः ।
दोषाननेकान्प्रतिपिध्य सर्वथा प्रायात्स्वदेशाभिमुखः स मोहनः ॥४६॥

श्रीमोहनने, अनेकों उपायोसे, अनेक परिश्रमसे, श्रद्धालु मित्रोंके योगसे, वहाँकी अनेक बुराइयोंको सर्वथा मिटाकर, स्वदेशकेलिये प्रयाण कर दिया ॥ ४६ ॥

ॐ स हि मोहनः परमवैरिगणैः

परिवारितः सकलचित्तहरः ।

अनयस्य राशिमखिलं च ततः

परिदह्य जन्मभुवमागतयान् ॥ ४७ ॥

इति सर्वतद्वस्वतद्वपरमहंसपरिव्राजकश्रीस्वामिभगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

पञ्चमः सर्गः

बड़े बड़े दुश्मनों से घिरे हुए, अनेक अन्यायोंको नाश करके सर्वमनो-हर श्रीमोहन अपनी जन्मभूमिमें आ गये ॥ ४७ ॥

इति सर्वतद्वस्वतद्वस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषा टीकासहिते भारतपारिजाते

पञ्चमः सर्गः



षष्ठः सर्गः

आजीवनं भारतरक्षणाय रक्षाविधीनामपि शिक्षणाय ।
अहम्मदाबादमहापुरेऽसौ व्यतिष्ठिपञ्चाश्रममेकमीड्यम् ॥१॥

जीवनभर भारतकी रक्षाकेलिये और रक्षार्थी विधियोंको सिखानेके-
लिये श्रीमहात्माजीने अहमदाबाद जैसे विशाल नगरमें एक सुन्दर आश्रम
(सत्याग्रह आश्रम) की स्थापना की ॥ १ ॥

तीरे स्रवन्त्याः खलु साभ्रमत्याः शुद्धे सदाऽपां निचयं दधत्याः ।
सदा सदाचारविचारशुद्ध्या उद्घाटितश्चाश्रम एव तेन ॥२॥

सदा जलधारण करने वाली साभ्रमती—साबरमती नदीके पवित्र
तटपर सदाचार और विचारोंकी शुद्धिकेलिये उन्होंने इस आश्रमका
उद्घाटन किया ॥ २ ॥

तद्वासिभिः सर्वजनैश्च सत्यं वाचा निगाद्यं मनसा विचार्यम् ।
सत्यस्य हेतौर्वचनं गुरुणामपि प्रहेयं भविता सदेति ॥३॥

उस सत्याग्रह आश्रमके नियमोंका वर्णन करते हैं:—आश्रमके
रहनेवाले सर्वजनोंको चाहिये कि सदा वाणीमें सत्य बोलें और मनमें सदा
सत्य ही विचारे । सदा सत्यकेलिये गुरुजनोंके वचनका भी—त्याग करना
होगा ॥ ३ ॥

न प्राणिर्हिंसा च कदापि कार्या द्वेषो न कार्यः प्रतिपन्नभारभ्यः ।
प्रेम्णैव जेया निजवैरिणोऽपि सदा तदावासिभिरर्चनीये ॥४॥

आश्रमवासियोंको कभी कोई हिंसा नहीं करनी चाहिये । शत्रुकेलिये

४४ इस सर्गमें उपजाति छन्द है ।

अतः इस आश्रममें निवासकरनेवालोंको हाथसे कने हुए सूतोंसे, हाथसे ही बने हुए कपड़ोंको ही, सदा धारण करना होगा ॥ ११ ॥

यूरोपरीतीरनुसृत्य सज्जी कृतानि वस्त्राणि जनैरिहत्यैः ।
धार्याणि सारल्यविनाशकानि वस्तूनि नो वा कुड्डुपादिकानि ॥१२॥

विदेशीय ढङ्गसे बने हुए कपड़े, तथा सादगीको नष्ट करनेवाले अन्य बटन आदि वस्तु इस आश्रमके निवासियोंको नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ १२ ॥

भयानलप्लुष्टमनो दधानैर्न शक्यते पालयितुं कदापि ।
सत्यव्रतं प्राणिवयातिहानं तस्माद्भयव्रात इहास्ति हेय ॥१३॥

जिनका मन भयरूप अग्निले दग्ध हो गया है वह लोग अर्थात् भीरुलोग सत्यव्रत और प्राणिवधत्याग अर्थात् अहिंसाका पालन नहीं कर सकते । अतः सत्रप्रकारका भय यहाँ छोड़ देना होगा ॥ १३ ॥

भयं नराणामथ भूपतीनां फौटुम्बिकानामथ तस्कराणाम् ।
व्यात्रादिकानामथ हिंस्रकाणा मृत्योरपि त्याज्यमिह स्थितैस्तु ॥१४॥

इस आश्रममें रहनेवालोंको मनुष्यभय, राजभय, परिवारभय, चोरभय, व्याघ्रादिहिंस्रजन्तुभय और मृत्युभय इत्यादि सब भयोंको छोड़ देना चाहिये ॥ १४ ॥

सामान्यहि दूजनताविचारै रस्पृश्यता येषु जनेषु चास्ते ।
स्पृश्या हि तेऽप्यत्र यतो विचारः स तादृगिद्वेषविनायकोस्ति ॥१५॥

सामान्यहि-दूजनताके विचारोंसे जो जो लोग अस्पृश्य माने जाते हैं, इस आश्रममें वे सभी स्पृश्य समझे जायेंगे । क्योंकि वह वैसा विचार-अस्पृश्यविचार छिप्ररल्पापरा जनक है ॥ १५ ॥

○ हिमी मनुष्यको जन्मसे ही अस्पृश्य माननेमें मानवता लजित होती है । हाँ, किसी भी पापात्माको तो अस्पृश्य अस्पृश्य माना जा सकता

वर्णव्यवस्था नहि खण्डनीया सिद्धा न सा हानिकरी कदापि ।
न जातिभेदा. परमत्र मान्या निरर्थका हानिकराश्च सिद्धाः ॥१६॥

इस आश्रममें वर्णव्यवस्थाका खण्डन नहीं है क्योंकि वह कभी भी हानिकारक सिद्ध नहीं हुई है । परन्तु जातिभेद यहाँ नहीं माना जायगा क्योंकि वह निरर्थक भी है और हानिकारक भी सिद्ध हो चुका है ॥१६॥

न यत्र वृत्तिः खलु धार्मिकी स्यात्कार्ये च तस्मिन्नहि सिद्धिरस्ति ।
ततो निराशयतया समेषामीशस्तुतिः सार्वदिकी स्थिताऽत्र ॥१७॥

जित कार्यमें धार्मिक वृत्ति नहीं रहती उसकी सिद्धि भी नहीं होती ।
अतः—धार्मिकवृत्तिकी रक्षाकेलिये बिना अपवादके सब आश्रमवासियोंको भगवत्प्रार्थना करनी होगी ॥ १७ ॥

है । इस सम्बन्धमें हिन्दूशास्त्रोका आधार ढँडना दोनों पक्षोंकेलिये
चाहियत बात है । बुद्धि अर विवेकसे ही काम लेना मनुष्यता है ।

अस्पृश्यभावनाके पोषणसे अनुदार मनोवृत्ति पैदा होती है, मानव-
समाजकी उन्नतिका मार्ग अरुद्ध हो जाता है, सद्गुणोकी पूजाकी
भारना नष्ट होती है, सामाजिक व्यवस्था शिथिल होती है । वेदान्त-
प्रतिपाद्य अमेदर्शी ओर दुर्लक्ष होनेसे आत्मिक उन्नतिमें बाधा पहुँचती
है । ऐसे दूसरे भी अनेक दोष हैं जिनके कारण अस्पृश्यताको हिन्दू-
समाजका कलङ्क माना गया है ।

वैष्णवग्रन्थोंमें तो अस्पृश्यता जैसी कोई वस्तु ही नहीं है ।
माननीय वैष्णवाचार्योंने मानवजातिके उत्थानमें सब सम्प्रदायोंकी अपेक्षा
अत्यधिक प्रयत्न किया है । तस्मै देयं ततो ब्राह्मम् वह एक अर्थात्
विष्णुभक्त चाण्डाल हो तो भी उसे ही धन विद्यादि देने चाहिये और उससे
ही यह सब लेने चाहियें—वहकर वैष्णवाचार्योंने दूरदर्शिताका परिचय दिया
है । उनकी दृष्टि निशाल थी, उनका हृदय उदार था । और वह ही सच्चे
वैष्णव थे ।

भी द्वेष नहीं करना चाहिये । अपने शत्रुओंको भी प्रेमसे ही जीतना चाहिये ॥ ४ ॥

न ब्रह्मचर्येण विना कदाचिद्द्रुताधिरक्षा सुश्रुकेति मत्वा ।
कार्यो विहारो निजभार्ययाऽपि तत्पालनायैव कदापि नेति ॥५॥

ॐ ब्रह्मचर्यके विना अन्य ऋतोंकी रक्षा सुशक नहीं है ऐसा मानकर, तत्पालनायैव = ब्रह्मचर्यपालनेकेलिये ही अपनी भार्याके साथ भी आश्रमवासियोंको विहार नहीं करना चाहिये ॥ ५ ॥

शरीरयात्रापरिचालनाय सत्त्वांशवृद्धे. परिपालनाय ।
स्वदेशसेयोत्कमनोभिरभ्याहारश्च कार्यो निवसद्भिरत्र ॥६॥

इस आश्रममें निवास करनेवाले स्वदेशसेयाभिलाषियोंको शरीरनिर्वाह-

ॐ दक्षसहितामें ब्रह्मचर्यके सम्बन्धमें लिखा है —

ब्रह्मचर्यं सदारक्षेदष्टधा लक्षणं पृथक् ।
स्मरणं कीर्तनं केलिं प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ॥
सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च ।
एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

पुरपद्वारा स्त्रीका या स्त्रीद्वारा पुरुषका विषयाभिलाषसे स्मरण, पुरुपद्वारा स्त्रीके या स्त्रीद्वारा पुरुषके रूप, लाक्षण्य, विलासादिका कीर्तन, पुरुषोंका क्रियोङ्क साथ या स्त्रियोंका पुरुषोंके साथ वैपविच केलि = हास्य —विनोद, स्त्रीपुरषका परस्पर रागपूर्वक दर्शन अथवा रागपूर्वक पुरपद्वारा स्त्रीका भ्रंर स्त्रीद्वारा पुरुषका प्रेक्षण—अवलोकन, गुह्यभाषण अर्थात् गुह्यवासम्बन्धी चालाचार, पुरपद्वारा स्त्रीकी प्राप्तिरा और स्त्रीद्वारा पुरुषकी प्राप्तिरा—सङ्कल्प, इस सङ्कल्पको पूर्ण करनेकेलिये अध्यवसाय —बल करना, क्रियानिर्वृत्ति—स्त्रीपुरषोंका एकान्तसायन, यह अष्टाङ्ग मैथुन है । इनके त्याग करनेसे अष्टाङ्ग ब्रह्मचर्यका रक्षण होता है ।

केलिये और सत्त्वगुणकी वृद्धिकी रक्षाकेलिये ही ॐ भोजन करना चाहिये ॥ ६ ॥

जनैरनावश्यकमेकमप्यादातुं च संरक्षितुमत्र वस्तु ।

शक्यं न तेनाथ निपालनीयमस्तेयनाम व्रतमित्यवश्यम् ॥७॥

इस आश्रमके निवासी एक भी अनावश्यक वस्तु न ले सकते हैं और न रख सकते हैं। इस रीतिसे अस्तेयव्रतका पालन करना आवश्यक है ॥ ७ ॥

आवश्यकानामपि चाश्रमस्थैस्तावन्नि वस्तूनि विचार्ये नित्यम् ।

धार्याणि येषामुपयोग आस्तां नान्यानि मायाऽऽवृत्तिवर्धनानि ॥८॥

आवश्यक वस्तुओंमेंसे भी आश्रमवासी विचारपूर्वक उतना ही रख सकते हैं जिनका उपयोग हो। अन्य वस्तुओंको नहीं रख सकते अथवा उपयोगसे अधिकको नहीं रख सकते; क्योंकि यह सब वस्तु मायाके जाटको बढ़ानेवाले हैं ॥ ८ ॥

स्वदेशसेवानिरतैर्मनुष्यैः स्थित्याश्रमेऽस्मिन्परमर्षिसेव्ये ।

निर्वाञ्जतायाः परिपोषणेऽपि भाव्यं सदा धीरतयाऽप्रमत्तैः ॥९॥

स्वदेशसेवापरायण मनुष्य इस ऋषि-आश्रममें रहकर सादगीकी वृद्धिमें भी सदा सावधान रहें ॥ ९ ॥

अस्मिन्पुगे यन्त्रगतिप्रचारे प्रायेण सारत्यमितो विनष्टम् ।

देशाभिमानोऽथ विवेकिताऽपि गुणाः समे त्वेकपदे विनष्टाः ॥१०॥

इस यान्त्रिक युगमें भारतवर्षसे प्रायः सरलता-सादगी नष्ट हो गयी है। देशाभिमान, विवेकिता, तथा अन्यगुण भी एकदम नष्ट हो चुके हैं ॥ १० ॥

अतः परायत्तयेह वास परायणैहस्तविनीतसूत्रैः ।

इस्तेन वीतानि विनीतभाषैर्ब्राह्मण्यि वासांस्यखिठैः सदेति ॥११॥

ॐ अर्थात् स्वाश्रमकेलिये भोजन इस आश्रममें निषिद्ध है ।

ॐ स्वदेशभाषामथ मातृभाषां त्यक्त्वा प्रजा याः परदेशभाषाम् ।
समाश्रयन्ते विपदो भजन्ते ततोऽत्र हिन्दीसुरगीःप्रचारः ॥१८॥

जो प्रजा अपनी देशभाषा और मातृभाषाको छोड़कर परदेशभाषाका आश्रय लेती है वह दुःख पाती है अतः इस आश्रममें हिंदी और संस्कृतका प्रचार रखा गया है ॥ १८ ॥

स एवमाद्यैर्नियमैर्विभूष्य सत्याग्रहेत्यादिमनन्तशक्तिः ।
तमाश्रमं सत्यनिगूढशक्ति प्रदर्शनाय प्रथयांचकार ॥१९॥

श्रीमहात्माजीने इस प्रकारके नियमोंसे सजाकर सत्याग्रह यह शब्द जिसके आदिमें है उस आश्रमको अर्थात् सत्याग्रह आश्रमको, सत्यकी छिपी हुई शक्तिको दिखानेकेलिये, स्थापित किया ॥ १९ ॥

गतेषु भासेषु च तत्सकाशे तावत्समायादमृतस्य पत्रम् ।
अस्पृश्य इच्छत्यधिवासमेकः सदारकन्यो भवदाश्रमेऽस्मिन् ॥२०॥

कुछ ही महीने बाद श्रीअमृतलालटकरका आश्रममें एक पत्र श्रीमहात्माजीके पास आया कि एक अस्पृश्य अपनी स्त्री और कन्याके साथ आपके आश्रममें निवास करना चाहता है ॥ २० ॥

तदाश्रमस्थैः सकलैः प्रसन्नैरुचे न हानिर्ग्रहणेऽन्त्यजस्य ।
शक्तस्य निर्याहयितुं समस्तान्सुदुर्गमांस्तन्नियमान्सधैर्यम् ॥२१॥

आश्रमवासियोंने प्रसन्न होकर कहा कि यदि कोई अन्त्यज यहाँके अत्यन्त फटोर समस्त नियमोंका धीरजके साथ पालन कर सकता हो तो उसे यहाँ लेनेमें कोई हानि नहीं है ॥ २१ ॥

पत्या च दान्या सुतया च लक्ष्म्या दूदाऽन्त्यजस्तत्र समाजगाम ।
फौटुम्बिकत्वं समुपेत्य तस्थौ तदाश्रमीयैः सकलैः समं सः ॥२२॥

अन्त्यज दूदाभाई अपनी स्त्री दानी और कन्या लक्ष्मीके साथ आश्रममें गये और सब आश्रमवासियोंके साथ कुटुम्बिकावसे रहने लग गये ॥२२॥

ॐ यहाँतक सत्याग्रह आश्रम साधरमतीके नियम परिणत हुए हैं ।

अहमदाबाद उदात्तविन्दे कोलाहलो वैष्णवताप्रधाने ।
समुद्रभौ सर्वजनेषु तत्र मोहाद्भयं धर्महतेः प्रपन्नम् ॥२३॥

वैष्णवताप्रधान और धनिक अहमदाबादमें कोलाहल मच गया ।
अज्ञानसे सब लोगोंमें यह भय घुस गया कि धर्मका नाश हो गया ॥ २३ ॥

पानोयमानेतुमथ ब्रजन्तं तदाश्रमस्थं कमपि प्रवीक्ष्य ।
अन्धौ स्थिता गालिसहस्रपाठं सदैव चक्रुर्गतसद्विचाराः ॥२४॥

उस आश्रमसे कोई भी जब कूँएँपर पानी भरने जाता था तो उसे
देखकर, जो लोग कूँएँपर लड़े रहते थे, वह अविचारी लोग गाली
दिया करते थे ॥ २४ ॥

श्रुत्वाऽऽश्रमेऽस्तृश्यकुलप्रवेशं सर्वे सहायाः सुधियोऽपि जाड्यम् ।
गताश्च पौरा द्रविणस्य लाभाद्विनाऽऽश्रमोऽसौ सविपद्भूय ॥२५॥

आश्रममें अन्त्यजप्रवेशको सुनकर, आश्रमके सहायक जो समझदार
थे वह भी जड़ हो गये । अत्र धनलाभके विना आश्रम बिपत्तिमें पड़
गया ॥ २५ ॥

वद्विष्णुताश्चेरसकला भवेम वासं प्रयायाम तद्वान्त्यजानाम् ।
त्याज्यं न चैतन्नगरं महात्मा समं स सर्वैरिति निश्चिकाय ॥२६॥

भीमहात्माजीने सब आश्रमवासियोंके साथ विचार करके निश्चय
किया कि यदि हम सब लोग वद्विष्णुत हो जायँ तो वहाँ अन्त्यज लोग
रहते हैं, वहाँ ही हम भी चलेंगे । परन्तु इस शरत्को नहीं छोड़ना
है ॥ २६ ॥

द्वित्रेण्यहस्सेव च मग्नललो यमी शमी शुद्धधियां वरिष्ठः ।
महात्मययं समयोचतेप द्राहित्यमृन्मयस्य विरुढचिन्तः ॥२७॥

दो तीन दिनोंके बाद यमी और शमी तथा शुद्धबुद्धिवालोंमें श्रेष्ठ ❀

❀ श्रीमग्नलालभाई ही आश्रममें एक ऐसे मनुष्य थे जो महा-

श्रीमगनलालभाईने श्रीमहात्माजीको सूचना दी कि अब आश्रममें धनका अभाव हुआ है ॥ २७ ॥

स प्रत्युवाचेति न कापि हानिर्वयं ब्रजिष्याम उदूढसत्याः ।
कर्तुं निवासं वसताविदानीं मुदान्त्यजानामतिदुर्गतानाम् ॥२८॥

महात्माजीने कहा, कोई हर्ज नहीं । हम सब सत्याग्रही प्रसन्नतासे अतिदीन अन्त्यजोंके मुहल्लेमें रहनेके लिये चलेंगे ॥ २८ ॥

कश्चित्प्रभाते समवेत्य बालो हसन्महात्मानमुदाग्रहार ।
स्थितो वहिर्द्वारमुखे भवन्तं दिदृक्षते कश्चिदुदारचेताः ॥२९॥

प्रातःकाल एक बालक हँसता हुआ श्रीमहात्माजीसे बोला कि बाहर दरवाजेपर कोई सेट खड़े हैं और आपका दर्शन चाहते हैं ॥ २९ ॥

श्रुत्वेव धीमन्महितो महात्मा गतो वहिर्द्वारमथो ददर्श ।
समोटरं कञ्चिदुदारचित्तं पप्रच्छ तं तत्कुशलं प्रहृष्टः ॥३०॥

विद्वानांसे पूजित श्रीमहात्माजी, सुनते ही बाहर गये और मोटरमें बैठे हुए किसी उदारमना—सेटको देखा । प्रसन्न होकर उनका कुशल समाचार भी पूछा ॥ ३० ॥

त्वदर्शनादेव सुराधिराशे शिष्यं समुद्रासितमस्मदीयम् ।
तयानुकम्पां सततं समिच्छ ग्निहागतो देव तवाग्निकेऽहम् ॥३१॥

सेटजीने उत्तर दिया कि हे सुप्रसागर ! आपके दर्शनसे ही हमारा सुर है । हे देव ! आपकी कृपा चाहता हुआ आपके पास आया हूँ ॥ साहाय्यमिच्छामि तवाश्रमाय दातुं यथाश्रद्धमतः कृपातः । प्रगृह्य तदीनजनाधिनाथ प्रपूरयस्वातिमनोरथं मे ॥३२॥

माजीके प्रत्येक नियमको सावधानीके साथ पालते थे । इस ग्रन्थलेखकके साथ उनका बहुत गह्रा सम्बन्ध था । उपनिषद् और उर्बू भाषा उम्होंने इसी ग्रन्थलेखकसे सीखी थी ।

सेठजी बोले, मैं आपके आश्रमकेलिये, भद्वानुसार कुछ सहायता करना चाहता हूँ । अतः हे दीननाथ ! कृपाकरके, उसे स्वीकार कर मेरे मनोरथको पूर्ण कीजिये ॥ ३२ ॥

दृष्ट्वेति चाचं धनिकधिपोऽसौ मुद्राः सद्व्याणि समर्प्य तस्मै ।
त्रयोदश प्राञ्जलिराशु धीरो चयागतं तेन ययौ रथेन ॥३३॥

सेठजी ऐसा कहकर, १३ सहस्र रुपये महात्माजीको देकर, हाथ जोड़कर उठी समय उठी मोटरसे, जहाँ से आये थे, वहाँ चले गये ॥३३॥

आकस्मिकं प्राप्तमवेक्ष्य काले साहाय्यनासंदर्चकितः समस्ताः ।
दैवेन संवर्धितगौरवस्य तदेव रक्षां सवतं करोति ॥३४॥

अकस्मात् इतनी बड़ी सहायता ठीक समयपर मिली हुई देखकर सब चकित हो गये । दैव जिसका गौरव बढ़ाना है वहाँ उसकी रक्षा भी करता है ॥ ३४ ॥

तम्याथ दुःखावसरेषु धैर्या दीशं सदा चिन्तयतोऽतिभक्त्या ।
महात्मनो मोहनदासगांधिमेनोऽधिकं लीनमतो मद्देशे ॥३५॥

दुःखके समय धैर्यके साथ आयत्त भक्तिसे महात्माके चिन्तन करनेवाले भीमहात्माजीका मन इस घटनासे प्रभुमें अधिक लीन हो गया ॥ ३५ ॥

परप्रसादादधिगत्य मुद्रा दारिद्र्यपादप्रसरोऽवहृदः ।
परं कुलेऽस्मिन्नद्य समागमेन दादोर्विपादः स्वपट्टं चफार ॥३६॥

भगवत्प्रसासे रुपये पाकर दण्डिता को दूर हो गयी । परन्तु दादूमाईके आनेसे इस आश्रममें विघटने अपना पैर रखा दिया ॥ ३६ ॥

पतिप्रतापे पतिदेयताया अजिह्वगुर्या अतिधिप्रियायै ।
फल्गुरदेव्या अपि चैव घासोऽशृदयैः सदातेषत नैव किञ्चिन् ॥३७॥

पतिसे देवतागमान माननेवाणी, निर्दोषरुचिताकी, अनिधिवर्गे

प्रेम रखनेवाली पतिव्रता श्रीकस्तूरबाईको भी अस्पृश्योंके साथ निवास करना थोडा भी नहीं रुचा ॥ ३७ ॥

तथाऽपरासामपि तत्स्थितानां स्त्रीणां खिदायै नितरामभूत्सः
महात्मनस्तेन गतिर्वभूव संलूनपक्षस्य पतत्रिणोऽत्र ॥३८॥

आश्रमकी अन्य स्त्रियोंको भी यह अन्त्यबोंके साथ निवास सेदजनक प्रतीत हुआ । इससे महात्माजीकी, कटेपंखवाले पक्षी जैसी दशा हुई ॥ ३८ ॥

दाहुं च दानीं च सदा विनम्रः प्रसाद्यामास कथञ्चिदेव ।
धैर्येण सोढुं समबोधयत्तौ मानस्य भङ्गं स महाकृपालुः ॥३९॥

श्रीमहात्माजी बड़ी नम्रताके साथ दादूभाई और दानी बहिनको किसी प्रकार प्रसन्न रखा करते थे । वह महादयालु मानभङ्गको धैर्यके साथ सहन करनेको समझाया करते थे ॥ ३९ ॥

एवं तपस्यन्स महातपस्वी तदाश्रमेऽन्यैः स्वजनैः समेतः ।
अरन्तुदं भारतपारतन्त्र्यं समीक्ष्य चिन्ताचलितो बभूव ॥४०॥

महातपस्वी श्रीमहात्माजी इस प्रकार अन्य आश्रमवासियोंके साथ तपस्या करते हुए देशकी कठिन परतन्त्रताको देखकर चिन्तासे व्याकुल हो गये ॥ ४० ॥

स्वतन्त्रताया जननी पुरा याऽनवद्यधिद्यात्रतजन्मभूर्या ।
सा भारती भूमिरदभ्रदुःखप्रदा बभूवास्य विपत्तिमघ्ना ॥४१॥

जो भारतभूमि पहिले स्वतन्त्रताकी माता थी और समस्त उत्तम विद्याओं और ऋतोई जन्मदात्री थी वही भूमि आज दुःखमें पँसी हुई होनेके कारण महात्माजीको अत्यन्त दुःखदेनेवाली बन गयी ॥ ४१ ॥

मोक्षं समुत्पादयितुं महात्मा श्रीभारतस्याथ महाविपत्तेः ।
छपासनायां पुरुयोत्तमस्य दिने दिनेऽर्सा दृढतां प्रपेदे ॥४२॥

ॐ दीनानामभयदमेव पारिजातं,

कामानामखिलनृणां सतामनन्तम् ।

श्रीरामं परित् उपास्य दीनबन्धु-

स्तस्यामाश्रमसुवितस्थिवान्महात्मा ॥ ४३ ॥

इति सर्वतन्त्रस्यतन्त्रपरमहंसपरिव्रजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

पद्यः सर्गः

महती विपत्तिसे भारतको मुक्त करनेकेलिये श्रीमहात्माजी भगवान्की
उपासनामें दिनोंदिन दृढ़ होने लग गये ॥ ४२ ॥

दीनोंको निर्भय बनानेवाले और समस्त छात्रुपुत्रोंकी कामनाओंको
पूर्ण करनेकेलिये कल्पवृक्षसमान भगवान् श्रीरामकी उपासना करके दीनबन्धु
श्रीमहात्माजी आश्रममें रहने लगे ॥ ४३ ॥

इति सर्वतन्त्रस्यतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकसहिते

भारतपारिजाते पद्यः सर्गः

❀ सप्तमः सर्गः

अथ भारतभूमिभाग्यतः परिसम्पादितसत्तपोबलः ।

स उदारमना व्यचारयत्परिशोषाय विपन्निवेर्भुवः ॥१॥

भारतभूमिके भाग्यसे सुन्दर तपोबल प्राप्त करके उदारमना श्रीमहात्माजी पृथिवीभरके दुःखसागरको सुखदेनेकेलिये विचार करने लगे ॥ १ ॥

नगरं लखनाउमीयिवान्हृदयानन्दतरङ्गवेल्लितः ।

स सभा जयितुं महासभां विविधज्ञानिसमाजसम्प्लुताम् ॥२॥

परमानन्दित चित्तसे श्रीमहात्माजी बड़े बड़े विद्वानोंवाली कांग्रेस—राष्ट्रियमहासभाको देखनेकेलिये लखनऊ गये ॥ २ ॥

कृपकः समिन्धाय कोऽपि तत्पुरतो राजकुमारनामकः ।

अतिदूनमनाः प्रणम्य तं कथयामास निजां विपत्कथाम् ॥३॥

राजकुमार शुद्ध नामक कोई किसान वहाँ श्रीमहात्माजीके पास आये और अत्यन्त खिन्न होकर प्रणाम करके अपनी विपत्ति सुनाने लगे ॥ ३ ॥

नियसार्त्तमि विहारमण्डले शिवे चम्पारणनाम्नि पत्तने ।

सितदेहभृतां धनार्थिनामनयस्तत्र च वर्तते ऽधुना ॥४॥

वह बोले, मैं विहारप्रान्तके चम्पारण शहरमें रहता हूँ । धनके लोभी अंग्रेज आजकल यहाँ बड़ा अन्याय कर रहे हैं ॥ ४ ॥

क्रियते धनलामलोभतः कृपिरेतैर्मधुपर्णिकोपधेः ।

श्रम कर्मकराश्च भारता नियतास्तैर्व्यथिताः क्षुधानलैः ॥५॥

अंग्रेजलोग धनके लोभसे मधुपर्णिका=नीलमी गेती करते हैं । भूगसे पीड़ित भारतवासियोंको उन लोगोंने मजूरीकेलिये रत्न छोड़ा दे ॥५॥

❀ इस सर्गमें त्रिवोगिनी छन्द है ।

ददते न भूर्तिप्रयाचिताः प्रतिकूलचरणाः सिताङ्गकाः ।
सततं परिपीडयन्ति ते स्वकृतौ लग्नजनानपि प्रभो ॥६॥

मॉगनेपर भी, वह बिरुद्धव्यवहार करनेवाले अश्रेष्ठ, मजदूरी नहीं देते हैं । हे प्रभो ! काममें छोटे रहनेपर भी लोगोंको वह हैरान करते हैं ॥ ६ ॥

बहुधा परिपीडयन्ति ते सकलान्कर्मकरानमी मुधा ।
विविधापदपानिधौ जनान्पतितान्पाहि परार्थजीवित ॥७॥

यह अश्रेष्ठ सभी मजदूरोंको व्यर्थमें अनेक प्रकारसे पीडा पहुँचाते हैं । विविधविपत्तिरूप सभारमें पड़े हुए लोगोंको, हे परोपकारकेलिये जीवन-धारण करनेवाले महात्माजी ! बचाइये ॥ ७ ॥

विपद्भिर्घातस्य तस्य तद्वचनाद्भृष्टवचनक्षमात्तदा ।
स च ॐ वैष्णवतामहीपति कृपया गन्तुमदः प्रतस्थिवान् ॥८॥

विपत्तिसागरमें पड़े हुए उस किसान वधुकी हृदयवेधक बात सुनकर उन वैष्णवशिरोमणिने कृपा करके वहाँ जानेकेलिये प्रस्थान कर दिया ॥ ८ ॥

भ्रमं पटनां मुदा ययां व्रजराजेन्द्रमुखांश्च सल्लनान् ।
परिगृह्य मुञ्जफ्ररापुरात्कूपलानीमपि सोऽपतो ययौ ॥९॥

श्रीमहात्माजी प्रसन्न होकर पड़िले तो पटना गये । वहाँसे † चाञ्च

ॐ यहाँपर वैष्णवतामहीपति. इस विशेषणके देनेका कारण यह है कि "जो परमदयालु हो और परदुःखामहिष्णु हो उसीको वैष्णव कहा जाता है । जो ऐसा न हो, वह चाहे जितना भी याज्ञ स्वाज्ञ वैष्णवता दिखानेकेलिये बनाए फिरे परन्तु वह वैष्णव नहीं ही है ।"

† व्रजविशोत्पादके खरमें श्रीमहात्माजी लिखते हैं कि "उनकी पिशाची मद्यता, सादर्शा, भद्रता भर अमाधारणभ्रदा देखकर मेरा हृदय दर्पसे भर गया ।"

ब्रजकिशोरप्रसादजी, † बाबू राजेन्द्रप्रसादजी आदि सज्जनोंको लेकर और मुजफ्फरपुरसे आचार्य ‡ कृपलानीको लेकर आगे चले ॥ ९ ॥

अथ नाशयितुं महाव्रती विदितां तिनकठियां समूलतः ।
परिवारित एष सज्जनैरधिचम्पारणपत्तनं ययौ ॥१०॥

महाव्रती श्रीमहात्माजी + तिनकठियाका समूल नाश करनेकेलिये अनेक सज्जनोंके साथ चम्पारण गये ॥ १० ॥

प्रथमं च महात्मना गतः सचिवः श्वेतशरीरधारिणाम् ।
परिरक्षितुमर्तितो जनान्करणीयाकरणीयबोधनात् ॥११॥

पहिले तो महात्माजी कर्तव्य और अर्कतव्यका ज्ञान कराकर लोगोंको दुःखमेंसे छुड़ानेकेलिये (निलहा) गोरोंके सेक्रेटरीके पास गये ॥ ११ ॥

स महामदधिह्वलो मनागभिमानेन यतिं निरैक्षत ।
पतनोन्मुखतां गमिष्यतो मतिरव्याकुलतां भजेत् नो ॥१२॥

उस मदनमत्त सेक्रेटरीने श्रीमहात्माजीको अभिमानकी नजरसे देखा । ठीक ही है, पतनकी ओर जानेवालेकी बुद्धि शान्तिको नहीं धारण करती ॥ १२ ॥

समगाच्च ततः कमिदनरं स हि सत्याग्रहशस्त्रसंज्ञितः ।
अधिवेकपराहतोऽवदत्परिहर्तुं नगरं सपद्यमुम् ॥१३॥

† बाबू राजेन्द्रप्रसादजी और बाबू ब्रजकिशोरजीको-दोनोंको श्री महारामाजीने त्यागी लिखा है ।

‡ आचार्यकृपलानी उस समय मुजफ्फरपुरमें प्रोफेसर मलकानीके घरमें रहते थे । कुछ दिन ही पूर्व यह वहाँ कालेजमें प्रोफेसर थे ।

+ अपनी ही ज़मीनके $\frac{3}{8}$ भागमें चम्पारनके किसान, जमीनके मूल मालिकोंकेलिये नीलकी खेती करनेकेलिये कायदेसे बँधे हुए थे । इसीको तिनकठिया कहते थे । वहाँके मापसे २० कट्टेवा एक एकड़ । उसमेंसे ३ कट्टेमें नीलकी खेती । इसीका नाम तिनकठिया था ।

वहाँ से—सेक्रेटरीके यहाँसे श्रीमहात्माजी सत्याग्रहकी तैयारीके साथ कमिश्नरके पास गये । उस अधिवेकीने महात्माजीको शीघ्र ही शहर छोड़ देनेको कहा ॥ १३ ॥

शिविरं समुपेत्य मोहनो यमिन्नामप्रसरो विचारवान् ।
सकलाननुयायिनो निजान्समचेतानकरोत्क्षणेन सः ॥१४॥

ॐ यमिपुरुषोमें भ्रष्ट, विचारवान् श्रीमहात्माजीने अपने डेरेपर आकर शीघ्र ही अपने सब अनुयायियोंको एकत्रित किया ॥

स जगाद् निरस्तसंभ्रमो मम कारागमनं ह्युपस्थितम् ।
वितियां मुतिहारिमेव वा परिगन्तुं नु विधीयतां त्वरा ॥१५॥

श्रीमहात्माजीने गंभीरशान्तिके साथ कहा कि निश्चय ही, अगले मेरे जेल जानेका समय आ गया है । अतः बेतिया या मोतीहारी चलनेकी आप लोग शीघ्र तैयारी करें ॥ १५ ॥

वितियामुतिहारिसन्निधौ कृपका निर्दयिभिः प्रपीडिताः ।
बह्वस्तत एव तन्नृप्यागबल्योनाय मतिं चकार सः ॥१६॥

बेतिया या मोतीहारी जानेका कारण बताते हैं—बेतिया और मोतीहारीके पास निर्दयी गोरोने बहुतसे किसानोंको ईशान कर रता था अतः उन दुःखी मनुष्योंको देखनेकी उनकी इच्छा हुई ॥ १६ ॥

स जगाम ततोऽनुयायिभिर्मुतिहारीमचलप्रवः क्षणान् ।
भयने मुरादे च गौरये वसतिं शान्तिमयीं चिन्तितमे ॥१७॥

○ अहिंसा—जिमी प्राणिके मोह न करना, सत्य—जैसा मनमें हो वैसा ही वाणीसे बोलना, अस्तेय—ज्ञानविरुद्धरीतिसे परद्रव्यका स्वीकार न करना अथवा परद्रव्यकी सहायता नहीं करनी, मद्राचर्य—गुणोद्दिपतकर्म, अपरिग्रह—विषयोका समझ न करना, यह ५ यम हैं । इन पाँचोंको पालन करनेवालों को यमी कहते हैं ।

निश्चल सङ्कल्पवाले श्रीमहात्माजी अपने अनुयायियोंके साथ शीघ्र ही मोतीदारी गये । वहाँ बाबू गोरखप्रसादजीके घरमें शान्तिके साथ निवास किया ॥ १७ ॥

अनुशासनपत्रिकां तदा प्रहितां तां परिगृह्य शासकैः ।
अचिरेण विहातुमाशु तत्सविधे प्रान्तमभुंगतश्चरः ॥१८॥

वहाँ पहुँचते ही वहाँके शासकके भेजे हुए, बिहार प्रान्तको शीघ्र छोड़ देनेके हुक्मनामेको लेकर सिपाही श्रीमहात्माजीके पास आया ॥१८॥

महतां महितो मुनिश्च तद्ग्रहणायाऽमतिमार्जवेन सः ।
परिदृश्य दधार शासनप्रतिपत्तित्वमुदारशासनः ॥१९॥

बड़े बड़े लोगोसे पूजित उदारशासनवाले श्रीमहात्माजीने बड़ी नम्रताके साथ आज्ञापत्रिकाको लेनेकी अनिच्छा दिखाकर सर्कारके साथ प्रतिपक्षि-भावको स्वीकार कर लिया ॥ १९ ॥

मदिना त्रिट्टिशाधिकारिणा यमिनि प्रेषितमाह्वपत्रकम् ।
अनुशासनभङ्गहेतुना समुपस्थातुमधीशसद्गनि ॥२०॥

पश्चात्, अदृश्यारी वृट्टिश अधिकारीने श्रीमहात्माजीके पास आज्ञानङ्क करनेके कारण, कोर्टमें उपस्थित होनेकेलिये हुक्मनामा भेजा ॥ २१ ॥

अथ जानुविलम्बिवाहुको गणनातीतजनाधिवेष्टितः ।
स्मयमानशशिप्रभाननो ह्युपतस्थौ स विचारसद्गनि ॥२१॥

जानुपर्यन्त जिनके भुज लटक रहे थे, अगणित आदमियोंसे जो उस समय धिरे हुए थे, जिनका चन्द्रसमान मुख सुसुपुरा रहा था वह श्रीमहात्माजी कचहरीमें उपस्थित हुए ॥ २१ ॥

परिविद्य महत्तपोस्य तन्मृदुतां तामथ शिष्टतां च ताम् ।
अतिदूरविगाहिनी धृतिं चकितोऽसौ हि बभूव शासकः ॥२२॥

हाकिम उस समय-कचहरीमें, श्रीमहात्माजीके तप, उनकी स्वभाव-

सरलता और शिष्टता तथा बहुत बड़े धैर्यको देखकर चकित हो गया ॥ २२ ॥

अथ शासनपक्षपोषकः स च ज्ञात्वा स्वयमप्यवाकुलः ।

व्यवहारनिरीक्षणत्वरपरिहाणे कुशलं व्यचारयत् ॥२३॥

शासनपक्षपोषक अर्थात् सरकारी वकीलने और स्वयं हाकिमने भी पचड़ाकर मुकदमाचलानेकी शीघ्रताको छोड़ देनेमें ही अष्टा समाप्ता ॥२३॥

परमेष महामतीदधरो मृदुवाचाऽनुजगद् तत्क्षणम् ।

समुपस्थित एव भो अहं स्वयमूरीकरणाय चागतः ॥२४॥

परन्तु महामतिवाले यह भीमहात्माजी उसी समय बोल उठे कि मुकदमा ढीला करनेका कोई कारण नहीं है । मैं तो स्वयं अपने अपराधको स्वीकार करनेकेलिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ॥ २४ ॥

अपराधपरीक्षयागता अनुशृण्वन्तु निवेदनं मम ।

अहमद्य युतः प्रयोजनाद्भवदाज्ञावमर्तिं प्रणीतवान् ॥२५॥

किं च, आप तो मुकदमा सुननेकेलिये यहाँ आए हैं; अतः मैंने आज फिल वारणसे आपकी आज्ञा भङ्ग किया है—इत नरे • निवेदनको आप सुनें ॥ २५ ॥

जनसेवनभावनायुतो विपदापन्नजनार्तिपीडितः ।

अहमन्न समागमं मुदा परिचर्याचरणाय दुःखिनाम् ॥२६॥

मानवउपासकी सेवा करनेकी भावनासे युक्त होकर, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंकी निपत्तिसे पीड़ित होकर मैं प्रेमसे दुःखिजनोंकी परिचर्या-सेवा करनेके लिए यहाँ आया हूँ ॥ २६ ॥

अन्यज्यवहारसेविनो व्यवचन्त्येव सदा प्रजाजनान् ।

इह नीलरजस्ततोऽहमागतवाभ्र्यानिरोधनोत्सुकः ॥२७॥

७ २६ से ४० इतिश्लोक भीमहा'माजीय पद बयान है जिसे उन्होंने चण्दाणकी कपहरीमें दिया था ।

यहाँ, नीलवर-नीलकी खेती करने करानेवाले गोरे लोग अन्याययुक्त व्यवहार कर रहे हैं और सदा प्रजाको पीड़ित कर रहे हैं। अतः मैं क्रूरता-निर्दयताको रोक्नेकेलिये यहाँ आया हूँ ॥ २७ ॥

नहि । यावदलं विवेचितं सकलं वस्तु भवेच्छ्रुतं भया ।
नहि तावदुपायचिन्तनं सुशकं स्यादिति मे मती स्थितम् ॥२८॥

जब तक सब वस्तु सुन न ली जाय और विचार न ली जाय तब तक उसके उपायका विचार सुगमतासे नहीं किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ २८ ॥

परिचेतुमथात्र संस्थितिं बहुमानैः सुजनैः समागमम् ।
न परं मनसाऽप्यभीप्सितं किमपि क्लेशविवर्धि कर्म तु ॥२९॥

यहाँकी परिस्थितिका परिषय करनेके लिये मैं बहुतेरे प्रतिष्ठित सज्जनोंके साथ आया हूँ। क्लेश बढ़ानेवाले किसी कार्यको करनेका मैंने मनसे विचार भी नहीं किया है ॥ २९ ॥

अपि नीलवरैश्च शासकैर्यदि साहाय्यमिहाप्यते तदा ।
भम कार्यमतीव संभजेत्सरलं वर्त्म न चात्र संशयः ॥३०॥

यदि निलहे गोरे और इस प्रान्तके शासक भी मुझे इस कार्यमें सहायता देंतो इसमें सन्देह नहीं कि मेरा कार्य सरल मार्गको प्राप्त कर सकता है ॥ ३० ॥

न भदागमनेन शक्यतामिह मन्ये कथमप्युपद्रुतेः ।
परमत्र च शासनी मतिविष्णद्धयेव मतिं सदा मम ॥३१॥

मेरे यहाँ आनेसे किसी प्रकारसे भी उपद्रवकी शक्यताको मैं नहीं मानता हूँ। परन्तु इस विषयमें सदा मेरे और सरकारके विचारमें विरोध होता रहता है ॥३१॥

सततं ननु चारचक्षुषः प्रतिपद्यै चराभिसञ्चितम् ।
विवशा अधिकारिणो जनाः प्रतिपत्तिं दधतीतिवृत्तके ॥३२॥

अधिकारी—हाकिम लोमोकी आलिये तो घेवल खुफिया पुलिस है। वह लोग आकर जो कुछ कह दें उसीको मुनकर, समाचारोंमें अधिकारी-लोग विवश होकर विश्वास कर लेते हैं ॥ ३२ ॥

अत एव तु ते निरन्तरं परवन्तः 'प्रतिकूलवर्त्मनि ।
विहरन्ति अथार्थतः कथामधिगच्छन्ति न कामपीडयतः ॥३३॥

इसीलिये वह परवान्—लाचार होकर उलटे मार्गमें चले जाते हैं। वस्तुतः क्या बात है, इसका पता हाकिमोंको लगता ही नहीं है ॥ ३३ ॥

यत एव महाशय प्रजाजन एवास्मि ततो मनो मम ।

अनुधावति क्षिप्रपालने विरमामि स्वकृतिं परं स्मरन् ॥३४॥

महाशय, मैं भी तो एक प्रजा ही हूँ और इसीलिये मेरा मन आश माननेकेलिये दीडता है; परन्तु अपने कर्तव्यका स्मरण करके मैं आश-माननेसे अलग रह जाता हूँ ॥ ३४ ॥

अववावममुं न्यामधिन्ननुमन्ये यदि तद्विनिश्चितम् ।

च्युत एव भवामि धर्मतो मम शुद्धे मनस्रीत्यजागरीत् ॥३५॥

हे न्यायाधीश ! यदि मैं इस आशको मानूँ तो निश्चय ही मैं धर्मसे च्युत हो जाता हूँ, देखा मेरे शुद्ध मनमें भाव उत्पन्न हुआ ॥३५॥

वपकारपरायणस्य मे हृदये नैव विजायते रुचिः ।

परिहर्तुमियं प्रदेशकं कथमप्यस्य भवेन्न तत्तत ॥३६॥

मैं उपकार करनेकेलिये आया हूँ इसलिये मेरे हृदयमें इस प्रदेशको छोड़नेकी रुचि नहीं होती है। इसीलिये, किसी प्रकारसे भी ० यह नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥

० अववावद् = आश । - १ वापहिन् = न्याय करनेवाला-न्यायाधीश ।

× न्याय और अववावका-निर्णय किये बिना मैं इस प्रदेशको नहीं छोड़ सकता ।

अथ मानधनाभिजीविनामनयावर्धकशिष्टिभङ्गनात् ।
न विना गतिरस्ति मेऽपरा परिरभ्या सुखदाशु मादृशाम् ॥३७॥

जिन लोगोंका मान ही धन है और मानरूप धनसे जो जीनेवाले हैं ऐसे मेरे जैसे लोगोंकेलिये, अन्यायपूर्ण आशके मङ्ग करनेके अतिरिक्त, स्वीकार करने योग्य, मुसद तो कोई अन्य मार्ग ही नहीं है ॥ ३७ ॥

नृपशासनभङ्गनेन यत्किमपि प्राप्यमथातिदण्डनम् ।
अतिधीरतया सुखेन तन्मम सोढव्यमितीह निश्चयः ॥३८॥

राजाशा भङ्गकरनेसे जो कुछ दण्ड मिले उसे अत्यंत धैर्य और प्रसन्नताके साथ सहन करना चाहिये, यह मेरा निश्चय है ॥ ३८ ॥
भवद्दीहितदण्डकल्पने विमपि न्योन्यमथो नयावह !
परिकल्पयितुं निवेदनं न हि गृह्यं भयता कदाचन ॥३९॥

हे न्यायाधीश ! आप यह न मान लें कि मुझे आप जो दण्ड देना चाहते हैं उगमे कुछ कमी करानेके लिये मैं यह निवेदन कर रहा हूँ ॥३९॥

अपमानविधानवाञ्छया न हि मन्यस्व निदेशभङ्गनम् ।
मम मानसतो विनिस्तुता बहु मान्यैव मया सरस्वती ॥४०॥

आपके या सत्कारके अपमान करनेकी इच्छासे मैंने आशाभङ्ग किया है, ऐसा आप न समझें । किन्तु मेरे अन्तःकरणसे जो छ आवाज निकलती है उसीका मैं मान करता हूँ ॥ ४० ॥

भगवज्जनमुख्यतां वहस्यभिघायेति षचः स्थिते यतौ ।
स च शासकवर्य आत्मनः परिपाटीं विदधे गिरामिति ॥४१॥

भगवत्-जन = भगवतोर्मि श्रेष्ठ महात्माजी इस प्रकार बोलकर

छ भन्न करणसे जो प्रेरणा उठती है, यह स्वाभाविक और भगवत्प्रेरित होती है । उसके अनुसार ही व्यवहार करना मानवधर्म है । जो हृदयकी प्रेरणाकेविरुद्ध कार्य करता है वह आत्मवधना करता है ॥

शुभ ह्यु तत्र मैत्रिद्रेटने अपने बोलनेका क्रम इस रीतिसे शुरू किया—
वर्थात् मैत्रिद्रेट बोला ॥ ४१ ॥

अभियोगनिरीक्षणं गतं परिशिष्टं परमस्य दण्डनम् ।
तदपेक्षितसर्वसाधनप्रतिपत्त्यै हि विलम्बिता गतिः ॥४२॥

मैत्रिद्रेटने कहा—अभियोग तो मुन लिया अब चेवल इनको दण्ड करना बाकी रह जाता है । दण्ड सुनानेकेलिये अपेक्षित सब साधनोंकी प्राप्तिकेलिय ही देरी करनी है ॥ ४२ ॥

अधुना च भविष्यतीह किं प्रतिपत्तं न शशाक कोऽपि तत् ।
अवगीर्णयशःकलाधरः स महात्मा निरचिन्तयत्समान् ॥४३॥

अब इस समय क्या होगा इसे कोई भी निश्चितरूपसे नहीं कह सकता था । जिनके यशोरूप चन्द्रमाकी सब प्रशंसा करते हैं उन श्रीमहात्मारजाने सबको निश्चित बनाया ॥ ४३ ॥

जगदीशसमीहितं नरः परिमाण्डुं न हि कोऽपि शक्तिमान् ।
श्रुति भाण्यमपारवचिन्तनैर्विषयेऽस्मिन्निति मोहनो जगौ ॥४४॥

श्रीमोहनने—श्रीमहात्मारजाने कहा कि भगवान्की इच्छाको कोई भी भुगुण टाल नहीं सकता है अतः इस विषयमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ ४४ ॥

भगवान्यदिदातुमीहते यसनिं मेघ निरोधवेदमनि ।
सुरतः करुणानिधीष्टये प्रतिपत्स्याम्यनुशोचनेन किम् ॥४५॥

यदि भगवान् झेलमें ही मुझे निवागत्पान देना चाहते होंगे तो उनकी इच्छाकी पूर्तिकेलिये मुगसे यही निवाग फरूंगा । चिन्ताकरनेसे क्या लाभ ? ॥ ४५ ॥

परपान्भगवत्पहं सनादरि सूर्यं परवन्द एव तन् ।
किमपेक्ष्य भविष्यद्गूहने प्रतिपद्यन्तरघृत्तयो मुधा ॥४६॥

मैं भी और आप भी सदा भगवान्‌के समक्ष परतन्त्र ही हैं।
 'तव भविष्यक्री चिन्तामे हम लोग अपनी आन्तरिक वृत्तियोंको क्यों
 ल्याते हैं ? ॥ ४६ ॥

न हि यत्नपराङ्मुखाः कचिन्निगृहीते मयि बन्धवो मम ।
 भवतेति ममेति सूचना हृदयान्मापगमत्कदापि चः ॥४७॥

मेरे माइयो ! मेरे जेल चलेजानेपर भी तुम लोग यत्न करना न
 छोडना । मैं भगवान्‌से प्रार्थना करता हूँ कि यह मेरी सूचना तुम्हारे
 हृदयमेंसे निक्कल न जावे ॥ ४७ ॥

ब्रुवतीति महातपोनिधौ नयसंसत्पतिना समीरितः ।
 चर एक उपेत्य दत्तवान्यभिराजाय च पत्रिकाभिति ॥४८॥

जिस समय महातपोनिधि श्रीमहात्माजी इस रीतिसे बोल रहे थे
 उसी समय ✽ कलेक्टरके भेजे हुए एक सिपाहीने उनके पास आकर,
 उन्हें एक पत्र दिया ॥ ४८ ॥

अथ भोगपतेर्निदेशतोऽस्त्यभियोगात्परिमोचितो भवान् ।
 इति शासनधारिणा दले सुभगे शंभृतवृत्तमीरितम् ॥४९॥

कलेक्टरने इस पत्रमें यह समाचार लिखा कि गवर्नरकी आज्ञासे आप
 अभियोगमेंसे मुक्त कर दिये गये हैं ॥ ४९ ॥

हरिरेव रिरक्षिपेद्यदि स्थजनं कंचनवाहुभिर्निर्जः ।
 परिपीडयितुं न सत्पथप्रतिपन्नं क्षमते परः कचित् ॥५०॥

भगवान् यदि अपने कल्याणकारी विशाल भुजाओंसे किसी सन्मार्गमें
 चलनेवाले रजजनकी रक्षा करना चाहे तो उसे कोई भी दुःख नहीं
 पहुँचा सकता ॥ ५० ॥

शिविरे नगरे पुरेषु च क्षणतो व्यापद्रियं सती कथा ।
परितस्तमुपेत्य विह्वला जनता वर्धयितुं न्यवस्थिता ॥५१॥

शिविरे-डेरेमें, नगरमें, गाँवोंमें, चारों ओर क्षणभरमें यह सुन्दर समाचार फैल गया । विह्वल होकर जनता बर्धाई देनेकेलिये महात्माजीके पास आयी ॥ ५१ ॥

अथ सत्यजयप्रबोधिनी नविलम्बं निखिले च भारते ।
विधिधैः करणैश्च संस्तुता शुभवार्तेयमनूनचित्रकृत् ॥५२॥

अत्यन्त आश्चर्यदिनेवाली तथा सत्यके विजयको बतानेवाली यह शुभवार्ता अनेक माघनोंद्वारा समस्त भारतवर्षमें फैल गयी ॥ ५२ ॥
अधिपेन च सोऽर्धितस्तदा यदि साहाय्यमपेक्षितं भवेत् ।
अधिकारिगणस्य ते मुखं तद्दद्यात्तुं क्षपयाशु मामिति ॥५३॥

कलेक्टरने यह भी महात्माजीसे कहा कि यदि अधिकारियोंकी यहा यताही आपस्यकता पड़े तो उसकेलिये मुझे शीघ्र सूचना दें ॥ ५३ ॥

अतिहर्षभरेण दीनभृत्स च द्वेकोऽमथाप योगिराट् ।
अवगत्य तु तन्मनस्वितामधिकं तोपमुपाययीं तदा ॥५४॥

दीनरक्षक, योगिराज श्रीमहात्माजी प्रसन्नताके साथ मि० द्वेकोक (कलेक्टर) से मिले । महात्माजी कलेक्टरकी उम्र समझी मनस्विता-उदारताकी देवकर बहुत अनुष्टुप् ॥ ५४ ॥

अथ नीलधरानयोन्मुखाचरणावेक्षणमाश्रयन्मुनिः ।
समयं मतिमानुपस्थितं क्षुपपुद्गे न च फाः समृद्धये ॥५५॥

इसके पश्चात् श्रीमहात्माजीने निलदे गोरोंके अन्त्यापोन्मुख व्यवहारोरी जाँच शुरू कर दी । क्योंकि वीन ऐरा सुदिमान् होगा जो निले हुए अक्षरका आगे लाभके लिये उपयोग न करे ! ॥ ५५ ॥

अपराधनिबन्धनाश्रिता बहुधा तं परिनिन्दितुं ततः ।

कृतवन्त उदारपापका यतनं किन्तु निरर्थकं गतम् ॥५६॥

जो निलहे या अन्य लोग अपराधी और बड़े पापी थे उन्होंने अनेक प्रकारसे महात्माजीकी निन्दा करनेकेलिये प्रयत्न किया परन्तु निरर्थक हुआ ॥ ५६ ॥

अथ भोगपतेः पुनर्यतेः सविधे पत्रमुपाययौ क्वचित् ।

तव कार्यगतिर्विलम्बिता परिहेयं तु विहारमण्डलम् ॥५७॥

÷ गवर्नरका पुनः पत्र श्रीमहात्माजीके पास एक समय आया कि आपके कार्यकी गति लम्बी हो गयी है । आपको बिहार प्रान्त अब छोड़ देना चाहिये ॥ ५७ ॥

सपदीति तदुत्तरं ददे विनयेनैव महात्मना तदा ।

मम कार्यमदो विलम्बितं भजतेऽद्यापि न चावधि परम् ॥५८॥

श्रीमहात्माजीने विनयसे शोध ही उत्तर दिया कि मेरा कार्य बढ़ गया है और उसकी अन्तिम अवधि अभी नहीं आयी है ॥ ५८ ॥

अनयस्य परीक्षणे कृते जनतादुःखकथानके श्रुते ।

न हि यावदनीतिवारणं न विहास्यामि विहारमण्डलम् ॥५९॥

श्रीमहात्माजीने लिखा कि—अन्यायोकी जाँच करनेपर, जनताकी दुःखकथाके सुन लेनेपर, जबतक अन्यायका निवारण नहीं होगा तबतक मैं बिहार प्रान्तको नहीं छोड़ूँगा ॥ ५९ ॥

स च भोगपतेः सदिच्छया पटनां द्रष्टुममुं गतस्ततः ।

जनतापरितापवीक्षिकां समितिं कामपि कर्तुमुद्यतम् ॥६०॥

बिहारके गवर्नर जनताके दुःखकी जाँचकेलिये एक समिति बनानेकी तैयार थे । उनकी शुभ इच्छाके अनुसार श्रीमहात्माजी उनसे मिलनेकेलिये पटना गये ॥ ६० ॥

÷ उस समयके बिहारके गवर्नर सर एडवर्ड गेह्ट थे ।

समितेदद्य सदस्यताकृते विनयात्मान्तगद्देश्वरेण तु ।
अभिधानमघायि तस्य सञ्जनताप्रीतिपरम्पराभुजः ॥६१॥

गवर्नरने विनयके साथ उस समितिका सदस्य बननेकेलिये समस्त सत् =
वत्कृष्ट—जनताकी परमप्रीतिके पान श्रीमहात्माजीका नाम लिया ॥६१॥

विदुषां सुहृदां मनस्विनामपरेषामपि मेऽनुयायिनाम् ।
अचितेऽवसरे च सम्मतिः परिगृह्या भविता मया ननु ॥६२॥

जो विद्वान्, मनस्वी, सुहृद् दूसरे मेरे साथी हैं, समय पडनेपर मैं
उनकी सम्मति अवश्य लूँगा ॥ ६२ ॥

परिपूर्तिमिते निरीक्षणे सदसां संप्रथितेऽपि निर्णये ।
मम तोक्ष्यति मानसं न चेत्परिहारयामि न मे प्रयत्नम् ॥६३॥

बाँच हो जानेपर, सभाके द्वारा निर्णयके प्रकाशित कर देनेपर, यदि मेरा
मन सन्तुष्ट नहीं होगा तो मैं अपनी वर्तमान प्रवृत्तिसे त्याग नहीं करूँगा ॥६३॥

गतवत्यपि तत्सदस्यतां मयि तिष्ठेत्कृपकाधिनेवता ।
समयैस्त्रिभिरित्यसौ मुनिःप्रतिशुश्राव तु तत्सदस्यताम् ॥६४॥

यदि मैं उस समितिजा सदस्य बन जाऊँगा तो भी कृपकों—फिसानो-
का नेतृत्व मेरे पास रह ही जायगा । इन तीन ७ शतोंके महात्माजीने उस
समितिका सदस्य होना स्वीकार कर लिया ॥ ६४ ॥

सदसोऽधिपतेः पदे स्थितः सर फ्रे.हस्त्यायिहृदारमानसः ।
कृपकेविधृतं विरोधनं सदसांचित्येपदे निवेशितम् ॥६५॥

समितिके समारतिके पदपर, उदारचिन्त्याले सर फ्रे.हस्ताद् महाशय
नियत हुए थे । उस समितिने कृपिकारोंने विरोधको उचित दर्शाया ॥६५॥

• (१) अरने सत्रियेति समय समय पर सलाह लेनी । (२) समितिके
निर्णयसे यदि मुझे सत्तोर न होगा तो मैं अपनी प्रवृत्तिसे जारी रखूँगा
और (३) कृपकोंका नेतृत्व मैं नहीं छोड़ूँगा । उनकी म्यक्ति सुधारनेकी
सदृष्टता यही ही रहेगी । यही तीन शतों थी जो ६२, ६३, ६४
श्लोकमें वर्णित हैं ।

अनुसृत्य च सम्प्रधारणं समितेर्न्यायसदध्वसम्पुपः ।

अभवन्ननु सार्वकालिकं जनतासङ्घटसंनिधारणम् ॥६६॥

न्यायके सत्यके रक्षण करनेवाली समितिके निश्चयके अनुसार सदाकेलिए जनताके सङ्घटका निवारण हो गया ॥ ६६ ॥

सुजनो धरणीधरो गया नवमी-श्रीव्रज-राज-गोरखाः ।

अपरे बहवः सहायतां गतवन्तो विजये महात्मनः ॥६७॥

सजनधरणीधरबाबू, बाबू गयाप्रसादजी, बाबू रामनवमीप्रसादजी, बाबू व्रजकिशोरप्रसादजी, बाबू गजेन्द्रप्रसादजी, बाबू गोरखप्रसादजी तथा अन्य बहुतसे लोगोंने-तथा प्रोफेसर कृपलानीजी आदिने श्रीमहात्माजीके इस विजयमें सहायताकी थी ॥ ६७ ॥

ॐ प्रवर्तितां नीतिविह्वपद्धतिं,

शताच्च वर्षेभ्य उदस्य धार्मिकः ।

महाश्रमेणैव विहारभूतला-

हरिद्रदिवो गुजरातमाययौ ॥६८॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
भारतपारिजाते
सप्तमः सर्गः

सौ वर्षोंसे चलती हुई इस अन्याय पद्धतिको, महान् धर्मसे दूरकरके, वह दरिद्रोंके देवता परमधार्मिक श्रीमहात्माजी गुजरातमें आये ॥ ६८ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपहाभारतराष्ट्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते सप्तमः सर्गः

ॐ यद्यपि यह विजय सत्य और न्यायकी विजय है और उसके साथ ही श्रीमहात्माजीके साथ वहाँ काम करनेवाले सभी महानुभावोंकी विजय है तथापि महात्माजीके विजय कहनेका तात्पर्य यह है कि सत्याग्रहयुद्धकी शोध केवल उन्हींकी है ।

ॐ वंशस्थविल छन्द

❁ अष्टमः सर्गः

आसीद्यदा मुनिकुलेश्वर एव चम्पा-
 रण्ये विहारभुवि गुज्रमण्डलेऽपि ।
 सत्याग्रहाख्यसमरस्य च पूर्वरूपं
 रोडाविभाग उदतिष्ठिपदेव देवः ॥ १ ॥

जब यह मुनिनाथ श्रीमहात्माजी बिहारप्रान्तके चम्पारन शहरमें सत्याग्रहयुद्ध कर रहे थे उसी समय उन्होंने गुजरात प्रान्तमें भी रोडाजिलेमें सत्याग्रहयुद्धका पूर्वरूप उदय कर रखा था । अर्थात् रोडाजिलेमें भी सत्याग्रहकी जैसाही करा रहे थे ॥ १ ॥

आगत्य गुज्रभुवि प्रसमीदय दौष्टयं
 राज्याधिकारिभिरतीव समाहृतं सः ।
 आरच्येनार्यहृदये परमं दधानो
 देवो दयापरवशो विक्रलो बभूव ॥ २ ॥

चम्पारनके आगर, गुजरातमें उर्कारी अधिकारियोंने जो दुष्टता स्वीकार की थी उसे देतार, उनके पवित्र धीर दयातु हृदयमें बहुत आश्चर्य हुआ और उससे यह ध्यातुल हो गये ॥२॥

रोडाख्यमण्डलभुवि प्रथमः पयात
 दुष्काल इद्वजठरानल उग्ररूपः ।
 नष्टा वृषिश्च निरिच्छा धहृयपणेन
 सर्वाः प्रजा विकलिता धनधान्यहीनाः ॥३॥

रोडाजिलेमें पदा भारी अशान्त पदा था । अशान्तता रूप भयङ्कर था ।

❁ इमं सर्गं चमन्तारिणा षण्द ई ।

उसके पेटमें आग धधकती थी। अतिवृष्टिके कारण स्रग् रेतनी नष्ट हो गयी थी। सब प्रजा धन और धान्यके बिना व्याकुल थी ॥ ३ ॥

चातुर्थिकोश इह नो यदि धान्यराशे-
 दुष्काल एव भविताभिमवस्तदानीम् ।
 प्राज्ञो भवेन्न कृपिकारगणात्तदैव
 राज्येन भूमिकर इत्यभवत्प्रतिज्ञा ॥ ४ ॥

उस जिल्लेमें सर्कारकी ओरसे यह प्रतिज्ञायी-नियम था कि यदि चौथाईसे कम रेतनी पकी हो-तैयार हुई हो तो उस साल दुष्काल पडनेकी घोषणा कर दी जायगी तथा किसानोंसे जमीनकी मालगुजारी उसी साल नहीं ली जायगी-अर्थात् दूसरे साल बसूल की जायगी ॥ ४ ॥

अन्याय्य एव पथि संचरणं कुराज्यं
 श्रेयस्सृजित्यथ विचार्य विचारहीनम् ।
 देयो भविष्यति करो नृपतेरिदानी-
 मित्यार्तहृद्भयकरीं निष्मादनुज्ञाम् ॥ ५ ॥

अन्यायके मार्गमें चलना ही श्रेयस्कर है, ऐसा विचारकर, विचारहीन सर्कारने दीनोंके हृदयोंको फाडनेवाली आज्ञा निकाली कि सर्कारी मालगुजारी अभी ही दनी पडेगी ॥ ५ ॥

शीघ्र महात्मवसुमत्यधिपेन तेन
 चम्पारणे स्थितवता निखिला निदिष्टा ।
 खेडाकृपीरलसुरक्षणदत्तचित्ता
 रोद्गु च राज्यकरदानमवश्यमेव ॥६॥

उस समय चम्पारनम स्थित (महात्माओंकी-भूमिके राजा) श्रीमहात्माजीने, खेडानिलेके किसानोंकी रक्षामें लगे हुए सब लोगोंको, मालगुजारी देनेको रोकनेकेलिये आदेश दिया ॥ ६ ॥

श्रीवह्मभो रमणलाल-हरिः परीतः

श्रीठक्कुरोऽप्यमृतलालमहाशयोऽसौ ।

श्रीशक्कुरो जनतया महिताः समस्ता

निर्णिन्युरात्मगमनं ह्याधिकारिष्ये ॥५॥

ॐ धीयुत वह्मभाई पटेर, रायवहादुर रमणभाई महीपतिराम नील-
दण्ड, रा० सा० हरिलाल देगाईभाई देसाई, धीयुत शङ्करलाल द्वारिका-
दास परीत, धीयुत अमृतलाल टण्डर, धीयुत शङ्करलाल वेङ्कर, समस्त
जनतामे सरकृत इन महानुभावोंने बम्बईके गवर्नरसे मिलनेका
निर्णय दिया ॥ ७ ॥

गुम्नापुरोत्रिपयभोगपतेर्षिदित्वा

तादृश्यमेव न गतास्तु तदन्तिकं ते ।

चम्पारणे निवसतोऽस्य महात्मनस्त्वै-

र्षुत्तं समस्तमिति सम्प्रहितं क्षणेन ॥८॥

इन लोगोंने मिलनेके सम्बन्धमें बम्बईके गवर्नरसे उदासीनता प्रकट
की । इस उदासीनता को देखकर यह लोग गवर्नरसे नहीं मिले । चम्पा-
रणमें भीमहात्माजीको उगी समय यह सब वृत्तान्त लोगोंने भेज
दिया ॥ ८ ॥

विक्रीय ते निजपशूनय भूपणानि

राजस्वमग्र ददते कतिचिन्मनुष्याः ।

आकर्ष्य वृत्तांमात दानजनाधिनाथः

वस्तुं तथा स निर्विषेध विचारपूर्वम् ॥९॥

रोड़ाके वह कुछ आरागी—को गधारेसे दारते पे का अग्नी प्रतिदाते

ॐ उन हिन्दोमें गुजरातगभा नामकी एक राजनीतिक सरथा गुजरातमें
थी । उससे गभारति भीमहात्माजी में भीर प्रायः वह गमी लोग उनके
मानवीय सम्बन्ध थे ।

डरते थे—पशुओं और गहनेको बँचकर मालगुजारी (विघोटी) दे रहे हैं, इस समाचारको सुनकर दीनानाथ महात्माजीने विचारपूर्वक, ऐसा करनेको मना कर दिया ॥ ९ ॥

हृद्भेदनक्षमतमं किल वृत्तजातं
श्रुत्वा समाप्य च विहारगत मुकार्यम् ।
आगत्य गुर्जरभुवं कठिनेऽत्र काले
संरक्षितुं स जनतां निरचेष्ट शीघ्रम् ॥१०॥

सर्कारी नौकर यहाँ मारपीट कर रहे हैं, स्त्रियोंके सामने खराब गाली बका करते हैं, मनमें जो आवे सो सब वह नौकर करते हैं, वह सब बलात्कारसे पशुओंको भैंस आदिको खोलकर लेजाते हैं, इत्यादि हृदयभेदक समाचारोंको सुनकर महात्माजीने बिहारके—चम्पारनके सत्याग्रह कार्यको समाप्त करके, गुजरातमें आकर बठिन समयमें जनताकी रक्षा करनेका शीघ्र ही निश्चय कर लिया ॥ १० ॥

प्रेटेन घोषितमिदं विपमं तदानीं
दास्यन्ति ये न करमत्र तदीयभूमिः ।
साम्राज्यतोऽतिबलतोऽपि भवेद्गृहीता
प्राप्ता भवेन्न च पुनर्भुव ईश्वरैस्तेः ॥११॥

इसी समयमें कमि० प्रेटने विपम घोषणाकी कि जो लोग मालगुजारी (विघोटी) नहीं भर देंगे उनकी जमीन बलात्कारसे भी सरकार ले लेगी—छीन लेगी और पुनः भूमिके उन मालिकोंको वह न मिलेगी ॥ ११ ॥

क्रूरं कठोरमदयं वचनं तवैत-
दृण्डो न संभवति धर्मवचःप्रपत्त्यै ।
अन्याय एव सितशासनके यदि स्या-
त्स्यामेव राज्यविपरीतमन.परीत. ॥१२॥

उद्घोष्य स प्रतिवचस्त्विति दीनदेवः
 सत्याप्रहाख्यसमरप्रतिपादनाय ।
 सम्पादितास्तु समितिर्नहियाद् एका
 तत्राजहार गिरमित्यभयं महात्मा ॥१२॥

“तुम्हारा यह वचन—यह घोषणा, क्रूर,^१ कठोर^२ और निर्दय^३ है, धार्मिकवचन—सावप्रतिज्ञाको स्वीकार करनेकेलिये दण्ड सम्भव नहीं है । यह अन्याय यदि ब्रिटिश राज्यमें भी होने लगेगा तो मैं तो राज्यके विरुद्ध मनको धारण करनेवाला अर्थात् राज्यका विरोधी हो जाऊँगा ॥ इस रीतिसे ग्रेट महाशय्या उत्तर करके दीनोंके देव भीमहात्माजीने सत्याप्रदुद्धके प्रतिपादन करनेकेलिये—इसको समझाने और प्रचार करनेकेलिये नहियादमें एक समा की । उसमें इस प्रकारसे उन्होंने भाषण दियाः— ॥१२॥१३॥

शृण्वन्तु धन्यव इदं वचनं मदीयं
 धन्यं समृद्धिद्वारणं च विचेकपूर्णम् ।
 दुष्काल एव पिततः सखु मण्डलेऽस्मि—
 न्देयस्ततो नृपतये न भुयः करोऽथ ॥१४॥

माइयो ! धार्मिक, उन्नति और समृद्धि देनेवाली विचेकपूर्ण मेरी बातको सुनो । इस जिलेमें निधय ही दुर्भिक्ष पैदा हुआ है अतः अभी इस वर्ष मालगुजारी नहीं देनी चाहिये ॥१४॥

क्षेत्राणि भान्यरहितानि गृहाणि नृणां
 रिक्तानि सन्ति नितरां द्रविणैरिदानीम् ।

- १ ईर्ष्यापूर्ण या द्वेषपूर्ण ।
- २ आवश्यकता और व्यापक अतिशय करनेवाला ।
- ३ दयान्मय—मानपताविरोधी ।
- ४ यहाँसे भीमहात्माजीका भाषण संक्षेपमें आरम्भ होता है ।

विस्फारिते च करयोर्युगले नृपस्य
देयो भवेत्कथमहो धरणीकरोऽद्य ॥१५॥

इस समय खेतोंमें अन्न नहीं है। घर धनसे खाली हैं। राजाने—
सर्कारने दोनों हाथ फैला रखे हैं परन्तु उसमें इस समय मालगुजारी कैसे
दी जा सकती है ? ॥ १५ ॥

उत्पाद् एव यदि धान्यगणस्य न स्या-
त्पूर्णं कदापि नियमात्तु करो न देय ।
अन्यायमाचरति चेन्नरनायकोऽसौ
तस्यापसारणकृतेऽद्य भवन्तु सजा ॥१६॥

जब भिन्न भिन्न अन्नोमेंसे कोई भी अन्न नहीं पैदा हुआ है तो कृत्रिम
मानुसार कागदेके अनुसार ता मालगुजारी नहीं देनी चाहिये। यदि यह
राजा अन्याय करे तो उस अन्यायको दूर करनेकलिये तैयार हो
जाओ ॥ १६ ॥

या या प्रजा जगति वृद्धिपथ प्रपन्ना
सोढ्वैव दुःखनिचय बहुशोऽपि साऽपि ।
तेनाद्य यूयमपि चेद्विपद् सहेध्व
रोहेत नूनमधिकोन्नतिवर्त्म काम्यम् ॥१७॥

जो जो प्रजा उन्नतिके मार्गमें पड़ी है वह भी बहुत बार कष्टोंको
सहन करके ही। अतः तुम लोग भी विपत्तियोंको सहन करो तो वाञ्छित
उन्नतिमार्गपर अवश्य चढ़ोगे ॥ १७ ॥

सत्याग्रहस्य विधिवद्विधृता प्रतिज्ञा
रक्ष्याऽभविष्यद्यत् शासनमप्यवेत्स्यत् ।
युष्मन्मनोब्रह्ममतोऽवमतिं विहाय
मान करिष्यति हि वो दृढनिश्चयानाम् ॥१८॥

‘जिस वर्ष चाँयाईसे कम फसल हो उस साल मालगुजारी मुलतवी
रहनी चाहिये’ यही उस जिलेका कायदा था।

सत्याग्रहकी ली हुई प्रतिज्ञा यदि विधिपूर्वक ठीक ठीक पाली जायगी तो सरकार भी तुम्हारे आत्मिक बलको जान जायगी और अत एव तुम्हारा अपमान करना छोड़कर बड़े आदर और प्रसन्नतासे ॐ मान करेगी ॥ १८ ॥

ये संत्यजन्ति सभया. स्वकृतां प्रतिज्ञां
हेया भवन्ति ननु देशनृपेश्वरैस्ते ।

तस्मात्सहध्वमखिलं परितापमारा-

दायातमापरिवुभूपत शासनानि ॥१९॥

जो लोग भयभीत होकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको छोड़ देते हैं उन्हें देश, राजा और ईश्वर भी छोड़ देता है। वह किसीके भी कामके नहीं रह जाते। अत समीपमें आये हुए सब दुःखोंको सहन करो और सरकारी आज्ञा मान करो ॥ १९ ॥

ये ग्रामिका अथ तलाटिन उग्रताया

रूपं प्रदर्श्य कृपकानभिषीडयन्ति ।

आकर्णयन्तु मम धर्म्यमिदं वचोऽद्य

सन्त्येप चेदिह सभाभवने स्थितास्ते ॥२०॥

जो मुली और पटवारी उग्ररूप दिखाकर—इस धमकाकर मिमानोंको डरान करते हैं वह भी, यदि इस समयमें बैठे हों तो मेरे धर्मयुक्त वचनको सुनें ॥ २० ॥

ॐ यहाँपर मान और आदरमें इस प्रकारका भेद समझना चाहिये। आदर अर्थात् स्वागत। मान अर्थात् प्रतिष्ठा। अथवा इस श्लोकमें प्रतिपादित आदर सरकारीनिष्ठ है और मान शुष्मनिष्ठ है। अर्थात् सरकार तुम्हारेलिये पहिंठे तो अपने मनमें आदर धारण करेगी और पश्यान् उसे तुम्हारेलिये प्रकट करेगी। इस आदरसे प्रकट करनेका साधन तुम्हारेलिये प्रेमदर्शन और सुविधाभोगा प्रदान करना है।

ॐ मुली या मुलिया। — पटवारी।

कार्त्तव्यमुत्प्रथयितुं यदि वाञ्छथैव
 राज्यं प्रति प्रथयतेति न वारयामः ।
 यत्ताडनं प्रतिबलत्कुरुय प्रजासु
 तत्सर्वथाऽनुचितमत्स्वविवेकमाजाम् ॥२१॥

यदि सरकारके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनेकी इच्छा ही है तो मैं उसे नहीं रोक्ता हूँ । परन्तु प्रतिबलसे-प्रतिकूल-बलसे—अर्थात् राक्षसी बलसे जो प्रजाको मारा पीटा जाता है वह तो तुम्हारा कृत्य सब प्रकारसे अनुचित ही है ॥ २१ ॥

अत्रागता अधिसभं कृपका विदन्तु
 तेषां हिताय हि मया रचितं श्रमेण ।
 एकं शुभं समयपत्रमवेक्ष्य तत्र
 हस्ताक्षराणि निदधत्विति तच्छिष्याय ॥२२॥

जो किसान भाई इस सभामे आये हुए हैं उनको जानना चाहिये कि उनके हितकेलिये मैंने परिश्रम करके एक उत्तम समयपत्र-प्रतिशपत्र तैयार किया है । उसे समझकर उसपर अपना अपना हस्ताक्षर कर देने होंगे ॥ २२ ॥

ऊरीकृतस्य समयस्य निपालनार्थं
 प्राणार्पणादिभिरपीह भवेत् संज्ञाः ।
 युष्मद्बुधःप्रतिहतिप्रतिघातनायो-
 पायो मयापि विधिनैव विधेय एव ॥२३॥

ग्रहण की गयी प्रतिज्ञाका पालन करनेकेलिये प्राणार्पण करनेकेलिये भी उत्तम रहना चाहिये । तुम लोगोंकी प्रतिज्ञाके नाशका नाश करनेकेलिये अर्थात् तुम्हारी प्रतिज्ञा सुरक्षित बनी रहे इसकेलिये मैं भी सदा उपाय करता रहूँगा ॥ २३ ॥

आरम्भ एव समरस्य तदा बभूव
 क्रूरप्रहार इह सत्यसमर्थकेषु ।

राज्याधिकारिभिरमर्षवियप्रसिक्तैः

सर्वं कृतं न करणीयमपि प्रलोभान् ॥२४॥

इस सत्याग्रहयुद्धके आरम्भमे ही सत्याग्रहियोंपर क्रूर प्रहार होने लग गये । क्रोधरूप-विषसे सींचे गये हुए सर्कारी अमलदारोंने, लोभवश होकर, जो नहीं करने चाहिये थे, वह सब कुछ उन्होंने ॐ किया ॥ २४ ॥

सत्याग्रहाह्वरसप्रहिलैरपीह

राज्यस्य दौष्ट्यमपनेतुमुदारयन्नाः ।

आरेभिरे क्षणत एव विचारदक्षै-

ग्रामेषु युद्धनिपुणाः प्रहिताः समोदाः ॥२५॥

सत्याग्रह-युद्धके रसप्रहिल-रसिक लोगोंने भी सर्कारकी इस दुष्टताके निवारणकेलिये उत्तम प्रयत्न करना शुरू कर दिया । विचारशीलोंने अच्छे अच्छे घोडाआको-सत्याग्रहियोंको ग्रामोंमें तैयारीकेलिये भेज दिया ॥२५॥

श्रीश्रीनिवायसुमतीन्द्रहरिप्रसादः

श्रीकालिदास उत विट्ठलपल्लभौ च ।

श्रीमत्परीखवर-शङ्करशङ्करौ च

लल्लू मणिश्च किल मोहनलालपण्डथा ॥२६॥

श्रीसुत निवायसुमतीन्द्र-वैद्यशेष्ठ-डाक्टरहरिप्रसाद मेहता, श्रीकालिदास जीहरी, श्रीविट्ठलमाई पटेल, श्रीवल्लभमाई पटेल, श्रीशङ्करलाल परित्त, श्रीशङ्करलाल वेङ्कर, श्रीलल्लूमाई किशोरमाई, श्रीमणिलाल मेहता और श्रीमोहनलाल पाड्या-पाण्डेय ॥ २६ ॥

कस्तूरया निरिम्बपृजितपादपद्मा

पत्युः पदानुसरणत्रतशालिनी च ।

ॐ सत्याग्रहियोंको सर्कारी बीकर मारते भी थे, गाँवियाँ भी देते थे, उन्हें बदनाम भी करते थे । उनके जानवरोंको जबईस्लीसे खोलकर ले जाते थे ।

श्रीमन्महागुणिशिरःस्थितिमत्यभिज्ञा

राष्ट्राधिसेवनपरा सदयाऽनसूया ॥२७॥

सब लोग जिनका परम आदर करते हैं और जो अपने पतिके मार्गमें चलनेकेलिये मृत ले चुकी हैं वह श्रीमतीकस्तूरबा और महागुणियोंके शिरोमणि, राष्ट्रकी सेवाकरनेवाली, दयालु, विदुषी श्रीअनुसूयाबहिन—॥२७॥

श्रीवामनो जयकरोऽपि च हार्निमेनः

श्रीफूलचन्द्रशिवजी भागनी कुँवारी ।

सत्याग्रहात्मपरिचालनरीतिदक्षः

श्रीमन्महात्मसचिवोऽथ दिसाइ नाम ॥२८॥

श्रीवामन, श्रीजयर, श्रीहार्निमेन, श्रीफूलचन्द्र, श्रीशिवजीमाई, श्रीमती कुँवर बहिन, और सत्याग्रह कर्मके चलानेमें निपुण तथा श्रीमहात्माजीके वर्तमान सेक्रेटरी श्रीमहादेवमाई देसाई— ॥ २८ ॥

श्रीभारताम्बरमणिर्विद्युधप्रभाट्यः

श्रीलोकमान्यवर ईशपदानुरक्तः ।

गङ्गाधरस्य तनयो विदुषां महीया-

ऽश्रीमन्महामहिमजुट् तिलकोऽपि बालः ॥२९॥

भारतके सूर्य, देवोंके समान कान्तिवाले, सबसे अधिक लोकमान्य, भगवत्पदानुरागी, अत्युत्तम विद्वान्, महान् महिमावाले, श्रीगङ्गाधरतिलकके पुत्र श्रीबाल तिलक—श्रीबालगङ्गाधर तिलक—॥ २९ ॥

श्रीवासुदेवतनयोऽपि गणेश एष

श्रीमावलङ्कर इति प्रथितः सुधीशः ।

वाग्मी च कर्मठ उतापि च सर्वसभ्यो

लब्धप्रतिष्ठविदुषां प्रिय इन्दुलालः ॥३०॥

विद्वान्, वाग्मी, कर्मठ, और परमसभ्य श्रीगणेशनासुदेव मावलङ्कर और प्रतिष्ठित विद्वानोंके प्रिय श्रीइन्दुलाल यादव—॥३०॥

सोऽसौ विहारिजनतापतिरार्तबन्धुः,

राजेन्द्र आश्रयलिनां घर उत्तमौजाः ।

आनन्दिनी च परमार्थपरायणाऽपि

यमा तथा च बदरीनामहाशयोऽपि ॥३१॥

विहारी जनताके रक्षक, दीनबन्धु, आत्मिक बलशालीने श्रेष्ठ और उत्तम ओजसुवाले बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसादजी, परमार्थ परायण श्रीमती कृष्णा आनन्दीबाई और प्रो० बदरीनाथ यमाजी ॥ ३१ ॥

अन्येऽपि भारतभूयो गुरुगौरयश्री-

संघर्षनोत्क्रमनसः सुधियां धरेण्याः ।

धीरा महाबलिशिरोमणयोऽप्यनेके

युद्धाध्यरेऽत्र जगृहुः किल याज्ञकत्वम् ॥३२॥

भारतभूमिके गुरु—गौरवको बढ़ानेकेलिये उत्सुक अन्य विद्वान् तथा महान् बलवान् लोगोंने भी इन्हें युद्ध-यज्ञमें याज्ञकपनेको स्वीकार किया था ॥३२॥

एतैः समैः परमधीरवराप्रगण्यै-

दुर्धर्षणैश्च सहितोऽतुलयोगमायः ।

प्राग्नेषु सश्रममटन् कृपशान्समन्ता-

न्सत्याप्रहाय कृतयान्मुनिरेप सत्तान् ॥३३॥

जिनको कोई हरा न सके ऐसे इन सब महारीरोंके साथ अतुल्य योगशक्तियाले मुनि-श्रीमहात्मारजोंने परिश्रमके साथ प्राग्नेषु किर किर कर कर विजानोंको सत्याप्रहाकेलिये तैयार किया ॥३३॥

† पञ्चोक्तिरेव परमेश्वरसिद्धवाणी

सिद्धिर्भाविष्यति भवद्यतनेषु नूनम् ।

कृष्णापान सश्रममट्टुदके समय यह बहिन प्राग्नेषुमें, श्रीमहात्मारजीके आश्रय भङ्गपर लगीहुई थी ।

† श्रीमहात्मारजीने प्राग्नेषु किर किर कर जो उपदेश दिये थे उनका

यः स्वात्मशक्तिमनुमृत्य युधं विधत्ते

स्यादेय तस्य नितरां विजयो महीयान् ॥३४॥

÷ पञ्चका जो कथन है वह परमेस्वरकी सिद्धवागीके समान है। आपके यत्नमें अवश्य सिद्धि होगी। जो आत्मशक्तिके अनुसार युद्ध करता है उसका यशस्वी विजय अवश्य होता है ॥ ३४ ॥

यो नो विभेति मरणाद्विदितात्मतत्त्वः

स क्षत्रियः स्वजनिभूमिसुतः स एव ।

संप्राप्य युद्धफलमाशु महायशस्यि

स्वं च स्वदेशमपि कीर्तिभुजं विधत्ते ॥३५॥

आत्मतत्त्वको जाननेवाला जो कोई भी मृत्युसे नहीं डरता वही क्षत्रिय है और वही अपनी जन्मभूमिका पुत्र है। वह महान् यशस्वी युद्धफलको पाकर अपने आपको और अपने देशको भी कीर्तिभुक् = यशका भोग करनेवाला बनाता है ॥ ३५ ॥

न स्मो वयं प्रियतमाः पशवो विमूढा-

स्तस्मान्न शक्नुम इह प्रतिपत्तुमार्याः ।

रोषं कथञ्चिदपि चाल्पमपीति नित्य-

माध्यात्मकादि सुबलेन हि योध्यमस्मि ॥३६॥

प्रियतमाः—प्यारे भ्रष्टभाइयो ! हम लोग मूर्ख पशु तो नहीं ही हैं। अतः किसी प्रकारसे भी थोड़ा भी क्रोध तो नहीं कर सकते। प्रशस्त आत्मशक्तिरूप बलसे इस विषयमें युद्ध करना चाहिये ॥ ३६ ॥

सांसारिकाणि विपुलानि सदैव दुःखा-

न्याबाधितुं न महतांविदितः कथञ्चित् ।

सार यहाँपर १० श्लोकोंमें दिया जाता है ।

÷ एक कमेटी बनायी गयी थी। उसने भी निर्णय किया था कि इस जिलेमें इस साल फसल चौथाईसे कम है। यही पञ्चका कथन है।

सत्याग्रहादितर ईदृगुपाय इद्वः

सत्यं निवारयति सर्वसुखप्रतोषम् ॥३७॥

विपुल-महान् सासारिक दुःखोंको दूर करनेकेलिये सत्याग्रहके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय महान् आत्माओंको अभीतक विदित नहीं है । सत्य, सुखोंके सर्वशत्रुओंको निवारण करता है ॥ ३७ ॥

आयोधनान्त इह सत्यमुपासिताते

राज्यं प्रबोधयितुमेवमदृष्टपूर्वम् ।

शक्याम एव सरलप्रकृतिप्रकोपै-

दुष्टं फलं भवति शीघ्रमिद्वैध भोग्यम् ॥३८॥

युद्धके अन्तमें हम सब सत्याग्रही सरकारको यह बतानेकेलिये समर्थ होंगे कि सीधी तादी प्रभाके कोपसे ऐसा अदृष्टपूर्व-पहिले कभी भी न देता हो ऐसा—दुष्ट फल भोगनेकेलिये शीघ्र मिलता है ॥ ३८ ॥

युष्माकमत्र महती समरेण हानिः

स्यादेव भूमिमहिषीमहिषादिकानाम् ।

जानन्नपीति न निवारयितुं युधोऽस्या

युष्मान्कदापि मनसाऽपि विचारयामि ॥३९॥

इस युद्धमें तुम लोगोंकी जमीन मैं आदिकी भारी हानि होगी इस बातको जानता हुआ भी मैं तुम लोगोंको इस युद्धसे हटानेकेलिये कभी मनमें विचार भी नहीं करता हूँ ॥ ३९ ॥

दुर्गर्विना न लभते मनुजोऽत्र कोऽपि

लोकोत्तरं सुखमिति प्रथमं विचार्य ।

दुःखानलं गमयितुं न विभेमि पुष्मा-

न्पुष्मासुखाधिगममीक्षितुवाम एव ॥४०॥

कोई भी मनुष्य दुःखोंके विना लोकोत्तर-सर्वश्रेष्ठ सुख नहीं पाता इस फलको पहिले भले प्रकार विचार करके तुम लोगोंके सुखाप्तको

देखनेकी इच्छावाला मैं, इस दुःखदावानलमें तुम लोगोंको भेजनेसे
डरता नहीं हूँ ॥ ४० ॥

ये स्योक्तमत्र वचनं परिपालयन्ति
सत्येन जीवितुमलं ननु कामयन्ते ।
तेवश्यमेहिकसुखं बहुलां प्रतिष्ठां
स्वर्गादिकं च परलोकगता लभन्ते ॥ ४१ ॥

जो अपने वचनको सदा पालते रहते हैं और सत्यसे ही जीनेकी
इच्छा रखते हैं वे लोग सासारिक मोक्ष-स्वतन्त्रता और पारलौकिक
मोक्षको प्राप्त करनेका अधिकार पाते हैं ॥ ४१ ॥

सत्यात्परो न परमोऽस्ति विशुद्धधर्मो
रक्ष्योऽत्र धर्मभगवानखिलैर्मनुष्यैः ।
भूमेर्धनात्सुतसुतादिजनादपीह
धर्मो महानिति कदापि न विस्मरेत् ॥ ४२ ॥

सत्यके अतिरिक्त दूसरा कोई भी पवित्र धर्म नहीं है। सब मनुष्योंको
चाहिये कि धर्मकी रक्षा करें। भूमि, धन, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि सभी
वस्तुओंकी अपेक्षा धर्म महान् वस्तु है, इसे कभी भी नहीं भूलना
चाहिये ॥ ४२ ॥

ये धर्मरक्षणपरा न पराजयोऽस्ति
तेषां क्वचिन्न च विपत्तिसमागमोऽपि ।
स्याच्चेद्विपत्तिरिह न स्थिरतां भजेत्
यातेन मेघ इव सापसरेच्च तेन ॥ ४३ ॥

जो धर्मकी रक्षा करते हैं उनका कभी भी पराजय नहीं होता है।
उनको कभी दुःख नहीं प्राप्त होता है। कदाचित् कभी विपत्ति आवे भी
तो वह स्थिर नहीं रहती है। जैसे हवासे बादल उड़ जाते हैं वैसे ही
धर्मसे विपत्ति नष्ट हो जाती है ॥ ४३ ॥

इत्येवमेव मुनिवंशविभूषणाग्र्यो
 ग्राम्यास्तदा च कृपकानुपदिश्य सम्यक् ।
 राज्यप्रहारसहनक्षमतां समर्प्य
 सत्याग्रहास्त्रकुशलान्सकलांश्चकार ॥४४॥

उक्त समय मुनिवंशमें सुन्दर आभूषणरूप, धीमहात्माजीने ग्रामीके किसानोको इस रीतिसे भलेप्रकार उपदेश देकर सर्कारके प्रहारको सहन करनेकी शक्ति प्रदानकरके सत्याग्रहरूप अस्त्र चलानेमें सबको निपुण बना दिया ॥ ४४ ॥

आदाय सैन्यमतिपुण्यवदेप धीमा-
 स्त्रीरोपमेव गतहिसमथाविरोधम् ।
 हिंसाप्रधानमतिकोपि च सद्विरोधि
 सैन्यं सिताङ्गकमुपस्थित एव जेतुम् ॥४५॥

बुद्धिमान्-धीमहात्माजी कितोपर क्रोध न करनेवाली, महापुण्यशाली सेनानी लेपर हिंसक, अत्यन्त क्रोधी और सत्य अथवा सत्पुरुषोंका विरोध करनेवाली सर्कारी सेनाकी जीतनेकेलिये उपस्थित हो गये ॥४५॥

दुर्धीधरा निरपराधिन एव दीना-
 न्दुःसैनिका त्रिटिशशासनवाहकास्ते ।
 सम्प्रैपयन्सततमेव जनान्गृहीत्वा

कारागृहं परमपावनमानसाह्वयान् ॥४६॥

ब्रिटिश-शासनके वाहनरूप निर्दय और दुष्ट सैनिक, उन निरपराध, दीन और परमपवित्रमनवाले लोगोंको पकडकर सतत जेलमें भेजने लग गये ॥ ४६ ॥

नाभूद्विपाद इह तेन सदायद्वाणां
 श्रीसत्यदेवचरणायुजसंश्रितानाम् ।
 आनन्दिनैव मनसा यतिराजशिक्षा-
 पृतान्तराः परिगता त्रिटिशस्य काराम् ॥४७॥

श्रीसत्यदेवके चरणरुमल्ला आश्रय लेनेवाले अर्थात् सत्यके पक्षपाती उन सत्याग्रहियोंको उससे दुःख नहीं हुआ । आनन्दी मनसे, यतिराज-श्रीमहात्माजीके उपदेशसे, पवित्र-अन्तःकरणवाले वे लोग सकारी जेलमें चले गये ॥ ४७ ॥

एतेन पापपरिपोषजुषा नृपस्या-

सत्कर्मणा जगति कोप उदीयमानः ।

सत्याग्रहादरिपु शासननीतिमेतां

नीचामपश्यदपराधसमाजभाजम् ॥ ४८ ॥

सकारके इस पापपोषक असत्कर्मसे ससारमें क्रोध पैदा हो गया । उस क्रोधने सत्याग्रहमें आदर रखनेवाले अर्थात् सत्याग्रहियोंमें सकारकी इस नीतिको नीच और अपराधी समझा अर्थात् सकारकी इस दुष्ट और क्रूर नीतिसे सब लोगोंको क्रोध आया और मन्ने इस नीति की निन्दा की ॥ ४८ ॥

जाता घ्रपा कथमपीह गतत्रपस्य

राज्यस्य तत्स्वकृतपापमवैक्षतेतत् ।

सत्याग्रहादरिशिरोमणिना यदुक्तं

तत्सत्यमित्यभवदुक्तमपीह तेन ॥४९॥

निर्लज्ज सकारको किसी तरह लज्जा आयी ! इसने अपने किये हुए उस पापका निरीक्षण किया और यह भी कहा कि सत्याग्रहि-शिरोमणि-श्रीमहात्माजीने जो ॐ कहा था वही सत्य था ॥ ४९ ॥

आगत्य मामलतदार उवाच वाचं

श्रीमन्महात्ममविधे धिनये न नम्रः ।

दीयेत शक्तकृपकैर्यदि राजदेयं

दीना विलम्बितकरार्पणका भवन्तु ॥५०॥

ॐ इस वर्ष चौथाईसे कम फसल हुई है, श्रीमहात्माजीके इस कथनको सकारने भी पीछेसे स्वीकार कर लिया ।

मामलतदारने श्रीमहात्माजीके पास ॐ आम्नर चिनयनन्न हो कर कहा नि यदि जो किसान राजदेय-सर्कारी कर देनेमें समर्थ हैं वह यदि अपना कर दे द तो सारीबोका कर इस वर्ष अत्यथ ही मुलतनी रख दिया जायगा ॥ ५० ॥

खेडाजिलावसतिभि कृपके समस्ते
 रभ्यर्थितं प्रथमतो नृपतेरिदं तु ।
 इष्टं तत समधिगम्य विजेतृवर्या
 व्यस्मार्युरेव सकल विषदा निधानम् ॥५१॥

खेडाजिलेके सब किसान भी सर्कारके पासने पहिले ही यही चाहते थे । अत वह विजयी सव्याप्रही अपनी वाञ्छित वस्तुको पाकर सब दुःसाको भूल गये ॥ ५१ ॥

दुःसस्य नाशमतिन्त्य कृपोवलाना
 सम्पाद्य तेन समरेण महासुभाय ।
 सन्तोष्य सर्पजनतां स्वयमप्यतीव
 तुष्टो बभूव स हि भारतपरिजात ॥५२॥

इस सुदये द्वारा सब किसानों के दुःसोंका अत करके, वह महासुभाय तथा भारत-वत्पशुप श्रीमहात्माजी सब जनताको सन्तुष्ट करने स्वय भी सन्तुष्ट हो गये ॥ ५२ ॥

‡ श्रीमद्योतिप्रसुण्य पार च पृत्वा प्रयत्नै
 मर्यान्दु सान्नुषेरापन्नानृपाचारिधि मः ।

ॐ श्रीमहात्माजी जिस समय उत्तरगण्डागोशमे गये थे, उस समय यहाँ ही मामलतदार उनसे मिलनेकेलिये भाये थे ।

† अनुवग एव ।

वन्धुदैर्न्यश्चितानां श्रीमान्स्वयं चापि तस्मा-

दायात्स्वस्याश्रम तं प्राप्ताधिमान समोद ॥५३॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरियाजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

अष्टम सर्ग

गीतोक्त कर्मयोगियोंम श्रेष्ठ दयासागर और दीनबन्धु श्रीमहात्माजी प्रयत्नोके द्वारा—समस्त दुःखियोंको दुःखसागरसे पार करके, वहाँसे सुन्दर मान प्राप्त करके, अहमदाबादमें अपने आश्रममें आनन्दके साथ आ गये ॥ ५३ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते अष्टम सर्ग



नवमः सर्गः

रोगादकस्मादभिपीडितोऽपि निरन्तरं कार्यविधानरक्तः ।

निजाश्रमे क्षीणशरीरशक्तिः स एकदाऽसेवत मृत्युशय्याम् ॥१॥

एक समय धीमशत्माजी अपने सत्याग्रह आश्रममें अकस्मात् रोगग्रस्त हो गये क्योंकि निरन्तर वह कार्यमें लगे रहते थे । शरीर क्षीण हो गया था । बीमारी बढ़ गयी और मृत्युशय्यापर पड़ गये ॥ १ ॥

एका व्यवस्था निरधारि तस्मिन्काले त्रिटिद्देशासनकेन तीक्ष्णा ।
समाह्वयया सा किल राउलेटविलित्यदोदेशविपत्प्रणेत्री ॥२॥

उसी समय सत्रारने राउलेट विल इस नामसे प्रसिद्ध एक बिल तैयार किया । वह बिल तीक्ष्ण और महाभयङ्कर था ॥ २ ॥

ॐ आन्दोलनं यत्र भवेत्स्यदेशासन्तापसम्मार्जनसाधनाय ।
भवेयुरासम्मिलितादय तस्मिन्ये ते हि दण्ड्या नृपतेर्विरुद्धाः ॥३॥

उन राउलेट बिलका स्वरूप वर्णन करते हैं । स्वदेशके दुःखको धूर करनेकेलिये जहाँ कोई आन्दोलन हो उसमें जो जरा भी सम्मिलित होवे, वह राजविरुद्ध समझा जाकर दण्डका पात्र होगा ॥ ३ ॥

आरोपितः स्यादभियोग एव यस्योपरि स्वं परिरक्षितुं नो ।
शान्त्युपायं कमपीह कर्तुं भवेद्दण्डयोऽपि स दण्ड्य एव ॥४॥

जिसके ऊपर कोई अभियोग लगा दिया जाय वह अपने बचावके-लिये कोई भी उपाय नहीं कर सकता है । वह यदि दण्डके योग्य न हो तो भी वह दण्डनीय ही है ॥ ४ ॥

न दण्डिता केऽपि पुनर्विचारं तदण्डने कारयितुं समर्थः ।
सौदव्य एनास्तु स योपि कोपि स्थिरीकृतः स्यादय दण्ड एभ्य ॥५॥

ॐ यहाँसे १ वें श्लोकतक राउलेट बिलका सक्षिप्त वर्णन है ।

जो दण्डित हो चुके वह उस दण्डकेलिये फिरसे हाईकोर्ट आदिमें विचार नहीं करा सकते—अपील नहीं कर सकते। उनकेलिये जो दण्ड निश्चित हो गया हो उसे तो सहना ही पड़ेगा ॥ ५ ॥

यः क्रान्तिकारीतिपदाभिधेयो महापराधी गणितो भवेत्सः ।
स्थानान्तरं गन्तुमसौ न शक्तो भवेद्विना शासकशासनेन ॥६॥

जो क्रान्तिकारी होंगे वह महान् अपराधी माने जायेंगे। वह सरकारी नौकर—मैजिस्ट्रेट आदिनी आशा बिना किसी अन्य स्थानमें नहीं जा सकते ॥ ६ ॥

आचारशुद्धयै प्रतिभूत्वमस्य, भवेद्गृहीतं तु यदृच्छयेत् ।
देशे च काले नियते सदा स्यादेया निजोपस्थितिसूचनाऽपि ॥७॥

सरकारी मर्जीके अनुसार उन क्रान्तिकारियों या महापराधियोंसे नेकचालचलनेकेलिये जमानत ली जायगी। और रोज नियत स्थानपर और नियत समयर हाजिरी देनी पड़ेगी ॥ ७ ॥

नृपानुशिष्टेः परिपालने स्या दस्यपि वैमुख्यमुदारवृत्तेः ।
नेतुं वशं तं निजदेशभक्तं सर्वेऽप्युपाचा हि विमुक्तबन्धाः ॥८॥

सरकारी आशाके पालनमें जिस किसी भी उदारमनवालेकी विमुक्तता होगी उस देशभक्तको वशमे करनेकेलिये सब उपाय खुले रहेंगे अर्थात् किसी भी उपायसे उस देशभक्तको सरकारी आशाका पालन करनेकेलिये विवश किया जायगा ॥ ८ ॥

इमां व्यवस्थामनुसृत्य कार्यं कुर्वन्कदाचिद्यदि कोऽपि कुर्यात् ।
दुष्कृत्यराशीनपि राजभृत्यो दण्ड्यो भवेन्नैव कदापि सोऽत्र ॥९॥

इस राउलेट ए ऐक्टके अनुसार कार्य करता हुआ यदि कोई भी

ए जब तक कोई विषय विचाराधीन होता है तबतक उसे बिल कहते हैं। जब वह बिल सर्वानुमतिसे या बहुमतसे पास होकर क़ायदा बन जाता है तब उसे ऐक्ट कहते हैं।

राजकर्मचारी अनुचितकार्य—अपराध भी कर ले तो उसे कभी भी दण्ड नहीं हो सकता ॥ ९ ॥

एता अनीतीरिह कर्तुमेया सर्वत्र भूपेन निजार्थलाभात् ।
प्रवर्तिता भारतपर्यस्ये तन्मोहनस्याभवदत्यसह्यम् ॥१०॥

इन अत्याचारोंको करनेकेलिये और अपने लाभकेलिये ही सरकारने इस ऐक्टको समस्त भारतमें प्रचलित कर दिया । वह बात श्रीमहात्माजीको असह्य हो गयी ॥ १० ॥

यदा व्यवस्थेयमभूद्विचार्यां शश्वस्वदेशाहितमाकलय्य ।
कार्यं किमत्रेति विचारसिन्धौ ममज्ज रोगव्यथितोऽपि धीरः ॥११॥

जिस समय यह व्यवस्था विचाराधीन थी उसी समय अपने देशकी होनेवाली बुराई—हानिका विचार करके, इस समय इस विषयमें क्या करना चाहिये, इस विचारसागरमें, रोगसे पीडित श्रीमहात्माजी डूब गये ॥ ११ ॥

निर्धारितं तेन च राउलेटविलस्यादघदयं यदि संविधानम् ।
अपह्नयायास्य विधेर्मयापि सत्याग्रहोऽपश्यमिहास्ति कार्यः ॥१२॥

श्रीमहात्माजीने निश्चय कर लिया कि यदि राउलेटविल कायदा बन जायगा तो उसे नष्ट करनेके लिये मैं अवश्य सत्याग्रह (युद्ध) करूँगा ॥१२॥

एकं व्यवस्थापयदेव सद्यः स सज्जीकृतवान्महात्मा ।
सदःप्रवेशाय दृष्टप्रतिज्ञापत्रं तदङ्गीकृतमेव सर्वैः ॥१३॥

श्रीमहात्माजीने शीघ्र ही एक सभा स्थापित की और उस सभामें प्रवेश करनेके लिये एक दृष्ट—प्रतिज्ञापत्र तैयार किया । उसे सब लोगोंने स्वीकार किया ॥ १३ ॥

क्षस्वतन्त्रताया भुवि जन्मभाजां नृणामथ न्यायभुवः परस्याः ।
प्राणान्हरेदेतदपास्तशङ्कं मन्तव्यपत्रं यदि लब्धसत्तम् ॥१४॥

१३ जो प्रतिज्ञापत्र तैयार किया गया वह यहाँसे १८वें श्लोक तक वर्णित है ।

मनुष्योंकी जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है, और जो न्यायका मूल तत्त्व है, उन दोनोंका ही यह राउलेट ऐक्ट निस्सन्देह प्राणघातक है ॥ १४ ॥

समेत्य यानेव समाज-राज्यरक्षा भवेद्यत्र यथाकथञ्चिन् ।
अद्याधिकारान्वयत राउलेटमन्तव्यपत्रं विनिहन्ति तास्तु ॥१५॥

जिन अधिकारोंको लेकर समाज और राज्यकी रक्षा किसी प्रकारसे हो सकती है उन्हीं अधिकारोंको यह राउलेट बिल, निश्चय ही मार रहा है ॥ १५ ॥

अस्य प्रणाशः सततं हि काम्यः शान्त्या विधिं कापि दुरन्तमेतम् ।
सम्भानयिष्यामि न सर्वथा त्यमूं प्रतिज्ञां विदधेऽहमद्य ॥१६॥

जब तक इस कायदेका समूल नाश नहीं होता तब तक मैं शान्तभावसे इसका आदर नहीं करूँगा, आज मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ ॥ १६ ॥

अन्यान्विधीश्चापि सदोनिपिद्वान्न पालयिष्यामि कदापि शान्तः ।
एतां प्रतिज्ञामपि चारुचारु विचार्य गृह्णामि सुबुद्धबुद्धिः ॥१७॥

यह जागरित बुद्धिसे-होशियारीसे, बहुत सुन्दर रीतिसे विचार करके मैं यह भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यह सभा अन्य जिन कायदोंका निषेध करेगी उनको शान्त होकर मैं कभी भी पालन नहीं करूँगा ॥१७॥

भ्रष्टो भविष्यामि न सत्यमार्गात्कचित्करिष्ये न परार्थहानिम् ।
परामुपीडामपि नो करिष्यामीतिप्रतिज्ञामहमांभजामि ॥१८॥

मैं सत्यमार्गसे कभी भी विचलित नहीं बनेँगा । अन्योकी हानि कभी न करूँगा तथा अन्याको प्राण-पीडा भी नहीं करूँगा, मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ ॥ १८ ॥

एतत्प्रतिज्ञादलमाशु तेन प्रकाशनार्थं प्रहितं समेषु ।
पत्रेषु कर्तुं विदितार्थतत्त्वान्सर्वास्तथा राजनरान्प्रसह्य ॥१९॥

इस प्रतिज्ञापत्रको श्रीमहात्माजीने सब पत्रोंमें प्रकाशित करनेके-

लिये शीघ्र ही भेज दिया; जिससे कि सत्र जनता और राजकर्मचारी भी इस कार्यके तत्त्वको जान जायें ॥ १९ ॥

एतद्वलेनैव सहैष धीमान्प्रकाशयामास पुनस्तदानीम् ।
कृती समस्तेषु च वृत्तपत्रेष्विमां प्रवृत्तिं भ्रमवारणार्थम् ॥२०॥

बुद्धिमान् श्रीमहात्माजीने उसी समय इस प्रतिज्ञापत्रके साथ ही सत्र पत्रोंमें, सत्रके भ्रमको निवारण करनेकेलिये, यह एक समाचार भी छपवाया:—॥ २० ॥

जानामि नूनं शपथग्रहोऽयं भयङ्करोऽस्त्येव मया तथापि ।
ससम्भ्रमं वेदमबोधपूर्वं कार्यं कृतं नेति विदन्तु सर्वे ॥२१॥

मैं जानता हूँ कि निश्चय ही यह शपथग्रहण बहुत भयङ्कर है तथापि यह कार्य न ता शीघ्रतामें किया गया है और न बिना विचारे किया गया है, यह बात सबको जान लेना चाहिये ॥ २१ ॥

आरात्रि निद्रामपहाय दीर्घं विचारितोऽयं विषयः समन्तात् ।
पुनः पुना रौलटगोष्ठिकाया निवेदनस्यामननं व्यधायि ॥२२॥

निश्चय ही सारी रात जागकर, सत्र प्रकारसे इस विषयपर मैंने विचार किया है एवं च रौलेट कमेटीके निवेदनका भी मैंने पुनः पुनः मनन किया है ॥ २२ ॥

वेदस्येतदप्येव न भारतेऽस्मिन्नराजकत्वप्रसरो घबुत्र ।
शान्तिप्रिया भारतवासितुल्याः प्रजाः पृथिव्यां न हि संभवेयुः ॥२३॥

मैं यह भी जानता हूँ कि भारतमें सर्वत्र अराजकताका प्रचार नहीं है । पृथिवीपर भारतवासि—प्रजाके समान दूसरी शान्तिप्रिय प्रजा नहीं मिल सकती है ॥ २३ ॥

यतोऽधिकारा इह राउलेटऐक्टेन राज्याय समर्प्यमाणाः ।
भयङ्कराः सन्त्यनियन्त्रिताश्च ततोऽभ्युपायोऽद्य मया गृहीतः ॥२४॥

●यह समाचार नीचे २१ से २४ श्लोक तक वर्णित है ।

इसलिये—भारतमें सर्वत्र धराजडता नहीं है—इसलिये राउलेट-एक्ट सरकारको जिन अधिकारोको दे रहा है वह अनियन्त्रित और मयङ्कर हैं। अत एव मैंने सुन्दर उपायका ग्रहण किया है ॥ २४ ॥

कर्णे कृतं नैव विरोदनं तत्कुरेण राज्येन कदापि किञ्चित् ।
अपद्रवायाथ बिलं तदाभूद्धिधानमेवास्पदमापदां तत् ॥२५॥

फूर सरकारने इस रोदनको जरा भी कानमें नहीं लिया। आपत्तियोंका घर वह राउलेट बिल विप्लवकारी कानून बन गया ॥ २५ ॥

ग्रहेदवराङ्केशमिते खिरिस्तसंवत्सरे मार्च उपप्लवाढथे ।
अष्टादशे हन्त तिथावियं साऽभवद्वथवस्था तु विधानमेव ॥२६॥

१९१९ ई० के मार्चमासकी १८ वीं तारीखको यह बिल कानूनके रूपमें परिणत हो गया ॥ २६ ॥

महामनाः श्रीयुतमालवीयः सभ्यास्तदन्येऽपि च तत्सभातः ।
पदं परित्यज्य विनिर्गतास्तद्बहिर्बिरोधो बहुलो बभूव ॥२७॥

महामनाः श्रीयुत पण्डित मदनमोहन मालवीयजी तथा दूसरे सदस्य भी अपना अपना पद छोड़कर कौंसिलसे अलग हो गये। अतः बाहर बहुत विरोध बढ़ गया ॥ २७ ॥

श्रीकर्माचन्द्रात्मज एष तर्हि देशे निजाज्ञां प्रथयांचकार ।
पष्ठ्यां तिथावेप्रिलमासि शान्तैर्जनैः समस्तैरिति कार्यमेव ॥२८॥

उस समय श्रीमहात्माजीने सारे भारतवर्षमें अपनी आज्ञा जारी कर दी कि ता० ६ अप्रैल १९१९ को समस्त भारतीयोंको छुड़ाने काम करने ही चाहियें—॥ २८ ॥

न भोजनं प्राणमथो न वारि पेयं न पण्येषु गतिः सियतिर्नो ।
सर्वत्र शोकः परिपालनीयः सभा विधेयास्त्यतिशान्तभावैः ॥२९॥

छ वह आज्ञा २९ वें श्लोकमें वर्णित है ।

उस दिन न तो भोजन करना चाहिये, न जल पीना चाहिये और न दूसरानोंमें जाना और बैठना चाहिये। सर्वत्र शोक मनाया जावे और शान्तिके साथ समा 'की जाय ॥ २९ ॥

आज्ञा मुनेरस्य तदा समस्ते श्रीभारते सर्वजनैरमानि ।
कस्मै स्वकल्याणप्रचो विशुद्धमनःसमेताय हि रोचते नो ॥३०॥

उस समय श्रीमहात्माजीकी इस आज्ञाको भारतवर्षमें सब लोगोंने मान लिया। क्योंकि ऐसा कौन पवित्रात्मा है जिसे अपने कल्याणकी बात न रुचे ? ॥ ३० ॥

सर्वत्र शान्त्यार्त्ता स तिथिव्यतीतः परन्तु पञ्चापवसुन्धरायाम् ।
धभूय तदास्य निवेदनाय दधाति शक्तिं न च गीर्तं चाहिः ॥३१॥

भारतमें सर्वत्र वह तिथि (६ अप्रैल १९१९) शान्तिके साथ धीत गयी। परन्तु पञ्जाब प्रान्तमें ऐसी घटनाएँ हुईं जिनके कद्दनेके लिये न सरस्वतीके पास शक्ति है और न शेषके पास ॥ ३१ ॥

गांधिः प्रभुत्वं कथमस्तु सह्यं दुष्टेन राज्येन ततोऽतिनीचः ।
नरैर्जनानामभिभङ्गनाय प्रायाति शान्तेर्वृत राजकार्यैः ॥३२॥

दुष्ट सरकारको भीमहात्माजीका प्रभुत्व सह्य कैसे हो सकता था ? अतः शान्तिभङ्ग करनेके लिये सरकारने राजकीय पुरुषों द्वारा—अत्यन्त नीच प्रयत्न करना शुरू किया ॥ ३२ ॥

श्रीसत्यपालोऽमितसत्यपालः श्रीकीचलुर्निरपलसन्मनीषः ।
सर्वप्रजैक्यस्य विवर्धनात्तौ राज्येन देशाद्गृहिरक्रियेताम् ॥३३॥

यशसि ५५ श्लोक तक अमृतसरमें किये गये अत्याचारोंका वर्णन शुरू होता है।

महान् सत्यके पालन करनेवाले डाक्टर सत्यपाल और स्थिर बुद्धि-

† तिथि शब्द पुल्लिङ्ग भी है।

वाले डाक्टर किश्वल्को भारतीय समस्त प्रजाओंमें एकता बढ़ानेके कारण सरकारने देशसे निकाल दिया ॥ ३३ ॥

तन्मोचनार्थं जनता विपन्ना कमिश्नरं प्रार्थयितुं जगाम ।
परं नियोगाद्गुलिकाप्रहारैर्हता प्रविद्धा व्यपमानिता सा ॥३४॥

उन दोनों देशनेताओंकी दण्डसे छुड़ानेके निमित्त कमिश्नरसे प्रार्थना करनेकेलिये वहाँ की दुःखित प्रजा गयी । परन्तु (ऊपरके अफसरोंकी) आज्ञासे वह गोलियोंकी मारसे मारी गयी, बीधी गयी और अपमानित हुई ॥ ३४ ॥

राज्यीपधागारनिवेशनाय नाज्ञापितास्ते गुलिकाप्रविद्धाः ।
केदारनाथस्य तदीपधानां प्रवेशितास्ते सकला निशान्तम् ॥३५॥

जो गोलियोंसे बीधे गये थे उन्हें सरकारी अस्पतालमें भरती करनेकी आज्ञा नहीं दी गयी । डाक्टर केदारनाथ के निजी अस्पताल में भोर होते-होते सभी पहुँचाये गये ॥ ३५ ॥

तत्राबलनामभवच्चिकित्साशाला तदध्यक्षतया नियुक्ता ।
ईसडन् प्रदग्धान्विजहास दृष्ट्वा वैश्वानरस्त्रैरथ भारतीयान् ॥३६॥

अस्पताल के व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त औपचारिकों द्वारा अबलनामों की चिकित्सा की गयी । * ईसडन् गोलियोंसे जले हुए भारतीयोंको देखकर हँसने लगी ॥ ३६ ॥

* मकबूल मुहम्मद सिविल हॉस्पिटलमें जाकर डाक्टर घनपतरायको ले आये । घायलोंको उठा ले जानेकेलिये डोलियों लायीं गयीं । किन्तु कहा जाता है कि पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० फ्लोमरने कहा कि "घायल सरकारी अस्पतालमें न पहुँचाए जायँ । लोग अपना चन्दोबन्ध अप करलें ।" तब कुछ घायल डाक्टर केदारनाथके निजी अस्पतालमें पहुँचाये गये । वहाँ ही पासमें जनाना अस्पताल भी है । वहाँ की स्त्री डाक्टर मिसेज़ ईसडन हँस पड़ी और जोरसे कहा कि "हिन्दु मुसलमानोंको योग्य पारितोषिक मिल गया" । (पंजाबका भोपण नरहत्याकाण्ड)

तयोक्तमेतद्विकल्पान्प्रबोध्य सर्वांश्च युष्माभिरवाप्त एव ।

योग्यः पुरस्कार इहाद्य नूनभार्यैरनार्यैः सकलैः सहेति ॥३७॥

उस ईसटनने सब दुःखित घायलोंको सम्बोधन करके यह भी कहा कि तुम भार्य-हिन्दू, अनार्य-अहिन्दू सबोंने साथ ही आज योग्य पुरस्कार प्राप्त किया है ॥ ३७ ॥

निशम्य तां व्यङ्ग्यगिरं वितप्ता दुःखेन लोका विकला धभूवुः ।

तां प्राणमुक्तां हि विधातुकामाः सर्वे द्रुताः किन्तु तदा न सात्ता ॥३८॥

उसकी इस विषयित्त-जहरीली वागीकी सुनकर लोग दुःखसे व्याकुल हो गये । सब लोग उसे प्राणमुक्त = प्राणसे अलग करनेकेलिये-मारडालनेकेलिये दीडे किन्तु वह मिली नहीं ॥ ३८ ॥

क्रुद्धैस्तदा वीरभुवः सुपुत्रैर्भस्मीकृतं नेशनलवैद्मिद्रम् ।

प्रबन्धकं चारुय ततः स्टुअटं स्काटं च तेऽघ्नन्स्तमसा परीताः ॥३९॥

वीरभूमि—पंजाब के सुपुत्रोंने क्रुद्ध होकर बडे प्रसिद्ध नेशनल बैंक को जला दिया । उसके मैनेजर स्टुअर्ट और स्काट्को भी क्रोधसे ही मरे होनेके कारण मार डाला ॥ ३९ ॥

राघ्निसनं टामसनं तथैव रोलैण्डमार्ता व्यसुमेव चक्रुः ।

गौराङ्गकान्यायशतेन चैवमुपद्रवोऽजायत खेदकोऽयम् ॥४०॥

राघ्निसन, टामसन और रोलैण्ट इन तीन गोरोंकी भी लोगोंने मार डाला । गोरोंके ही अ-पायमे यह दुःखद उपद्रव होने पाया था ॥४०॥

ततः परं शान्तिपरायणांस्तान्कतुं मृतानां परिदाहकर्म ।

महाप्रयत्नैर्नगराधिपालो व्यधादनुज्ञामधमोऽधमानाम् ॥४१॥

इसके बाद लोग शान्त हो गये । मरोंकी दाहक्रिया लोग करना चाहते थे । शाकिमने बडे प्रयत्नोंके बाद उन्हें जलानेकी आज्ञा दी ॥४१॥

यिना फलेनैव दुरन्तकेन राज्येन तस्यां पुटि योजितानि ।

हिन्दूसुसत्मानजनाधमानं कतुं तदा सैनिकशासनानि ॥४२॥

प्रतोलिकायां शिखुद्धि यस्यामाघातिता हन्त तदाननाप्रे ।
संस्थापिते काष्ठफले मनुष्यान्प्राहारयद्वञ्जुलकैः प्रथम्य ॥५१॥

जिस गलीमें उस शेरखुडके ऊपर किसीने प्रहार किया था उसीके मुहमागपर लकड़ीकी टिकठी बांध दो गयी थी । उसपर लोगोंको बांधकर वेतोसे मारा जाता था ॥ ५१ ॥

येन व्यधाप्याक्रमण च तस्यामुद्घाटनं चर्मण एव तस्य ।
दुरात्मना राक्षसदायरेण समीहितं किन्तु स नाप्त एव ॥५२॥

जिसने शेरखुडपर आक्रमण किया था उसके शरीरपरसे चमड़ा लींच लेनेकी उस राक्षस डायरकी इच्छा थी परन्तु वह आदमी ही उसे नहीं मिला ॥ ५२ ॥

पद्मालकान्काष्ठफले निबध्य त्रिंशत्प्रहारान्विदुरैर्निकृष्टः ।
स कारचामास गतांश्च मूर्च्छां प्रबोधय भूयोऽपि तथाऽतनिष्ट ॥५३॥

उस टिकठी पर छः लडकोंको बांधकर उस नीचने ३० बेंत लगवाये थे । जब वह लडके वेहोश हो गये तो उन्हें होशमें लाकर पुनः उन्हें बेंत लगवाये ॥ ५३ ॥

प्रतोलिकायां यदि कोपि कार्यं गतिं विधातुं च वधाञ्छ तस्याम् ।
रिङ्गन्स गन्तुं जठरेण शक्तस्तरयेत्यनुज्ञा सफला यभूव ॥५४॥

उस गलीमें यदि कोई किसी कार्यमें जाना चाहे तो पेटके बल रंगता हुआ जा सकता है, डायरकी यह आज्ञा सफल हुई थी । अर्थात् आने जानेका काम तो सज्जो पडता ही था अतः सबलोग पेटसे रंगकर जाते आते थे ॥ ५४ ॥

तुन्देन तस्यां सरतां प्रतोल्यां पुरो जनानां च कपोतकाद्याः ।
निपूदिता दीनपतत्रिणोऽपि मनोव्यथां कारयितुं समेषाम् ॥५५॥

उस गलीमेंसे जो कोई पेटसे सरक कर = रंगकर जाते थे उनके आगे

कभूतर आदि सरीसृप पक्षी इसलिये मारे जाते थे कि जानेवालोंको छद्म रूप प्रतीत हो ॥ ५५ ॥

येन प्राङ्घ्रिवाचो निखिल्य गृहीतास्ते धारिता दण्डधरा शठेन ।
अवृत्त एवास्त स दुष्टराज कृत्वाप्यनीतीरपि दुष्प्रतवर्याः ॥ ५६ ॥

उस शठ डायरने जिन बर्कालोंको पकड़ा था उन सबको त्रिपाही बना लिया था । अर्थात् उनसे त्रिपाहीना काम लिया जाता था । यह दुष्प्रधिराज, जिनका विचार भी नहीं लिया जा सकता था ऐसे गुने अन्याचारोंको भी, करके भ्रूत ही था । अर्थात् इतने अन्याचारोंसे उसकी वृत्ति नहीं हुई थी ॥ ५६ ॥

अमृतसरस्यैवमियं कथाऽऽसीदाहौरपुर्या अपि तां दुरन्ताम् ।
श्रोतुं समापीड्य भवेत् सजा वर स्वकीय दयता दृष्टेन ॥ ५७ ॥

यह कथा तो केवल अमृतसरसी है । अब लाहीर शहरकी दुष्प्रत वर्याको मुनिकेलिये छातीको भारी पत्थरसे दगानर तैयार हो जाये ॥ ५७ ॥

ओष्ठवायरो भोगपतिस्तदानीं महात्मवर्यं प्रविशन्तमाशु ।
पञ्चापदेश स निशम्य तीव्र क्रोधात्प्रज्ज्वाल यमानुजात ॥ ५८ ॥

उस समय पञ्चापश गवर्नर ओष्ठवायर था । शीघ्र ही श्रीमहात्माजी-का पञ्चापम पहुँचना सुनकर यह दुष्टदुष्टियाण तीव्र क्रोधसे जलने लगा ॥ ५८ ॥

८. लोकोको दुःखित और भयमानित करनेका यह भी एक उपाय मान लिया गया था अतः पण रंगोवाणोंके भागे पक्षी मारे जाते थे ।

† महत्त माहिर्यमे एक शब्द प्राङ्घ्रिवाक है । उसका अर्थ भ्यावाधीन होता है । यहाँ इस श्लोकमें प्राङ्घ्रिवाक शब्द है । इसका अर्थ परीच या वैरिण होता है ।

यद्यपि आवश्यकता नहीं थी तो भी, उस एक अमृतसरमें सकारने हिन्दुओं और मुसलमानोंका अपमान करनेकेलिये फौजी कानूनकी घोषणा कर दी ॥ ४२ ॥

प्रत्येकमङ्ग्रेजमनुष्यहत्यामुद्दिश्य लक्षं यवनांश्च हिंदून् ।
हन्तुं तथा तानवमन्तुमेव तैः साधितैर्यं घृणिता व्यवस्था ॥४३॥

एक एक अंग्रेजकी हत्याकेलिये लाखों हिन्दुओं और मुसलमानोंका वध करनेकेलिये तथा उनका अपमान करनेकेलिये हीगोरोंने—अधिकारियों ने यह व्यवस्था—फौजी शासनकी व्यवस्था की थी ॥ ४३ ॥

जलियानवालेत्यभिधानबोधे बृहत्तमे चोपवने सभायाम् ।
नराधमो डायरनामकोऽसद्रौराज्ञजो बह्निचयं ववर्ष ॥४४॥

नराधम डायरनामवाले दुष्ट अंग्रेजने ÷ जलियानवाला नामक बड़े बागमें एक सभाके ऊपर अग्निकी वर्षा की ॥ ४४ ॥

सेनां गृहीत्वा निभृतं जगाम स डायरस्तत्र वने दुरात्मा ।
द्वारावरोधं विरचय्य तत्र शतानि लोकान्निजघान हिंस्रः ॥४५॥

वह डायर एक सेना लेकर चुपचाप उस जलियानवाला बागमें गया (उस समय वहाँ सभा हो रही थी) । उस हिंस्रने रास्ता रोककर सैकड़ों लोगोंको मार डाला ॥ ४५ ॥

⊗ यद्यपि यहाँ श्लोकमें अमृतसरका नाम नहीं है तथापि इस प्रकरणके अन्तमें ५६ वें श्लोकमें नाम थाया है । वहाँ लिखा है कि यह कथा तो अमृतसरकी है और लाहोरकी अब सुनो । इससे स्पष्ट है कि यह वर्णन अमृतसरका ही है ।

÷ इस बागको अब कांग्रेसने खरीद लिया है । अमृतसरके यात्रियोंकेलिये यह बाग अब तीर्थधाम हो गया है । प्रत्येक नया आदमी अमृतसरमें जाकर इसे अवश्य देखता है ।

परस्सहस्रा शुलिकाः प्रहृत्य वृद्धाञ्छिशून्स्त्रीः सरुजश्च यूनः ।
विना विचारेण निहत्य लोकान्त साधयामास हि वैरशुद्धिम् ॥४६॥

उस डायरने हाजरो गोलियोंका प्रहार करके वृद्ध, बालक, स्त्री, रोगी,
जवान सभी लोगोंको बिना किसी विचारके ही मारकर, वैरशुद्धि-बदला
सुकाया ॥ ४६ ॥

हस्तात्पदान्नेत्रपुटात्पिचण्डात्पृष्ठाभ्रसः कण्ठतटाच्च शीर्षात् ।
हताहतानामदर्यैर्जनानामसृक्प्रवाहाः शतधाः प्रसस्रुः ॥४७॥

दुष्ट सैनिकों द्वारा जो लोग मारे गये थे या घायल हुए थे उनके
हाथसे, पैरसे, नेत्रसे, पेटसे, पीठसे, नासिकासे, गलेसे और शिरसे रक्तकी
सहस्रों धाराएँ बह रही थीं ॥ ४७ ॥

विच्छिद्य निस्सृत्य च मांसरज्ज्वः शरीरतस्तत्र हताहतानाम् ।
इतस्ततः सम्पतितैस्तदानीं घरा बभूवामिपनिर्मितेष ॥४८॥

जहाँ पर मारे गये हुए और घायलोंके शरीरोंमेंसे फलकर निकलकर
इधर उधर पड़े हुए मांसके लोथोंसे ऐसा मानस्य होता था कि मानो
पथिवी मांसकी ही बनी हुई है ॥ ४८ ॥

हाहेतिशब्दैर्निर्मितं वनं तद्व्याप्तं तदानीमधिदुःखभालाम् ।
निशम्य तानश्मचयोऽप्यरोदीत्का स्यात्कथा मानवमानसानाम् ॥४९॥

यह तामपूर्ण बात उस समय अत्यन्त दुःखित स्त्रीपुरुषोंके हा हा-
चन्दसे व्याप्त हो गया था । उन शब्दोंको सुनकर पत्थर भी रोते थे-
मनुष्योंकी तो क्या ही क्या ! ॥ ४९ ॥

श्वेताङ्गनायामथ शेरवूढनाम्न्यां चकाराश्मणं च कश्चित् ।
मनिक्रियां तस्य जघन्धरोत्या दधार रशोधिपतिस्तदानीम् ॥५०॥

शेरवूढ नामकी किसी रोगी औरतपर किसीने हमला कर दिया था ।
राजसराज डायरने उसका बदला अत्यन्त निहृष्ट रीतिसे सुकाया ॥ ५० ॥

आज्ञां गृहीत्वा स पिना विलम्बं रोद्धुं मुनिं वाइसरायतस्तम् ।
पञ्चापभूमौ यमिनां वरस्य निषेधयामास गतिं शुभान्ताम् ॥५९॥

ओहवायरने वाइसरायसे मुनि—श्रीमहात्माजीको रोक्नेकी आज्ञा लेकर परमेश्वर—परम समर्थ श्रीमहात्माजीका पंजाब प्रान्तमें प्रवेश निषिद्ध कर दिया ॥ ५९ ॥

समादिदेशापि स तस्य बन्धं निवर्तयामास च तं गृहीत्वा ।
वृत्तं परिज्ञाय च घृत्तपद्मादेतत्प्रतप्ता जनता बभूव ॥६०॥

श्रीमहात्माजीकी गिरफ्तारीकी भी आज्ञा हो गयी थी । उनको पकड़कर सर्कारने लौटा दिया । समाचारपत्रोंसे इस समाचारको जानकर जनता और ध्याकुल हो गयी ॥ ६० ॥

प्रधाननेतृग्रहणेन दीना लोकाः स्वहृद्वन्निहितान्वितेनु ।
संभूय ते मोचयितुं तमारङ्गन्तुं समैच्छन्ननु शासकाग्र्यम् ॥६१॥

अपने प्रधाननेता (श्रीमहात्माजी) के पकड़ेजानेसे लोगोंने दुःखित होकर अपनी अपनी दुकानें बंद कर दीं । श्रीमहात्माजीको शीघ्र छुड़ानेके लिये लोगोंने गवर्नरके पास जानेकी इच्छा की ॥ ६१ ॥

वृत्तं सपद्येव निवृध्य शास्ता समादिदेशानलवर्षणानि ।
क्षणेन लोका बहवो निरस्त्रा निपातिताः संनिहताश्च तत्र ॥६२॥

गवर्नरने इस समाचारको सुनकर फौरन् अनलवर्षण—गोलीचलानेकी आज्ञा दे दी । क्षणभरमें ही निरस्त्र बहुतसे लोग वहाँ गिरा दिये गये और मार डाले गये ॥ ६२ ॥

न घातितास्तत्र बभूवुरर्प्यास्तेषां च सम्बन्धिषु राज्यभृत्यैः ।
सम्प्रार्थितैर्नेतृवरैरपीतिक्रोधानलो भीष्मतरो बभूव ॥६३॥

बड़े बड़े पञ्जाबीनेताओंकी प्रार्थनापर भी राजकर्मचारियोंने मरे हुएोंको उनके सम्बन्धियोंको देनेसे इन्कार कर दिया । इस कारणसे लोगोंका क्रोधान्नि और भी भयङ्कर हो गया ॥ ६३ ॥

श्रीदूनिचन्द्रं हरिकृष्णलालं श्रीचौधुरीरामभजं विधातय ।
देशाच्च तत्रापि गवर्नरोऽसौ न्ययूयुजत्सैनिकशासनानि ॥६४॥

गवर्नरने लालादूनीचन्द्र, श्रीहरिकृष्णलाल, पण्डित राम भजदत्त चौधुरी आदिको देशनिकाला देकर लाहौरमें भी कौड़ी कानून घोषित कर दिया ॥ ६४ ॥

तच्छासनस्याधिपतित्वमासीद्धस्तेऽर्पितं कर्नलजानसनस्य ।
तिलादनूनः खलडापरात्स क्रूरेषु कृत्येषु दुराशयेषु ॥६५॥

मार्शलॉ—कौड़ीकानूनकी माराहोर कर्नलजानसनके अधिकारमें सौंप दी गयी । यह कर्नल दुष्ट और क्रूर कार्य करनेमें, दुष्ट डायरसे तिलभर भी घम नहीं या ॥ ६५ ॥

आश्वा रथा अष्ट शतानि तेन स्त्रीयाधिकारे विधृतास्तदानीम् ।
तथा रथा मोटरनामधेयाः बलाद्गृहीता निखिलाः प्रजाभ्यः ॥६६॥

कर्नल जानसेतने ८०० घोड़ागाड़ियोंको अपने अधिकारमें ले रखा था । एवं हिन्दुस्त्रानियोंके पात वहाँ जितनी मोटरें थीं सब उसने कै ली थीं ॥ ६६ ॥

निराश्रयाणां च हिताय तत्र प्रवर्तिता अभ्यवहारशालाः ।
तेन न्यपिच्यन्त निजाधिकारे कृतानि शास्त्राण्यपि सञ्जनानाम् ॥६७॥

लाहौरमें गरीबोंकेलिये लहर—अन्नघेरा खुले हुये थे । उन सबको उलने बन्द करा दिये । वहाँ के राजनोंके भी सब सब उलने छीन लिये ॥ ६७ ॥

कदाप्रहाराच्छतमष्ट चापि पट्टपट्टिलीकेष्वन्येषु तावत् ।
प्राहारयद्दीनदयसाधान्यान्कठोरदण्डैर्यिष्यैरश्मात्सः ॥६८॥

उसने निरपराध ६६ आदमियोंको प्रत्येकको २०८ कोटे तगवाये थे ।

तथा अन्य अनेक गरीबोंकी विविध प्रकारके दण्डोसे दण्डित किया था ॥ ६८ ॥

प्रतिष्ठितानामथ भारतानां नृणां प्रतिष्ठाविलयाय नूनम् ।
कृतं समस्तं विगतत्रपेण निशाचरत्वेन जितेन तेन ॥६९॥

राक्षसतासे जीते गये हुए—यशमें किये हुए—उस निर्लज्ज कर्नलने प्रतिष्ठित भारतीय जनोंकी प्रतिष्ठाका अपहरण करनेकेलिये, सबकुछ किया ॥

हृष्टसमित्याः पुरतो बभापे चमूपतिर्जानसनोऽभिमानात् ।
न्यायादपेता न कृतिर्ममेयं कार्या पुनः साऽवसरे मया तु ॥७०॥

हृष्टरे समितिके सामने कर्नल जान्सनने अभिमानके साथ कहा था कि यह मेरा कृत्य जरा भी अन्याययुक्त नहीं है । समय पडने पर मैं पुनः यही कार्य करूँगा ॥ ७० ॥

गुजानवाला नगरे सिताङ्गैरग्न्यस्त्रवर्षाः खगतैर्विमानैः ।
कृता मृतास्तत्र नराश्च नार्यो वालाश्च निष्पापतमा अबोधाः ॥७१॥

गुजराँवाला शहरमें भी अग्नेजोंने हवाईजहाजोसे गोले बर्साये थे । वहाँ अनेक निरपराध स्त्री, पुरुष और अधोध बच्चे मारे गये थे ॥ ७१ ॥

चतुष्पथे स्थापित एव पुर्यां कसूरनाम्न्यामपमृत्युमञ्चः ।
महाप्रयत्नेन जनैस्ततोऽसौ पौरैस्तदन्यैरपसारितोऽभूत् ॥७२॥

कसूर शहरमें चौराहे पर ही फौसी देनेका मंचान बनाया गया था । नगरनिवासियोंने तथा अन्योने भी बड़ी फोडिश करके उसे वहाँसे हटवाया ॥ ७२ ॥

श्रीमोतीलालो द्विजधंशवीरः प्रयत्नतो भर्त्यवधं न्यवारीत् ।
नथाप्यनेके सितकायहस्तैर्मृतिं गता भारतभूसुपुत्राः ॥७३॥

ब्राह्मणपदके वीर पण्डित श्रीमोतीलालनेहरूजीने प्रयत्नकरके मनुष्योंकी फौसीको ऋद्द करवाया । तथापि अनेक भारतीय गोरोंके हाथोंसे मारे गये थे ॥ ७३ ॥

❀ क्रोधप्लुष्टैर्मतिविभयतो भ्रष्टतामेत्य दुष्टै-

रन्यायैस्तामबलजनतां निर्घृणैर्द्वैत्यरूपैः ।

नानाशस्त्रैरनलगुलिकासम्प्रहारेर्हतां स

श्रुत्वा शोकानलप्रलवृत्तिश्चिन्तितोऽभून्महात्मा ॥७४॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिधर्मज्ञाजकधीस्वामिभगवद्वाचार्यमहाराजप्रणीते
भारतपारिजाते नवमः सर्गः.

क्रोधसे जलने हुए, बुद्धिसे भ्रष्ट हुए, निर्दय, दैत्यसमान दुष्टोंसे
पञ्चायकी अबल जनतासे—ब्रितके पास कोई फौज नहीं थी उससे—
तरह तरह के शस्त्रों और गोशिरोंके प्रहारोंसे मारी गयी मुनकर यह
श्रीमहात्माजी शोकाबुल और चिन्तित हो गये ॥७४॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिधर्मज्ञाजकधीस्वामिभगवद्वाचार्यमहाराजप्रणीते
स्वोपज्ञभारतरत्नद्रभाषाटीकासहिते
भारतपारिजाते नवमः सर्गः

दशमः सर्गः

अथापराधशून्यानां स्त्रीणां पुंसां विलोक्य तम् ।

बधं बालगणस्यापि तदीयं हृद् व्यकम्पत ॥ १ ॥

अपराधके बिना ही स्त्रियों, पुरुषों और बालकोंका बध देखकर श्रीमहात्माजीका हृदय घँप उठा ॥ १ ॥

सन्दिदेश स दीनेशः सम्राजं जार्जपञ्चमम् ।

महदन्याय्यभाषेस्त्वदीया भारते जनाः ॥ २ ॥

दीनोंके स्वामी श्रीमहात्माजीने सम्राट् पञ्चमजार्जको सन्देश दिया कि तुम्हारे आदमियोंने—राजकर्मचारियोंने भारतमें बडे बडे अन्याय किये हैं ॥ २ ॥

एते च शास्त्रमाश्रित्य दण्डनीया इति प्रभुः ।

स सन्देशमिमं मोहात्कृतवानश्रुत श्रुतम् ॥ ३ ॥

श्रीमहात्माजीने यह भी सन्देश भेजा कि कानूनके अनुसार इन सबको दण्ड देना चाहिये । प्रभुः स.—राजा—पञ्चमजार्जने इस सन्देशको * सुना न सुना बना दिया ॥ ३ ॥

शान्तरूपोऽपि धर्मात्मा महात्मा सत्यभावन ।

साम्राज्याय तदात्यन्तं कुप्यति स्म कृपानिधिः ॥ ४ ॥

सत्यचित्तक श्रीमहात्माजी धर्मात्मा, दयालु और शान्त हैं तो भी उस समय सकारके प्रति उन्हें क्रोध हो आया ॥ ४ ॥

❀ किसी बातको सुनकर भी उधर ध्यान न दिया जाय तो वह सुनी हुई बात भी न सुनी हुई के बराबर ही होती है उसी भावको “सुना न सुना” शब्दसे प्रकट किया गया है

सर्वानेव विचार्याथ भारतीया-समादिशत् ।

विक्रुतेषु सर्वसम्बन्ध साम्राज्येनाविवेकिना ॥ ५ ॥

श्रीमहात्मानोंने विचारकरके, अविवेकी साम्राज्यके साथ सब सम्बन्धों को तोड़ डालनेकेलिये सब भारतवासियोंको आज्ञा दे दी ॥ ५ ॥

महात्मन इमामाज्ञा मूर्ध्ना समवहन्मुदा ।

भारतीयास्ततोऽहमेजैर्युजोऽनीतिपुञ्जकम् ॥ ६ ॥

समस्त भारतवासियोंने उनकी इस आज्ञाको प्रयत्नतासे तिरपर चढ़ाया । अतः अज्ञाने अन्यायोंका पुञ्ज शुरु कर दिया ॥ ६ ॥

यथा यथा सिताङ्गानामन्यायोऽवर्षताऽनिशम् ।

भारतीया प्रजा भूता शक्तिमत्यस्तथा ॥ ७ ॥

ज्यों ज्यों अप्रेमोंका छुलम बढ़ता गया त्यों त्यों भारतीयप्रजा शक्ति सम्पन्न बनती गयी ॥ ७ ॥

मोतीलालश्च तत्पुत्र शान्ताकारो जवाहिर ।

चित्तरञ्जनदासश्च देशबन्धु सुखाकर ॥ ८ ॥

अनुत्कल्लाम आज्ञादो महाशक्तिसमन्वित ।

लाल लालपतराय श्रीमान्पञ्चायकेसरी ॥ ९ ॥

रायगङ्गाधर श्रीमान्पाण्डेयोपाह्व एव च ।

अन्येऽपि बहवो वीरा प्रस्तुता देशरक्षणे ॥ १० ॥

धीपण्डित मोतीलाल नेहरू, शान्तपूर्ति पण्डित जवाहिरलाल नेहरू, देशरक्षु श्रीचित्तरञ्जनदास, मां० अनुत्कल्लाम आज्ञाद, पञ्चायकसरी लाल लालपतराय, रायगङ्गाधर पाण्डेय और अन्य मी बहुतसे वीर देशरक्षा पलिये तैयार हो गये ॥ ८।९।१० ॥

देशरक्षापराधेन फारा नीता परदशता ।

सुधियो भारतास्तेन भूपप्रतिमुखा वदा ॥ ११ ॥

विवेकहीन सरकारने देशरक्षारूप अपराधके कारण सैकड़ों उन बुद्धिमान् देशरक्षकोंको जेलमें भर दिया ॥ ११ ॥

शुक्रे शुक्ले त्रयोदश्यां फाल्गुने भासि वैक्रमे ।

वसृष्टिप्रहचन्द्राब्दे रात्रौ सत्याग्रहाश्रमे ॥ १२ ॥

अतिक्रान्ते सार्धदशहोरे कुमुदवान्धवः ।

अस्तोऽभूत्स महात्माऽपि सितकायेन राहुणा ॥ १३ ॥

वि० सवत् १९७८, माघ मास, शुक्रपक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवारको रात्रिमें १०॥ बजे श्रीमहात्माजीरूप चन्द्रमाको सरकाररूपराहुने सत्याग्रह-आश्रम सावरमतीमें पकड़ लिया ॥ १२।१३ ॥

चैत्रे कृष्णे च पञ्चम्यां वसृष्ट्यङ्कधरायुते ।

वैक्रमेऽब्दे शनौ वारे नीतो न्यायालयं यतिः ॥ १४ ॥

वि० १९७८, चैत्र मास, कृष्णपक्ष, पञ्चमी तिथि और शनिवारको श्रीमहात्माजीको ७ कचहरीमें लाया गया ॥ १४ ॥

यद्गण्डियागतैर्लेखैः कैश्चिन्निभिरयं मुनिः ।

राजद्रोहापराधेन दूषितो घोषितोऽभवत् ॥ १५ ॥

÷ यद्गण्डियामें लिखे गये हुए X किन्हीं तीन लेखोंके कारण राजद्रोहके अपराधसे श्रीमहात्माजीको दोषी ठहराया गया ॥ १५ ॥

भवति स्थापितं दोषं स्वीकरोति भवानपि ।

कामयतेऽभियोगं वा पप्रच्छेति यतिं जजः ॥ १६ ॥

७ शाहीबाग (अहमदाबाद) में स्पेशल कोर्ट बैठी थी ।

+ "यद्गण्डिया" इस नामका अंग्रेजीमें एक साप्ताहिक-पत्र अहमदाबादसे निकलता था । उसके सम्पादक श्रीमहात्माजी ही थे ।

X उन तीनों लेखों के शीर्षक (हेडिंग) ये थे—“राजद्रोह” (य० इ० २ अक्टूबर १९२१), “वाइसरायकी व्याकुलता” (य० इ० १५ दिसंबर १९२१) और “हुंकार” (य० इ० २३ फरवरी १९२२)

जबने श्रीमहात्माजीसे पूछा कि आपके ऊपर जो दोष सर्कारने ल्याया है उसे आप भी स्वीकार कर लेते हैं या, मुकदमाका चलना पसन्द करते हैं ? ॥ १६ ॥

अङ्गीकरोमि तं दोषमित्याह स मुनीश्वरः ।

ऐडवोकेटजनरलमित्युवाच जजस्ततः ॥ १७ ॥

श्रीमहात्माजीने कहा कि मैं उस अपराधको स्वीकार करता हूँ । तब जब ऐडवोकेट जनरलसे बोले कि :— ॥१७॥

स्वीकरोति स्वयं दोषमभियुक्तोऽयमात्मनः ।

तथापि विष्यनुष्ठानं विनास्थ्यावश्यकं पुनः ॥ १८ ॥

यह अभियुक्त अपने उस दोषको झूठ कर रहा है, क्या तो भी कार्यवाही का करना जरूरी है ? ॥ १८ ॥

ॐ ऐडवोकेटजनरल स्वीयां गिरमकम्पयन् ।

दण्डं नियन्तुसत्यर्थमभियोगस्तु युज्यते ॥ १९ ॥

ऐडवोकेटने कहा कि सजा का निश्चय करनेकेलिये क्या तो चलाना ही चाहिये ॥ १९ ॥

त्रयाणामेव लेखानां दोषोऽसौ लेखनात्मकः ।

अपराधयुक्तेन समपादि न केवलम् ॥ २० ॥

इस अपराधाने केवल तीन लेखोंके लिखनेका ही अपराध नहीं किया है—॥ २० ॥

कि तु स्पष्टं सनियमं राज्येन सह योधनम् ।

उपशान्त यदृतेन तस्यैषोऽशोऽस्ति कश्चन ॥ २१ ॥

प्रशुत शान्ति दो राज्यके साथ खुलमखुला युद्ध शुरू कर दिया है । यह लेख तो उसी लड़ाईका कोई एक अंश है ॥ २१ ॥

ॐ यहाँसे २८ वें श्लोक तक ऐडवोकेट जनरलका बयान है ।

। अथ तुल्यापराधेषु प्रभूतेषु जनेष्वपि ।

दृष्टान्ताहोण दण्डेन दण्ड्यो मुख्योऽपराधभाक् ॥ २२ ॥

यदि गृह्यत मनुष्य एक ही अपराध कई बार करे तो उनमेंसे प्रधान अपराधीको ऐसी सजा देनी चाहिये कि जो दृष्टान्तस्वरूप हो सके । अर्थात् जिस सजाको देखकर दूसरे डर जायें ॥ २२ ॥

। नेताऽयं सर्वलोकानां मान्यस्त्वस्यविदां वरः ।

अनेन लिखितस्यास्य प्रभावोऽपि विचिन्त्यताम् ॥ २३ ॥

यह सब लोगोंका माननीय और परमविद्वान् नेता है । इसके लिये हुए लेखका क्या प्रभाव पड़ता है इसका विचार करना चाहिये ॥ २३ ॥

यद्यप्येतस्य लेखेषु सर्वमैत्रीपरायणा ।

अहिंसैव सदा धत्ते प्राधान्यमिति वेदस्यहम् ॥२४॥

तथापि चेत्स नियममप्रीतिः स्यात्प्रसारिता ।

वृथाऽहिंसोपदेशः स्याद्वेद्भीत्यपि समन्वतः ॥ २५ ॥

यद्यपि इस अभियुक्तके लेखोंमें सदा सबके साथ मैत्री करानेवाली अहिंसाकी ही प्रधानता रहती है, यह मैं जानता हूँ । तथापि मैं यह भी जानता हूँ कि यदि सदा नियमपूर्वक अप्रीति-द्वेषका प्रचार किया जाय तो अहिंसाका उपदेश व्यर्थ हो जायगा ॥ २४ ॥ २५ ॥

मौम्वय्यं चापि माद्रासं चौरिचौरं च सर्वथा ।

जनतावधकाण्डं तन्मत्पक्षस्य समर्थकम् ॥ २६ ॥

बम्बई, मद्रास और चौरिचौरके इत्याकाण्ड इस मेरे पक्षका समर्थन करते हैं ॥ २६ ॥

अन्योऽयमपराधी तु लेखमुद्रणलक्षणम् ।

। स्वल्पमेवाकरोद्दोषं शङ्करलालबैङ्करः ॥ २७ ॥

और इस दूसरे अपराधी शङ्करलाल बैङ्करने तो लेखोंके छापनेका ही थोड़ासा अपराध किया है ॥ २७ ॥

• ॐ परं धनसमृद्धोऽसौ विचिन्ते प्रार्थये ततः ।

पुष्कलानि हिरण्यानि दण्ड्य एष इति प्रुये ॥ २८ ॥

परन्तु यह (शङ्करलालवेङ्कर) बहुत धनवान् आदमी है अतः मेरी प्रार्थना है कि इसे खूब अधिक रुपयोंका अवश्य दण्ड देना चाहिये ॥ २८ ॥

अभियोगो मयाऽथैष नीयते चरमां सुवम् ।

घोषणा दण्डनस्यावशिष्टेत्युक्तं जजेन च ॥ २९ ॥

जजने कहा कि अभियोगको तो मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ । केवल सब मुनाना ही बाकी रह जाता है ॥ २९ ॥

परं श्रोतुं तदिच्छामि यत्कव्यं यत्किमप्यथ ।

दण्डस्य विषये नूनमभियुक्तेन चेदिति ॥ ३० ॥

परन्तु यदि दण्डके बारेमें अभियुक्त कुछ पहना चाहता हो तो मैं उसे मुनना चाहता हूँ ॥ ३० ॥

महामना महायोद्धा महायोद्धा महायशाः ।

महाधीरो महावीरः स महात्मेत्यवोचत ॥ ३१ ॥

महान् मनवाले, महान् शानी, महान् योद्धा, महान् यशस्वी, महान् धैर्यशाली महावीर श्रीमहात्माजी — इस प्रकारसे बोले ॥ ३१ ॥

ऐडवोफेटजनरल् विद्वांस्तु यदवोचत ।

मया स्वीक्रियते सर्वमक्षरसो मुदां भटैः ॥ ३२ ॥

विद्वान् एडवोफेट जनरलने को कुछ कहा है उसे मैं इसके साथ एक एक अक्षर स्वीकार करता हूँ ॥ ३२ ॥

नाहं संगोप्तुमिच्छामि किञ्चिदप्यत्र सामकम् ।

अभिप्रायं फदाप्यस्माद्विस्पष्ट विनियेदये ॥ ३३ ॥

1. उपहासिक सर्कारी वकील—एडवोफेट जनरलका बयान है ।

—यहाँसे ५२ श्लोक तक महात्माजीका मौखिक निवेदन है ।

मैं अपना कोई भी अभिप्राय छिपाना नहीं चाहता हूँ अतः स्पष्ट कहता हूँ ॥ ३३ ॥

यत्नमानाऽद्य यास्यत्र भारते राजपद्धतिः ।

तां प्रत्युप्रीतिमाधातुं सोत्कण्ठं हि मनो मम ॥ ३४ ॥

भारतमें जो राजनीति चल रही है उसके प्रति अप्रेम फैलानेकेलिये निश्चय ही मेरा मन उकटित रहता है ॥ ३४ ॥

अत्यन्तं दुःखदं कृत्यं मदर्थमिदमिष्यते ।

किन्तु स्योत्तरदायित्वं वीक्ष्यैवेदं करोम्यहम् ॥ ३५ ॥

मेरेलिये ऐसा करना, है तो बहुत दुःखद वस्तु; परन्तु अपनी जवाबदारीको दिखारकर ही मैं ऐसा करता हूँ ॥ ३५ ॥

मुग्धव्यादौ प्रवृत्तानां कलहानां भरोऽर्पितः ।

मयि मूर्ध्ना यद्दाम्येव सादरं तं त्वाम्रतः ॥ ३६ ॥

बम्बई, मद्रास, चौरीनौरा आदिमें जो झगडे हुए हैं उनका भार मुझपर डाला गया है । उसे मैं आदरके साथ आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ ॥ ३६ ॥

वह्नी रात्रौर्विचार्यैव विधिच्योच्चावचं पुनः ।

अङ्गीकरोमि तान्दोषानौन्मत्तांश्चाप्यमानुषान् ॥ ३७ ॥

अनेक रात्रिया मेरी इसी विचारमें बीत गयी हैं । पूर्वापरका विचार करके ही इन उन्मत्तकृत तथा अमानुषीय दोषोंको मैं स्वीकार कर रहा हूँ ॥ ३७ ॥

निखिलाः परिणामास्ते मद्बुद्धौ रुभवस्थिताः ।

आसन्नासीच्च विज्ञातं त्रीडामि सह बह्विना ॥ ३८ ॥

इस युद्धके सब परिणाम मेरी बुद्धिमें उपस्थित थे । मुझे मात्रम था कि मैं अत्रिके साथ खेल रहा हूँ ॥ ३८ ॥

परन्तु हृष्यामीत्यमद्य मुक्तो भवानि चेत् ।

पुनस्तदेव कर्तव्यं कर्तव्यं मेऽस्ति निश्चितम् ॥ ३९ ॥

परन्तु मैं आपको बता देता हूँ कि यदि मैं आज छूट जाऊँ तो पुनः
अवश्य ही मैं इसी कार्यको करूँगा ॥ ३९ ॥

यद्वदामि सुखेनात्र घदिष्यामि न चेदहम् ।

भविष्यामि च्युतो धर्मादेवं प्रातर्विचारितम् ॥ ४० ॥

प्रातःकाल मैंने विचार किया कि, इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ,
उसे यदि (आपके सामने) न कहूँ तो मैं अपने धर्मसे च्युत हो
जाऊँगा ॥ ४० ॥

अशान्तिमपहर्तुं मे कामना जायते सदा ।

संविधातुं तथैवाहं कामयेऽद्यापि वस्तुतः ॥ ४१ ॥

अशान्तिको दूर करनेकेलिये सदा मेरी इच्छा होती रहती है ।
वस्तुतः मैं आज भी वैसा ही करना—अशान्ति दूर करना चाहता हूँ ॥४१॥

अहिंसा मम धर्मस्य मन्त्रो मूर्धनि तिष्ठति ।

मन्येऽहमन्तिमं चापि मन्त्रमनं स्वजीवने ॥ ४२ ॥

अहिंसारूप मन्त्र मेरे धर्मके अग्रभागमें रहता है । अर्थात् मेरा
सर्वश्रेष्ठधर्म अहिंसा है । इसीको मैं अपने जीवनका अन्तिम मन्त्र भी
मानता हूँ ॥ ४२ ॥

स्वदेशस्य दशां मत्तो निशम्य प्रोधधारिभिः ।

भारतीयसुतैः सर्वं पृतं स्रष्टं मया भवेत् ॥ ४३ ॥

मेरे मुँहसे अरने देशको दशा सुनकर, कौची बने हुए भारतीय बंधु
जो कुछ करेंगे, वह सब कुछ मुझे रहना चाहिये ॥ ४३ ॥

छ कोटमें अनेसे पूर्व ही श्रीमहाभारतीने शिष्य कर शिष्या था कि
मुझे कोटमें अगुक्त अगुक्त वस्तु स्वदरुमें कह देती चाहिये । न कहनेसे
मैं अरने धर्मसे च्युत बनूँगा ।

अथवा दोषपूर्णाया एतस्या राजपद्धतेः
वशयतित्यमेव स्यात्स्वीकर्तव्यं मयाऽरुचि ॥ ४४ ॥

अथवा दोषोंसे भरी हुई इस राजपद्धतिकी अधीनता मुझे भी
स्वीकार कर लेनी चाहिये ॥ ४४ ॥

प्रेयांसो बहुकृत्वोऽथ भारता मम घान्वया ।
अकुर्वन्नन्यकर्तव्यमित्येतदपि वेद्म्यहम् ॥ ४५ ॥

अनेकोंबार मेरे प्रिय भारतीय बन्धुओंने, न करने योग्य कार्योंकी भी
क्रिया है, इस बातकी भी मैं जानता हूँ ॥ ४५ ॥

तदर्थं दुःखमप्यासीद्वह्वल मानसे मम ।
याचे तदर्थमेवात्र कठिनं दण्डमात्मने ॥ ४६ ॥

उसकेलिये मेरे मनमें दुःख भी बहुत था । इसीलिये तो मैं अपने
लिये, यहाँ कठिन दण्ड मांग रहा हूँ ॥ ४६ ॥

नाहं भिक्षे दयां त्वत्तो दोषाणामपि या त्वया ।
मयि प्रकल्प्यमानानामौन्वं तर्केन कामये ॥ ४७ ॥

मैं आपके पासने न तो दया मागता हूँ और न दलीलोंसे उन
अपराधोंमें बर्मी कराना चाहता हूँ, जो अपराध मुझपर ल्याये
गये हैं ॥ ४७ ॥

नागराणां परं कृत्यं यदास्तीत्तन्मया कृतम् ।
तद्धि चेद्भ्राजनीतां ते दोषः स्यादस्तु तत्तथा ॥ ४८ ॥

नागरिकोंका जो कर्तव्य था उसे मैंने किया है । यदि वह मेरा
कर्तव्य आपकी राजनीतिमें दोषयुक्त माना जाता हो तो वह भले माना
जाय ॥ ४८ ॥

तदर्थं दण्डमादातुं कठिनात्कठिनं परम् ।
अहमत्र स्थितोऽस्म्यद्य क्रियता ह्येच्छया त्वया ॥ ४९ ॥

उसकेलिये कठिनसे कठिन दण्ड ग्रहण करनेकेलिये मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ । जो इच्छा हो कीजिये ॥ ४९ ॥

इदानीमेव लिखितं श्रावयिष्यामि चोत्तरम् ।

मया निर्देक्ष्यते तत्र कर्तव्यं तावकं द्वयम् ॥ ५० ॥

मैं अभी ही आपना जिलित उत्तर सुनाऊँगा । वहाँ मुझे बहना है कि आपके दो कर्तव्य हैं ॥ ५० ॥

दूषितोऽयं स नियमो यस्त्वयाऽनुयियासितः ।

इति चेत्त्र विजानासि त्यजैतत्पदमञ्जसा ॥ ५१ ॥

जिस जायदेवा आप अनुसरण करना चाहते हैं वह दूषित है—बुरा है, ऐसा यदि आप समझते हैं तो शीघ्र ही इस पदको आप छोड़ दें ॥ ५१ ॥

मदीयं चेत्कृतं कर्म मन्यसे देहाहानिकृत् ।

स्वेच्छयेव तदा दण्डं देहि मे कठिनं परम् ॥ ५२ ॥

मूसरी मत । यदि आप मेरे किये गये कर्मको देहाहानिकृते मानते हैं तो स्वेच्छासे मुझे कठिनसे कठिन दण्ड दीजिये ॥ ५२ ॥

एतदुक्त्या महातेजा विस्फुटं न्यायसद्धानि ।

लिखितं श्रावयामास स्वयच्छव्यं स निर्दरः ॥ ५३ ॥

महातेजस्वी महात्माजी निर्भय होकर, न्यायालयमें जेना बहकर अपने जिलित वक्तव्यको विशेषरूपसे सुनाने लगे ॥ ५३ ॥

प्रजानामाङ्गलीयानां मनस्तोषाय फेवत्तम् ।

अभियोगोऽयमारब्धो मुख्यत्वेनास्ति साम्प्रतम् ॥ ५४ ॥

अग्नेत्रीप्रजा—गोरोंको—मनुष्य करनेकेलिये ही, ग्यास फरके आज यह अभियोग शुरू किया गया है ॥ ५४ ॥

तदर्थं भारतार्थं च स्वयमं ध्यायता मया ।

राजद्रोहविधानस्य वक्तव्यं कारणं प्रतान ॥ ५५ ॥

उस गोरीप्रजाकेलिये और भारतकेलिये मेरे कर्तव्यका दिचार करते हुए मुझे इस राजविद्रोह करनेका कारण अवश्य ही कह देना चाहिये ॥ ५५ ॥

यह्वयङ्गुवसुचन्द्राख्ये सिस्ताब्दे विपमस्थितौ ।

दक्षिणीयाफ्रिकायां मे प्रवृत्तं कार्यमादिमम् ॥ ५६ ॥

सन् १८९३ ई० में दक्षिण अफ्रिकामें, एक विपम स्थितिमें सबसे पहिली मेरा कार्य आरम्भ हुआ ॥ ५६ ॥

तस्मिन्देशे तदानीं तु सत्तया ब्रिटिशशाख्यया ।

जासीत्सुखाय किञ्चिन्मे प्राथमिकः समागमः ॥ ५७ ॥

उस समय उस देशमें ब्रिटिश सत्ताके साथ जो मेरा प्रथम समागम हुआ वह बरा भी मेरेलिये मुसद नहीं था ॥ ५७ ॥

अनुभूतं मयैतद्यन्मनुष्यत्वेन तद्भुवि ।

भारतीयतया चासीदधिकारो न कोऽपि मे ॥ ५८ ॥

मैंने अनुभवकिया कि मनुष्यताके नातेसे क्यथा हिन्दुस्तानी होनेके नाते से वहाँ मेरा कोई अधिकार ही नहीं था ॥ ५८ ॥

प्रत्युतेति मया ज्ञातं भारतीयोऽस्मि तेन मे ।

मानवोयोऽधिकारोऽपि भवत्येव प्रणाशितः ॥ ५९ ॥

प्रत्युत मैंने तो यह समझा कि मैं भारतीय हूँ अतः मेरा मनुष्योचित अधिकार भी नष्ट हो रहा था ॥ ५९ ॥

नाहं निराशयमारूढो मनस्येवं व्यचारयम् ।

भारतीयेषु राज्यस्य व्यवहारो विशोध्यताम् ॥ ६० ॥

मैं निराश नहीं हुआ । मैंने विचार कि केवल भारतीयोंके साथ सरकारके व्यवहारको शुद्ध करना चाहिये ॥ ६० ॥

यदा यदा हि राज्यस्य दोषा दृष्टौ ममागताः ।

दूरीकृतुं समस्तांस्तान्कृतो यन्नो मया तदा ॥ ६१ ॥

राज्यके दोष जब जब मेरी दृष्टिमें आये हैं तब तब मैंने उनको दूर करनेकेलिये प्रयत्न किया है ॥ ६१ ॥

एवं त्रिटिशराज्येन सर्वथा हितमिच्छता ।

शुद्धेन हृदयेनेव सहयोगो मया कृतः ॥ ६२ ॥

इस प्रकारसे हित चाहते हुए मैंने त्रिटिशराज्यके साथ शुद्ध हृदयसे सहयोग किया है ॥ ६२ ॥

अङ्गाङ्गवारणप्रद्वामिते त्रिस्तीयपरसरे ।

योधने वीधरे राज्ञः साहाय्यं कृतवानहम् ॥ ६३ ॥

ई० सन् १८९९ में मैंने बोधरयुद्धके समय वध्वकी सहायता की थी ॥ ६३ ॥

आहतानां च सर्वेषां सेवार्थं स्थापिता मया ।

विपने समये तस्मिन्समयंसेवकमण्डली ॥ ६४ ॥

उस कठिन समयमें सभी प्रायत्नोंकी सेवा करनेकेलिये मैंने एक स्वयंसेवक समाजकी स्थापना की थी ॥ ६४ ॥

लेडीस्मिथं परित्रातुं संवृत्तेष्व्वाह्वेषु च ।

सयं तत्तन्मयाऽकारि कर्तुं यद्यद्वि पारितम् ॥ ६५ ॥

युद्धके छिद्ब्रजानेपर लेडीस्मिथको पचानेकेलिये मैंने यह सबकुछ किया था जो कुछ कि कर सकता था ॥ ६५ ॥

ऋतयाषाशाङ्गुगोत्रालये ईसवीये च परसरे ।

जुद्धसंघर्षकालेऽपि साहाय्यं कृतवानहम् ॥ ६६ ॥

सन् १९०६ ई० में जुद्ध युद्धके समय भी मैंने ऐसी ही सहायता की थी ॥ ६६ ॥

सदान्तिन्तनयोरेयं फायेयोरुभयोः कृते ।

पदफं दत्तमप्यासीच्छासनेन गुडा त्ययम् ॥ ६७ ॥

उस समयके इन दोनों कार्योंके लिये प्रसन्न होकर सभारने भी मुझे पदक दिया था ॥ ६७ ॥

राजकीये च विज्ञप्तिपत्रे तस्मिन्ननेहति
आसीच्चर्चा विशेषेण कार्यस्यैतस्य मे कुवित् ॥६८॥

उन दिनों सकारी गज़टमें विशेषरूपसे मेरे इस कार्यकी चर्चा रहा करती थी ॥ ६८ ॥

कैसरेहिन्दमित्याख्यं सौवर्णं पदकं शुभम् ।
अवाप्तमाफ्रिकामध्ये लार्डहार्डिङ्गतस्तदा ॥६९॥

उस समय लार्ड हार्डिङ्गसे कैसरे हिन्दका स्वर्णपदक भी मैंने आफ्रिकामें प्राप्त किया था ॥ ६९ ॥

वेदविध्यङ्गचन्द्राख्ये त्रिस्ताब्दे च भयावहम् ।
जर्मनीङ्गल्ण्डयोर्जन्यमजायत जनार्दितम् ॥७०॥

ई० सन् १९१४ में जर्मनी और इङ्ग्लैण्डमें जब बड़ा भारी भयङ्कर युद्ध हुआ था—॥ ७० ॥

सर्वेषां भारतीयानां छात्रप्राधान्यसभृताम् ।
लन्दने वसतां सद्बो निरमायि मया तदा ॥७१॥

उस समय लन्दनमें रहनेवाले भारतीयोंका—जिनमें विशेषरूपसे छात्र ही थे—मने एक सभनिर्माण किया था ॥ ७१ ॥

प्रशंसार्हा कृता सेवा तेन सङ्घेन सर्वथा ।
प्रमाणं तत्र स्वीकारपत्रं राज्याधिकारिणाम् ॥७२॥

उस सभने सब प्रकारसे प्रशसनीय सेवा की थी । इस विषयमें राजबर्मचारियोंका स्वीकारपत्र ही प्रमाण है ॥ ७२ ॥

अर्वेन्द्रङ्गशशाङ्काख्ये ईसवीये च वत्सरे ।
अभयद्युद्धपरिपद्दस्तिनापुरपत्तने ॥७३॥

ई० सन् १९१७ में हस्तिनापुर—दिल्लीमें युद्धपरिष्कृत हुई थी ॥

लाडेंन चैम्सफोर्डेन सैनिकोपचयाय च ।

सामहं प्रार्थनाऽकारि तस्यां सङ्ग्रामसंसदि ॥७४॥

उस युद्धपरिष्कृत लॉर्ड चैम्सफोर्डेने सैनिकोंकी भरती करनेकेलिये
आग्रहपूर्वक मुझसे प्रार्थना की थी ॥ ७४ ॥

स्वास्थ्यानपेक्षया तर्हि सैनिकानां प्रपूर्तये ।

स्वेहाप्रान्ते कृतो यत्रो यावच्छक्यं मया महान् ॥७५॥

सैनिकोंकी भरतीकेलिये मैंने रोडाविलेमें यथाशक्ति, अपने स्वास्थ्यकी
परवा न करके भी, महान् यत्न किया ॥ ७५ ॥

सेवेयती इता या तु केवलं साऽशयाऽनया ।

राज्ये महेदायन्धूनां समत्वं सभविष्यति ॥७६॥

इतनी सेवा मैंने सिर्फ इसी ध्यानासे की थी कि राज्यमें मेरे देश-
बन्धुओंकी भी बराबरीका हक मिलेगा ॥ ७६ ॥

अस्यामाशालतायां मे प्रथम सर्वतोऽपतत् ।

राउलेट् ऐक्ट इत्याहो वञ्च संहारकारकः ॥७७॥

मेरी इस आशालतापर सबसे पहिले, संहार करनेवाला राउलेट-
ऐक्ट-रूप वञ्च पडा ॥ ७७ ॥

आन्दोलनमतीवोभं तद्विरोधाय तत्क्षणम् ।

देशकालावनुसृत्य धीरेणाकारि तन्मया ॥७८॥

उस ऐक्टके विरोधमें मुझे वेग और कालके अनुसार आवन्त उम
आन्दोलन करना पडा ॥ ७८ ॥

प्रावर्तिष्ट च पञ्चादे नरहत्या परम्परा ।

जत्यान्नालेतिपिख्यात उद्याने जनहिंसनम् ॥७९॥

उसके पश्चात्, पञ्चादमें घोर हत्यावाण्ड हुआ । जलियानवालाबाग
(अमृतसर) में प्राणिहिंसा-मनुष्योंका वध हुआ ॥७९॥

सकलव्यवहर्तव्ये महत्यध्वनि निर्दयम् ।

कशया ताडनं जातं नृणामनपराधिनाम् ॥८०॥

जहाँ सब लोग आते जाते रहते थे ऐसे पग्लिक रोडपर-महामार्गपर निर्दयताके साथ बेकसूर लोगोंको कोड़ोंसे पीटा गया ॥ ८० ॥

आज्ञया क्रूरया जातमुदरेण प्रचालनम् ।

नृणामन्यान्वृत्त्यानि घर्णनीयेतराप्यपि ॥८१॥

कठोर-क्रूर आशाके द्वारा मनुष्योंको पेटके बलसे रेंगाया गया । अन्य भी ऐसे अकृत्य हुए जिनका घर्णन नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

तुर्कीमिस्लामतीर्थानि न स्पृशामि कदाचन ।

प्रतिज्ञेति प्रधानस्य प्रायो मिथ्या विलोकिता ॥८२॥

बड़े प्रधानने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुर्कीको और किसी भी मुसलमानी तीर्थ—पवित्रस्थानको हाथ नहीं लगाऊँगा-बर्बाद नहीं करूँगा, वह भी प्रायः मिथ्या ही देखनेमें आयी ॥

जानन्नप्येतदखिलं मेथ्री राज्येन रतितुम् ।

माण्टेगुचैम्सफोर्डोयसमाधानाय चायत्नम् ॥८३॥

यह सब मैं जानता था तो भी सरकारके साथ मित्रताकी रक्षा करनेके लिये माण्टेगु—चैम्सफोर्ड मुधारको मानलेनेके लिये मैंने प्रयास किया था ॥८३॥

यवनेभ्यः प्रतिज्ञातं भारतीयेभ्य उत्स्वरम् ।

अपि नाम भवेद्रक्ष्यं राज्येनेति स्पृहा मम ॥८४॥

भारतीय मुसलमानोंके लिये मुक्तकण्ठसे सरकारने जो प्रतिज्ञा की थी, मुझे लोम था कि शायद उसका पालन किया जायगा ॥ ८४ ॥

पञ्चानदेशवासीनां व्यथाः सर्वा अरन्तुदाः ।

भवेयुर्विगतप्राणा आसीदाशेति मे तदा ॥८५॥

पञ्चार के भारतीयोंकी मर्मभेदी पीड़ाएँ शायद दूर कर दी जायेंगी, उस समय मुझे ऐसी आशा थी ॥ ८५ ॥

समाधानं च तत्सर्धलोकासन्तोपकारकम् ।

मया स्वीकारित सर्वैस्तत्तथाप्यनयाऽऽशया ॥८६॥

वह माण्टेगु कैम्सफोर्ड समझौता वापिस सबको असन्तोपकारक था^१
तथापि इसी (उपर्युक्त) आशयसे मैंने वस्ते स्वीकार किया ॥ ८६ ॥

परन्त्वाशा समस्ता मे समूलं नाशमाशनुत् ।

खिलाफतस्य विषये प्रतिज्ञातं न पाळितम् ॥८७॥

परन्तु वह मेरी आशा समूल नष्ट हो गयी । खिलाफतके बारेमें की
गयी प्रतिज्ञा पाली नहीं गयी ॥ ८७ ॥

पञ्जाबनरहत्याया गोपनं सुतरामभूत् ।

तत्रापरिधकर्तारो दृण्डिता नाभयन्कथित् ॥८८॥

पञ्जाबके हत्याकाण्डको छिपा दिया गया । उसके अपराधियोंको
दण्ड नहीं दिया गया ॥ ८८ ॥

राज्यभृत्या च ये दण्ड्या आसतेपि निजे पदे ।

स्थिता भारतकोपाद्य लभन्ते वृत्तिमीप्सिताम् ॥८९॥

उन हत्याकाण्डमें जो राजकर्मचारी दण्डनीय थे वह भी अपने पदपर
रहकर भारतके खजानेमेंसे वृत्ति पा रहे हैं ॥ ८९ ॥

राज्यं तत्कर्मभिस्तुष्टं भारतस्यैव कोपतः ।

तेभ्योऽनिदुष्टकर्मभ्यो दत्तवत्पारितोषिकम् ॥९०॥

इस सरकारने उन हत्यारोके किन्हीं कारणोंसे वन्तुष्ट हो कर भारतके
ही खजानेमेंसे उन्हें इनाम दिया था ॥ ९० ॥

समाधानमिषेणैव यन्न आसीत्स नूतन. ।

धनानां हृतये वृद्धयै पारतन्त्र्यस्य नः खलु ॥९१॥

^१ वह माण्टेगु कैम्सफोर्ड सुधार भी हमारे धनका हरण करनेकेलिये
और हमारी परतन्त्रताकी वृद्धिकेलिये एक नया उपाय था ॥ ९१ ॥

इदं चापि मया ज्ञातं राजनैतिक आर्थिके ।

त्रिटिशशासनतोऽपूर्वं पारवश्यं प्रवर्तितम् ॥९२॥

मैंने यह भी समझा कि हमारे राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धमें इसब्रिटिशराज्यने अपूर्व पराधीनता पैदा कर दी है ॥

नि.शस्त्रं भारतं वर्षं सशस्त्रान्प्रतिपक्षिणः ।

अवरोद्धुं न शक्नोति राज्येऽस्मिन्नादिशे क्वचित् ॥९३॥

इसब्रिटिश राज्यमें शस्त्रहीन भारतवर्ष अपने सशस्त्र शत्रुओंको रोक नहीं सकता है ॥ ९३ ॥

एतेन पारवश्येन बहुभिः पुरुषोत्तमैः ।

स्वराज्यं बहुभिर्वर्षैरेष्यतीति विचार्यते ॥९४॥

इसी परतन्त्रताके कारण बहुतसे माननीय सज्जन यह मानते हैं कि स्वराज्यप्राप्तिकेलिये बहुत वर्ष चारिये ॥ ९४ ॥

भारतं वर्षमेतावद्दौर्गत्य प्राप्तवद्यत ।

दुष्कालस्य निवृत्ती तत्सर्वथाऽशक्विता गतम् ॥९५॥

भारतवर्ष इतना निर्वल बन गया है कि अनाल—दुष्कालको दूर करनेकेलिये भी सर्वथा अशक्त हो गया है ॥ ९५ ॥

त्रिटिशशासननात्पूर्वं तद्व्येष्टजेषु तत् ।

चक्रुर्न चालयन्नित्यं वयद्वस्त्राण्यमूल्यसुति ॥९६॥

ब्रिटिशशासनके आनेसे पूर्व यह भारतवर्ष लाखों शतकडियामें वस्त्रों चलाकर, कपडे बुनकर मुग्नी था ॥ ९६ ॥

शृषिर्मर्मणि संजातां हानिं रीत्याऽनर्थव तत् ।

मुग्ध्यासीत्पूरयत्सर्वां सर्वथैऽन्यथैर्जितम् ॥९७॥

जदि रेतोमें कुछ कमी होती थी तो उगफो दग रीतिमें—
पतांचलाने और कपटा बुननेसे—पूरा करके मारतवर्ष, मय दुर्गोसे कुछ
हो कर, दुर्गी था ॥ ९७ ॥

भारतस्य गृहोद्योग आङ्ग्लैरेवाङ्ग्लसाक्षिकम् ।

क्रूरोपायं यमाश्रित्य नाशितः स किलाद्भुतः ॥९८॥

भारतके घरेलू उद्योग-धन्वोंको अंग्रेजोंने—जिसके गवाह अङ्ग्रेज ही हैं—ऐसे जिस क्रूर—निर्दय उपायका आश्रय लेकर बर्बाद किया है वह उपाय भी सचमुच विचित्र है ॥ ९८ ॥

अघोर्दरं हि भुञ्जाना मध्यमा भारतप्रजाः ।

मृतप्राया भवन्तीति ज्ञायते नागरैर्न तत् ॥९९॥

मध्यम श्रेणीकी भारतीय प्रजा आधापेट भोजन परके मुर्दा जैसी बन रही है, तत्-इदम् = इस बातको शहरी प्रजा नहीं जानती है ॥९९॥

सांसारिकविलासेषु क्षुद्रेषु प्रसिता नराः ।

नागरा नैव जानन्ति रहस्यमिदमद्भुतम् ॥१००॥

क्षुद्र सासारिक पेश आराममें फँते हुए शहरी लोग इस अद्भुत रहस्यको जानते ही नहीं हैं ॥ १०० ॥

वेदेशिकधनाढ्यानां भारतप्राणहारिणाम् ।

गृहप्रपूर्तये द्रव्यैः साधयन्त्यत्र ते श्रमम् ॥१०१॥

वह क्षुद्रविलासपरायण नगरिक जन, भारतके प्राणहरनेवालों—विदेशीय धनवानोंके घरको द्रव्योंसे भर देनेकेलिये ही श्रम करते हैं ॥ १०१ ॥

तस्य श्रमस्य सन्प्राप्तं दलाळित्वेन यद्भनम् ।

विलासः क्षणिकोऽसौ तैस्तेनाल्पेनापि भुज्यते ॥१०२॥

उसी मेहनतही दलालीसे जो धन उन्हें प्राप्त होता है। उसी थोड़े धनसे भी वह लोग क्षणिक विलासका भोग कर रहे हैं ॥ १०२ ॥

देवान्देशिकानां च दलाळीद्रव्यसेविनाम् ।

लामघोर्मध्य आपत्य चूपिता मध्यमाः प्रजाः ॥१०३॥

विदेशियों और उपर्युक्त दलालीखोरोंके (दो) कामोंके बीचमें देवात् पढ़कर भारतीय प्रजाका मध्यमवर्ग चूस लिया गया है ॥ १०३ ॥

नागरास्ते न जानन्ति सरीतिस्थापितामिमाम् ।

भारतीयप्रजाहन्त्रीं ब्राटिशीं राजपद्धतिम् ॥१०४॥

ये नागरिक क्रायदेके साथ स्थापित की गयी हुई इस ब्रिटिश-राज-पद्धतिको नहीं समझते हैं कि वह भारतीयप्रजाका नाश करनेवाली है ॥ १०४ ॥

ग्रामटिकासु सर्वासु यां दशामस्थिपञ्चरैः ।

आख्याति भारतं स्त्रीयां संगोप्तुं सा न शक्यते ॥१०५॥

सभी गाँवोंमें अपने अखिरज्जरोकेद्वारा-इन्द्रियोंकी टठरियोंके द्वारा भारतवर्ष अपनी जिस दशाको बता रहा है वह छिपायी नहीं जा सकती है ॥ १०५ ॥

मन्ये कश्चिद्यहीशोऽस्ति पुरस्तात्तस्य निश्चितम् ।

अस्य पापस्य महतो ब्रिटिशीर्देयमुत्तरम् ॥१०६॥

मैं मानता हूँ कि यदि जगत्का स्वर्ग कोई ईश्वर है तो उसके सामने अग्नेजोंकी इस महान् पापका अवश्य उत्तर देना पड़ेगा ॥१०६॥

भारतं हन्तुनामानां हिताय श्वेतचर्मणाम् ।

नियमाः संप्रयोग्यन्ते भारतेऽनेति निश्चितम् ॥१०७॥

यह निश्चित है कि भारतकी मारहालनेकी इच्छावाले अंग्रेजोंके हितकेलिय ही भारतमें क्रायदे बनाये जाते हैं ॥१०७॥

पञ्चाशत्स्याभियोगेषु तटस्थेन मया मुहुः ।

कृतमन्वेपणं तेन परिणामोऽयमागतः ॥१०८॥

सर्वेष्वेव मनुष्येषु प्राप्तदण्डेषु सर्वेषां ।

दातात्पञ्चनवत्यास्तु तेषां दुष्टं हि दण्डनम् ॥१०९॥

पञ्चाशके अभियोगोंमें मैंने तटस्थ रह कर सब अन्वेषण किया है

और परिणाम यह आया है—॥ दण्ड पाये हुए मनुष्योंमेंसे १०० मेंसे ९५ का दण्ड केवल अन्याय है ॥१०९॥

दण्डितानामभीयोगे भारते राजनीतिके ।

दशभ्यो नव निर्दोषाः सदोषा देशभक्तितः ॥११०॥

भारतवर्षमें राजनैतिक अभियोगोंमें जो जो दण्डित हुए हैं उनमेंसे १० मेंसे ९ निर्दोष ही थे । वह केवल देशभक्तिसे अवश्य दूषित थे ॥११०॥

श्वेतत्वचा विरोधेऽस्मिन् भारते न्यायमन्दिरे ।

शतान्नहि नयत्याऽपि न्यायः संप्राप्यते जनैः ॥१११॥

भारतके न्यायालयोंमें अप्रेजोंके विरुद्ध अभियोगोंमें १०० मेंसे ९० आदमियोंको न्याय नहीं मिलता है ॥ १११ ॥

दौर्भाग्यं तु महश्चैतद्यदेते राजकर्मिणः ।

मदुक्तमेनः कुर्याणानात्मनो न विदन्ति ते ॥११२॥

बड़े दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि मैं जिस गुनाहकी बात कर रहा हूँ उसी गुनाहको करते हुए भी राजकर्मचारी यह नहीं मानते कि यह गुनाह कर रहे हैं ॥ ११२ ॥

प्रजानां भारतीयानां प्रतीकारविधायिनी ।

आत्मरक्षाकरी चापि शक्तिर्व्यपहृताऽधुना ॥११३॥

भारतीय प्रजाका प्रतीकार करनेमें और आत्मरक्षा करनेमें समर्थ, शक्तिका आज अपहरण हो गया है ॥ ११३ ॥

त्रिटिश्राज्याभिचारेण प्रजासु छीवताऽऽगता ।

पामरत्वं च दम्भश्च प्रसृतस्तासु सर्वथा ॥११४॥

ब्रिटिश राज्यके अभिचारेसे—भारणमन्त्रसे—प्रजामें नपुंसकता आ गयी है, पामरता, और दम्भ भले प्रकारसे प्रजामें बढ़ गये हैं ॥ ११४ ॥

नियमेनाद्य येनाहमपराधितया मतः ।

स्वतन्त्रतापहर्तृणां नियमानां मुखं हि सः ॥११५॥

जिस कायदेके अनुसार मैं आज अपराधी माना गया हूँ वह कायदा स्वतन्त्रताके हरनेवाले सब कायदोंमेंसे मुख्य है ॥ ११५ ॥

प्रीतिर्न चोदनाजन्या न वा धारानुवर्तिनी ।

तस्मात्तस्या विचारय नास्ति मार्गो धृतस्त्वया ॥११६॥

प्रीति न तो कानूनसे पैदा होती है और न कानूनके नियंत्रणमें रहती है । अतः उसके विचारकेलिये यह मार्ग नहीं है जिसे सर्दारोंने ग्रहण कर रखा है ॥ ११६ ॥

हिंसावृत्तिविरक्तानां कस्मिन्नपि च यस्तुनि ।

अप्रीतेऽप्रीतिसंचारे सर्वेषामधिकारिता ॥११७॥

जिस यस्तुमें जिस किसीका प्रेम न हो उस अप्रिय वस्तुके विषयमें अप्रीति-संचार करनेमें-अप्रीति-प्रदर्शन करनेमें, हिंसावृत्तिसे रहित सब किसीको अधिकार है ॥ ११७ ॥

परं शङ्करलालेऽस्मिन्मयि चापि कृतेन तु ।

एतेनाद्याभियोगेन हता नाऽप्यधिकारिता ॥११८॥

परन्तु शङ्करलालके ऊपर और मेरे ऊपर जो यह अभियोग किया गया है उससे तो उस अधिकारका भी नाश होता है ॥११८॥

अनेके जनतामान्या महाग्तः पुरुषा इह ।

दण्डिताः सन्त्यनेनैव नियमेन सहस्रशः ॥११९॥

इसी १२४ वीं धाराके अनुसार बड़े बड़े अनेक प्रजामान्य महापुरुष, अनेकवार दण्डित हो चुके हैं ॥ ११९ ॥

अनेन नियमेनाद्याऽपराधित्वेन सम्मतः ।

प्रतिष्ठां पथितां नूनं स्पर्कायां पेद्भ्यहं वरम् ॥१२०॥

उसी कायदेके अनुसार आज मैं अपराधी माना गया हूँ । इससे तो मैं अपनी प्रतिष्ठाकी वृद्धि ही मानता हूँ ॥ १२० ॥

कस्मिन्तपि न मेऽप्रीतिर्विद्यते कर्मचारिणि ।

वैयक्तिकी कथं सा स्यात्सुतरां भूमिपालके ॥१२१॥

किसी कर्मचारीमें भी मेरी व्यक्तिगत अप्रीति नहीं है तो भला राजामें तो वह हो ही कैसे सकती है ? ॥ १२१ ॥

परं राज्येन येनेहाभूतपूर्वं हितैतरत् ।

अकारि तद्विरुद्धं स्यादप्रीतिः सदगुणाय मे ॥१२२॥

परन्तु जिस सकारने इस भासमें अभूतपूर्व हानि की हो उसके विरुद्ध अप्रीति तो अवश्य सदगुण ही है ॥ १२२ ॥

विलोपोऽभूतपूर्वोऽत्र आदिशे शासनेऽनये ।

समपद्यत शौर्यस्य वर्षादस्माद्धि भारतात् ॥१२३॥

इस ब्रिटिश राज्यमें भारतवर्षसे बीरताका तो ऐसा लोप हुआ है जैसा कि कभी भी नहीं हुआ था ॥ १२३ ॥

विद्यते सुतरां मेऽद्य निश्चिता भतिरीदृशी ।

इदृशे राजतन्त्रे स्यात्प्रीतिः पापाय केवलम् ॥१२४॥

आज तो मेरी यह अत्यन्त निश्चित राय है कि ऐसे राजतन्त्रमें प्रेम करना केवल पाप ही है ॥ १२४ ॥

त्रयाणामपि लेखानां लेखने शक्तिमानहम् ।

अभूवं तेन सौभाग्यं परं मन्येऽहमात्मनः ॥१२५॥

ऊपर बताये हुए तीनों लेखोंके लिखनेमें मैं शक्तिमान् हो सका इससे तो मैं अपने सौभाग्य को श्रेष्ठ मानता हूँ ॥१२५॥

भारतस्येह लौण्डस्यास्वाभाविन्याः स्थितेर्मया ।

निर्गमाय महामार्गोऽसहयोगः प्रकल्पितः ॥१२६॥

भारत और इङ्ग्लैण्ड दोनों देशोंकी अस्वाभाविक स्थितिमेंसे निकल
 आनेकेलिये मैंने असहयोगरूप एक मुख्यमार्ग तैयार किया है ॥ १२६ ॥

सुकर्मणि यथा धर्मः सहयोगः प्रकीर्तितः ।

दुष्कर्मणि तथा धर्मोऽसहयोगोपि मे मतः ॥१२७॥

जैसे सत्कर्मके साथ सहयोग करना धर्म है वैसे ही बुराईके साथ
 असहयोग करना भी मेरे मतमें धर्म ही है ॥ १२७ ॥

अपकर्तृविरोधायाऽसहयोगप्रदर्शनम् ।

अद्यावधि क्षितावासीद्धिसापूर्वकमाहृतम् ॥१२८॥

बुराई करनेवालोंके साथ असहयोग करना अभीतक पृथिवीपर,
 हिंसापूर्वक था । अर्थात् जो लोग किसीसे असहयोग करते थे वह उसका
 खून करना भी चाहते थे ॥१२८॥

सर्हिसोऽसहयोगोऽस्ति दुर्गुणाइत्यपेक्षया ।

दोषाणां वृद्धये चास्त्रमित्येवावोधयते मया ॥१२९॥

हिंसाहित असहयोग, दुर्गुणोंको आहति—नाश करनेकी अपेक्षा
 बुराईयोंके बढ़नेकेलिये एक अस्त्र है, यही मैं सदा आवोधयते = समझाता
 रहता हूँ—लिखता रहता हूँ ॥१२९॥

दोषाणां वृद्धये सैषा हिंसा परमसाधनम् ।

तस्माद्दोषास्त्रिदासूनां हेया सा स्यादशेषतः ॥१३०॥

निश्चय ही, हिंसा दोषोंको बढ़ानेकेलिये परम साधन है । अतः
 दोषोंको छोटनेकी इच्छावाले लोगोंको हिंसामें सर्वथा त्याग कर देना
 चाहिये ॥१३०॥

अनयाऽर्हिसया वृत्त्याऽसहयोगपरायणैः ।

सोढव्या आपदः सर्वा आयन्त्यदचागता. सदा ॥१३१॥

इस अहिंसावृत्तिसे असहयोग करनेवालोंको इसके साथ आयी हुई
 और आनेवाली आपत्तियोंको सदा सहन करना चाहिये ॥१३१॥

मत्प्रा सद्धर्म इत्येव फलं यज्ज्ञानतो मया ।

अधर्मस्तत्कथंकारं भवतीद् न वेद्मि तत् ॥१३२॥

जिस कार्यको मैंने सद्धर्म मानकर ही किया है वह अधर्म किस रीति-से हो गया, मैं इसे नहीं समझ सकता हूँ ॥१३२॥

राज्यानुशासनाच्चेत्तद्दूषणं परिगण्यते ।

कठिनात्कठिनो दण्डो दीयतां महामज्जम् ॥१३३॥

और यदि राज्यके कानूनके अनुसार यह मेरा कृत्य दूषण—दोष गिना जाता हो तो उसकेलिये कठिनसे कठिन दण्ड आप बिना किसी शर्मके मुझे दीजिये ॥१३३॥

शासनं दोषि निर्दोषोऽहमस्मीति च वेत्ति चेत् ।

न्यायासनं परित्यज्य कल्याणपथगो भव ॥१३४॥

यदि आप यह मानतेहो कि शासन—कायदा दूषित है और मैं निर्दोष हूँ तो इस न्यायासन—जजक पदको छोड़कर कल्याणमार्गके यात्री बन जाइये ॥ १३४ ॥

अहं दोषी च निर्दोषं शासनं त्विति ते मतिः ।

यदि स्यात्स्वेच्छया दण्ड देहि मे कठिनं परम् ॥१३५॥

और यदि आपकी बुद्धि ऐसी हो कि मैं दोषी हूँ और शासन निर्दोष है तो मुझे अत्यन्त कठिन दण्डसे दण्डित किया जाय ॥ १३५ ॥

महात्मनो यचः श्रुत्या निर्भयं प्रसफुटाक्षरम् ।

निरीद्वयाथ स्वकर्तव्यं व्याजहार जजरुदा ॥१३६॥

श्रीमहात्माजीके निर्भय और स्पष्ट वचनको सुनकर और अपने कर्तव्यकी ओर देखाकर जज बोले ॥ १३६ ॥

त्वयाङ्गीकृषता दोषं काठि-यं मे व्यगोहितम् ।

किन्तु दण्डविधानं ते सरलं न प्रवीचते ॥१३७॥

आपने दोषको अङ्गीकार करके मेरी कठिनतातो दूर कर दी है ।
परन्तु आपको सजा देना मुझे सरल काम नहीं प्रतीत होता है ॥ १३७ ॥

नाहं मन्ये कदाप्येवं जज्जग्यान्यस्य कस्यचित् ।

ईदृशं कठिनं कार्यं कर्तुं स्यात्काल आगतः ॥१३८॥

मैं नहीं मानता हूँ कि किसी दूसरे जजको भो, इतना कठिन कार्य
करनेका काल—समय आया हो ? ॥ १३८ ॥

उत्कृष्टोऽयमनुत्कृष्टोऽयमित्येव भिदा नहि ।

राज्यानुशासनैर्दृश्या भवतीह कदाचन ॥१३९॥

यह उत्कृष्ट—श्रेष्ठ है और यह अनुत्कृष्ट—निकृष्ट है, इस प्रकारके
भेदको कानून कभी नहीं देखता है ॥ १३९ ॥

अद्यावधि परं वाप्रे चेपामेवाभियोगिकः ।

कृतः करिष्यते वापि निर्णयस्य ततोऽधिकः ॥१४०॥

परन्तु आज तक जिनके मुकदमोंका मैंने फैसला किया है और
भविष्यमें जिनका फैसला करूँगा उन समसे आप श्रेष्ठ हैं ॥ १४० ॥

बहूनां चैव फोटीनां नराणां नायको भवान् ।

तेषां दृष्टौ महानस्ति देशभक्तो गुणोत्तमः ॥१४१॥

बहुत करोड़ों मनुष्योंके आप नायक—नेता हैं । इन करोड़ोंकी दृष्टिमें
आप महान् गुणी देशभक्त हैं ॥ १४१ ॥

राजनीतिषु ये त्वत्तो विरुद्धाः प्रतिपक्षिणः ।

तेऽप्यपूर्वं महात्मानं त्वां विदन्ति सदाशयम् ॥१४२॥

जो लोग—आपकी राजनीति के सम्मुखमें विरुद्ध और प्रतिपक्षी हैं
वह भी आपको अपूर्व महात्मा और सत्यप्रतिष्ठ मानते हैं ॥ १४२ ॥

लौकिकत्वं त्वयि श्रेष्ठ निषेधन्ति न षेषलम् ।

त्वां महापुरुषं मत्वा पूजयन्त्यपि ते सदा ॥१४३॥

वे लोग—आपकी राजनीतिके विपक्षीलोग आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषमें केवल लौकिकताका ही निषेध नहीं करते प्रत्युत आपको महापुरुष मानकर यदा पूजते भी हैं । अर्थात् उन सबकी दृष्टिमें आप केवल अलौकिक पुरुष ही नहीं प्रत्युत महापुरुष और अतण्डव पूजनीय हैं ॥ १४३ ॥

एतत्सर्वं विज्ञानामि तत्त्वतस्तत्त्ववित्परम् ।

शंसितुं निन्दितुं वा मे कर्तव्यं नास्ति साम्प्रतम् ॥१४४॥

हे तत्त्वविद् ! यह सब बातें मैं ठीक-ठीक जानता हूँ । परन्तु इस समय आपकी प्रशंसा या निन्दा करनेका मेरा कर्तव्य नहीं है ॥ १४४ ॥

यन्महद्दूषितं कृत्यं शासनेऽस्मिन्मतं च तत् ।

शासनोद्भूतं नाम स्वयमङ्गीकृतं त्वया ॥१४५॥

इस राज्यमें जो कृत्य सबसे अधिक दूषित माना जाता है उसी आहामङ्गलरूप अपराधका आपने स्वयं स्वीकार किया है ॥ १४५ ॥

एतादृशेन दोषेण निर्यमाधीनतां गतम् ।

त्वामधुना विचार्यैव कार्यो मे निर्णयस्तव ॥१४६॥

ऐसे अपराधसे आपने कानूनके भीतर प्राप्त समझकर ही मुझे आपका निर्णय करना है ॥ १४६ ॥

हिंसां च विप्लवं कर्तुं प्रतिपिबुं त्वयानिशम् ।

बहुशोऽकारि मन्येऽहमुपद्रवनिवारणम् ॥१४७॥

आपने उदा हिंसा और वृकान करनेका निषेध किया है । मैं मानता हूँ कि आपने बहुत बार उपद्रवोंको रोका भी है ॥१४७॥

उपदेशोपदेश्यानां स्वरूपमस्त्रिलं त्वया ।

अधिगत्यापि शान्त्याशा न जानेऽकारि ही कथम् ॥१४८॥

आपने, अपने उपदेश और उक्त उपदेशके लेनेवाले प्रजाजन—इन दोनोंके स्वरूपको सर्वथा जानकर भी, शान्तिकी आशा कैसे की, आश्चर्य है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ ॥ १४८ ॥

कस्यापि शासनस्यैव तत्र मोक्षः सुदुस्सहः ।

त्वयाऽऽपादितया स्थित्या खेदः सर्वस्य जायते ॥१४९॥

कोई भी हुक्मत आपकी इस प्रकारकी स्वतन्त्रताको सह नहीं सकती है । आपने जो परिस्थिति पैदा कर दी है उससे सबको खेद हो रहा है ॥ १४९ ॥

त्वयि दण्डविधानेऽस्मादनुसर्तुं मयेष्यते ।

द्वादशवर्षतः पूर्वमभियोगः स तैलकः ॥१५०॥

अतः आपको दण्ड देनेके विषयमें मैं १२ वर्ष पहिले जो तैलक महानुभावका अभियोग हुआ था उसका अनुसरण करना चाहता हूँ ॥१५०॥

तिलकाहस्य बालस्य विद्वद्वर्यस्य चेदिह ।

श्रेण्या त्वा स्थापयिष्यामि नानोचित्य भवेत्तत्र ॥१५१॥

यदि मैं आपको विद्वद्वर्य श्रीगल्गाद्गाधर तिलककी श्रेणीमें रखूँ मान हूँ तो आपको अनुचित नहीं प्रतीत होगा ॥ १५१ ॥

कारावासस्ततः पद्भिवर्तसरैरश्रमं त्वया ।

भुज्यतां तिलकेनेव दण्डरूपतया सता ॥१५२॥

अतः श्रीमान् तिलकके समान आप भी, छ वर्षोंतक अपरिश्रम कारावास—आसन केदो दण्डके रूपमें भोग कीजिये ॥ १५२ ॥

भारते शान्तिरेव स्यात्ततो मुक्तिश्च ते यदि ।

अथर्वान्यं भवेद्दण्डे प्रसादो मे परो भवेत् ॥१५३॥

यदि भारतमें शान्ति हो जाय और उसके कारण आपको छुटकारा मिले या सजामें कमी कर दी जाय तो मुझे सबसे अधिक आनन्द होगा ॥ १५३ ॥

सैद्धरं शङ्करं मुद्राः सदस्रं धन्वनालये ।

वर्षवासं प्रूमफीत्तोऽदण्डयद्वियशोऽथ सः ॥१५४॥

इसके पश्चात् भी गङ्करलाल बेङ्करको एक हज़ार रुपये जुमाना और एक वर्षकी जेलकी सज़ा-जब-ब्रूमकीलडने लाचार होकर दी ॥ १५४ ॥

ॐ श्रीमन्महामहिमपूज्यधरेण साधं
मां तोळयंभु तिलकेन भवानिदानीम् ।
मानोन्नतं प्रणयति स्म जजेति वाच-
मूचे नयाधिपतिमेष महीमहाध्व्यः ॥१५५॥

पृथिवीभरके परमपूजनीय श्रीमहात्माजीने जबसे कहा कि हे न्यायाधीश ! महान् महिमावाले परमपूज्य श्रीमान् लोकमान्य बाल्गाङ्गाधर तिलकके साथ मेरी तुलना करके आपने मेरे मानको बढ़ा दिया ॥१५५॥

यः कोऽपि मां नयसदोऽधिपतिश्च येन
दण्डेन शासनपरायकारिमुख्यम् ।
अल्पेन शक्त इह दण्डयितुं भवेच्चै-
दण्डः स एव भवतापि कृतोऽस्ति मेऽद्य ॥१५६॥

वायदामद्ध करनेवालोंमेंसे मुख्य मुख्यको जो कोई भी न्यायाधीश बिलना अल्प दण्ड दे सनता था उतना ही अल्पदण्ड आपने भी मुझे दिया है ॥ १५६ ॥

सम्वादितां ऽस्ति नयपाल सभाभियोगे
सम्यक्त्वया विनय इत्यहमस्मि तुष्टः ।
अस्मात्परो न हि भवेत्स मयाभिलष्य
इत्यप्यघोचत यतिक्षितिभृन्महात्मा ॥१५७॥

यतिराज श्रीमहात्माजीने यह भी कहा कि हे न्यायाधीश ! मेरे अभियोगमें अच्छी तरहसे विनयना पालन किया गया है इससे अधिक विनयना अभिलाष मैं नहीं कर सकता ॥ १५७ ॥

ॐ इस सर्गके अन्ततक अथ वसन्ततिलका छन्द है ।

न्यायालयेऽथ बहिरप्यमिता मनुष्या-

स्तद्दर्शनाय मिलिता अभवुस्तदानीम् ।

शोकाकुलाश्च विगलद्बहुलासनेत्रा-

स्तं सादरं यतिवरं परितुष्टुवुस्ते ॥१५८॥

वह सब होजानेके बाद, कचहरीमें और उसके बाहर भी असख्य मनुष्य महात्माजीके दर्शनके लिये इकट्ठे हुए थे । वह शोकाकुल होकर, आँखोंमें आँसू भरकर महात्माजीकी स्तुति करने लग गये ॥ १५८ ॥

आङ्ग्लैः करालकरवालशिल्पिण्डपशु-

भलादिशस्त्रसहितैर्महतीह युद्धे ।

शस्त्रैर्विनैव विजयो नियतो हि यस्य

जीयाचिरं स इह भारतपारिजातः ॥१५९॥ :

भयङ्कर तरवार, तोप, धारिया, भाला आदि शस्त्रोंसे सुसज्जित अग्नेजोंके साथ इस महायुद्धमें बिना शस्त्रके ही जिनका विजय नियत है वह भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरफालत्क यहाँ जीवित रहें ॥ १५९ ॥

यस्याधिकाधिकृतपःपटलप्रभावा-

जातं पुनस्तदिह भारतमिद्धतेजः ।

बन्धो गुणैकनिलयः परमस्तपस्वी

जीयाचिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६०॥

जिनके अधिकाधिक तपःपुञ्जके प्रभावसे भारतवर्ष पुनः अपने तेजको प्राप्त कर सका है वह बन्दीय, परमगुणवान्, परमतपस्वी और भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरफालत्क यहाँ जीवित रहें ॥ १६० ॥

दृष्ट्वैव भारतमुचो बहूशोऽपमान-

माङ्ग्लैः कृतं हृदयमूर्मभिद्रं महान्तम् ।

शोकाकुलस्तमपनेतुमन्तामहात्मा

जीयाचिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६१॥

अंग्रेजोंद्वारा भारतभूमिके अनेकोंवार किये गये हुए मर्मभेदी महान् अपमानको देखकर ही जो शोनाकुल होकर उसके दूरकरनेकी इच्छावाले हैं, वह भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरकाल तक यहाँ जीवित रहें ॥ १६१ ॥

यः पारतन्त्र्यमखिलं सततं समूलं
श्रीभारतस्य परिलोपयितुं संयत्नः ।

कारागृहे वसति सम्प्रति यो महात्मा
जीवाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६२॥

जो भारतवर्षकी परतन्त्रताको समूल नष्ट करनेकेलिये सदा यत्नवाद्द है और जो इस समय कारागृहको पवित्र कर रहे हैं वह भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरकालतक यहाँ जीवित रहें ॥ १६२ ॥

वत्स्यायं यं नरमणिं सुरपालकाभं
जाता ध्रुवं सपदि भारतभूः कृतार्था ।

अर्घ्यैः सतां शमवतां महता च मान्यो
जीवाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६३॥

देवताओं जैसी शक्तिसे युक्त जिस नर—पुत्रवको उत्पन्न करके भारतभूमि निश्चय ही कृतार्थ हो गयी है वह सज्जनों और शम-शान्तिवालों-के पञ्च तथा महापुरुषोंके माननीय भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरकाल तक यहाँ जीवित रहें ॥ १६३ ॥

यदर्शनेन सहसा हृदयेषु नृणां
निरत्यं समुद्भवति शान्तिमहापयोधिः ।

कौपीनमात्रपरिधान उग्रात्तचेता
जीवाच्चिरं स इह , भारतपारिजातः ॥१६४॥

जिनके दर्शन करते ही सदा, मनुष्योंके हृदयोंमें शान्तिमहासागर-तर्कित होने लग जाता है वह उदारचित्तवाले, कौपीनमात्र धारणकरनेवाले, भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरकालतक यहाँ जीवित रहें ॥ १६४ ॥

यस्मिन्महामनसि सत्पुरुषाप्रगण्ये
 सच्छ्रद्धया त्रिटिशषह्निमुखे जनौघाः ।
 जुह्वत्यहर्निशमिहाखिलमात्मवस्तु
 जीयाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६५॥

महामनवाले, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ जिन महात्माजीमें सत् श्रद्धाहोनेके कारण सब मनुष्य अंग्रेजरूप अंग्रिके मुँहमें रातदिन अपना सब कुछ होम रहे हैं वह भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरकाल तक यहाँ जीवित रहें ॥ १६५ ॥

धासीच्चिरं पतित एव विलीनबोधो
 दुःखोदधौ महति भारतदेश एषः ।
 उद्धर्तुमद्य तमनीयं कृत्नप्रतिज्ञो

जीयाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६६॥

यह भारतवर्ष चिरकालसे नष्टज्ञान होमर-बेहोश होकर महान् दुःखसागरमें पड़ा हुआ था । उसके उद्धार करनेकेलिये प्रतिज्ञाकरनेवाले भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरकाल तक यहाँ जीवित रहें ॥१६६॥

स्वर्गं गते च तिलके परमे प्रशस्ते
 नाभूदनाथमिव भारतवर्षमेतत् ।

यस्मिन्निधते महति नेतरि पूज्यधर्ये

जीयाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६७॥

परमगुरु श्रीतिलक महाराजके स्वर्ग चलेजानेपर भी जिन महान् और पूजनीयतम नेताके रहते हुए यह भारतवर्ष अनाथ जैसा नहीं हो गया वह भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरकाल तक यहाँ जीवित रहें ॥१६७॥

पश्चात्तपत्यनुदिनं य उदारचेता

अन्यैः कृते लघुनि वा महतीह पापे ।

योऽस्मत्कृते तपति तंत्रतरां तपस्या

जीयाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६८॥

लदारक्षितवाले जो दूसरेके किये हुए छोटे या बड़े पापके लिये रातदिन पश्चात्ताप करते रहते हैं और जो हमारे लिये अत्यन्तकठिन तपस्या कर रहे हैं वह भारतके कल्पवृक्ष भीमहात्माजी चिरकालतक यहाँ जीवित रहें ॥ १६८ ॥

न ह्यपि यः स्वमनसाऽपि परापराधं

संचिन्तयत्यखिलमङ्गलमूलहेतुः ।

लोकोत्तरप्रतिभया विबुधाधिमान्यो

जीवाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१६९॥

जो कभी अपने मनसे भी दूसरोंकी बुराई करनेका विचार नहीं करते हैं और जो समस्त मङ्गलके मूलकारण हैं तथा जो अपनी लोकोत्तर-मतिभाके कारण समस्त विद्वानाके माननीय हैं वह भारतके कल्पवृक्ष भीमहात्माजी चिरकालतक यहाँ जीते रहें ॥१६९॥

यस्यात्मज्ञानिमनर्था बहुलं च धैर्यं

बुद्धिं परां च दृढतां परमां च शान्तिम् ।

आश्रित्य भारतमचिन्त्यसमृद्धिमाणा-

जीवाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१७०॥

जिनकी पवित्र आत्मशक्ति, अतुल्यधैर्य, परा बुद्धि, परम दृढता और शान्तिका आश्रय लेकर भारतवर्षे अचिन्त्य समृद्धिको प्राप्त हुआ है वह भारतके कल्पवृक्ष भीमहात्माजी चिरकालतक यहाँ जीते रहें ॥ १७० ॥

यस्यैव बुद्धिमनुस्त्व च भारतीया

पारं लभेत जनता परतन्त्रतारुणे ।

मान्यः सतां जगति शश्वदजातस्रष्टु-

जीवाच्चिरं स इह भारतपारिजातः ॥१७१॥

जिनकी ही बुद्धिकादिवारका अनुकरण करके भारतीय जनता परतन्त्रतारूप समुद्रके पार अथवा जा सकेगी, जो जगत्के सभी सत्पुरुषोंके

माननीय हैं और जिनका कोई शत्रु नहीं है वह भारतके कल्पवृक्ष श्रीमहात्माजी चिरकालतक यहाँ जीते रहें ॥१७१॥

सम्मान्य सर्वजनतां प्रणतां पुरस्ता-

त्सङ्गत्य भारतविभिन्नविभागऽतोपि ।

तत्रागतान्बहुविधान्विबुधांश्च नेतृन्,

कारामियाय जयघोषसमाहृतोऽसौ ॥१७२॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

दशमः सर्गः

सामने जनता प्रणाम कर रही थी उसका सत्कारकरके भारतके विभिन्न प्रान्तोंसे आए हुए विविध विद्वान् ❀ नेताओंसे मिलकर, जयघोषसे सत्कृत होकर, श्रीमहात्माजी जेल चले गये ॥१७२॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञभारत राष्ट्रभाषाटीका सहिते

भारतपारिजाते दशमः सर्गः



० उन्हीं दिनों सत्याग्रह आग्रममें राष्ट्रीय महासभाकी यद्विग कमेटीकी घटक हो रही थी अतः प्रायः प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी नेता उस दिन कोर्टमें उपस्थित थे ।

❀ एकादशः सर्गः

कारागृहं सोऽधिवसन्यरोडापुरे शरीरेण बभूव रुग्णः ।
ततोऽद्यथेः पूर्वमभूद्विसृष्टो राज्येन निन्दाभयविह्वलेन ॥१॥

वह महात्माजी यरोडाके कारागारमें निवास करते हुए शरीरसे रोगी हो गये । अतः अबधिसे पूर्व ही राज्यने निन्दाके भयसे उन्हें छोड़ दिया ॥ १ ॥

चसन्महात्मा स उदारवृत्तिर्निजाश्रमे साध्वसतीतटस्थे ।
ज्ञनेः सनैर्भारतिनां विशुद्धे मनःपटेऽचित्रयताध्यहिंसाम् ॥२॥

उदारवृत्ति श्री महात्माजी साध्वसतीके तटपर अपने सत्याग्रह आश्रममें निवास करते हुए धीरे धीरे भारतियों के पवित्र मनोरूप पटके ऊपर अध्वहिंसा अत्यन्त अहिंसाको चित्रित कर दिया ॥ २ ॥

तिथौ च मासे प्रथमे स्रक्वालग्रहेऽयुक्तेऽथ खिरिस्तकान्दे ।
लाहौरपुर्यामधिवेशनंतन्महासभायाः समपादि वञ्चैः ॥३॥

महासभाके सप्तालक विद्वानोंने ईसाके १९३० सन् के जनवरी मासकी पहिली तारीखको लाहौर नगरमें राष्ट्रीय महासभाका वह प्रसिद्ध अधिवेशन किया ॥ ३ ॥

जवाहिरोऽसौ निहिरप्रतीको जग्राह राष्ट्राधिपतित्वमत्र ।
पिता च पुत्रे निखिलाधिकारान्समार्पयत्सर्वमतानुमानी ॥४॥

सूर्य समान वर्तमान पण्डित जवाहिरलाल नेहरूने अध्वष्य शब्दको स्वीकार किया । पिता पण्डित श्री मोतीलाल नेहरूजीने सबके मतका

❀ इस सर्गमें उपजाति छन्द है ।

❀ लाहौरसे पूर्व जब कांग्रेसका अधिवेशन कलकत्तेमें हुआ था, उसके सभापति श्रीमान् पण्डित मोतीलाल नेहरूजी ही थे । दूसरे वर्ष

यह बात तो तुम लोग बहुत दिनोंसे जानते हो कि सत्याग्रह एक ऐसा तीव्र और अव्यर्थ शस्त्र है कि जिसके सामने बड़ी बलवती सेना भी टिक नहीं सकती है ॥ १३ ॥

पश्यामि राज्येन निरङ्कुशां तां संहारिणीं भारतवर्षस्य ।
प्रवर्तितां क्रूरतरां च हिंसां वैनन्दिनं तेन ममातिदुःखम् ॥१४॥

मैं देता रहा हूँ कि सरकारने भारतवर्षको नाश करनेवाली निरङ्कुश अत्यन्त दुष्ट हिंसाको प्रतिदिन चला रही है इससे मुझे अत्यन्त दुःख होता है ॥ १४ ॥

तदादधात्येव ममाधिराशिं यत्तां निराकर्तुमुदप्रचित्ताः ।
अन्येऽपि हिंसापथमेव तीव्रमादाय सज्जाः इह भारतेऽद्य ॥१५॥

उस हिंसाराना निवारण करनेके लिए जो मदानुभाव उद्यत हुए हैं वह भी तीव्र हिंसाका मार्ग लेकर ही, यह देखकर तो मुझे और भी असह्य पीडा होती है ॥ १५ ॥

मन्येऽहमद्योभयथा प्रवृत्तां हिंसां विजेतुं नितरां समर्था ।
भवेदहिंसैव ततः परित्रां तां सम्प्रयोक्तुं घत निदिचनोमि ॥१६॥

मैं मानता हूँ कि दोनों ओरसे प्रवृत्त इस हिंसाको सर्वथा जीतनेके लिए "अहिंसा" ही समर्थ है । अतः मैं आज उग्री अहिंसाका प्रयोग करनेके लिए निश्चय कर रहा हूँ ॥ १६ ॥

ततो व्यरस्थां लक्षणस्य पूर्वं कृतां च राज्येन विनिन्दनीयाम् ।
अन्यायपूर्णामपमानराशिप्रसूतिमेतां विभनज्मि दुष्टाम् ॥१७॥

अतः नमस्केलिए अन्यायपूर्ण, अपमानकी दृष्टाते बनाया गया दुष्ट और निन्दनीय जो सरकारका कानून है मैं पहिले उगे ही ५ तोड़ंगा ॥१७॥

ॐ अहिंसाका प्रयोग आवापार और आवापारीके भाव ही सिया जा सकता है । अतः जब नमस्कानून तोड़ा जायगा तो सरकार आवापार

श्चेताद्गसाभ्राग्यधुरन्धरेण हिंसाप्रधानां दधता च वृत्तिम् ।
चमू चमत्कारनिदर्शनाय नियोजिता स्यादवशेन तत्र ॥१८॥

अङ्गरेजी राज्य के धुरन्धर (वाइमराय)—जो कि हिंसा-प्रधान वृत्तिरी
धारण करनेवाले हैं—अवश्यही चमत्कार दिखाने के लिए जहाँ नमक
कानून तोड़ा जायगा—वहाँ सेनाओं नियुक्त करेंगे ॥ १८ ॥

मत्ताश्च सैन्यास्तदभिप्रयुक्ता जनाहनिष्यन्ति तदा मदीयान् ।
दण्डश्च भस्त्रैरसिभिश्च शक्यैः परश्वधैर्गुण्डरतोमरैश्च ॥१९॥

उस समय मतवाले सैनिक दण्डे, भाले, तलवार, शस्त्र, फरसे, मुंगरी
और तोमरसे मेरे सैनिकोंसे मारेंगे ॥ १९ ॥

कोपानलोत्तापपीतचिन्ता मत्ताः प्रयोक्ष्यन्ति च लोहनाडीः ।
महाशतम्रीशतकैर्षिमूढाः संहारयिष्यन्ति निरखलोकान् ॥२०॥

क्रोधरूप अगिसे जब उनका मन गर्म होगा तब वे मतवाले बन्दूक
प्रयोग करेंगे । तीनोंसे भी यह मूर्ख निगम जनताका गैहार करेंगे ॥ २० ॥

एवं महारत्नदप्रयाष्टैरुक्ता भविष्यन्त्यथ भारतोर्वी ।
जानन्भविष्यद्भयितव्यमेतसु द्वायनोधान्प्रतिनोधयामि ॥२१॥

इस प्रकारसे रक्षत्री नदिर्वा पहुँची और भारतभूमि साफ हो जायगी ।
यह तब भविष्य में होगा, यह जानता हुआ ही मैं सींगोंकी तीसर पर
रहा हूँ ॥ २१ ॥

६ सर्पसहायप्रतिनिध्युदारहस्ते ममत्वं मम पत्रमेकम् ।
मसुन्दरूपप्रतियोधनार्थं तत्सम्प्रदानुं नियमो मदीयः ॥२२॥

मेरे इस सुन्दर रूप तथा देनेकेलिए रामाके प्रतिनिधि—
द्विपे बिना रह ही नहीं सकेगी । और तब अहिंसाका प्रयोग मैं कर
सूँगा, ऐसा भी महाभारतीका यहाँपर भाव है ।

७ सर्पसहाय = शिषी । सर्पसहाय = राजा ।

आदर करके सभाके सब अधिकार अपने पुत्र—राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरूको सौंप दिये । अर्थात् पण्डित मोतीलालजीके पश्चात् ही पण्डित जवाहरलाल राष्ट्रपति नियुक्त हुए ॥ ४ ॥

महासभाऽघोषयदत्र पूर्णस्वराज्यमेवेष्टमतः परं मे ।
श्रीमानयं मान्यवरो महात्माऽप्यलं बलेनानुमतिं व्यधत्त ॥५॥

अत्र = लाहोर में महासभाने घोषणाकी कि अतः परम् अबसे नः = भारतवासियोंको पूर्णस्वराज्य ही इष्ट है । श्रीमान् मान्यवर्यं महात्माजीने भी भारपूर्वक उसमें अपनी अनुमति दे दी ॥ ५ ॥

ततः परस्ताद्विविधासुराणां विनर्तकोऽभिन्नसरीसृपाणाम् ।
दुरन्तकाचारतरुं समूलं छेत्तुं स राज्यस्य समीहते स्म ॥६॥

उसके बादसे नाना प्रकारके असुरों और अद्वितरूप सर्पोंको नचाने-वाले श्री महात्माजी सकारके अत्याचारस्वरूप वृक्षको जड़ सहित उखाड़नेकी इच्छा करने लग गये ॥ ६ ॥

विवेकधारापरिधौतचेताः सर्वान्समाहूय तदाश्रमस्थान् ।
स मर्तुकामान्निजजन्मभूमैरुद्धारहेतोः समितिं चकार ॥७॥

विवेककी धारासे पवित्रमनवाले श्री महात्माजीने अपनी जन्मभूमि—भारतभूमिके उद्धारकेलिए मरनेवाले सभी आधमवासियोंको बुलाकर एक सभा की ॥ ७ ॥

स तां समज्याजनतामुपेतामपारहर्षोत्कलितोत्कचित्ताम् ।
स्थितां प्रशान्त्या जगदेकद्वयः समादिदेशेति गभीरवाचा ॥८॥

अपार हर्षसे युक्त और उमङ्गलमनवाले, शान्तिके साथ बैठे हुए उन

लाहौरमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ । उसके सभापति पण्डित जवाहरलाल नेहरू थे । इस रीतिसे पिताने अपने अधिकारको = राष्ट्रपतिके अधिकारको-अपने पुत्र-तराहलीन राष्ट्रपति जवाहरलालको सौंप दिया ॥

समाके उपस्थित जनसमाजको श्रीमहात्माजीने गम्भीर वाणीसे इस प्रकार-
का उपदेश दिया ॥ ८ ॥

साम्राज्यदोषानपनेतुकाभैरस्माभिराशक्ति महाप्रयत्नः ।
सम्पाद्य एवेति समागतोऽसौ कालोऽथ चूर्णं भवताधिसञ्जाः ॥९॥

साम्राज्यके दोषोंको दूर करनेकी इच्छावाले हम लोगोंकी अपनी
शक्तिभर प्रयत्न करना ही चाहिये । अब वह समय आ गया है । अतः
तुम लोग तैयार हो जावो ॥ ९ ॥

स्वराज्यमस्माभिरुपार्जनीयमाहोस्विदायोधनमाचरद्भिः ।
देहः समाप्यो व्रतमेतदत्र सुखाद्वरीतुं समुपस्थिताः स्मः ॥१०॥

हम लोगोंको या तो स्वराज्य प्राप्त कर लेना है और या तो लड़ते
लड़ते अपने शरीरको समाप्त कर देना है, इस व्रतको मुझसे लेनेकेलिए
हमलोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ॥ १० ॥

ये केऽपि युष्मासु तनुप्रियाः स्युःकार्यान्तरे व्यग्रधियोऽपि वा स्युः ।
ये गन्तुकामा गृहमेव नैजमभ्यर्थनीया न मयाऽद्य तेऽत्र ॥११॥

तुममेंसे जिन लोगोंको शरीर प्रिय हो, या जो किसी दूसरे काममें
लगे हुए हों या जो घर चले जाना चाहते हों उनके प्रति मेरा यह
वक्तव्य नहीं है ॥ ११ ॥

येषां सदीहा हृदये विरूढा स्वदेशदुःखज्वलदग्निहेतिम् ।
यथाकथंचिच्छममेव नेतुं तेभ्यो वचः किञ्चिद्विदं गृणामि ॥१२॥

जिनके हृदयमें स्वदेशकी दुःखज्वालाको चाहे जिस प्रकारसे शान्त
करनेकी इच्छा दृढ बनी हुई हो उन्हींके प्रति मैं यह कुछ शब्द कह
रहा हूँ ॥ १२ ॥

सत्याग्रहस्तीव्रममोघशस्त्रं स्थातुं न शक्नोति पुरश्च तस्य ।
अनीकिनी कापि महाचलापीत्येतत्तु जानीथ चिरेण यूयम् ॥१३॥

वाइसरायके हाथमें मुझे एक पत्र पहुँचाना चाहिये । यह मेरा सदाका नियम है ॥ २२ ॥

यः शत्रुसंहारमनीषयैव रणाङ्गणेष्वागमनात्तु पूर्वम् ।

न बोधयेच्छत्रुमनूयुत्तं स पापभाक्स्यादिति धर्मशास्त्रम् ॥२३॥

जो आदमी शत्रुके संहारकरनेकी इच्छासे रणभूमिमें आनेसे पहिले, अपने शत्रुको पूरी पूरी खबर नहीं देता है वह पापी है, ऐसा धार्मिक नियम है ॥ २३ ॥

अतः प्रहेष्यामि दलं च दिव्या सात्राज्यरक्षापतितां दधाने ।

प्रत्युत्तरं चेन्न लभेऽवधौ तद्युद्धाय यात्रैव विनिश्चिता स्यात् ॥२४॥

अतः मैं दिह्री, साम्राज्यकी रक्षाका स्वामित्व धारण करनेवाले वाइसरायके पास पत्र भेजूँगा । जो अबधि मियाद मैं दूँगा उस समयतक यदि उत्तर मुझे नहीं मिलेगा तो युद्धकेलिए यात्राका ही निश्चय कर दिया जायगा ॥ २४ ॥

पत्रं च यद्वाइसरायहस्ते समर्पणीयं लिखितं बुधेन ।

तदाशयोऽधोऽक्षरराशिनैव संवेदितव्यो मतिमद्वरिष्ठैः ॥२५॥

धीमहात्माजीने वाइसरायको भेजनेकेलिए जो पत्र लिखा था उसका आशय विद्वान् लोग नीचेके अक्षरसमूहसे-श्लोकसे समझ लें ॥ २५ ॥

ॐ अंग्रेजराज्यं मम सम्मतावस्त्यापत्तिरेषा महती प्रपन्ना ।

तत्पद्धतिः सर्वविनाशसञ्ज्ञासमूहनोद्योगपरायणाऽस्ति ॥२६॥

मेरी सम्मतिमें अंग्रेजीराज्य एक बड़ी भारी आई हुई आपत्ति है । इस राज्यकी पद्धति, सर्वनाश करनेके लिए उदा उद्योग परती रहती है ॥ २६ ॥

ॐ पहाँसे लेकर ६६ वें श्लोक तक यह पत्र है जो वाइसरायके पास २-३-३० को धीमहात्माजीने भेजा था ।

अनेन राज्येन हि राजकीयदृष्ट्या समस्ता अपि भारतीयाः ।

वासस्थितिं सर्वत एव नीता नित्यं मनस्तेन समास्ति दूनम् ॥२७॥

राजकीय दृष्टिसे इस राज्यने सभी भारतवासियोंको गुलामकी स्थिति में पहुँचा दिया है। अतः यह वस्तु मेरे मनकी अत्यन्त दुःख देती रहती है ॥ २७ ॥

मूलं सदा भारतसंस्कृतीनामुत्थातुमेतद्यतते नितान्तम् ।

प्रजा निरस्त्राः सकला विधाय मानुष्यमस्माकमद्भ्रतीय ॥२८॥

भारतवर्षकी संस्कृतिकी जड़ खोदनेकेलिए यह राज्य सदा प्रवास करता रहता है। प्रजाओंको निरस्त्र बनाने हमारी मनुष्यताका भी इस राज्यने बर्षकर दिया है ॥ २८ ॥

आसीत्समेपाभिष मेऽपि याज्ञा प्राप्तुं स्वराज्यं परिपूर्णमेव ।

तथा परं पतुंलसंसदापि भग्नैव सा त्यद्वचसापि मित्र ! ॥२९॥

सबकी तरह मुझे भी पूर्णस्वराज्य प्राप्त करनेकी जो आज्ञा थी उसे तो गोलमेदी परिपदने तथा आपके वचनने भी भग्न ही कर दिया है ॥ २९ ॥

याणिज्यजातस्य विवर्धितस्य श्वेतत्वयां फामपि हानिमत्र ।

सोढुं न शक्तः सितचर्मभाजश्चिन्तास्ति तेषां न हि भारतस्य ॥३०॥

भारतमें जो अद्भरेजोंका यह व्यापार चल रहा है उसकी हानिको अद्भरेज नहीं सह सकते। उनको हिन्दुस्तानकी हानिकी तो चिन्ता नहीं है ॥३०॥

प्रवृत्तमन्यायमिमं महान्तं परासितुं शासनभङ्गनादिम् ।

परीक्षितुं शुद्धमुपायमेकं यार्ताऽपि सेऽसह्यतया प्रवृत्ता ॥३१॥

इस चलते हुए महान् अप्पापको नष्ट करनेकेलिए आज्ञामंजरूप एक शुद्ध उपायकी परीक्षा करनेकेलिए यहाँ भी आरका अत्यन्त अग्रग हो जाती है ॥ ३१ ॥

सत्याग्रहेत्यक्षरराशिमीपच्छ्रुवैव संप्रार्थयसे धनाढ्यान् ।
साहाय्यमारात्कुस्त व्यवस्थारक्षार्थमित्यादिवचञ्चयेन ॥३२॥

सत्याग्रह शब्दको मुनते ही आप धनिकों की प्रार्थना करने लग जाते हैं कि कायदे-कानूनकी रक्षाकेलिए शीघ्र ही तुम लोग मेरी मदद करो ॥ ३२ ॥

परन्तु यां त्वं मनुपे व्यवस्थां सैवाद्य देशस्य तु भारतस्य ।
करोति सम्पेपणमिद्वलैण्डस्वार्थाधिसिद्धया अतिदुष्टरूपा ॥३३॥

परन्तु आप जिसे कायदे-कानून कहते हैं वही तो दुष्ट, आज इंग्लैंडकी स्वार्थसिद्धिकेलिए भारतको पीस रहा है ॥३३॥

महाश्रमेणापि भवेत्स्वतन्त्रं चेद्भारतं हन्त तथापि तत्स्यात् ।
राज्यस्य नीत्या परिशुष्ककायं प्रतिक्रिया चेन्न भवेदिदानीम् ॥३४॥

यदि इस समय प्रतीकार न किया जाय तो, यदि महान् श्रम करनेपर भारत स्वतन्त्र हो जाय तो भी राष्ट्रकी नीतिते वह निर्मात्य अवश्य घन जायगा ॥ ३४ ॥

विचार्य चैतन्निरिलं प्रजाभ्यः स्वतन्त्रतायाः परिशुद्धमर्थम् ।
यते सदा शिक्षयितुं बहुभ्यः कालेभ्य एवाहमतिश्रमेण ॥३५॥

यह सब विचार करके, स्वतन्त्रताके शुद्ध-सत्य अर्थको प्रजाको सिखानेके लिये, बहुत दिनोंसे, परिश्रमके साथ, मैं यत्न करता रहता हूँ ॥ ३५ ॥

राज्येन या पदतिराश्रिता भूशुल्कं ग्रहीतुं परितो विनिन्द्या ।
प्रजाऽमुसंशोपपदुश्च साशु समूलनाशं नितरां प्रणाश्या ॥३६॥

बर्मानके महामूल ग्रहण करनेकी राज्यने जित निन्दनीय पदतिरा आश्रय लिया है वह प्रजाके प्राणको चूमनेमें समर्थ है । अतः शीघ्र ही वह जिस प्रकारसे निर्बीज हो सके उस प्रकारसे, उसका नाश करना चाहिये ॥ ३६ ॥

नित्योपयोज्येषु परं प्रधानं क्षारं समेपामिति निर्विवादम् ।
निस्सवप्रजाभिर्वहुलं प्रयोज्यंतच्छुक्कमारो व्यथकोऽस्ति तासाम् ॥३७॥

यह बात निर्विवाद है कि सबके नित्यके उपयोग आनेवाली चीजों-
मेंसे नमक मुख्य चीज है । रारीय प्रजा उसका अधिक उपयोग करती है ।
और निश्चय ही इसके टैक्सका भार उन रारीय प्रजाओंके लिए
दुःखदा है ॥ ३७ ॥

अनामयं सर्वजनातिवाम्यं शीलं च यन्नाशयति प्रजानाम् ।
तन्मादकं द्रव्यमनारतं ही प्रचारितं स्वाययिवृद्धिलोभात् ॥३८॥

जो मादकद्रव्य-शराब, बीड़ी आदि वस्तुएँ सबकेलिये अति-
वान्छनीय आरोग्य और, प्रजाकी नीतिना नाश करती हैं उनका भी,
अपनी आयको बढ़ानेके लोभसे, हमेशा प्रचार किया गया है । यह
आश्चर्य है ॥ ३८ ॥

लब्धप्रतिष्ठं ननु भारतीयप्रजासु कर्पांसजसूत्रचक्रम् ।
प्रजान्य आच्छिद्य विनिर्मितास्ता दारिद्र्यदुःखाय तिसाद्गतन्त्रैः ॥३९॥

पहिले हिन्दुस्तानियोंमें कर्पोंकी प्रतिष्ठा थी । इन राज्यने उसे प्रजासे
छीनकर, प्रजाने दमिद्वताका दुःख भोगनेकेलिए छोड़ दिया ॥ ३९ ॥

श्रुणं च राज्येन घृतं महद्यद्देशाधिरक्षामिपतोऽप्यसहाम् ।
न्याय्यं कियत्तत्र कियद्य दूरं न्याय्यादिति न्याय इहास्त्यपेक्ष्य ॥४०॥

हिन्दुस्तानकी राजाके महानेमे सर्कारने जो बड़ा भारी अत एव अगल
काम किया है वहाँ भी न्यायकी अपेक्षा है कि उम काममें कितना उचित
है और कितना अनुचित ॥ ४० ॥

इतानि सप्त प्रतिवासरं ही मुद्राः प्रदेशास्तय चेतनाय ।
दीनप्रजाभ्य परिगृह्य नित्यमेवं व्यव्याधिक्यमनीतिपूर्णम् ॥४१॥

७०० रुपये सेन रारीय प्रजासे रैबर आपको आपकी तनकाएके
देने पड़ते हैं । इतना पड़ा रुपय अग्यापूर्ण है ॥ ४१ ॥

न पारतन्त्र्यव्यथया प्रदृता हैन्दाः समर्थाः परिवर्तनाय ।
साम्राज्यतन्त्रस्य कदाचनेति प्रायेण सर्वैरवबुद्धमेतत् ॥४२॥

परतन्त्रता की पीड़ासे पीड़ित भारतीय राज्यतन्त्रके बदलनेमें कमी भी समर्थ नहीं हैं, इस सत्य वस्तु को प्रायः सभी जानते हैं ॥ ४२ ॥

कृते विरोधेऽपि धनापहारं विलुण्ठनं चापि न भारतस्य ।
त्यक्तुं समिच्छन्ति सितत्वचस्ते धनार्जनालोभपरीतचिन्ताः ॥४३॥

जो अंग्रेज भारतके धनको अपहरण करनेमें प्रवृत्त हुए हैं वह मुझे मालूम होता है कि लोभके बद्ध जानेसे ही, मना करनेपर भी-रोकनेपर भी, रूटना बन्द नहीं करते हैं ॥ ४३ ॥

तद्भारतीयप्रकृतीर्विपद्भ्यो न चेत्समुद्धारयितुं प्रयत्नः ।
कृतो भवेत्तेन तु तद्विनाशकालोऽयमग्रे भ्रमतीव तात ॥४४॥

अतः यदि भारतीय प्रजाका दुःसमसे उद्धार करनेकेलिए प्रयत्न न किया जाय तो भाई ! उसके नाशका समय सामने ही उपस्थित है ॥४४॥

न प्रार्थना दैन्यनिदर्शनं नो याच्ना विलासो न दधाति शक्तिम् ।
अन्यायवृद्धेः परिरोधनेऽतो युद्धायकाशो दृढतः प्रवृत्तः ॥४५॥

इस अन्यायकी बृद्धिको रोकनेमें प्रार्थना या दीनताका प्रदर्शन करना या दलील समर्थ नहीं है। अतः अगत्या युद्धकी यात करनी पड़ती है ॥ ४५ ॥

श्वेताङ्गिनां स्वार्थविमोहितानामनीतिकार्यप्रतिरोधनाय ।
जागर्ति हिंसा प्रवला च शक्तिदेशे त्यया साऽविदिता न चास्ति ॥४६॥

स्वार्थी अंग्रेजोंके अत्यायका विरोध करनेकेलिये देशमें हिंसा शक्ति विद्यमान है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है ॥ ४६ ॥

तद्विसकानामथ मे समानं ध्येयं ततो नात्र विवादभूमिः ।
तदर्पिता मुक्तिरलं न पव्येत्येतद्विरोधावसरः परं मे ॥४७॥

उन हिंसकोंका और मेरा ध्येय समान ही है, इसमें तो विवाद ही नहीं है। परन्तु हिंसकोंकी दी हुई स्वतन्त्रता अत्यन्त हितकारक नहीं होगी, सिर्फ इसलिये मैं उनका विरोध करता हूँ ॥ ४७ ॥

जाने बहूनां मनसि प्रबुद्धां देशव्यथानाशसमुत्सुकानाम् ।
यूनां विशुद्धे नितरामहिंसाऽवमानना तेन न मेऽस्ति चित्रम् ॥४८॥

भारतकी व्यथाके नाशकेलिये उत्साही बहुतसे नौजवानोंके पवित्र मनमें अहिंसाके प्रति अपमान बुद्धि है, इसे मैं खूब जानता हूँ; परन्तु इससे मुझे आश्चर्य नहीं होता है ॥ ४८ ॥

अहिंसया साधयितुं च शक्यं तद्यत्र साध्यं जनहिंसयाऽद्य ।
इति प्रतीतिं प्रतिवासरं मे श्रद्धाऽतिवृद्धिं नयतीति मन्ये ॥४९॥

“जो काम आज हिंसासे नहीं हो सकता है उसे अहिंसा अवश्य कर सकती है” मेरी श्रद्धा प्रतिदिन इस विश्वासकी बढा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ४९ ॥

न जानता कस्यचनापि जन्तोर्निर्ग्रन्थनं कर्तुमिहास्ति शक्यम् ।
मया पुनः किं नरहिंसनाय प्रवृत्तिरिष्टाऽस्तु विजानतो मे ॥५०॥

जानबुझकर मेरेलिये किसी जन्तुकी भी हिंसा करना शक्य नहीं है तो जानते हुए ही, मनुष्यकी हिंसानेलिए प्रवृत्तिको मैं स्वीकार कैसे कर सकता हूँ ? ॥ ५० ॥

निर्धारितं तेन मया स्वशास्त्रमहिंसनं नाम महाह्वयेऽस्मिन् ।
प्रयोक्तुमस्मात्प्रतिघातनं स्याद्बुद्धं नराणामिति नास्ति शक्यं ॥५१॥

अतः मैं इस प्रविषयमें होनेवाली लडाईमें अहिंसारूप अस्त्रना प्रयोग करना ही अपनेलिये निश्चय किया है। इससे मनुष्योंकी हिंसा रुक जायगी, इसमें शन्देह नहीं है ॥ ५१ ॥

यावद्य हस्ते मम सर्वजीवफल्याणसिद्धयै विदितं महास्त्रम् ।
निरोध तावदादि मौनित्वा मे पापाय सा स्यादिति निश्चयो मे ॥५२॥

जबतक मेरे हाथमें सर्व जीवोंके कल्याणको सिद्ध करनेकेलिये प्रख्यात अस्त्र मौजूद है तबतक यदि मैं मौन रहूँ तो मुझे निश्चय है कि मुझे पाप लगेगा ॥ ५२ ॥

तद्व्यञ्जनाय प्रथमं कृतः स्यादाज्ञाविभङ्गो विनयेन राज्ञः ।
मया मदीयाश्रमवासिभिश्चधर्मं पुरस्कृत्य तु मानवीयम् ॥५३॥

उस अहिंसा—अस्त्रको प्रकट करनेकेलिये सकारकी आज्ञाया, मैं और मेरे आश्रमके निवासी, मनुष्यधर्मके साथ, भङ्ग करेंगे ॥ ५३ ॥

अतः परं ये निजजन्मभूमिभक्ता मदीयान्तियमान्सभस्तान् ।
अङ्गीकरिष्यन्ति च तेषुपि तस्मिन्युद्धे भविष्यन्ति सुखं निविष्टाः ॥५४॥

इसके पश्चात् जो कोई भी स्वदेशभक्त मेरे सत्र नियमोंको स्वीकार करेंगे वह भी उस लड़ाईमें भर्तों होंगे ॥ ५४ ॥

यद्यप्यहिंसात्मकशुद्धयुद्धप्रारम्भणे साहसमुग्रमेव ।
तथापि नैतद्विधसाहसेन विना कदाचिद्विजयेत सत्यम् ॥५५॥

यद्यपि अहिंसात्मक, शुद्ध, युद्धके आरम्भ करनेमें बड़ा भयङ्कर साहस है तथापि इस प्रकारके साहसके बिना कभी सत्यका विजय नहीं होता है ॥ ५५ ॥

महाप्रज्ञस्तातिमनोऽहकीर्तीरतीव संस्कारितया जगत्याम् ।
रयार्ति गताः सर्वमहत्तरा यास्ता भारतीयप्रकृतीरुदाराः ॥५६॥
ये स्वार्थमिद्धये व्यथयन्ति नित्यमनाद्रियन्ते च पदे पदे ताः ।
तेषां मनः शोधयितुं विगटां सर्वं भयं साहसमप्यपर्यम् ॥५७॥

जो प्रजा अत्यन्त उत्कृष्ट और मनोहर कीर्तिवाली है, अपनी सरासरितासे जगत्में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है और जो सबसे बड़ी प्रजा है उस उदार भारतीय प्रजाको जो प्रजा अपने स्वार्थोंकी सिद्धियेकेलिये हमेशा दैरान करती है और पग पगपर उसका अनादर करती है उस

प्रजाके मनको शुद्ध करनेकेलिये सब भय और महान् साहसका अवलम्ब करना ही चाहिये ॥५६-५७॥

न कामयेऽहं सितदेहभाजां क्षितिं कदाचित्समुपात्तहिंसः ।
सर्वैव ह्येन्दानिव तात्तपीच्छा सदादरान्मे परिपेवितुं स्यात् ॥५८॥

मैं आहिसक हूँ अतः अग्नेजोंकी हानि कभी नहीं चाहता हूँ । सदा ही हिन्दुस्तानियोंके समान ही उनकी भी सेवाकरनेकी इच्छा मेरे मनमें रहा ही चरती है ॥ ५८ ॥

शब्दस्य यस्याभ्यवरुपणं मत्प्रेष्टेषु सम्बन्धिषु चाप्यकार्षम् ।
तदेव चाङ्ग्लेष्वपि वीतशङ्कः प्रयुक्तवांस्तद्धितकामतोऽहम् ॥५९॥

अपने परमप्रिय सम्बन्धियोंके सामने भी मैंने जिस हथियारकी रीतिचा है वही हथियार निश्चङ्क होकर, अग्नेजोंके सामने भी, उन्हींकी भलाईकेलिये मैंने चलाया है ॥ ५९ ॥

प्रजाः समस्ताः सलु भारतीया अस्मिन्नणे मे सहयोगदानात् ।
अभिद्रुतं क्रूरतरं मनोऽपि विधातुमीशा न भजेऽत्र शङ्काम् ॥६०॥

इस युद्धमें समस्त भारतीय प्रजा मेरा सहयोग देगी और उससे व्ययन्त क्रूर मनकी भी पिघलानेमें समर्थ बनेगी, इसमें मैं शङ्का नहीं करता हूँ ॥ ६० ॥

सत्याग्रहोऽसाधनुशासनानां भङ्गेन राज्यानयवत्प्रवृत्ती ।
दूरीकरिष्यत्यखिला अवश्यमित्येवभाशा यलिनी मदीया ॥६१॥

यह सत्याग्रहयुद्ध, शान्त तोड़नेके द्वारा, सर्रासके अन्यायपूर्ण सभ्य प्रवृत्तियोंकी अवश्य दूर करेगा, यह मेरी यत्नरती आशा है ॥ ६१ ॥

त्वामादरेणैव सरोऽहमद्य प्रवीमि तत्त्वं शृणु तावकानाम् ।
श्रुता अनीतीर्महतीर्जनानां भवापनेतुं मतिमान्मुसज्ज ॥६२॥

मित्र ! मैं आदरके साथ ही आशते प्रापेना करता हूँ कि आप

अपने आदमियोंके द्वारा किये गये अन्यायोंको स्वीकार कर लीजिये और उन्हें दूर करनेकेलिये तैयार होइये ॥ ६२ ॥

वाचो मदीया अपमानिताश्चेत्त्वयाभ्युपायो न च वीक्षितश्चेत् ।
सत्याग्रहाख्यं निशितं गृहीत्वा युद्धाय दांडीं ब्रजितास्मि योधैः ॥६३॥

यदि यह मेरी बात ठुकरा दी जायगी और कोई सुन्दर उपाय आपकी ओरसे विचारा नहीं जायगा तो मैं तोक्षण सत्याग्रह अस्त्रको लेकर युद्ध करनेकेलिये अपने सैनिकोंके साथ दांडी जाऊँगा ॥ ६३ ॥

अन्याय्यमेतद्व्यवणस्य राजस्य मे महद्दीनदृशा विभाति ।
तस्माद्रणारम्भणमस्य भङ्गैः करिष्यते भारतरक्षणाय ॥६४॥

नमकका जो यह अन्याययुक्त टैक्स है वह सारीबोकी दृष्टिसे मुझे बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा है। अतः भारतकी रक्षाकेलिये मैं इस सत्याग्रहयुद्धका आरम्भ नमकझानून तोड़नेसे ही करूँगा ॥ ६४ ॥

मदाश्रमस्यैव निवासिसभ्यानादाय सर्वान्समरे प्रवीरान् ।
ध्यास्यामि शंखं भुवमम्बरं च निनादयन्मातृधराहिताय ॥६५॥

मातृभूमिके हितकेलिये मैं, अपने आश्रमके निवासी सम्य वीरोंको ही लेकर, समरभूमिमें भूमि और आकाशको गुँजाता हुआ शंख बजाऊँगा ॥ ६५ ॥

ॐ निगृह्य मां त्वं यदि बन्धपस्त्ये बन्दीकरिष्यस्यथ नास्ति चिन्ता ।
लक्षाधिका भारतभूमिपुत्राः सम्पादयिष्यन्ति मदिष्टसिद्धिम् ॥६६॥

यदि आप मुझे पकड़कर जेलमें बन्द करेंगे तो भी चिन्ता नहीं है ।
लाखों भारतके लाल मेरी इच्छाको पूर्ण करेंगे ॥ ६६ ॥

ॐ यहाँतक श्री महात्माजीका वह पत्र है जिसे उ-होंने पाह्यसय के पास भेजा था। जहाँतक हो सका है भाष्य सभी मुख्य विषय उस पत्रमेंसे ले लिये गये हैं ।

एकेन यूनाङ्गुलभुवः सुतेन स्वीकुर्वता धर्म्यमिदं हि युद्धम् ।
ईशप्रदत्तेन सहैतदात्मदलं स्वयि प्रेष्यत आत्मनीतम् ॥६७॥

इस युद्ध को धर्म युद्ध स्वीकार करने वाले इस नवयुवक अर्भज के साथ, जिसे कि ईश्वर ने मेरे पास भेजा है, मेरा यह पत्र आप के पास भेजा है ॥ ६७ ॥

तदायुवानं स च रेञ्जिनल्डरेनोल्ड्जमाहूय मनःपवित्रम् ।
प्रदाय तस्मै दलमेतद्गुह्यं सन्प्रैषयद्वाइसरायपार्वे ॥६८॥

श्रीमहात्माजीने - श्रीरेञ्जिनल्ड रेनोल्ड्ज नामवाले एक पूतात्मा युवाको बुलाकर, उसे यह पत्र सौंपकर वाइसरायके पास भेजा ॥ ६८ ॥

स्त्रिस्ताब्दके पत्रमिदं खफालप्रहेश्वरे तेन च मार्चमासे ।
तिथौ तृतीये नरपात्प्रतीर्विन्येकात्मना प्रेष्यत शुद्धवर्णम् ॥६९॥

ई० सन् १९३० के मार्चकी तीसरी तारीखमें श्रीमहात्माजीने राजाके प्रतिनिधि ईर्विनके पास शुद्धवर्णन करनेवाले अपने पत्रको भेजा ॥ ६९ ॥

ॐ अथ विदितविभावः प्रेष्य चारं तु दिस्त्र्यां
समुपगतजनस्तानाश्रमस्थान्विसृज्य ।

- श्रीरेञ्जिनल्ड रेनोल्ड्ज यह एक अर्भज नवयुवक है। वापस हमें हीनयन्त्रु श्री पुन्हुजसाहेबने ही धी महात्माजीने पास भेजा था। इस नवयुवकके बारेमें श्रीमहात्माजीने इसी पत्रमें वाइसरायको लिखा था कि "इस पत्रको मैं एक अर्भज युवकके द्वारा आपके पास पहुँचानेका पास मार्ग लेता हूँ। यह नौजवान हम भारतीय युद्धको व्यापकता मानता है। अहिंसामें इसकी पूर्णधरा दे। मानो ईश्वरने ही इसे मेरे पास भेजा हो।

ॐ मालिनी छंद ।

व्यधितजनिधरायाभारहारप्रयाणे

व्यवसितधिषणान्स स्वास्थ्यमीपत्प्रपेदे ॥७०॥

इति सर्वतन्त्रस्वतंत्रपरमहंसपरिवाजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
भारतपारिजाते एकादशः सर्गः

दिह्रीकेलिये अपने दूतको बिदाकरके, और अपनी मातृभूमिके
भारको हरण करनेकेलिये प्रयाग करनेमें जिनकी बुद्धि लगी हुई थी
उन आये हुए आश्रमवासियों को भी बिदाकरके प्रसिद्धप्रभाववाले
श्रीमहात्माजीने थोड़ीसी शान्ति प्राप्त की ॥७०॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
स्वोपज्ञराष्ट्रभाषाटीकासहिते
भारतपारिजाते एकादशः सर्गः



❀ द्वादशः सर्गः

गते च सुन्देहाहरे सपत्ने दिह्रीं महात्मा सहसा व्यजानात् ।
श्रीवल्लभ राजनरैर्गृहीत वन्दीकृतं रासपुरे पवित्रे ॥१॥

जब रेजिनरैड रेनोरुहज पत्र लेकर दिह्री वाइसरायके पास गये उसी समय श्रीमहात्माजीको मादूम हुआ कि पवित्र रास गाँवमें पुलिसने श्रीवल्लभभाईको पकड़ लिया है ॥ १ ॥

स्वीकार एषोऽस्ति विघोपितस्य मया रणस्येति सता वरिष्ठ ।
मेने महात्मा मुद्रितान्तरात्मा सर्वाभिसार कृतचास्तदाऽसौ ॥२॥

श्रीमहात्माजीने यह समझ लिया कि उन्होंने जिस युद्धकी घोषणा की है, श्रीवल्लभभाई को पकड़कर, सर्वाने उसे स्वीकार कर लिया है। इससे श्रीमहात्माजी बहुत + प्रसन्न हुए। उन्होंने सबको एकत्रित किया ॥ २ ॥

मार्चस्य मासस्य तिथौ पवित्र एकादशे भारतरक्षणाय ।
उपव्रमः सभविताऽऽहयस्येत्यसावगत्या प्रकटीचकार ॥३॥

श्रीमहात्माजीने लाचार होकर यह प्रकट कर दिया कि मार्च मासकी ११ वीं तारीखक दिन इस युद्धका आरम्भ होगा ॥३॥

परस्सहस्रा अयगत्य यातामेतां जना साध्रमतीतटिन्या ।
उपस्थिता पूर्णदिनेधिसन्ध्य तट्या यतेर्दर्शनमाप्तुनामा ॥४॥

इस समाचारको सुनकर १० वीं तारीखको ही सायंकाल श्रीमहात्माजी

❀ इस सर्गमें उपजाति छंद है ।

+ प्रसन्न इत्यलिप्तं हुण् कि अहिया धर्मके प्रचारका उनको भयतर मिला ।

का—दर्शन करनेकेलिए साबरमती नदी के तटपर हजारों आदमी एकत्रित हुए ॥ ४ ॥

राज्यस्य दुष्टामभितः प्रसिद्धां नीतिं विचार्यापि महात्मनस्ते ।
दाह्यं च सत्याग्रहिणः स्ववाचि तदन्तिमं दर्शनमित्यजानन् ॥५॥

दर्शनकेलिये आनेवाले लोगोंने, सकारकी प्रसिद्ध दुष्टनीतिको विचारकर, इस दर्शनको आखिरी दर्शन समझा ॥ ५ ॥

क्रूरेण राज्येन भवेदयं चेद्वन्दीकृतः सर्वविमोक्षहेतुः ।
सुदुर्लभं पावनदर्शनं स्यादस्येति मत्वा जनता व्यधावत् ॥६॥

यदि यह निर्दय सकार, सबको मोक्ष दिलानेवाले इन महात्माजीको कैद कर ले तब इनका पवित्र दर्शन ही दुर्लभ हो जायगा, ऐसा समझ कर जनता (आश्रमकी ओर) दौड़ी ॥ ६ ॥

वार्धक्यमेतत्कथं तस्य चैप कशासनानामसतां विभङ्गः ।
सहा भवेयुः कथमापदस्ता इत्यार्तचित्ता जनता बभूव ॥७॥

कहाँ तो यह बुढापा और कहीं दुष्ट कानूनोंका भङ्ग ! यह आपत्ति महात्माजीको कैसे सही जायगी, यह विचारकर सब दुःखी हो गये ॥ ७ ॥

ॐ सद्यः परित्यज्य स मृत्युशय्यां कथं कथंचिद्भवि पादपद्मे ।
समार्पिपत्तस कथं सहेत दुर्यातना यन्धनिकेतनस्य ॥८॥

अभी ही तो किसी किसी तरहसे मृत्युशय्यासे उठकर श्रीमहात्माजीने जमीनपर—पैर रखे हैं। वह जेलके कटोको कैसे सहन करेंगे ? ॥ ८ ॥

फदाचिदेव प्रसरत्प्रतापोऽसहिष्णुताद्वेदविमूर्छितेन ।
दुःशासनेनेह गृहीत एव मोक्षाध्यनः स्यादुपदेशकः यः ॥९॥

ॐ यहाँसे १५ वें श्लोक तक लोगोंके भिन्न भिन्न तक और विचारोंका वर्णन है ।

असहिष्णुता-अदेखाई = ईर्ष्यारूप विपत्ते. मूर्छित इस दुष्ट सर्कारने यदि महान् प्रतापी श्री महात्माजीको गिरफ्तार कर लिया तो अब मोक्षमार्गका उपदेश कौन करेगा ! ॥ ९ ॥

महात्मना तेन मनोबलेन श्रद्धाबलेनापि निबन्धदुःखम् ।
सोढव्यमेतन्निरिलं क्षणेन भविष्यतीत्येव च केचिदूचुः ॥१०॥

किन्हीने तो यह कहा कि श्री महात्माजी अपने मनोबलसे और श्रद्धाबलसे जेलके समस्त दुःखोंको क्षणेन = उत्साहके साथ सहन कर लेंगे ॥ १० ॥

ज्ञात्वैव यद्दुःखमुपार्जितं स्यात्कथं च दुःखाय भवेत्तदद्वा ।
समीहितं कण्ठविकर्तनं चेद्दुःखाय न स्यात्तदपीति सत्यम् ॥११॥

जान करके जो दुःख उठाया जाता है वह दुःखदायी कैसे हो सकता है ? यदि किसीको अपना गला कटवाना इष्ट हो तो गला कटने पर भी उसे दुःख नहीं हो सकता, यह सत्य बात है ॥ ११ ॥

यार्थक्यमेतस्य समीक्ष्य राज्यं घन्धं समीहिष्यत एव नास्य ।
केचिद्दयार्द्रान्तरवृत्तिभाजः सश्रद्धमेतां गिरमाहरन्त ॥१२॥

श्री महात्माजीके बुढ़ापेकां देरकर सर्कार इनको कैद नहीं करेगी । इस प्रकारसे भी कुछ दयालुजन श्रद्धाके साथ बात कर रहे थे ॥ १२ ॥

आजन्म येनास्य दुरर्थकस्य राज्यस्य सेवा समपादि तस्य ।
तत्केन तन्नप्रहर्णं विधाय कृतघ्नतादीपमुपाददीत ॥१३॥

यहाँसे १२ वें श्लोकका सम्बन्ध १६ वें श्लोकके "एवं यदंस्तत्र" के साथ है । कुछ लोग कहते थे कि—जिन श्रीमहात्माजीने बिन्दगीमर इस दुष्ट सर्कारकी सेवा की है वह सर्कार उनको गिरफ्तार करके कृतघ्नताका दोष कैसे ले सकती है ! ॥ १३ ॥

स्वार्थान्धवृत्तिप्रधयार्चितानां प्राणार्पणेनापि विपत्यदेऽपि ।
महोपकारोऽपि कृतश्च कैश्चिन्मनःप्रसादाय न धोभवीति ॥१४॥

स्वार्थसे अन्धे घनी हुई वृत्तियोंके समूहसे जो पूजित हैं अर्थात् जो स्वार्थसे अन्धे हो रहे हैं उनकी विपत्तिमें भी, प्राण अर्पण करके भी कुछ उपकार कोई करे तो, वह भी उन स्वार्था-धोक्को प्रसन्न नहीं कर सकता-
कुछ लोग इस प्रकारसे बात कर रहे थे ॥ १४ ॥

राज्यं यदीदं सुभहोपकारांस्तेनाऽऽहितान्स्वस्मृतितो निरस्य ।

त्रं निप्रहीष्यत्यथ भारतीयास्तन्मार्गगाः स्युर्हि परस्सहस्राः ॥१५॥

श्रीमहात्माजीके दिचे हुए उपकारोंको स्मृतिमेंसे दूर करके = भुलाकर, यदि यह सकार उनको पकड़ लेगी तो हजारों आदमी श्री महात्माजीका अनुगमन करेंगे अर्थात् अपनेको पकड़ावेंगे-कोई इस तरहसे बोल रहे थे ॥ १५ ॥

एवं वर्दस्तत्र सुधीसमाजः समाजगामाश्रमभूमिभागम् ।

शान्तः सचिन्तः सततार्तचित्त उपाविशद्भावितदीनभावः ॥१६॥

इस प्रकारसे (८ वें श्लोकसे १५ वें श्लोक तक) बोलते हुए समझदार लोग श्रीमहात्माजीके आश्रममें गये । जानेवाले सभी शान्त थे, चिन्तित थे, दुःखित हृदयवाले थे और दीन ही रहे थे । सब वहाँ बैठे ॥ १६ ॥

सन्बोध्य नारीश्च नरांश्च सर्वाश्चश्रीमान्महात्मोपदिदेशसायम् ।

उपासनासद्ग्रानि शान्तमूर्तिरुपासितश्रीभगवांस्तदानीम् ॥१७॥

सायद्वाल उपासनाभवनमें भगवान्की उपासना करके शान्तमूर्ति श्रीमान् महात्माजीने उस समय सभी स्त्रियों और पुरुषोंको सम्बोधन करके उपदेश दिया ॥१७॥

विचारितं किं जगदीश्वरेण किं शासनेनाथ मदर्थमद्य ।

कस्तद्विजानातु परस्य वस्तु विचारितं वेद्मि मया स्वयं तु ॥१८॥

भगवान्ने और सरकारने आज मेरे लिये क्या विचार किया है, इसको कौन जाने ! यह तो पराधी वस्तु है । पान्तु मैंने स्वयं जो विचार किया है उसे मैं जानता हूँ ॥ १८ ॥

सम्भाव्यते त्वेतदपि प्रभाते राहो नियोगान्मम निग्रहः स्यात् ।
अनुग्रहो वा गमनाय सेव्यो भवेच्च राज्येन मयि प्रणुत्यः ॥१९॥

यह भी संभव है कि प्रातःकाल सर्कार मुझे पकड़ ले । यह भी सम्भव है कि सर्कार जाने देनेकेलिये मुझपर प्रशंसनीय = दया करे ॥ १९ ॥

त्यक्तेश्वरत्रासमथाङ्गलराज्यं यदृच्छयैवापरतापरन्तु ।
स्यादन्तिमं भाषणमेतदेव तीरे तद्विन्या इह साभ्रमत्याः ॥२०॥

ईश्वरसे न डरनेवाला यह अंग्रेजी राज्य अपनी इच्छाके अनुसार जो करना हो करे—चाहे मुझे पकड़ ले और चाहे जाने दे—परन्तु यह तो निश्चय है कि सारामती नदीके इस किनारेपर यह अन्तिम भाषण है ॥ २० ॥

आजन्मकाराभवनाधिवासदण्डेन दण्ड्यो यदि वा भवेयम् ।
तदाऽस्तु भद्राषणमेतदेव नातः परं मे वचसां प्रसारः ॥२१॥

अथवा मुझे आजन्म कारावासकी सज़ा मिलेगी तब तो यही मेरा (मेरे जीवनमें) अन्तिम भाषण होगा । इसके बाद मेरी वाणीका प्रसार बन्द हो जायेगा ॥ २१ ॥

अहं तथैते सह्यायिनो मे नीता यदि स्यान्निरोधशालम् ।
तथापि दाँडीगमनप्रमोऽयं भजेदखण्डत्वमिति स्पृहा मे ॥२२॥

और यदि मैं और मेरे यह सभी साथी जेलमें भेज दिये जायें तो भी मेरी इच्छा यह है कि दाँडी कूच बन्द न रहे ॥२२॥

क्रमेण सर्वे यदि चन्द्रशालां नीता भवेयुर्न हि कापि चिन्ता ।
प्रपीडितानामथ पीडकानो शक्तेः प्रमाणं परिकल्पितं स्यात् ॥२३॥

क्रमसे यदि सभी (सत्याग्रही) जेलमें भेज दिये जायें तो भी कोई चिन्ता नहीं है । हैरान किये गये दुर्भोंडी और हैरान करनेवालोंकी शक्ति का मान हो जायगा ॥ २३ ॥

कुर्यादकर्तव्यमधर्मशालि सुयोधनेऽस्मिन्न कदापि कोपि ।
सन्देश एष प्रतिमानर्षं मे व्याप्नोत्यशेषां शिवभारतोर्वीम् ॥२४॥

इस युद्धमें कभी कोई अधर्मयुक्त धर्म-कर्तव्य न करे । यह मेरा सन्देश
संमत्त भारतमें प्रतिमनुष्यके पात्र पहुँचे ॥ २४ ॥

गते च कारां मयि बन्धवो मे महासभां तामनुयात यूयम् ।
यथाकथंचिज्जनिभूमिरक्षा कार्येति युष्माकमभीप्सितं स्यात् ॥२५॥

भाइयो ! मेरे जेल चलेजानेपर तुम सब लोग राष्ट्रिय महासभा—
काँग्रेसकी आज्ञाके अनुसार काम करना । “जिस किसी प्रकारसे भी
भारतभूमिकी रक्षा करनी चाहिये” इतना ही तुम्हारा मनोरथ होना
चाहिये ॥ २५ ॥

निर्माय विक्रीय च लावणानि सिन्धोस्तटान्वा परितः स्थितानि ।
करं विना तानि सुखं गृहीत्या राज्यस्य शिष्टिः परिभाविता स्यात् ॥२६॥

नमक बनाकर और बेंचकर अथवा समुद्रके किनारे डेरके डेर पड़े
हुए नमकके टैक्सके बिनाही लेकर सरकारकी आज्ञाका अपमान कराया
या किया जा सकता है ॥ २६ ॥

राज्यानुशिष्टेरवमाननायै सर्वाङ्गनानाङ्गपयामि नम्रः ।
भङ्गोऽत्र शान्तेर्न कदापि कार्यः सत्यं सदा प्राणपणेन रक्ष्यम् ॥२७॥

सरकारी आज्ञाका अपमान करनेकेलिये अवश्य ही मैं सब किस्मियों
आज्ञा देता हूँ । परन्तु शान्तिना भङ्ग तो कभी भी नहीं करना चाहिये ।
तथा सत्यकी रक्षा प्राणकी होड़ लगाकर भी करनी चाहिये ॥ २७ ॥

महासभानेतृगणाक्षयैव सर्वं विधेयं मयि संनिवद्धे ।
दृढप्रतिज्ञस्य जनस्य कस्याप्याज्ञानुकूलं व्यवहार्यमार्यम् ॥२८॥

मेरे निरिस्तार होनेपर महासभा के नेताओंकी आज्ञाके अनुकूल
उचित और उत्तम व्यवहार करना ॥ २८ ॥

आत्मप्रतीतिदृढता विरक्तिरिति त्रयं स्वात्मनि यो दधीत ।
नेता स एवास्ति समस्तशिष्टगुणाश्रयत्वान्निखिलप्रजानाम् ॥२९॥

आत्मविश्वास, दृढता और वैराग्य यह तीन गुण जिस मनुष्यमें होंगे वही सम्पूर्ण उत्तमगुणोंवाला होनेके कारण समस्त प्रजाका नेता है ॥ २९ ॥

लक्षाधिकस्त्रीपुरुषप्रकाण्डनिकाय आङ्ग्लैस्तु निगृह्यते चेत् ।
श्रेयः समाराधयितुं स्वजन्मभूमेरनेके कुशलाः मिलेयुः ॥३०॥

यदि लाखों स्त्री और पुरुषोंके एक बड़े भारी समुदायमें अप्रेजोने पकड़ लिया तो मातृभूमिके कल्याणको सिद्धकरनेकेलिये दूसरे अनेक कुशल स्त्रीपुरुष वहाँ जायेंगे ॥ ३० ॥

न नायकाः सन्ति गुणायदाता न सत्सहायाः सकलप्रतीताः ।
वार्यं च किं केन पथा कियद्वेत्येषा विधेया न कदापि चिन्ता ॥३१॥

इस तरहकी चिन्ता तुम लोग कभी नहीं करना कि अच्छे अच्छे गुणी नेता नहीं हैं या प्रामाणिक सज्जन सहायक नहीं हैं, अतः क्या करूँ, कैसे करूँ, कितना करूँ ! ॥ ३१ ॥

जवाहिरेऽशेषगुणाधिभूपाधिभूपिते यूनि विनायकत्वम् ।
अस्त्येव चान्येध्वपि किन्त्विदानीं नापेक्ष्यते तस्य विचारणापि ॥३२॥

समस्तगुणरूप आभूषणसे भूषित जवान जवाहिरलालमें नेताके सब गुण और धर्म हैं, अन्योंनेभी हैं परन्तु आज इस विचारकी आवश्यकता ही नहीं है ॥ ३२ ॥

भीतिर्महापापमितिप्रतीतिर्न जातु हेया समरप्रवारैः ।
मृत्योर्जितायां भिवि सव्यफाले स्यादेव सर्वत्र महाश्रयो यः ॥३३॥

भय सबसे बड़ा पाप है, इस विश्वासमें, सोदाओंको कभी नहीं छोड़ना चाहिये । मृत्युके भयके जीते जानेपर तुम्हारा सदा और सर्वत्र महान् जय होगा ही ॥ ३३ ॥

मम्पादनीयं प्रहृत्स्वमेव सुरालयं प्राप्य महाघसन्न ।
वैदेशिकांश्चैलचयान्सुखेन कृत्याग्निसाद्भारतमर्चनीयम् ॥३४॥

शराबकी दूकानोंपर—जो कि महान् दोषका केन्द्र है—जाकर पिकेटिंग करना चाहिये—घरना देना चाहिये । तथा विदेशीय बस्त्रोंके ढेरके ढेर आगमें फूँककर भारतकी सेवा करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

श्रीणीत स्वादी परिधत्त स्वादी मा दत्त राज्याय करं तदिष्टम् ।
ये प्राड्विवाचो विजहत्वजस्रं ते तत्त्वमद्यार्जितरिक्थसंघा ॥३५॥

रादी ही परीदो ओर स्वादी ही पहिनो । सरकारको सरकारकी मर्कके अनुसार टैक्स मत दो । जो बक्रील हैं वह आज तत्त्वम्—बकालव को छोड़ दें । वह बहुत धन इकट्ठा कर चुके हैं ॥ ३५ ॥

नैराश्वराशिं विजहीत नित्यं जहीत राज्यस्य भुजिष्यभावम् ।
दास्यं परित्यज्य किमस्तु कार्यमित्येतयाऽलं बहुचिन्तयाद्य ॥३६॥

निराशाका त्याग करो । सरकारी नोकरीयोंको छोड़ दो । नौफ्री छोड़कर (जीविकाके लिये) क्या करूँगा यह चिन्ता करना व्यर्थ है ॥ ३६ ॥

लक्षाणि पञ्चैव नरोऽद्य राज्ये नियोजिता सन्ति भृतिप्रदानैः ।
अन्येऽधिजीवन्ति यथा तथैव युष्माभिरप्यत्र हि जीवितव्यम् ॥३७॥

राज्यमें लगभग ५ लाख ही आदमी तो गेटन पा रहे हैं । बाकी बचे हुए लोग जिस तरहसे जीने हैं उसी तरहसे तुमको भी जीना चाहिये ॥ ३७ ॥

दास्यस्य दाढ्योय चिरोपितानि धीजानि त्रिद्वार्यनिकेतनानाम् ।
सुता सुतान्वन्धुजनांश्च तेभ्यस्तस्माद्विनिस्सारयतातिशीघ्रम् ॥३८॥

गुलामीकी मजबूतीकेलिये ही भारतबपमें सरकारी मूल और कोलेब घने हुए हैं । अतः अतिशीघ्र उन विद्यालयासे लान्धियाओ, लटनोंको अन्य सम्बन्धियोंको निकाल लो ॥ ३८ ॥

स्वगौरवं यैः समभीप्सितं स्याच्चिन्ताविषाण्यौदरिकाणि जित्वा ।
जिजीविषिष्यन्ति हि ते स्वकीयं प्राणाधिकं गौरवमेव हृद्यम् ॥३९॥

जिन लोगोंको अपना गौरव-मान दृष्ट होगा वह लोग पेटसम्बन्धी चिन्ताविषयो जीतकर जीनेकी इच्छा करेंगे क्योंकि गौरव, ही प्राणसे भी अधिक प्रिय वस्तु है ॥ ३९ ॥

आस्कन्दनेऽस्मिन्पुरुषा इवस्युः स्त्रियोऽपि बाला अपि दत्तचित्ताः ।
इदं मदीयं न भवेत्कदापि वचोऽन्तिमं विस्मरणीयमर्घ्यम् ॥४०॥

इस यद्धमे पुरुषोंके समान ही स्त्रियों और बच्चे भी भाग ले सकते हैं । यह मेरी बात कभी भुलानी नहीं चाहिये; क्योंकि यह मेरी आत्मीय बात है ॥ ४० ॥

जाते प्रभाते प्रधनस्य नूनमुपक्रमोऽस्येह भविष्यतीति ।
विदस्य युष्मासु मया कृतस्याऽऽयतौ फलं स्याच्छमदं हि वोऽस्य ॥४१॥

प्रातःकाल होनेपर अवश्य ही इस मुद्रना यहाँ आरंभ होगा । नून लोगोंका विदवास करके मैं जो यह लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, परिश्रममें अवश्य ही तुम लोगोंको शुभ फल प्राप्त होगा ॥ ४१ ॥

अस्यां महासंयति साधनानां ध्येयस्य चाप्यस्ति विशुद्धिरिद्धा ।
साहाय्यभीशोऽपि करिष्यते यो जयश्च तस्मान्नियतो नितान्तम् ॥४२॥

इस महायुद्धमें साधनोंकी और ध्येयकी भी अत्यन्त शुद्धि है । मगवान् भी सहायता करेगा । तुम्हारा विजय तो अत्यन्त निश्चित ही है ॥ ४२ ॥

एतप्रयं यत्र फक्षपि तत्र पराजयो नास्ति महारणेऽपि ।
निर्बन्धना यापि सयन्धना या जयन्ति सत्याग्रहिणः सदैव ॥४३॥

यह तीनचीबें—साधनशुद्धि, ध्येयशुद्धि और इंद्रवरकृपा बर्हा रहेंगी यहीं महायुद्धमें भी—चाहे दूटे रहें और चाहे जेलमें रहें—सत्याग्रहियोंका मरना विजय ही होता है ॥ ४३ ॥

मया यदुक्तं यदि पालितं तद्भवेद्भवेदेव शिवाय वस्तत् ।
 अतः परं मे जनताहितार्थं किञ्चिन्न वक्तव्यमिहावशिष्टम् ॥४४॥

मैंने जो कुछ कहा है उसका यदि पालन किया जायगा तो तत् = वह पालन तुम लोगोंके कल्याणकेलिये ही होगा । इसके बाद अब मुझे जनताके हितकेलिये कहना कुछ बाकी नहीं है ॥ ४४ ॥

धैर्येण गीष्पतिसमप्रतिभो महात्मा
 सर्वानुपस्थितजनानुपदिश्य धर्म्यम् ।

कर्तव्यमार्तजनतार्तिहरो विसृज्य

तानाजगाम वसतिं स निजां तदानीम् ॥४५॥

व्यार्तजनताके दुःस्वोंको हरनेवाले और बृहस्पतिके समान प्रतिभावाले वह श्रीमहात्माजी धैर्यके साथ उपस्थित उन सब भाइयों और बहिनोंको धर्मयुक्त कर्तव्यका उपदेश देकर, उनको विदा करके अपने निवासस्थानमें आ गये ॥ ४५ ॥

ॐ लोकास्तदन्तिममुप्राञ्जयिलोकनाय

स्पर्शेन तच्चरणयोः स्वकृतार्थतार्यै ।

नद्यास्तटेपु विमलेपु च सैकतेपु

निन्युर्निशामविकलां हरिकीर्तनेन ॥४६॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिवाजकश्रीस्वामिभगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते


द्वादशः सर्गः

श्रीमहात्माजीके अन्तिम दर्शनकेलिये और उनके चरणोंका स्पर्श करके अपनी कृतार्थताकेलिये, सब लोगोंने वहाँ ही सारमर्ताके किनारे रेतीमें भजनकीर्तन करते हुए सारी रात बिता दी ॥ ४६ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिवाजकश्रीस्वामिभगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञसङ्गभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते द्वादशः सर्गः



❁ त्रयोदशः सर्गः

अथ गता रजनी विजनीभवद्यतिवराश्रम एव नृणां सताम् ।
दिधि च भास्करभाः प्रसृताः शनैरुपसृता वसुधावसुधातले ॥१॥

राली हो जानेवाले सत्याग्रह आश्रममें ही उन सज्जनोंकी रात गीत
गयी । आकाशमें और धीरे धीरे अनेक द्रव्योंके धारण करनेवाली पृथ्वी
पर सूर्यकी प्रभा फैल गयी ॥ १ ॥

सुरपतिप्रतिभेन निभेन संज्वलदुर्धुंधकेन महात्मना ।
सुरवनोपम आश्रम एपकोऽत्यचपलेन पलेन विहान्यते ॥२॥

इन्द्रसमान तथा जलते हुए अग्निसमान तेजस्वी दृढव्रत श्रीमहात्माजी
नन्दनवनके समान इस आश्रमको एक पलमें ही अब छोड़ देगे ॥ २ ॥

इति विचार्य तदार्यहृदालये परमशोकविलोकितभावना ।
समुदिताऽविदितायधिकेऽधिकेरितवियोगविपत्तिद्वानले ॥३॥

ऐसा विचारकर, उनश्रेष्ठ जनोके हृदय मन्दिरमें—जिसमें कि अधि-
उत्पन्न वियोगदुःखदावानल पहिलेसे ही मुलग रहा था और कब तक
मुलगेगा, ऐसी किसकी अवधि नहीं थी—परमशोकयुक्त भावना उदय
हुई ॥ ३ ॥

अहह यच्चरणार्पणभासिताऽवनिरिचं जगतीतलयिश्रुता ।
स नितरा परिहाय सतां चरो वरमतामपि तामथ यास्यति ॥४॥

अहो, जिनके चरणार्पणसे यह भूमि सारे जगत्में प्रसिद्ध हो गयी थी
वह सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ श्रीमहात्माजी, सज्जनोंसे सम्मानित इस भूमिको
छोड़कर चले जायेंगे ॥ ४ ॥

❁ इस सर्गमें हुतविलम्बित इन्द्र है ।

कथमयं गदपीडितविग्रहः परहितो रहितो बलशस्त्रैः ।
युधि समेधितवीर्यसुधासुधायुवसदि प्रहरिष्यति शात्रवम् ॥५॥

बढ़ी हुई वीर्यरूप सुधासे प्राणधारण करनेवाले अर्थात् बलधारण करनेवाले जवान भी जहाँ तक जाते हैं—लाचार हो जाते हैं उसी युद्धमें रोगसे पीडितशरीरवाले तथा सेना और शस्त्रसे रहित यह परोपकारी श्रीमहात्माजी शत्रुओंपर किसी रीतिसे प्रहार करेंगे ? ॥ ५ ॥

इति बहुव्यधितान्तरनिर्गलद्वचनसद्वदनप्रतिभाभुजा ।
जनतयोपनतव्यथयाऽऽर्तया कलकलोऽविकलः किल शुश्रुवे ॥६॥

इस प्रकारसे बहुत दुःखित मनसे निकलती हुई वाणीसे उदासमुखकी वान्तिको धारण करनेवाली अर्थात् उदासमुखवाली, आई हुई आपत्तिसे आर्त बनी हुई प्रजाने बहुत स्पष्ट कलकल-शब्दको सुना ॥ ६ ॥

गमनकाल उपस्थित एको यत्तिवरो नियतान्निजसैनिकान् ।
उपदिशन्निति तैः सकलैर्जनैरसहस्रः कृपणैः परिषीक्षितः ॥७॥

लोगोंने देखा कि गमनकाल उपस्थित होनेपर नियत किये गये हुए अपने सैनिकोंको अनुपम श्रीमहात्माजी इस प्रकारसे उपदेश कर रहे हैं:- ॥ ७ ॥

ॐ परिनिपात्य हि वः परतन्त्रतां रणभुवि प्रतिदर्श्य पराक्रमम् ।
मृत्तिमथाप्य तु यूयमिहाश्रमे प्रभवथागमनाथ न चान्यथा ॥८॥

रणभूमिमें अपना पराक्रम दिखाकर, अपनी परतन्त्रताको नष्ट करके ही अथवा मरकरके ही तुम लोग इस आश्रममें आ सकते हो, अन्यरीतिसे नहीं ॥ ८ ॥

युदियमेतु च मासि समापनं शरदि वा शरदां च गणेऽपि वा ।
अवगणय्य न तामथ कोऽपि यः कथमपीह समीप्यति वत्सकाः ॥९॥

ॐ यहाँसे १९ वें श्लोकतक उसी उपदेशका वर्णन है ।

हे वत्सक = मेरे अत्यन्त प्रिय बच्चे ! यह लड़ाई चाहे एक महीनेमें समाप्त हो, चाहे एक वर्षमें समाप्त हो और चाहे वर्षके वर्ष लग जायँ परन्तु इस लड़ाईको छोड़कर तुममेंसे कोई भी किसी रीतिसे भी इस आश्रममें नहीं आवेगा ॥ ९ ॥

अधिगृहं वसतां स्वकुटुम्बिनां विपद्बुदेतु मृतिर्वरमेतु वा ।
भवतु वा भवनं दहनाशितं न हि परागमनं भविताऽत्र वः ॥१०॥

घरमें रहनेवाले अपने कुटुम्बी चाहे दुःखी हों और चाहे भले मर जायँ और घर भी चाहे आगसे भसा हो जाय लेकिन तुम्हें पीछे नहीं लौटना होगा ॥ १० ॥

नियतमेतदखंडितवीर्यवद्भ्रतमुपासितुमस्ति व आ मृतेः ।
नहि परिग्रहहानतपस्विते भवति क्रोऽपि विहातुभिह क्षमः ॥११॥

आमरणान्त तुम लोगोंको इस अखण्डित प्रतापवाले व्रतकी उपासना करनी होगी । परिग्रहहान—अपरिग्रह और तपस्विता—सयमको कोईभी छोड़ नहीं सकेगा ॥ ११ ॥

अयमथास्ति महासमरस्तथा त्रिभुवनस्य हिताय महाध्वरः ।
नहि ऋते व इयं खलु वेदिभूरभिलपत्यपराः सुभगाहुतीः ॥१२॥

यह महासमर त्रिलोकीके हितकेलिये एक महान् यज्ञ है । इस यज्ञकी वेदिभू-वेदी तुम लोगोंके सिवा दूसरी आहुति नहीं चाहती है ॥ १२ ॥

यद्दि च यूयमपोहबला स्थ तरमथमतोऽपस्तिं भजताधुना ।
समरभूमिगता विनिवृत्य मां कुरत नैव कदापि विलज्जितम् ॥१३॥

और अगर तुम लोग निर्बल हो तो धमी प्रथमसे ही चले जावो । समरभूमिमें जाकर, लौटकर मुझे लज्जित कभी न करना ॥ १३ ॥

प्रकृतिकोप उदेप्यति सेत्स्यति स्वजनवंशवधः समिताविह ।
निरपराधजनातिनिकन्दनप्रभवशोणितशैबलिनी वहेत् ॥१४॥

इस युद्धमें अपने आदमियोंका वध होगा, प्रजा क्रुद्ध होगी, और निरपराध लोगोंकी हत्यासे रक्तकी नदीभी बहेगी ॥ १४ ॥

समुद्रिताश्वसायपरायणैर्युध इतश्च तथापि पलायनम् ।
नहि भविष्यति साधितमुद्यमैरवध एव भविष्यति पालितः ॥१५॥

तो भी जो निश्चय किया जा चुका है उसमें लगे हुए तुम लोगोंको युद्धसे मागना नहीं पड़ेगा और प्रयत्नके साथ अवध—अहिंसाका पालन करना होगा ॥ १५ ॥

निजजनैर्यवनैरथ हिन्दुभिः परजनैरपि या निहता वयम् ।
मरणमेत्य पवित्रमहिंसनव्रतमतीथ समुञ्ज्वलशामहै ॥१६॥

अपनेही आदमियोंसे—चाहे वह हिंदू हों या मुसलमान् हों—, या शत्रुओंके आदमियोंसे मारे गये हुए हम लोग, मरकर पवित्र अहिंसा-व्रतको अधिक उज्वल—यशस्वी बनावेंगे ॥ १६ ॥

यदि गृहे जनके जननीपदे मुत्तसुतादिपु वा वनितामुखे ।
रतिरुदेप्यति वः प्रिय आश्रमे जननिषेवणशक्तिरपत्तयेत् ॥१७॥

यदि घरमें, मातापितामें, बालबन्धुमें, स्त्रीमें और इत्य प्रिय आश्रममें यदि तुम लोगोंका प्रेम उत्पन्न होगा तो जनसमाजकी सेवा करनेकी शक्तिनाश होगा ॥ १७ ॥

बहुलचारविचारबिलोडनैः परिणतां परिणद्धयथार्धिकान्म् ।
व्यवसितिं चरमां परमामिमां न परिहासदृशा परिपश्यत ॥१८॥

बहुत सुन्दर विचारोंके मन्यन करनेसे निकले हुए शुद्धतत्त्ववाले इस महान् अन्तिम निश्चयको परिहासकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये ॥ १८ ॥

गमनमिच्छति सत्यपि यत्पती सह मया न परन्तु तदङ्गना ।
समभियाञ्छति तद्रमनं पृथक्कृत इद्वैय भविष्यति सम्प्रति ॥१९॥

यदि कोई पति मेरे साथ चलना चाहता है परन्तु उसकी स्त्रीकी इच्छा उसको जाने देनेकी नहीं है तो वह अभी ही और यहाँ ही पृथक् कर दिया जायगा ॥ १९ ॥

इति विवोध्व्युधाननुयायिनोऽमृतदृशा सकलानवलोकयन् ।

चलितुमेव समान्समुपादिशन्नुदजहान्निजमासनमाशु सः ॥२०॥

अपने समझदार अनुयायियोंको इस प्रकार समझानर, अनृतमयी दृष्टिसे सबको देखते हुए और चलनेकेलिये सबको आदेश देते हुए श्रीमहात्माजीने अपने आसनको छोड़ दिया ॥ २० ॥

जय जयेति सदक्षरसंसरत्प्रमददुर्धरसिन्धुसमाहृतः ।

जनतया स्तुतया परिचेष्टितो यत्तिपतिर्निरियाय तदाश्रमात् ॥२१॥

“जय-जय” इन सुन्दरवधरोसे बहता हुआ जो आनन्दका दुर्धर सागर था उससे आहत होकर प्रतिष्ठित जनतासे घिरे हुए परमसयमी श्रीमहात्माजी अपने आश्रमसे बाहर निकले ॥ २१ ॥

मुपरतः स्थित एव महामनाः स्थितिमतां क्रमशः सहाययिताम् ।

अथ च ते क्रमशोऽश्रतपुद्गुमैस्त्विकिताः सकला ललनाकुल्यैः ॥२२॥

जितने अनुयायी थे—तीनकू ये क्रमसे—एक लाइनसे निकलकर खड़े हुए । श्रीमहात्माजी सबके आगे खड़े थे । बहिनोंने सबको क्रमसे अश्रत और कुद्गुमसे तिलक किया ॥ २२ ॥

परमसाधुशिरोमणिरेपको ध्रजति शासनदूपितनीतिभिः ।

परमबुद्धमुपासितुमित्यतो नगरतो निरगुर्वत नागराः ॥२३॥

परमसाधुओंने सर्वश्रेष्ठ श्रीमहात्माजी सर्वारके अन्यायके साथ आदिगी बुद्ध करनेकेलिये आ रहे हैं, ऐसा सुनकर, जानकर, विचारकर सभी नगरनिवासी—अहमदाबादवासी नगरसे निकले ॥ २३ ॥

समग्रलोकितुमेतमर्घ्यतायिरचिताग्निलम्बन्यमनोहरम् ।

विरलमानवमानिनयादिनीपतिमर्शपजना अभिदुद्रुवुः ॥२४॥

अपूर्वताके साथ रची हुई अपनी सारी सेनासे सबके मनोको हरनेवाले, थोड़ेसे मनुष्योंसे मानित—युक्त सेनाके पति श्रीमहात्माजीके दर्शनकेलिये सब लोग दौड़ पड़े ॥ २४ ॥

वसनयन्त्रनिकेतनकाधिपा अगणिता अपरेऽपि धनेश्वराः ।

उपययुर्निजदारसुतासुतैः समवलोकितुमस्य शुभाननम् ॥२५॥

कपडोंकी मिलोंके मालिक और दूसरे भी अगणित सेंठ साहूकार अपने अपने बालबच्चों के साथ श्रीमहात्माजीके पवित्र मुलका दर्शन करनेकेलिये गये ॥ २५ ॥

नयनवारिचयं च सुलोचना नयनयोरधिरुध्य बलादपि ।

उपनता जनता मुदमुत्सिता कथमपि प्रससार सताम्पतिम् ॥२६॥

आयी हुई सुन्दर-पवित्र—नेत्रोंवाली जनताने अपने नेत्रोंके आँसुओंको निमी प्रकारसे बलात्कारसे नेत्रोंमेंही रोक कर हृष और शोकसे बँधी हुई होकर, साधुशिरोमणि महात्माजीके पास गयी ॥ २६ ॥

परमवैष्णवशुद्धपरम्पराप्रथममेनमवेक्ष्य हि निर्भरम् ।

निबद्धुलं च निजं च कृतार्थतामुपगता उपनेतुमसंख्यकाः ॥२७॥

परमवैष्णवोंकी शुद्धपरम्परामें सर्वश्रेष्ठ श्रीमहात्माजी का दर्शन करके अपनेको और अपने कुलको अत्यन्त कृतार्थ बनानेकेलिये अखरख्य आदमी वहाँ गये ॥ २७ ॥

विविधचित्रनिदर्शनयन्त्रिणो विविधवृत्तविकासनपत्रिणः ।

विविधदोपनिरीक्षणदृष्टयः प्रथमतः परितोऽत्र वितष्टिरे ॥२८॥

तरह तरह के चित्र खींचनेवाले—फोटोग्राफर, तरह तरहके समाचार छापनेवाले पत्रकार—सम्पादक, और तरह तरहके दोष निहारनेवालेभी पहिलेसेही आकर चारोंओर गढे हो गये थे ॥ २८ ॥

समवलोक्य चमूं च चमूपतिं हृदयवेदनयोत्पुलकावलिः ।

इति मिथोवचसा परिवर्तनं रचयति स्म तदा जनताऽऽकुला ॥२९॥

सेना थीर सेनापति दोनोंही देखकर, हृदयकी वेदनासे रोमाश्रित होकर व्याकुल, बनी हुई जनता आपसमें इस प्रकार बातें करने लग गयी ॥ २९ ॥

० अगणितैः प्रबलैः कपिभङ्गैः प्रविचिता रघुनाथयहृदिनी ।

गतयती लघुराज्यवसुन्धरा पतिजयाय समुद्रविलङ्घिनी ॥३०॥

एक छोटेसे राज्यके राजाको—राजको जीतनेकेलिये समुद्रको पार

करनेवागी जब श्रीरामकी सेना चली थी तो उनमें बड़े बड़े बन्धान् अगणित बानर और भालु गचागच भरे हुए थे ॥३०॥

इदमनीकमयेति † च कीर्कनैस्त्यगभिवेष्टितकैस्तु विनिर्मितम् ।

अहह सामिजग-प्रभुनास्फुरन्नरपतेरनयं परिमार्जितुन् ॥३१॥

और यह सेना आधे शंकरके प्रभुत्वसे प्रकाशमान राजाके अन्धापकी दूर करनेकेलिये जा रही है; परन्तु इस सेनाका शरीर कैसा है ! केवल हड्डियोंके ऊपर घमड़ा मढ़ा हुआ है । अतः आश्चर्य है ॥ ३१ ॥

निशिचराधिपतैर्विजिघासया परमकोपभरेण विकम्पितः ।

रघुपतिर्न दधात्युपमामिहाऽयिदासनप्रतदीक्षितभूभुजः ॥३२॥

राक्षसराज राजाके घब करनेकी इच्छासे शत्रुके मारे बैठते हुए श्रीराम इस दिवसमें अटिगामाकी टीछामे दीक्षित भू-भोगीके सरदार भीमहा-मादीकी, बतवरी नहीं कर गकने ॥३२॥

अपि च युद्ध इहास्तु कथं स्थितो भयभयानिनिर्वाहितमानसः ।

मरणदंशुभीतिद्विषामया गिरिपदे निवसंगदसे पिरम् ॥३३॥

गंठारके भयने तिनका मन आवन्त पीड़ित था, ओ मरणदंशुभयनचको दूर करनेकी इच्छामे तदगत्ता बरते हुए पहाड़में—गदगिनिमे निताग

० पर्याय ३४ वें श्लोकमें उक्तका परस्पर वाचस्पत्य है ।

‡ इन् पदार्थोंके अर्थों में च नन् ।

करते थे वह बुद्ध तो श्रीमहात्माजीके सामने राडे ही कैसे हो सकते हैं ? ॥ ३३ ॥

तदुपमां न स कृष्ण उपाश्रुते समितिनीतिमनीतिसभाभृताम् ।
अनुसरन्नव एव जगत्रये निरुपमोऽद्य बभूव स निष्कमः ॥३४॥

अनीतिसभा = अनीतिसमुदायको धारण करनेवाले राजाओंकी बुद्ध-नीतिका अनुकरण करनेवाले भगवान् कृष्ण भी श्रीमहात्माजी की उपमा नहीं पा सकते । अत एव वह निष्कमण छ निराला ही था ॥ ३४ ॥

निरसरद्यतिरेप यदाश्रमात्तदभिदर्शनकामनयाऽऽगताः ।
उभयतः सरणिं समुपस्थिता विकलिता, पुरुषा अथ योपित. ॥३५॥

जिस समय श्रीमहात्माजी आश्रमसे बाहर निकले उस समय उनके दर्शनकेलिये यहाँ आये हुए स्त्री पुरुष व्याकुल होकर मार्गके दोनों ओर खडे थे ॥ ३५ ॥

प्रतिपद् जनता घृतदीपक ज्वलितमस्य पुरः समदर्शयत् ।
शिरसि चाक्षतवृष्टिमवर्षयत्सुकुसुमानि तथा समवाकिरत् ॥३६॥

जब महात्माजी चलने लगे तो पग पग पर लोग घृतका दीपक जलाकर उन्हें दिखाते थे अर्थात् उनको आर्तों उतारते थे । मस्तकपर अक्षत और फूलोंकी वर्षा करते थे ॥ ३६ ॥

छ कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवान् श्रीराम और भगवान् श्रीकृष्ण इन दो अवतारोंने भी शत्रुसंहार किया है और शत्रुसंहार करनेकेलिये इन दोनों महाविभूतियोंको भी अधिनिष्क्रमण करना पड़ा है । परन्तु दोनों ही हिंसावृत्तिको धारण करनेवाले थे । श्रीमहात्माजीने भी शत्रुसंहार किया है परन्तु यह संहार लोकोत्तर है और उसका साधन अहिंसा-दास्य भी लोकोत्तर ही है । अतः इस विषयमें किसीकी उपमा महात्माजीके इस महाभिनिष्क्रमणसे नहीं दी जा सकती । भगवान् बुद्धका निष्क्रमण और प्रसारण था ?

न हि सुराः सुरलोकत आकिरन्सुरतरुद्भवपुष्पचयान्यतः ।

इममपूर्वमवेक्ष्य विनिष्क्रमं विचकिता न किमप्यभिसत्सरुः ॥३७॥

इस समय स्वर्गसे देवताओंने कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा नहीं की । इसका कारण यह था कि इस अपूर्व अभिनिष्क्रमणको देखकर वह सब आश्चर्य में पड़ गये थे और उनको कुछ स्मरण नहीं रहा ॥ ३७ ॥

परित एलिससेलुमुदाशयाः सुरभिवारिघटैरसिचन्पथः ।

नयनहृद्रचनापरिकल्पितं समसृजन्महदेव सुगोपुरम् ॥३८॥

ॐ एलिमत्रिजके चारों ओर उदार आशयवाले = उदार विचारवाले माश्योंने चारों ओर सड़कोपर सुगन्धित बलोंका छिड़काव कर रखा था । और तरह तरहके शृङ्गारोंसे सजाकर एक बड़ा भारी X गोपुर बनाया था ॥ ३८ ॥

अगणितानि शतानि नृणां ययुः प्रकृतिदुःस्थितिदुःखविलोडितैः ।

नरवरैः सह तीः परिभुम्रहन्नलिनकान्यनकानि च योजनम् ॥३९॥

प्रजाती परात्र स्थितिके दुःखसे दुःखित उन नरवरोंके साथ = श्री महात्माजी और उनके सैनिकोंके साथ, दुःखसे व्याकुल हृदयकमलवाले हजारों आदमी प्रसन्न होकर चार चार माइलतक गये ॥ ३९ ॥

वपगतान्सकलानुपचण्डुलं प्रतिनिवर्तयितुं यतिनायकः ।

मृदुगिरोपदिदेश च पद्यया तदनुकम्पितया प्रजितुं मुदा ॥४०॥

साधमें आये हुए लोगोंको पीछे लीटनेकेलिये श्रीमहात्माजीने चण्डुला—चण्डोटा तालाबके पास, कोमल—प्रेमभरे वचनोंसे उपदेश

ॐ अहमदायाद सादरं योचमं हो कर सायरमती नदी बहती है । उसीपर एक पुत है । उसका नाम एगिसमिज है । एगिस एक अंग्रेज था । मिजका अर्थ पुल है । उसी एलिसके नामपर यह पुल बना था ।

X गोपुर = नगरका महाद्वार अथवा द्वारमात्र ।

दिया और उनके ग्रहण किये हुए मार्गपर चल्नेका भी उपदेश दिया ॥ ४० ॥

प्रतिनिधौ प्रहितं च मया दलं सिततनोर्नरपस्य तदुत्तरम् ।
हृदयवेधकमागतवत्ततो न हि भवेदत् उत्तमयोजना ॥४१॥

अंग्रेज राजाके प्रतिनिधि = बाइसरायके पास मैंने पत्र भेजा था । उसका उत्तर आया है और वह बहुत हृदयवेधक है । अतः इससे उत्तम योजना (दूसरी) नहीं है ॥ ४१ ॥

भवति बाइसरायथ चत्प्रजाप्रतिनिधिर्नहि ता विदिता भुवि ।
नमयितुं सुखतस्तत एव मत्परिगृहीतपथेन च गम्यताम् ॥४२॥

किंच, बाइसराय जिस प्रजाके प्रतिनिधि हैं वह प्रजा पृथिवीपर आसानीसे छुटनेकेलिये प्रसिद्ध नहीं है अर्थात् आसानीसे छुटायी नहीं जा सकती । इसलिये मेरे ग्रहण किये गये हुए मार्ग पर तुम सब लोग चलो ॥ ४२ ॥

ॐ आश्वास्यामे सकलनयनान्संस्थितान्मानवांस्तान्
सर्वानेव व्यथितहृदयान्बोधयित्वा महात्मा ।
दुर्दम्यानां प्रसरवलितानां निष्कृपाणां प्रमादं
दूरीकर्तुं जगदघहरः सानुकम्पो ययौ सः ॥४३॥

सामने पड़े हुए—जिनके हृदय व्यथित थे और जिनकी आँसुओंमें आँसू थे—लोगोंको इस प्रकारसे उपदेश देकर, आश्वासन देकर, दुर्दम्य, महाबलवान् और निर्दय लोगोंके प्रमादको दूर करनेके लिये जगत् के पापोंके हरनेवाले, दयालु धीमहात्माकी यहाँसे आगे गये ॥ ४३ ॥

आसीत्तस्य प्रथमदिवसे यानभङ्गोऽसलात्या,
यत्तव्यस्तत्तदभिवदनः सेनया सम्परीतः ।

वाचा दृष्ट्या प्रतिपदमथागण्यलोकानशोकान्,

कुर्वन्श्रीमत्परमयमिराट् ÷ लङ्घनं प्राप सुस्थः ॥४४॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहत्परिवाजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

त्रयोदशः सर्गः

श्रीमहात्माजीको पहिले दिन असलाली गाँवमें पडाव डालना या अतः अपनी सेनाके साथ उधरको ही चल दिये । मार्गमें सर्वत्र अगणित लोग राढ़े थे । सबको वाणी और दृष्टिसे शान्त करते हुए परम सयमी श्रीमहात्माजी मुखपूर्वक पडावमें असलाली ग्राममें पहुँच गये ॥ ४४ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञराष्ट्रभाषाटीकामहिते

भारतपारिजाते त्रयोदशः सर्गः

चतुर्दशः सर्गः

अथ ग्रामनियुक्तेन सेवकेन प्रबोधिताः ।

युवानो बालका वृद्धाः स्त्रोपुंसाः सुव्यवस्थिताः ॥१॥

जब श्रीमहात्माजी असलाली ग्रामके निकट पहुँचे तो, समाचार देनेकेलिये जो आदमी ग्राम की ओरसे नियुक्त किया गया था उसने सस्की सूचना दे दी । जवान, बालक, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सुव्यवस्थित होकर—॥ १ ॥

हर्षोन्मादसमायुक्ताः सत्कर्तुं तं परन्तपम् ।

सद्गानवादनैरभ्रं नादयन्तः प्रतस्थिरे ॥२॥

हर्षके उन्मादसे युक्त होकर, काम क्रोधादिज्ञानुभोंको तपानेवाले श्रीमहात्माजीका स्वागत करनेकेलिये गाने और बाजेके शब्दसे आकाशकी गुंजाते हुए चले ॥ २ ॥

अर्धगञ्ज्युतिमध्वानं प्राप्य ग्रामजनाः समे ।

चिदात्मानं महत्मानं ददृशुस्तं तपस्विनम् ॥३॥

सभी ग्रामवासी जनोंने दो माइल दूर तक जा कर उन चिदात्मा, तपस्वी श्रीमहात्माजीका दर्शन किया ॥ ३ ॥

देवराजमिवायान्तं सैन्यैर्युक्तं सुरैरिव ।

नयनातिथितां नीत्या सं नात्मनि समुञ्च ते ॥४॥

देवोंके समान सैनिकोंसे युक्त, देवराज—इन्द्रसमान तेजस्वी श्रीमहात्माजीका दर्शन करके ग्रामवासी लोग अपनमें नहीं समायें ॥ ४ ॥

सज्जैः कलसैर्भद्राः सुभगात्ममुलोचनाः ।

अस्तालीयोपितः सर्वा अतिथिं पर्यथारिपुः ॥५॥

सुभगाए—श्रीमहात्माजीके आमुओंसे—एसांधुसे सुन्दर अतिथीवाली

अस्लालीकी कल्याणपूर्णा स्त्रियोनि जलमशित छः घड़ोंको लेकर द्यतिथि-
श्रीमहात्माजीको घेर लिया ॥ ५ ॥

विधाय स्वागतं तस्य सेनायाश्च मधुखराः ।
गीतिकाभिः प्रवृत्ताभिरात्मप्रेम न्यदर्शयन् ॥६॥

श्रीमहात्माजीका धीर उनकी सेनाका स्वागत करके मीठे स्वरवाली
उन बहिनोंने गीत गाकर अपना प्रेम प्रकट किया ॥ ६ ॥

अक्षतानि च पुष्पाणि सहस्रैः करवारिजैः ।
युगपद्युगनाथस्य मस्तके ताः प्रचिक्षिपुः ॥७॥

उन बहिनोंने हजारों करकमलोंसे वर्तमानयुगके स्वामी श्रीमहात्माजी-
के मस्तकपर अक्षत और पुष्पोंकी एक साथ ही वर्षाकी ॥ ७ ॥

केचित्प्रणामान्साष्टाङ्गान्कृत्वा स्वान्वहमानयन् ।
केचित्तत्पादपादोजपरागाम्मस्तके न्यधुः ॥८॥

पुरुषोंमेंसे किन्हींने साष्टाङ्ग प्रणाम 'करके अपनेको धन्य माना और
किन्हींने श्रीमहात्माजीके चरणकमलकी धूरिको अपने मस्तकपर धारण
किया ॥८॥

तत्पादन्याससम्पूतरजासि निजचक्षुषोः ।
अक्षयन्तः परं केचिदमाङ्क्षुर्मङ्क्षु मुन्निधौ ॥९॥

कोई तो उनके चरण कमलके पड़नेसे पवित्र हुई धूरिको अपनी
आँसुओंमें लगाते हुए ध्यानन्दसागरमें तत्काल मग्न हो गये ॥ ९ ॥

निमेषरहितैरेते हिनैरसुहितैस्तदा ।
भूयो भूयः पिबन्ति स्म तं विलोचनसम्पुटैः ॥१०॥

छः गुजरालकी प्रथा है कि किसी महान् पुरुषका स्वागत करनेके-
लिये बहिनें कोसों दूर तरु धातुके कलशोंमें जल लेकर जाती हैं ।

उन ग्राम्यबन्धुओंने बिना पलक गिराये, अत एव हितकारक अतृप्त नेत्रसम्पुटोंसे बार बार श्रीमहात्माजीको पी रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे ॥ १० ॥

आतपेऽवस्थितस्यास्य मुखे प्रस्वेदविन्दवः ।

तान्प्रयातुं त्वरां कर्तुं प्रेरयामासुरुद्रताः ॥११॥

धूपमें खड़े रहनेके कारण श्रीमहात्माजीके मुखपर प्रस्वेदविन्दुओंने ग्रामके लोगोंको घलनेकेलिये शीघ्रता करनेकी प्रेरणा की ॥ ११ ॥

साहस्रैश्च कुलस्त्रीणां सहस्रैः सन्नृणां तथा ।

जङ्गमाश्रमनाथोऽसौ परीतः परितो ययौ ॥१२॥

सहस्रों कुलीन बहिनों और सहस्रों सत्पुरुषोंसे घिरे हुए वह जङ्गम-आश्रमके स्वामी श्रीमहात्माजी गँवकी ओर गये ॥ १२ ॥

रथ्याभिरतिरथ्याभिर्वीर्जिताभिर्मलीमसैः ।

अर्चिताभिः पताकाभिरसलाली व्यशोभत ॥१३॥

अतिरथ्या-जिनमें रथ यगैरः जा सकते थे ऐसी, पताकाओंसे सुशोभित निर्मल-स्वच्छ गलियोंसे असलाली ग्राम शोभित हो रहा था ॥ १३ ॥

दूरतो दर्शनं कृत्वा निवेशनपुरस्य सत् ।

प्रसादौपचयं लेभे चेतोवृत्तिर्महात्मनः ॥१४॥

निवेशनपुर-टहरनेकी जगह—पडाव-पा—असलाली गँवका दूरसे ही दर्शन करके श्रीमहात्माजीके सत्-पवित्र हृदयने प्रसन्नता प्राप्त की—अर्थात्—श्रीमहात्माजी उस गँवको दूरसे ही देखकर प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥

पुरानुशामनुसृत्य सोऽसलालीमहाजनः ।

प्रबन्धमपिलं चक्रे सैन्याहारविहारयोः ॥१५॥

पुरानुज्ञा = गँवकी आज्ञाके अनुसार ही असलालीके महाजनने

श्रीमहात्माजीकी सेनाके भोजन और विश्रामस्थानका सब प्रबन्ध कर
रहा था ॥ १५ ॥

सेनायां शिविरस्थायां स्वस्थायां श्रान्तिभङ्गनात् ।

कृतस्नानाशनाद्यायामधितप्तौ स वेदिकाम् ॥१६॥

जब सेना स्नान, भोजन आदि सब क्रिया कर चुकी, यकायकके दूर
हो जानेसे जब शिविरमें स्वस्थ हुई तब श्रीमहात्माजी वेदीपर-
व्याख्यानवेदीपर जा विराजे ॥ १६ ॥

महात्मा परितः स्वं तान्स्थितान्प्रास्यजनांस्तदा ।

उद्दिश्याथोपदेशाय स्वभावेनोपचक्रमे ॥१७॥

अपने चारों ओर बैठे हुए ग्रामीण बन्धुओंको सम्बोधन करके,
स्वभावतः ही, उपदेश देनेकेलिये श्रीमहात्माजीने आरम्भ किया ॥ १७ ॥

सप्तदश शतानीह सन्ति प्रामेऽत्र मानवाः ।

तथापि सादियस्त्राणामभावो मम खेदकः ॥१८॥

इस गाँवमें १७०० आदमी बसते हैं तो भी सादीके अभावसे मुझे
दुःख हो रहा है ॥ १८ ॥

वैदेशिकानि वस्त्राणि समर्प्य ज्वलितेऽनले ।

तन्तून्सृष्ट्वा स्थहस्तेन तथोत्था परिधत्त च ॥१९॥

विदेशी वस्त्रोंको जलती आगमें डालकर, अपने हाथसे सूत बनाकर,
युनकर उसे तुम लोग धारण करो ॥ १९ ॥

एतावतैव वार्येण मन्यध्वं नो कृतार्थताम् ।

कर्तव्यानां परा काष्ठा नेदानीं पिद्यते खलु ॥२०॥

इतना ही वार्य करके कृतार्थता मत समझ लेना । आज करनेकेलिये
जितने काम आगे पड़े हैं उनकी, सबमुझमें, सीमा नहीं है ॥ २० ॥

सादीवादं समाप्यैप लरणप्रयणोऽभवत् ।

लवणस्य फरमायं स्फोटयामास मुग्रतः ॥२१॥

सादीकी बातको समाप्त करके श्रीमहात्माजी नमस्की ओर हुके
उन्होंने टैक्सकी क्रूरताका स्पष्टतया वर्णन किया ॥ २१ ॥

राज्यमानेन च मणाश्चत्वारि हि शतानि च ।
क्षाराणामुपयोज्यन्त आस्त्रालैः प्रतिवत्सरम् ॥२२॥

अस्त्राली गोंवके निवासी तुम लोग सर्कारी मापसे ४०० मन नमक
प्रतिवर्ष अपनेलिये रच करते हो ॥ २२ ॥

मणः शतं हि सार्धैकमूनादूनं चतुष्पदाम ।
हेतोरपेक्ष्यते तस्य विद्यते नात्र संशयः ॥२३॥

और कमसे कम पशुओंकेलिये उसी सर्कारी मापसे १५० मन नमक
चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २३ ॥

चर्मकाराः प्रयुञ्जीरंस्तच्चेचर्मविशोधने ।
कृषिकारैर्यदि क्षेत्रे प्रक्षेप्तुं तद्वत्पेक्ष्यते ॥२४॥

यदि चमारलोग चमडेको शुद्ध करनेकेलिये—कमानेकेलिये नमकका
प्रयोग करते हैं और यदि किसान खेतमें डालनेकेलिये नमक चाहते
हैं तो—॥ २४ ॥

एवं युष्माभिरब्देन तावद्वणहेतवे ।
अष्टौ शतानि दीयन्ते पृथ्वीपालाय रूप्यकाः ॥२५॥

इस प्रकारसे इतने नमककेलिये तुम लोग एक वर्षमें ८०० रुपये
सरकारमें भरते हो ॥ २५ ॥

एतस्मिन्भारते वर्षे सप्त प्रतिदिनं पणाः ।
आयः प्रतिजनं हन्त दुर्भिक्षोपप्लुते परम ॥२६॥

इस दुर्भिक्षपीडित भारतवर्षमें प्रत्येक आदमाँकी प्रतिदिन की आय
केवल सात पैसे हैं ॥ २६ ॥

कियन्त्येव कुटुम्बानि भिक्षान्नैः प्राणधारणम् ।

कुर्वन्ति येनकेनापि दुर्भाग्ये भारतेऽधुना ॥२७॥

आज इस इतनाग्य भारतमें कितनेही परिवार भीख मार्ग कर किसी किसी प्रकारसे प्राणरक्षा कर रहे हैं ॥ २७ ॥

भिक्षान्नस्याप्यलाभेन म्रियन्ते केचन क्षुधा ।

उचितं तद्भवेदंतद्राजस्य लाघणं कथम् ॥२८॥

कितनोंको तो भीख मी नहीं मिलती और भूखसे मर जाते हैं । तब नमकना इतना अधिक कर कैसे उचित हो सकता है ? ॥ २८ ॥

सार्धाणकेन यत्प्राप्यं पञ्जाये लघणं मणः ।

गुर्जरादिप्रदेशेषूत्पाद्यतेऽधिकमेव यत् ॥२९॥

तदेव निर्धनैर्देत्त्वा सार्धैकं रूप्यकं यदि ।

प्रेतुं न शक्यते तर्हि शासकेन विनाशयते ॥३०॥

पञ्जायमें जो नमक डेढ़ आनेमें एक मन मिलता है और जो नमक गुजरात आदि-फाटियावाड आदिमें अधिक परिमाणमें तैयार होता है—उसा नमकको यदि डेढ़ रुपया देकर गरीब आदमी नहीं खरीद सकते हैं तो उस नमकको सरकार छः नष्टकर देती है ॥ २९ ॥ ३० ॥

एवं कठोरतापूर्णं शासनं सम्प्रवर्तते ।

तस्य नाशाय सामग्री संचेया सर्वभारतैः ॥३१॥

इस तरहसे निर्दयतापूर्ण राज्य चल रहा है । इसका नाश करनेकेलिये एवं भारतवाणियोंको सामग्री-संग्रह करना चाहिये ॥ ३१ ॥

भूप्रतिनिधौ धतुं चिनष्टं लाघणं करम् ।

प्रहितं प्रार्थनापत्रं भया नैवागृणोदसा ॥३२॥

छः नमकको दोगाढ़ देनेकेलिये सरकार पैसा देकर नौकर रखती है । यह नौकर उस नमकमें मिट्टी पागरह मिला देते हैं जिनसे कि यह किसीके उपयोगमें न आवे ।

इस नमस्करको हटा देनेके लिये मैंने बादशाहके प्रतिनिधि वाइसराय (लार्ड हर्विन) को प्रार्थनापत्र भेजा परन्तु उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया ॥ ३२ ॥

यासां प्रजानां सन्धत्ते प्रातिनिध्यमसौ न ताः ।

साधनीयाः सुखेनैव नैव्कारुण्यपरायणाः ॥३३॥

यह वाइसराय जिस प्रजाके (अंग्रेजी प्रजाके) प्रतिनिधि हैं वह प्रजा बड़ी निर्दय है और सुखसे वशमें नहीं की जा सकती ॥ ३३ ॥

पश्चात्तपन्ति न कापि सम्पाद्याधमपीह ताः ।

न शृण्वन्ति न परयन्ति दीनवाणीश्च दीनताम् ॥३४॥

यह अंग्रेजी प्रजा पाप और अपराध करके भी पश्चात्ताप नहीं करती । यह न तो दीनोंकी आवाज़को सुनती है और न ग़रीबीकी ओर देखती है ॥ ३४ ॥

मुष्टीमुष्टि त्विमाः क्रीडां शक्नुवन्ति निरीक्षितुम् ।

घटिकां प्रहरं वापि लोकोद्वेगप्रदायिनीम् ॥ ३५ ॥

यह प्रजा एक घण्टेतक अथवा एक पहरतक मुका और घूमा मार मार कर खेलेजानेवाले खेलको देखती रह सकती है जबकि दूसरोंको उस खेलसे व्याकुलता पैदा होती है ॥ ३५ ॥

अस्थिभञ्जनिकां क्रीडां फान्दुकीमपि ताः सदा ।

अत्युद्वेगकरो हृष्टा नैव शृण्वन्ति कर्हिचित् ॥३६॥

यह प्रजा हठी तोड़नेवाले गेंदके खेलको—जो कि अत्यन्त उद्वेग करनेवाला है—भी, सदा देखकर भी कर्मी नम नहीं होती ॥ ३६ ॥

एवं याः कठिनाः क्रराः सदा स्वार्थपरायणाः ।

वाभ्यः प्रतिनिधेरेषां नाहूता मद्भ्योऽश्रुतिः ॥३७॥

जो प्रजा इतनी कठिन, क्रूर और स्वार्थी है उसका प्रतिनिधि यदि मेरी बातको न सुने तो उसमें कोई आशय नहीं है ॥ ३७ ॥

इदं तु निश्चितं ज्ञेयं भारते लावणः करः ।
अवश्यं मरणायतोऽपरे ये केऽपि तादृशाः ॥३८॥

यह तो निश्चित ही समझना चाहिये कि भारतवर्षमें यह नमकका कर 'अन्न मरणाधीन' हो है। उसी प्रकारके जो दूसरे कर हैं उनकी भी वही दशा है ॥ ३८ ॥

एतादृशः करो योऽन्यो बाध्यः सोऽपि प्रजाजनैः ।
यदि शक्तिस्तथा कर्तुं नास्ति साध्या हि साऽधुना ॥३९॥

इस तरहका कोई दूसरा भी (अन्यथा) कर हो तो प्रजाको चाहिये कि उसका भी नाश करे। यदि नाश करनेकी शक्ति प्रजामें न हो तो आज उसे पैदा करनी चाहिये ॥ ३९ ॥

अदेया यत्र बाध्येरब्शासने निरित्याः कराः ।
नीतिविद्भिस्तु तद्राज्यं प्रजासत्ताकमुच्यते ॥४०॥

जिस राज्यमें न देने योग्य कर हटा दिये जाते हैं उसी राज्यको नीतिज्ञ लोग प्रजासत्ताक राज्य कहते हैं ॥ ४० ॥

कदा कुत्र च किं वस्तु देयं नादेयमेव वा ।
निश्चीयते प्रजाभिस्तु तद्राज्यं प्राजमुच्यते ॥४१॥

जिस राज्यमें कब, कहाँ और कौनसी वस्तु दी जा सकती है और कब, कहाँ और कौनसी वस्तु नहीं दी जा सकती इसका निश्चय प्रजा ही करती है वह राज्य प्रजासत्ताक राज्य कहा जाता है ॥ ४१ ॥

प्रजानां प्रातिकूल्येन जनो नैकोऽपि यत्र च ।

वन्दिष्यते नीयते कोऽपि तद्राज्यं प्राजमुच्यते ॥४२॥

जिस राज्यमें प्रजाके प्रतिकूल—प्रजामतके विरुद्ध, किसी एक आदमीको भी बैदी नहीं बनाया जा सकता उसे प्रजासत्ताक राज्य कहते हैं ॥ ४२ ॥

प्रजासु च विरुद्धासु शासनेन न शक्यते ।
यत्र किञ्चिद्वलाद्धतुं तद्राज्यं प्राजमुच्यते ॥४३॥

जिस राज्यमें प्रजाके विरुद्ध हो जानेपर सरकार बलात्कारसे कोई भी वस्तु नहीं ले सकती है उसे प्रजासत्ताक राज्य कहते हैं ॥ ४३ ॥

एतादृशं हि सौराज्यं स्वराज्यापरनामकम् ।
संस्थापनीयमस्माभिर्धार्मिकेणैव वर्त्मना ॥४४॥

इस प्रकारका सुन्दर राज्य—जिसका दूसरा नाम स्वराज्य है—
हम लोगोंको धर्मयुक्त मार्ग से स्थापित करना चाहिये ॥ ४४ ॥

अन्याध्यशासनोद्भङ्गं कर्तुमेव समुत्सुकाः ।
दाडीं यामो महाधाम सम्प्रदोद्धयैव शासनम् ॥४५॥

अन्यायपूर्वक कायदोषा भङ्ग करनेकेलिये ही उत्सुक होकर,
सरकारको खतर देकर हम लोग महाधाम—तीर्थधामान—दाडीके
लिये जा रहे हैं ॥ ४५ ॥

लवणं सर्जयिष्यामो भक्षयिष्यामहे च तत् ।
त्रेप्यामश्नापि लोकेभ्यस्वद्वित्रेप्यामहे तथा ॥४६॥

यहाँ हम लोग निर्भय होकर नमक बनायेंगे और लायेंगे ।
नमकको लोगोंका बेचेंगे और लोगोंसे खरीदेंगे भी ॥ ४६ ॥

यदि वन्दिगृहं गन्तुं प्राप्स्यतेऽवसरस्तदा ।
तत्रापि च गमिष्यामो वित्तैतन्निश्चित हि नः ॥४७॥

यदि जेल जानेका समय आदेगा तो जेल भी हम जायेंगे । वर,
यही हम लोगोंका निश्चय है, उसे ठीक समझ लो ॥ ४७ ॥

लक्षाणि नरत्तिष्ठन् गुर्जरेषु निवासिनः ।
विद्वांसो धार्मिकाः शूराः सत्यप्रवृत्तयणाः ॥४८॥

इस गुजरातमें ९० लाख विद्वान्, धर्मात्मा, शूर और सत्यव्रतवा-
लोग रहते हैं ॥ ४८ ॥

अनायासेन संप्राह्यार्क्षिशहस्राणि मानवाः ।

कारां गन्तुं तथा सोढुं विपत्तीनां परम्पराम् ॥४९॥

इनमेंसे ३० लाख मनुष्य जेरु जानेकेलिये ओर तरह तरहकी
विपत्तियोंको सहनेकेलिये सहजमें ही मिल जायेंगे ॥४९॥

त्यक्ताश्रमा वयं सर्वे गच्छामः स्वेष्वसिद्धये ।

परित्यज्य मृतेर्भक्तिं जीवितेषु स्पृहामपि ॥५०॥

हम सब लोग सत्याग्रह आश्रमको छोड़कर अपनी इष्ट
सिद्धिकेलिये, मृत्युका भय और जीवनका लोभ छोड़कर जा
रहे हैं ॥ ५० ॥

तावत्यः सन्ति नो काराः शासनेन विनिर्मिताः ।

यत्र वासयितव्याः स्युर्क्षिशहस्राणि मानवाः ॥५१॥

सर्कारने इतने जेलखाने नहीं बनाये हैं कि जहाँ ३० लाख आदमी
रहे जा सकें ॥ ५१ ॥

गुलिकाखप्रहारेण स्थानाभावे च वन्दिनः ।

भवेयुर्निहताः सर्वे शासनेन कलङ्किना ॥५२॥

यदि जेलोंमें जगह नहीं होगी तो सब कैदियोंको वह कलङ्की सर्कार
गोलियोंसे मार सकती है ॥ ५२ ॥

आश्रमाच्च समात्भ्य मयाऽऽचण्डोलमेव यः ।

सम्मर्दो योपितां पुंसां दृष्टः सोऽस्तु शुभाय नः ॥५३॥

सत्याग्रह आश्रम साबरमतीसे लेकर चण्डोलतालाब तक—
७ माइल मैंने बहिनों ओर भाइयोंकी जिस भीड़को देखी है वह भीड़
हमारा कल्याण करेगी ॥ ५३ ॥

योपितां तावतीनां च पुरुषाणां च तावताम् ।
नेत्रामृतेन सिक्त्वाङ्गान विभीमो मृतेर्वयम् ॥५४॥

उतनी बहिनों और उतने भाइयोंकी आँसोंके अमृतसे हम स्त्रेगोंका शरीर सींचा गया है । अतः हम लोग मृत्युसे नहीं डर रहे हैं ॥ ५४ ॥

यदि सूर्यप्रकाशः स्यान्मिथ्येन्दुः स्यादशीतलः ।
अधीरेयं धरा चेत्त्यात्तदा व्यर्थास्तदाशिषः ॥५५॥

यदि सूर्यका प्रकाश मिथ्या हो जाय, चन्द्रमा उष्ण हो जाय और यह पृथिवी अपने धैर्यको छोड़ दे, यदि यह सब अतहोनी बातें हो जायँ तभी उन बहिनों और भाइयोंका आशीर्वाद मिथ्या हो सकता है ॥ ५५ ॥

अन्याप्याच्छासनाद्य सर्वथा लवणालयान् ।
स्वायत्तीकृत्य निश्चिन्ता भवेमाऽरुन्तुदा हि ते ॥५६॥

आज इस अन्यायी सरकारसे नमरुके कारखानोंको अपने अधिकारमें करकेही हम लोग निश्चित होंगे क्योंकि यह कारखाने हम लोगोंको दुःख दे रहे हैं ॥ ५६ ॥

अधिकाराच्च राज्यस्य तानाच्छिद्य सदाग्रहात् ।
लवणीयः करो नादयो यावच्छक्यं मयाऽऽशु सः ॥५७॥

सत्साम्रुके द्वारा राज्यके अधिकारमें उन नमरु-कारखानोंको छानकर यथाशक्ति शीघ्र ही नमरुके फरको में नाश करूँगा ॥ ५७ ॥

लवणस्य करस्याशु विप्रणाशोऽद्य मन्मथौ ।
स्वप्राप्यस्य स्वराज्यस्य सोपानं प्रथमं मतम् ॥५८॥

जिस स्वराज्यको हम लोग लेना चाहते हैं उसकेलिये, मेरे मतमें, नमरुके फरका नाश, पहिली सीढ़ी है ॥ ५८ ॥

एषा महात्मनो वाणी मानिना मानभङ्गनी ।
पञ्चदश सहस्राणि जनचैतासि आविशत् ॥५९॥

मानियोके मानको नष्ट कर देनेवाली यह श्रीमहात्माजीकी वाणी १५
सहस्र मनुष्योंके हृदयमें प्रवेश कर गयी ॥ ५९ ॥

सर्वे गद्गदया वाचा जयघोषमुदैरयन् ।
महात्मनस्तदा तस्य सत्यस्येव शरीरिण ॥६०॥

श्रीमहात्माजी ऐसे थे मानों साझात् सत्व ही शरीर धारण करके थाया
हो । लोगोंने गद्गदवाणीसे श्रीमहात्माजीका जयघोष किया ॥ ६० ॥

इति जनताहृदये प्रतिष्ठिता
सिततनुराज्यकलङ्कभावनाम् ।
उचितगिरैव विधाय सद्गतो
मधुरमुखो विरराम शान्तये ॥६१॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिब्राजकश्रीस्वामिभगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
भारतपारिजात
चतुर्दश सर्ग

इस प्रकारसे मधुरभाषी श्रीमहात्माजी उचित उपदेश के द्वारा
जनताके हृदयमें अग्रजी राज्यके कलङ्ककी भावनाको स्थापित करके
शान्तिकेलिये चुप हो गये ॥ ६१ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
स्वोपज्ञकृतराष्ट्रभाषाटीकासहित
भारतपारिजाते चतुर्दश सर्ग

❀ पञ्चदशः सर्गः

ब्राह्मे मुहूर्ते नियमानुसारमुपास्य सर्वैः सह रामभद्रम् ।
अथ प्रभातां रजनीं स वीक्ष्य स्वसेनया सार्धमभिप्रतस्थे ॥१॥

ब्राह्ममुहूर्त में, नियमानुसार सबके साथ भगवान् रामकी उपासना करके, प्रातःकाल हुआ देखकर, अपनी सेनाके साथ वहाँसे श्रीमहात्माजी प्रस्थित हुए ॥१॥

पथा जगामाथ स येन येन तत्र स्थितान्वद्धपरम्परान्तः ।
दूरेत्यलोकानपि शान्तमय्या वाचापि तुष्टान्कृतवाननन्तान् ॥२॥

श्रीमहात्माजी जिस जिस मार्ग से गये उस मार्ग में दूरदूरसे आये हुए असंख्य लोक लाइन बँधकर खड़े थे । महात्माजीने (दर्शन देकर तो सबको सन्तुष्ट किया ही था परन्तु) शान्तिपूर्ण वाणीसे सबको सन्तुष्ट किया ॥ २ ॥

यदोपश्लेघे सगणो महात्मा वारेजनाम्नोऽयसथस्य चाप ।
तरद्भितं तं जनतासमुद्रं दूराद्पदयद्विहसन्नधारिः ॥३॥

जब महात्माजी अपनी सेनाके साथ वारेजा ग्रामके पासमें आये तो दूरसेही तरद्भित-मानवमहासागरकी हँसते हुए देखा ॥ ३ ॥

स्नानाशनादीनि स दीनबन्धुः कृत्यानि, सम्पाद्य च बोधयित्वा ।
लोकानगम्यस्य यथार्थबोधी धर्मस्य तत्त्वं प्रययौ ततोऽग्रे ॥४॥

दीनबन्धु श्रीमहात्माजी स्नान, भोजन आदि सब नित्य कर्मोंको करके अगम्य धर्मके तत्त्वको समझी समझाकर वहाँसे आगे चले ॥ ४ ॥

सायं नवागाममघाप्य धीरः स प्रार्थनायाः समये जनौघम् ।
धर्मोपदेशेन विधाय शुद्धं सुखेन तत्रैव निशं निनाय ॥५॥

धीर श्रीमहाःमार्जने सायंकाल नवागामभे आकर, प्रार्थ-
नाके समय जनताको धर्मोपदेशके द्वारा शुद्ध बनाकर वहाँ ही
रात्रि बितायी ॥ ५ ॥

प्रातर्विधेयानि समाप्य सर्वान्सन्तोष्य वाचां परिवर्तनेन ।
स वासणां गन्तुमदम्यशक्तिसम्पत्परीतेन गणेन यातः ॥६॥

प्रातःकालके सब कृत्योंको समाप्त करके, सबके साथ वार्तालाप
करके अदम्यशक्तिपुक्त अपनी सेनाके साथ वासणा जानेके लिये
गये ॥ ६ ॥

स वासणां प्राप्य निरीक्षणेन मुदा जनानां समवस्थितानाम् ।
समर्च्यचर्यो हृदये प्रसादं परं दधानो निरतः त्रियामु ॥७॥

पवित्र कृत्यगळे श्रीमहाःमार्जी वासणा पहुँचकर, वहाँ प्रसन्नताके
साथ सबको बैठे हुए देखकर हृदयमें प्रसन्न हुए और अपने काममें
लग गये ॥ ७ ॥

प्रस्थाय तस्मात्स च मातरारये ग्रामे निवासं कृपया विधाय ।
तद्दर्शनाप्त्यैव समाप्तकामान्सन्तर्पयामास वचोऽमृतेन ॥८॥

वासणारो बलपर श्रीमहाःमार्जने मातर गँवमें निवारण किया ।
वहाँके लोग तो दर्शनसे ही कृतार्थ हो चुके थे परन्तु आपने अपने
वचनाभृतसे भी उन्हें तृप्त किया ॥ ८ ॥

लक्षाधिकान्प्राप्त्यजनान्पथिस्थान्दर्शनेनैव कृतार्थयित्वा ।
दृभाणतोऽसौ नडियादमागात्सुतोरणद्वारविष्टदशोभम् ॥९॥

मार्गमें खड़े हुए लाखों ग्राम-बन्धुओंको अपने दर्शनसे कृतार्थ
करते हुए दृभाण गँवमें होकर सुन्दर तौरगयुक्त द्वारसे अतिशय शोभा-
वाले नडियाद में श्रीमहाःमार्जी पहुँचे ॥ ९ ॥

तदागमोदन्तयहिःसमेतस्त्रीपुंसपूर्णे कलित्वातिशोभे ।
श्रीसन्तरामीय उदात्तकीर्तौदेवालयेऽसौ वसति चकार ॥१०॥

श्रीमहात्माजीके आनेके समाचारसे बाहरसे आये हुए स्त्री और पुरुषोंसे पूर्ण, शोभायुक्त, अत्यन्त प्रसिद्ध श्री सन्तरामजीके मन्दिरमें उन्होंने निवास किया ॥ १० ॥

अहम्भदावादत आगतेन श्रीमन्महादेवदिसायिना सः ।
आवश्यकांस्तान्विषयान्विलोडय जवाहिरैच्छामकृत प्रपूर्णाम् ॥११॥

अहमदाबादसे श्रीयुक्त महादेव देसाईजी भी वहाँ आये । उनके साथ श्रीमहात्माजीने आवश्यकीय विषयोंपर बातचीत करके पण्डित श्रीजवाहिरलालनेहरूकी छ इच्छा पूर्ण की ॥ ११ ॥

विद्वान्समागादपि तत्र दत्तात्रेयः स कालेलकरः सपुत्रः ।
सोऽरक्षि मानः किल शङ्करेणेत्युक्त्वैष तत्स्वागतमाततान् ॥१२॥

विद्वान् श्रीदत्तात्रेय कालेलकर (श्रीकाकासाहेबजी) भी अपने पुत्र - शङ्करके साथ वहाँ आये । श्रीमहात्माजीने, "शङ्करने प्रतिष्ठा रख ली" कहकर शङ्करका स्वागत किया ॥ १२ ॥

छ पण्डित जवाहिरलालका एक तार, महासभाकी कार्यकारिणी समिति कहीं बुलायी जाय, इस जिज्ञासाकेलिये अहमदाबाद आया था । उस तारको श्रीमहादेवभाई लेकर श्रीमहात्माजीके पास आये थे । श्रीनेहरूजी उत्तर चाहते थे । महात्माजीने उत्तर देकर उनकी इच्छा पूर्ण की ।

— काकासाहेबके दो लड़के हैं । शङ्कर और बाल । बाल को आश्रमसे ही सागमें सैनिक होकर आये थे परन्तु शङ्कर नहीं । शङ्कर पर्युसन कॉलेजमें पढ़ते थे । अध्ययन उत्तम रीतिसे चलता था । उन्हें दो छात्रवृत्तियाँ मिल रही थीं । सम्पडे युनिवर्सिटीकी तीसरी सर्वोत्तमपृष्ठि पानेकी यह तैयारी कर रहे थे । एक ओर उनकी परीक्षा आ गयी और दूसरी ओर गांधीजीने देशकी परीक्षा शुरू की । शङ्कर

जनातिसम्भर्दमवेक्ष्य तत्र प्रासादपीठेऽर्धसहस्रलोके ।
महाप्रभुः सायमुपासनान्ते गोपानसीमेल्य मुदाधितष्ठी ॥१३॥

× वहाँ मनुष्योंकी भारी भीड़ देखकर, छतके ऊपर ही, जहाँ कि
स्वामिग ५०० मनुष्य बैठे थे, सायद्कालकी प्रार्थना करके, गोपानसी =
छज्जेमें आकर प्रसन्न होकर श्रीमहात्मानो बैठ गये ॥१३॥

नीचैःस्थितास्तद्वदनेन्दुशोभा दिदृक्षमाणास्तमवेक्ष्य तत्र ।
उपार्धलक्षं निविपेयिरेऽद्धा निदशब्दतामेकपदे सभायाम् ॥१४॥

कालेजकी परीक्षा छोड़कर देशकी परीक्षामें दाँद आये । अहमदाबादमें
आकर अपने पिता काकागाहेबके घरगोंमें पढ़ गये । पिताके आनन्दका
अन्त नहीं था । परन्तु उनकी अपेक्षा भी अधिक आनन्द गांधीजीको
ही था । शाहूको अपनी सेनामें स्वीकार करने हुए गांधीजीने कहा कि
“मुझके भागे आये हुए वके फलका त्याग करनेवाले मुझारे जैसे पढ़े
हैं तो हमको म्प्राज्य अर्श्य मिलेगा ।” शाहू ने प्रतिष्ठा यथा स्त्री”
इस बहनेका गांधीजीका तात्पर्य यह था कि जन्मदाता पिता और
धर्मपिता दोनोंही राज शाहूने रखे स्त्री ।—श्रीमहादेवभाई देसाई ।

× नदियादमें स्वामिग ३० हजार आदमी इकट्ठे थे । प्रायेण
छत्तर ही हुई । क्योंकि इतने आदमियोंको यदि प्रायणामें सम्मिलित
रिया जाय तो प्रायण हो ही नहीं सकती थी । स्वामिग ५००
आदमी ऊपर पहिलेसे ही बैठे थे । उर्ध्वदि साय प्रायण पूरी की
गयी । अब भाषणका समय था । इतने आदमियोंको श्रीमहात्मानो
भाषण करने सुनाया जाय, इगही सबको पिग्ना हो रही थी । श्री
महात्मानोने उपाय सोच लिया । शरीरके बाहर एक छोटोगा छत्र
था । यहाँही उर्ध्वदि सुर्मी रखा स्त्री और बैठकर सबको भाषण
सुनाया । जिन्होंने १९२१ ई० में बम्बईकी सुमामस्त्रिकके ऊपरकी
छत्रसे हजारों आदमियोंको उपदेश सुनाया था उनदेखिये अत्र भी
यह कार्य करना बहिन न मान्य हुआ ।

नीचे बैठे हुए करीब-करीब व्याधे लाय मनुष्य—श्रीमहात्माजीके मुखचन्द्रकी शोभा देखना चाहते थे—उनका दर्शन करना चाहते थे। दर्शन करके सभामें सब लोग एकदम निद्राबन्ध होकर बैठ गये ॥ १४ ॥

प्रेमामृतं सोऽथ निपीय तेषां स्वशक्रसुधां तानपि पाययित्वा ।
श्रान्तो महात्मा विरराम तेऽपि लोका निशं तत्र हि नीतवन्तः ॥१५॥

श्रीमहात्माजी सब भाईबहिनोंके प्रेम-अमृतका पान करके और उन लोगोंकोभी अपने बचनामृतका पान कराकर चले गये क्योंकि उनके हुए थे। लोगोंने वहाँ ही रात्रि व्यतीत की ॥१५॥

उत्थाय कृत्ये स उपासनान्ते स्वसैनिकेभ्योऽनुदिदेश सम्यक् ।
कार्पासतन्तुप्रतिसर्जनाय यथाकथञ्चिद्व्यथितो महात्मा ॥१६॥

प्रातःकाल उठकर, उपासना—प्रार्थनाके बाद ॐ व्यथितमनवाले श्रीमहात्माजीने सैनिकोंको चाहे जैसे भी, एक घातनेकेलिये अच्छी तरहसे आज्ञा दी ॥ १६ ॥

एषाऽस्ति यात्रा किल धर्मयात्रा कालव्ययो मास्तु निरर्थकोऽत्र ।
अस्माभिरेव स्वहिताय नित्यं संरक्षणीया नियमाः कृता ये ॥१७॥

यह आज्ञा यह थी—“निश्चय ही समझो कि यह यात्रा धर्मयात्रा है। इस पर्यायात्रामें निरर्थक समय नहीं बीतना

ॐ येषारे सैनिक १२ से १५ माइल तक रोज चलते थे। महानेघोने, खानेपीनेमें भी समय जाता था। उसपर भी श्रीमहात्माजीने सब सैनिकोंको भिन्न भिन्न काम सौंप दिया था। किसीको रसोईमें मदद करनेका काम, किसीको प्राम-अनुभव इकट्ठा करनेका काम, किसीको भीमारोंकी सेवा का काम और किसीको भेटमें आती हुई रफ्तारोंके हिमायत का काम सौंपा गया था। चर्चा पूरे नहीं मिलते थे। तस्लीम २१२ गज मृत कातनेमें २॥ घण्टे जाते थे। कोई भाई पूरा नहीं बात सरते थे। इसीरा उभट्टे दुःख था।

चाहिये । जिन नियमोंको हम लोगोंने ही बनाया है, उनका, अपने हितकेलिये, हमें नित्य पालन करना चाहिये ॥ १७ ॥

श्रीशङ्करः खड्गबहादुरोऽपि सैन्यं प्रविष्टापिति लोकनाथः ।
एकाधिकाशीतिमभिन्नचित्तानादाय वीरान्स ततः प्रतस्ये ॥१८॥

श्रीशङ्कर और ॐ खड्गबहादुर भी सेनामें प्रविष्ट हो चुके थे अतः कुल मिलाकर, एक विचारवाले ८१ वीरोंको लेकर श्रीमहात्माजी वहाँसे चले ॥ १८ ॥

विश्रम्य सैन्यैः सह वोरियाऽगमानन्दमायाद्विदुषामधीशः ।
यथैव मार्गेषु तथैव चात्र जनाननन्तांश्चकितो ददर्श ॥१९॥

परमविद्वान् श्रीमहात्माजी वोरियावाँमें अपनी सेनाके साथ विश्राम करके आनन्द आये । वहाँपरमी आपने, जैसा कि मार्गमें देखा था, वैसा ही अनन्त जनसमुदाय को देखा ॥ १९ ॥

पातुं स्थितानां जननायकस्य घाणीमुधां तत्र महाजनानाम् ।
सन्तोषणायैव विदां वरेण्यः प्रारब्धवान्वत्तुमुदारचेताः ॥२०॥

अपने नेताके बचनानुसार पान करनेकेलिये वहाँ उपस्थित महान्-जनोके सन्तोषकेलिये ही विद्वद्वर्य श्रीमहात्माजीने भाषण देना शुरू किया ॥ २० ॥

× वयंच सत्यामहिणः स्थिता स्मः प्रेम्णाः परार्थेऽध्यनिसावधानाः ।
जेतुं कठोरं कुलिशादपीह मनो दधानान्महतीऽपि शत्रून् ॥२१॥

हम लोग सत्यामही हैं । धृष्टसे भी कठोर मनवाले महान् शत्रुओंको जीतनेकेलिये हम प्रेमके सर्वोत्कृष्ट मार्गमें सावधानीके साथ स्थित हैं ॥ २१ ॥

ॐ श्रीखड्गबहादुरसे परिचयकेलिये परिशिष्टमें बाँधना चाहिये ।

× यहाँसे ५९ पे खोइतर यहाँका भाषण है ।

राज्यव्यवस्थापितमार्गभङ्गे प्रेमैष हेतुर्नहि किञ्चिदत्र ।
परन्तु सन्दर्शयितुं न शक्यमेतद्भवेद्यद्दृश्येऽतिगूढम् ॥२२॥

राज्यसे व्यवस्थापित कानूनके भङ्ग करनेमें भी प्रेमके अतिरिक्त
अन्य कुछ भी कारण नहीं है । परन्तु उस प्रेमको प्रकट नहीं
किया जा सकता; क्योंकि वह हृदयमें अत्यन्त छिपा
हुआ है ॥ २२ ॥

परान्प्रदग्धुं ज्वलतीह वैरभावाश्रयाशो हि निजाश्रयं सः ।
अनन्तकालावधिकैर्महावैः संयोजयत्येव च दुष्प्रणारैः ॥२३॥

शत्रुतारूप अग्नि दूसरोको मरम करनेकेलिये जलता है और अपने
आश्रयको अर्थात् शत्रुता करनेवालेको ऐसे महापापोंसे युक्त कर देता है
जो अनन्तकालतक टिकनेवाले होते हैं और जिनका नाश बड़े परिश्रमसे
हो सक्ता है ॥ २३ ॥

प्रेमाश्रयाशस्त निजाश्रयाणां महात्मनां चिद्धदपदिचमानाम् ।
निरन्तरं दाहसमर्पणेन तेषां परान्पूततमान्विधत्ते ॥२४॥

ॐ और प्रेमरूप अग्नि तो अपने आश्रयको अर्थात् प्रेमीको
बो कि महात्मा और समझदार होते हैं—निरन्तर जलाता है
और उनके = महात्मा—प्रेमियोंके शत्रुओंको पवित्र करता है ॥ २४ ॥

प्रेमा यदा स्वोन्नतनुं समग्रां प्रकाशयेत्वावकतामुपैति ।
तथापि शैत्यं सहजन्म तस्य क्षणेन सर्वैः कलनीयमेव ॥२५॥

ॐ प्रेम जब अपने समग्र उग्रस्वरूपको धारण करता है तब

ॐ २४ और २५ श्लोकका तात्पर्य । वैर और प्रेम दोनोंकी ही
उपमा अग्निसे दी जा सकती है । अन्तर दोनोंमें इतनाही है कि वैररूप
अग्नि वैर करनेवाले और जिससे वैर किया जाय उसे—दोनोंको जलाता
है और प्रेमरूप अग्नि प्रेमी—आश्रितको जलाता है और प्रिय—मानवको
पवित्र बनाता है—सुखी बनाता है ।

अधिके समान प्रचण्ड हो जाता है। तथापि उसके साथ ही जो धीतलता पैदा होती है उसका सबलोग मुझे साथ अनुभव कर सकते हैं ॥ २५ ॥

दृढप्रतिज्ञोऽवमतान्यकामः सहोऽयमहाय निजा प्रतिज्ञाम् ।
प्राणार्पणेनापि जगद्धिताय प्रपूरयिष्यत्यविगीतकीर्तिः ॥२६॥

यह सध—यह सेना दृढप्रतिज्ञावाली है। इसने दूसरी बातोंमें भुल्य दी है। अतः श्रीप्रहो अपनी प्रतिज्ञाको, अपने प्राणोंकी आहुति देकर भी, जगत्—कल्याणकेलिये पूर्ण करेगी और ससारमें पवित्र यज्ञ प्राप्त करेगी ॥ २६ ॥

विघातितोऽपीह तिरस्कृतोऽपि विश्वासघातेन विह्वलितोऽपि ।
न यस्त्वचित्ते भजते विकारं प्रेमाश्रयोति श्रधितः स लोके ॥२७॥

मारो जानेपर भी, तिरस्कृत होनेपर भी और विश्वासघात द्वारा हेराज निधे जानेपर भी जो अपने चित्तमें विकार नहीं होने देता वही समारमें प्रेमी कक्ष जाता है ॥ २७ ॥

यदीह धर्म्येण पथा सताऽयं प्रेमानुसृत्यानुसरन्स्वकृत्यम् ।
वपैतु सत्याप्रदियोम्यमृत्युं प्रेमप्रतिष्ठा जगदातता स्यान् ॥२८॥

अगर धर्मयुक्त सन्मार्गसे यह प्रेमी प्रेमके अनुगार अपने कर्तव्यको करता हुआ सत्याप्रदियोंके योग्य मृत्युको प्राप्त करे तो जगत्में प्रेमकी प्रतिष्ठा बढ़ जाय ॥ २८ ॥

जगत्स्यजन्यैरिच्छापाणघातैर्हतोऽपि पौरिष्यनभीष्टभाजम् ।
भजेत चेद्यो नहि तस्य मृत्युं प्रयीमि सत्याप्रदियोम्यमृत्युम् ॥२९॥

शत्रुकी तरवारसे मारो जानेपर यदि मरगद्यो प्राप्त होता हो तो भी मृत्युके समवनी—यदि शत्रुके प्रति अनिष्ट भाव पैदा न हो तो उग मृत्युको सत्याप्रदीपा मृत्यु में कहताहूँ ॥ २९ ॥

क्षणे क्षणे चेदुदयोऽस्ति मन्यो. शत्रुष्वनास्था परिवृद्धिमेति ।
लोके कलङ्कस्यभिव्यभिध्या शान्त्यासृमृत्युर्नमदीप्सितस्स्यात् ॥३०॥

यदि किसीको क्षण क्षणमे क्रोध होता हो और शत्रुओंके प्रति असन्दाव बढ़ता रहता हो ओर केवल लोकमे कलङ्कके भयसे मिथ्या शान्ति दिताकर जो मरणको प्राप्त होता है वह मृत्यु मुझे पसन्द नहीं है-वह मृत्यु सत्याग्रहीका मृत्यु नहीं है ॥ ३० ॥

शक्तिं समप्रो विभृमोऽस्य मृत्योरालिङ्गनायेति न वक्तुमद्य ।
शक्ता वयं स्याम परीक्षितास्तु मृत्यो. परस्तादपरैर्मनुष्यैः ॥३१॥

सत्याग्रहीके इस मृत्युका आलिङ्गन करनेकेलिये हमारे पास पूर्ण शक्ति है या नहीं इसे हम आज नहीं कह सकते । मृत्युके पश्चात् दूसरे लोग हमारी परीक्षा करेंगे ॥ ३१ ॥

इयं पुरी विश्रुतपाटिदारजातेर्महाकेन्द्रतया प्रतीता ।
अयं प्रदेशोऽमिनमोतिभाई श्रीवहभावेर्धहुमानभूमिः ॥३२॥

यह आनन्द गोंव प्रख्यात पाटीदार—कूर्मीय जातिका महान् केन्द्र है । इस प्रदेशकेलिये अमीन धीमोतीभाई और श्रीवहउमभाईको बहुत मान है ॥ ३२ ॥

अत्रैव सत्कीर्तितकीर्तिपुञ्जसन्मण्डले सन्नि महाप्रसिद्धाः ।
चरोतरोया अपरेऽपि वीराः प्रजाहितार्थं तपसि प्रलीना ॥३३॥

प्रतिष्ठित लोग भी बिसफा गुग्गान करते हैं उस इय प्रान्तमें चरोतरके दूसरे भी बहुत से वीर हैं जो प्रजाहितकेलिये तपस्या कर रहे हैं ॥ ३३ ॥

एवं महोदाधरामवाच्य न चेदहं मन्मनसोऽधिभावम् ।
प्रकाशये शुभ्र च सत्प्रकाशयोग्याऽपरा भूः परिमार्गणीया ॥३४॥

ऐसी पवित्र और उदारभूमिमें आकर भी यदि मैं अपने मनके

उब भावोंको प्रकट न करूँ तो उनके प्रकट करने योग्य दूसरी जगह में
कहाँ दूँ ? ॥ २४ ॥

लोभाघृतोऽहं सबलः समागामस्यां सुपुर्यामभिभित्तितुं वः ।
अपेक्षिता द्रव्यमयी न भिक्षा सा प्राप्यते भूरिभिक्षिताऽपि ॥२५॥

मैं लोभी हूँ । इस नगरमें भिक्षा माँगनेकेलिये ही सेना सहित आया
हूँ । यह भिक्षा द्रव्यकी नहीं है । द्रव्यकी भिक्षा तो माँगे बिना भी
बहुत मिल जाती है ॥ २५ ॥

शूरास्तपस्यानिरतारश्च पाटीदार महोदारगुणाः सुबोधाः ।
लोके मुलोकैरिति गीयते तत्परीक्षणायावसरोऽन्न लब्धः ॥२६॥

लोकमें सरलोग बरतान करते हैं कि पाटीदार लोग = पूर्वोक्त लोग
बड़े शूर, तपस्वी, गुणवान् और समहदार होते हैं । इसकी परीक्षा
आज समय आया है ॥ २६ ॥

अहम्मदावादगतस्य विद्यापीठस्य शिष्टाः गुरवस्तथैव ।
छात्रा अपि त्यागपरायणत्वं स्वीकृत्य युद्धाय विनिर्गतास्ते ॥२७॥

अहमदावादके विद्यापीठके सभी अप्यापक और सभी छात्र
त्यागपरायण स्वीकार करके युद्धकेलिये छे बाहर निकल चुके हैं ॥ २७ ॥

उदात्तचित्तत्रयसाधितानां विद्यार्थिनां मैनिकतामद्देण ।
शिक्षालयस्यास्य सुमानितस्य साफल्यमापद्रविणव्ययोऽद्य ॥२८॥

बहुत बड़े व्यक्तों तैयार किये हुए इन छात्रोंके सेनामें भर्ती हो
जानेसे इस प्रतिष्ठित विद्यालयका—विद्यापीठका सच धनव्यय सफल हो
गया है ॥ २८ ॥

छे विद्यापीठ अहमदावादके छात्रोंकी एक टुकड़ी भीमहामजीदी
सेनाके भागे भागे पल रही थी । तिसय यह हुआ था कि जिस जगह
महामजीदी सेना पकड़ी जाय वहाँसे ही यह टुकड़ी शहीदीरूप शुरू
कर दे ।

यौष्माक एषोऽवसरः स्वदेशसेवाव्रतं पुण्यतमं ग्रहीतुम् ।
छात्राः परित्यज्य ततः स्वविद्यामोहं च युद्धाय भवेत् सज्जाः ॥३९॥

हे विद्यार्थियो ! पवित्र स्वदेशसेवाके व्रतकी प्रवृत्ति करनेकेलिये तुम्हारेलिये यह अवसर है । अतः अपनी विद्याके मोहकी छोड़कर युद्धकेलिये तैयार हो जाओ ॥ ३९ ॥

पर्याप्तमद्यास्ति न केन्द्रमेकं युद्धस्य तस्मान्निखिलेऽपि देशे ।
भवन्तु केन्द्राणि बहूनि किन्तु हेया न कुत्रापि कदाप्यहिंसा ॥४०॥

आज युद्धना एक ही केन्द्र पर्याप्त नहीं है । अतः सारे देशमें केन्द्र बन जाने चाहियें । परन्तु कहीं भी हिंसा न हो ॥ ४० ॥

मासत्रयात्पूर्वमयो न भावः कालोऽनुकूलो नृपशासनस्य ।
भङ्गाय तस्मात्समयानुसारि तदुक्तवान्यन्मम योग्यमासीत् ॥४१॥

तीन महीनेसे पहिले मुझे सर्कारी आशके भङ्ग करनेकेलिये अनुकूल समय नहीं प्रतीत हुआ था । अतः समयानुसार, मुझे जो योग्य था, उसे मैंने तुम्हें उपदेश दिया है ॥४१॥

वात्यद्य वायुः परमोऽनुकूलः शुभो मुहूर्तोऽपि च सद्य एव ।
शुभानि भान्यद्यविभान्ति नानाविधानिचिह्नानि शुभानि सन्ति ॥४२॥

आज अनुकूल वायु बह रहा है । आज ही शुभ मुहूर्त है । आज ही शुभ नक्षत्र है । नानाप्रकारके शुभचिह्न भी आज ही प्रतीत हो रहे हैं ॥ ४२ ॥

अस्मिन्मुहूर्ते नृपशासनानां कृतस्य भङ्गस्य न चास्ति भङ्गः ।
उत्तिष्ठताऽतः परिजागृतातस्मिन्नाविभङ्गोऽप्यधुनैव कार्यः ॥ ४३ ॥

इस मुहूर्तमें यदि सर्कारी शासनको तोड़ा जायगा तो फिर बर कमी पुनर्जीवित नहीं हो सक्ता है । अतः उठो, जागो और आजही आलस छोड़ दो ॥ ४३ ॥

रोदित्यये भारतभूरिदानीं रुदन्ति सर्वत्र च भारतीयाः ।
क्षुक्षामकण्ठा नहि शोभतेऽतो युष्माकमद्याध्ययनप्रवृत्तिः ॥४४॥

अरे, आज भारतभूमि रो रही है । सर्वत्र भारतवासी भी भूतसे
सूखे कण्ठवाले होकर रो रहे हैं । अतः तुमको आज यह पढ़ना शोभा
नहीं देता है ॥ ४४ ॥

यूयं युवानो जननीयमद्वा वृद्धाऽऽतुरा स्वार्थिभिरदिता च ।
अस्याः परित्राणमथो विधातुं विधत्त सङ्कल्पमनल्पमेव ॥४५॥

तुम लोग बवान हो । यह भारतमाता वृद्ध और दुःखिनी है ।
स्वार्थियोंने इसे पीड़ित कर रखा है । अतः तुमलोग इसकी रक्षाकेलिये
महान् सङ्कल्प धारण करो ॥ ४५ ॥

पुरा मयोक्तं त्यजतास्य पाठशालाः कुराज्यस्य च राष्ट्रशाला ।
निर्मात संरक्षत ता प्रयत्नैस्तत्रैव यूयं नितरामधीध्वम् ॥४६॥

पहिले मैंने कहा था कि इस दुष्ट सरकारके स्कूलों—कालेजोंको छोड़
दो । राष्ट्रीय शालाएँ बनाओ । प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करो और उन्हींमें
पढ़ो ॥ ४६ ॥

ब्रवीमितस्माद्विपरीतमद्य सर्वाणि विद्याभवनानि यूयम् ।
त्यक्त्वाद्य युद्धाय विधाय बुद्धिमुद्धारमस्या भुव आतनुध्वम् ॥४७॥

आज मैं उससे उलटा बोल रहा हूँ । सब विद्यालयोंको छोड़कर,
युद्धकेलिये विचार करके, इस भारतभूमिका तुमलोग उद्धार करो ॥ ४७ ॥

मूर्धौ च युद्धस्य समुत्कचिन्ता आयात संभूय भुवो जनन्याः ।
उद्धारमारात्तनितुं प्रवीरा न शोचतान्यज्जहिताऽन्यचिन्ता ॥४८॥

भारतभूमि—माताके शीघ्र उद्धार करनेकेलिये, उल्टाही चिन्तसे
युद्धभूमिमें तुम लोग इकट्ठा होकर आ जाओ । और कुछ मत सोचो ।
सब चिन्ताओंको छोड़ दो ॥ ४८ ॥

वहन्ति ये शासनकिंकरत्वं न्यायालये ये परियन्ति तस्य ।
साहाय्यमस्याऽदधते कथञ्चिद्ये ते स्वदेशाहितमाचरन्ति ॥४९॥

जो लोग सरकारकी नौकरी करते हैं, उसकी कचहरीमें जाते हैं और किसी प्रकारसे उसकी सहायता करते हैं यह स्वदेशना अहित कर रहे हैं ॥ ४९ ॥

न भोजनाच्छादनयोस्तु चिन्ता कार्या कथञ्चित्प्रविदारणेस्मिन् ।
सर्वस्य दाता परमेश्वरोऽस्ति दास्यन्त्यसंख्येयजनाश्च तद्द ॥५०॥

इस बुद्धमें भोजन-वस्त्रकी चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये ।
भगवान् सबका अन्नदाता है। असंख्य लोग तुमको अन्नवस्त्र देंगे ॥ ५० ॥

ओजस्विता स्वं पदमादधीत सर्वेषु चैद्भारतमानवेषु ।
समे यदीलापतिशासनानां भङ्गं प्रफुर्युस्तदभीष्टसिद्धिः ॥५१॥

यदि भारतके सब मनुष्योंके हृदयोंमें ओजस्विता पैदा हो जाय
और सबलोग यदि सविनय आशाभङ्ग करने लग जायें तो उस अभीष्टकी
सिद्धि हो सकती है-भारतकी रक्षा हो सकती है ॥ ५१ ॥

त्रिंशच्च कोट्यः किल भारतीयाः सिताङ्गकाः सन्ति च लक्षमेकम् ।
तत्कल्पितायाः परतन्त्रताया भवेद्विभोक्षे तु क्रियान्विलम्बः ॥५२॥

३० करोड़ भारतवासी हैं और एकलक्ष अंग्रेज हैं । एक सारत
अंग्रेजोंके द्वारा रची गयी हुई परतन्त्रतासे छुटकारा पानेमें कितनी देर लग
सकती है ! ॥ ५२ ॥

राज्ये सहस्राणि च सप्ततिस्ते सिताङ्गकाः मैनिफता भजन्ते ।
आर्या अनार्या यजनाश्च माहाराष्ट्राश्च सिक्का अपरेऽपि धीराः ॥५३॥

राज्यमें ७० सहस्र अंग्रेज फौजमें सिपाही हैं और दूगरे भी हिन्दु,
मराठे, सिक्का, मुगलमान आदि हैं ॥ ५३ ॥

सेनायतेनैव पुराज्यमेतद्धृतास्त्रसूत्रानपशाननीशान् ।
स्वार्थान्धतामिस्त्रमयं भूतायं विनर्तयत्येष नितान्तमरमान् ॥५४॥

स्वार्थरूप-अन्धकारमय और पापी यह दुष्टराज्य हमलोगोंके
अस्त्रशस्त्रोंको छानकर, विवश और असमर्थ बनाकर, सेनाके बलसे ही
हमको नचा रहा है ॥ ५४ ॥

युष्माकमोजोदहने निपत्य स्वयं पतङ्गोपमका इमे ते ।
भस्मावशेषान्निजसत्त्वरशीन्स्रक्ष्यन्ति शङ्खावसरोऽत्र कोसौ ॥५५॥

तुम लोगोंके अोजस-सामर्थ्यरूप अग्निमें यह सब पतङ्गसमान
अग्नेज् स्वयं पडकर समस्त बलको भस्म कर देंगे, इसमें सन्देहकेलिये
अवकाश ही क्या है ? ॥ ५५ ॥

किं चैपमो राष्ट्रपतिर्युर्वैव जवाहिरोऽसौ मिहिरोपमोऽस्ति ।
ततोऽपि युष्मासु हि भारतोतेर्भारोऽतिधर्म्यो युवसु प्रपन्नः ॥५६॥

किंच, इस वर्ष सूर्यसमान तेजस्वी पण्डित जवाहिरलाल राष्ट्रपति हैं
और वह भी बयान ही हैं । इसलिये भी तुम बवानोंके ऊपर भारतकी
रक्षाका धर्मयुक्त भार आ पडा है ॥ ५६ ॥

जयेऽविलम्बो ह्यथवा विलम्बो वीरेषु युष्मास्ववलम्बितः स्यात् ।
अहिंसनास्त्रेण विजित्य शत्रून्देशप्रतिष्ठा सुदृढीकुम्भम् ॥५७॥

युद्धमें विजय प्राप्त होनेमें शीघ्रता अथवा विलम्ब यह दोनों बातें तुम
वीरोंपर ही अवलम्बित हैं । अहिंसारूप अस्त्रसे शत्रुओंको जीतकर देशकी
प्रतिष्ठाको दृढ बनाओ ॥ ५७ ॥

मनोबलेनैव महाहवेऽस्मिर्ल्लेब्धुं जयं शक्नुथ नात्र शङ्का ।
मनोबलेनैव च याचि मेऽस्या विश्वासमाधातु मपि स्थ शक्ताः ॥५८॥

मनोबलके द्वाराही इस महासमरमें जय प्राप्त कर सकते हो, इसमें
सन्देह नहीं । और मनोबलके द्वाराही मेरी इस बातमें विश्वास भी
कर सकते हो ॥ ५८ ॥

मनोबलं बुद्धिबलाद्विघत्ते श्रेष्ठ्यं समन्तादिनि भावयेत् ।
यत्रास्ति बुद्धिर्न मनोबलं चेत्यराभवस्तत्र विधेर्विधानम् ॥५९॥

बुद्धिबलकी अपेक्षा मनोबल सब प्रकारसे श्रेष्ठ है, ऐसा समझो ।
जहाँ बुद्धि हो परन्तु मनोबल न हो तो वहाँपर पराजय होना ब्रह्माका
अमिट लेख है ॥ ५९ ॥

प्राचीनर्षिः परमकरुणः स्त्रीर्बालकान्यौवने

शुद्धं धर्मं विहरणपरानादिश्य पापहृत्पः ।

अन्तस्तत्त्वे सकलसुधियां वाणीप्रकाशं परं

संस्थाप्यैष श्रमशमनमाधातुं स्ववासं ययौ ॥६०॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

पञ्चदशः सर्गः

परमदयालु, पापहारी, प्राचीनश्रद्धि, श्रीमहात्माजी स्त्रियोंको,
बालकोंको और जवानोंको इस प्रकार शुद्धधर्मका आदेश देकर, सब
समझदारोंके अन्तःकरणमें वाणीके प्रकाशको स्थापित करके भ्रम दूर
करनेकेलिये अपनी वासभूमिको चले गये ॥ ६० ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञभारतार्यद्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते पञ्चदशः सर्गः



❀ षोडशः सर्गः

लक्षाधिकैः परिवृतो मनुजैर्महात्मा
 तत्रैव रात्रिमतिवाह्य बलेन साकम् ।
 प्रातर्जगाम मुनिनायक एष नापां
 तस्माच्च बोरसदमाप तमीमुखाग्रे ॥१॥

छाखों आदमियोंसे घिरे हुए श्रीमहात्माजी सेनाके साथ वहीं रानी
 बिताकर प्रातःकाल नापा गये और वहाँसे सायङ्काल बोरसद पहुँचे ॥१॥

दूरात्पथो हृदयनाथदिदृक्ष्या वा
 घाणीसुधास्वदनकामनयोपयातान् ।
 लोकांश्च बोरसदवासिजनानताप्सीं-
 द्याचामृतेन स हि विश्वसतत्त्वदृश्या ॥ २ ॥

हृदयनाथ—श्रीमहात्माजीके दर्शनकेलिये अथवा उनके उपदेश
 सुननेकेलिये जो लोग दूरसे आये थे—और जो लोग बोरसदके ही थे—
 समस्ततत्त्वोंके जाननेवाले श्रीमहात्माजीने अपनी घाणी—अमृतसे सबको
 रूत किया ॥ २ ॥

आसीत्कदापि सुभगः समयः स यर्हि
 राज्ये प्रतीतिमधिकामधिकं च हार्दम् ।
 हन्मन्दिरे मम सदाऽपुपमेव पश्चा-
 उज्ञातं मयाऽस्य हृदयं दुरितातिदुष्टम् ॥ ३ ॥

यह भी कभी एक समय था कि जब मैं सरकारके प्रति अधिक
 विश्वास और अधिक प्रेम अपने हृदयमें सदा रखता था। पीछे मुझे
 मालूम हुआ कि सरकारका हृदय पापोंसे अत्यन्त मलिन है ॥ ३ ॥

❀ इस सर्गमें घसन्वतिलका छन्द है ।

तत्प्रेम मे बहुमले विमला प्रतीती
 राज्येऽथ सा शुभमनोरथमालिकाऽपि ।
 नूनं वृथा समभवन्भ्रमयामिनी सा
 प्राभात्ततो मम मनः परिवृत्तिमापत् ॥४॥

इस दोषपूर्ण राज्यमें मेरा वह प्रेम, वह निर्मल विश्वास और वह शुभ मनोरथ सब व्यर्थ चले गये । वह भ्रमकी रात बीत गयी और मेरा मन बदल गया ॥ ४ ॥

नास्त्येव राज्यमिदमुद्बुद्धदार्तिभाजा-
 मापत्तिहेतुमनिशं सहयोगयात्रम् ।
 ये स्वार्थमेव परिपालयितुं विदन्ति
 नो वा परार्थमिह ते परमा जघन्याः ॥ ५ ॥

यह राज्य सहयोगका पात्र नहीं है; क्योंकि इस राज्यमें दुःखितोंके-
 लिये सदा दुःखके कारण मौजूद हैं । जो लोग स्वार्थका ही संरक्षण करना
 जानते हैं और परमार्थका रक्षण करना नहीं जानते वह अत्यन्त नीच
 जन हैं ॥ ५ ॥

अस्यां च राज्यसंरक्षणधुना नितान्तं
 द्रोहं परं परिवहामि मुमानसेन ।
 अन्यानपि प्रतिदिनं परियोधयामि
 राज्यद्रुहो भवितुमेव महाश्रमेण ॥ ६ ॥

अब मैं इस राज्यपद्धतिमें पवित्रमनसे अथवा द्रोहद्रुद्धि रसता हूँ ।
 औरोंको भी मैं बड़े परिश्रमसे राजद्रोही बननेको सिखाता रहता हूँ ॥६॥

कायेन चापि यच्चसा मनसाऽपि तस्य
 साहाय्यमस्ति किल पातकपुञ्जपोपि ।
 तस्मादसंख्यजनताऽद्वितनाशनाय
 तद्द्रोह एव परमो विमलोऽस्ति धर्मः ॥ ७ ॥

शरीरसे या वाणीसे या मनसे, किसी प्रकारसे भी इस राज्यकी सहायता करनेसे पाप-पुञ्ज बढ़ता ही है। अतः असख्य लोगोंकी बुराईका नाश करनेकेलिये, राजद्रोह ही परम पवित्र धर्म है ॥ ७ ॥

शक्यं न यद्गणयितुं द्रविणं तदेतद्
हृत्स्यैव राज्यमथ भारततः स्वदेशम् ।

किञ्चिद्ददाति न ददाति यदि च्छलेन
हर्तुं परं धनमिमानि पटञ्चराणि ॥८॥

गिना नहीं जा सके, इतना धन, यह राज्य भारतवर्षसे अपने देशमें ले जाकर, (भारतको) कुछभी नहीं देता है। यदि देता भी है तो केवल यह चिथड़ा ! सो भी अधिकाधिक धनहरण करनेकेलिये ही ॥ ८ ॥

ऋरीकृता यदि भवेद्य राजनीति-

रेषा भविष्यति ननु स्वजनापराधः ।

भाग्याद्दं तु बहिरस्मि ततोऽपराधा-

दरमात्पृथग्भवत यूयमपि प्रसद्य ॥९॥

यदि इस राजनीतिको मैं स्वीकार कर दूँ तो यह भारतवासियोंका एक अपराध होगा। भाग्यसे मैं इस अपराधसे पृथक् हो चुना हूँ। तुम लोग भी हटात् इस पापसे अलग हो जाओ ॥ ९ ॥

युद्धं विधातुमहमद्य मलीमसेन
राज्येन भारतत्पिप्रवरेण सार्धम् ।

हिंसातिरिक्तयत्नालि बलं महाध्य-

मादाय यामि जलधे. पुलिनेषु दाँडीम् ॥१०॥

भारतके सबसे बड़े शत्रु इस पापी राज्यके साथ युद्ध करनेकेलिये मैं अहिंसा-बलसे शोभमान इस मनीष सेनाको लेकर समुद्रके किनारे दाँडी जा रहा हूँ ॥ १० ॥

श्रान्ताः स्म एव वयमद्य विपद्य पार-

तन्त्र्याघमस्य मनुजेतरमानसस्य ।

तस्मादयं शुभमुहूर्त उपस्थितोऽस्ति

तत्पातकं निरसितुं शुभवर्त्मनैव ॥११॥

इस अमानुषीय हृदयवाले राज्यके परतन्त्रतारूप पापको-दुःखको सहन करके अब हम थक गये हैं । अतः पवित्रमार्गसे ही इस पापको दूर करनेकेलिये यह शुभ मुहूर्त उपस्थित है ॥ ११ ॥

शुभ्रं स्वराज्यमधिगन्तुमनन्तमान-

ग्लानिक्रमास्तु भयितार उपेक्षणीयाः ।

यद्यद्विसङ्कटमिहापतति प्रसह्य

सह्यं हि तत्सफलमद्य गृहीतजिह्वैः ॥१२॥

उज्ज्वल स्वराज्यको प्राप्त करनेकेलिये मान-ग्लानि=मानहानि अनेक प्रकारसे होगी और उन सब प्रकारोंकी ओर ध्यान नहीं देना होगा । जो जो सङ्कट आवें सबको जोम दबाकर सह लेना ही पड़ेगा ॥१२॥

किं च स्वराज्यमिति सर्वजनाभिलभ्यं

तन्नापगच्छतितरामधिकारिता नः ।

धर्म्यं हि वस्तु परिलब्धुमयं प्रयत्न-

स्तस्मादयं न समरः समपेतधर्मः ॥१३॥

किंच, स्वराज्य यह तो मनुष्यमात्रके प्राप्तकरनेकी चीज़ है । अतः इसकेलिये हमलोगोंका अधिकार भी छाता नहीं है-रह जाता है । धर्मयुक्त वस्तुको प्राप्त करनेकेलिये ही यह युद्धरूप प्रयत्न है । अतः यह युद्ध अधार्मिक युद्ध नहीं है ॥ १३ ॥

ः स्वप्रजाहितयिनाशमनिद्रमिच्छे-

द्राजाऽघमः स इति सन्ततमाकलय्य ।

विद्रोह एष मम धर्मतया प्रतीत-

स्तस्मादयद्यमिदमस्त्रि च धर्मयुद्धम् ॥१४॥

जो रातदिन अपनी प्रजाका अहित चाहता है वह अधम राजा है, ऐसा सर्वदा विचार करके यह विद्रोह = राजविद्रोह, मुझे धर्म प्रतीत हुआ है और अतएव यह युद्ध अवश्य धर्मयुद्ध है ॥ १४ ॥

इच्छामि नाशमनिशं ननु राजनीतेः

सर्वप्रजाहितपिपः समुपस्थिताया ।

रोमापि नैव विकलं नृपतेर्विधातुं

जागर्ति नो मनसि कश्चिदपीह कामः ॥१५॥

सर्व प्रजाके हितको नष्ट करनेवाली इस वर्तमान राजनीतिका मैं अवश्य ही सदा नाश चाहता हूँ । परन्तु राजाके = बादशाहके एक बालको भी बर्का करनेकी जरा भी इच्छा हमारे मनमें नहीं है ॥ १५ ॥

राजा स्वधर्मपतित. परित. समेति

पातित्यमेव तत एव स नोऽवमान्य. ।

यः सत्करोति वचसाऽप्यधमान्मनुष्या-

न्सोऽपि ध्रजत्यधमतामिति निर्विवादम् ॥१६॥

राजा यदि अपने धर्मसे पतित होता है तो वह सर्वथा पतित हो जाता है । अत एव वह लोगकेलिये अपमान करने लायक ही होता है । जो मनुष्य अधमजनोका वाणीमात्रसे भी सत्कार करता है वह भी अधम बन जाता है, यह सर्वमान्य वस्तु है ॥ १६ ॥

यूयं ततः शृणुत सद्वचनं मदीयं

साहाय्यकस्य कारणेन कुशासनस्य ।

यः संचित. प्रबलपापचयोऽद्य चाव-

त्तन्नाशनत्रमुपेत मुदाचिरेण ॥१७॥

इसलिये तुम लोग मेरे सत्यवचनको सुनो । इस दुष्ट राज्यकी महायता करनेसे जो प्रबल पाप आजतक इकट्ठे किये गये हैं उनके नाश करनेके प्रतको शीघ्र ही स्वीकार करो ॥ १७ ॥

भङ्गो भविष्यति परं लवणोपयोगे
 निर्वन्धकस्य नियमस्य कृतस्य पूर्वम् ।
 पदचात्ततोऽन्यधिपदङ्घ्रिबिधूननाय
 यातस्य हेयपदवीं नियमस्य स स्यात् ॥१८॥

पहिले सिर्फ उस नियमका भङ्ग किया जायगा जो नमकके उपयोगमें बन्धनकारक है । उसके पश्चात् जो अन्य त्याग्य नियम = कायदे हैं उन सभी का भी, अन्य दुःखोंको दूर करनेकेलिये, भङ्ग किया जायगा ॥ १८ ॥

एवं विरोधमभितः प्रबलं विधाय
 राज्यं निरङ्कुशमिदं स्ववशे प्रणीय ।
 दारिद्र्यवारिनिधिमानविमञ्जनाय
 स्थाप्यं स्वराज्यममलं नितरामगत्यः ॥१९॥

इस प्रकारसे सब ओरसे प्रबल विरोध करके इस निरङ्कुश राज्यको अपने वशमें ले आकर, दृष्टितारूप समुद्रके मानभञ्जन करनेकेलिये अगल्यसमान निर्मल—निर्दोष स्वराज्यकी स्थापना करनी चाहिये ॥ १९ ॥

राज्यस्य रक्षणमिषेण च दुर्मदान्धाः
 शास्त्रापगोरमसुरा नयवर्त्महीनाः ।
 अस्मासु शास्त्ररहितेषु सदा विशङ्काः
 स्फारं प्रहारमदयं नियतं प्रकुर्युः ॥२०॥

यह दुर्मदान्ध अन्यायी असुर, गण्यनी रक्षाके वहानेसे शस्त्र उठाकर, निःशस्त्र हमलोगोंपर निश्चङ्क होकर निर्दयतापूर्ण फटोर प्रहार सदा, अवश्यही करेंगे ॥ २० ॥

नीत्वापराधरहितानपि भारतीया-
 ऽद्वेताङ्गका यधभुवं मद्दिवहला नः ।
 प्राणान्तदण्डनविधानपि निर्दयत्वं
 सन्दर्शयेयुरधिकाधिकमधेलुब्धाः ॥२१॥

यह अप्रेज मतवाले और धनके लोभी हैं । निरपराध हिन्दुस्तानियोंको भी पकूडकर यह फाँसीके तरतेपर ले जायेंगे और प्राणदण्ड देनेमें भी यह अपनी रईसि बड़ी निर्दयता दिखावगे ॥२१॥

मन्येऽहमेतदपि सत्यमिमेऽपि सन्ति

फड्कालरक्तपल्लादियुता मनुष्या ।

अस्माद्दशस्तदिह मानवताविरोधि

कृत्य प्रणेतुमवशाश्चिनुयुत्सवा ते ॥२२॥

मैं यह भी मानता हू कि सचमुच यह भी हमारे समान ही मनुष्य हैं । हड्डी, लोह, मांस आदिसे यह भी जने हुए हैं । अतः मनुष्यताविरोधी कार्य करनेमें इन्हें भी लज्जा आवेगी ॥२२॥

यस्या स्थितौ निपतिता इह सम्भजन्ते

य क्रूरभावमवदातशरीरभाज ।

एते वय यदि भवेम हि तद्दशाया

नून तमेव वयमप्यवशा भजेम ॥२३॥

यह गोरे जिस स्थितिमें पडकर जिस क्रूर भावको धारण करते हैं, यदि उसी स्थितिमें हम भी हों, तो अवश्य ही हम भी उसी क्रूरताको धारण कर सकते हैं ॥ २३ ॥

नोदेति शक्तिरसिलेषु जनेषु ताव-

त्सर्वर्तितु ह्यवसरेऽस्ति च सत्यमेतत् ।

शक्तिं समर्पयति तेषु स वर्तमान-

स्तस्मान्नितान्तमिह ते न भवन्ति दूष्या ॥२४॥

यह सत्य है कि सत्र मनुष्योंमें अवसरपर उताव—व्यवहार करनेकी शक्ति नहीं होती है । वह वर्तमान अवसर ही मनुष्योंमें शक्ति प्रदान करता है । अतः इसमें अग्रजोंका बहुत दोष नहीं है अर्थात् अवसर पहिचाननेकी शक्तिके अभावसे ही यह अन्याय कर रहे हैं । जब उनमें

समय पहिचाननेकी शक्ति आजायगी तो उनका अन्याय भी बन्द हो जायगा ॥ २४ ॥

नो रोचतेऽस्य विगुणस्य दुरन्तनीती
 राज्यस्य तां तदपनेतुमियं प्रवृत्तिः ।
 ऊरीकृता बहु विचार्ये मया मयि स्या-
 च्छक्तिर्यदि प्रलयमद्य नयाम्यहं ताम् ॥२५॥

परन्तु इस विपरीतगुणवाले राज्यकी यह दुःसादनीति हमें पसन्द नहीं है अतः इसको दूर करनेकेलिये, बहुत विचार करके इस प्रवृत्तिको मैंने स्वीकार किया है । यदि मुझमें शक्ति होती तो मैं आज ही इसका सर्वथा नाश करता ॥२५॥

इच्छन्नहं श्वसिमि निश्श्वसिमि प्रकामं
 तन्नाशमेव नियतं परिशुद्धचित्तः ।
 कारागृहे निगदितोऽथ भवामि मुक्त-
 स्तस्याः प्रणाश उपकल्पित एव सद्यः ॥२६॥

मैं शुद्धचित्तसे इस दुष्टनीतिके नाशकी इच्छा करता हुआ ही श्वास-प्रश्वास ले रहा हूँ । मैं चाहे जेलमें रहूँ और चाहे बाहर रहूँ, उसका नाश तो अब नियत ही है ॥ २६ ॥

आक्रन्दनं जगदधीश्वरपादयोर्य-
 च्छद्मपतिप्रतिनिधायपि दीनवाचा ।
 पूयं विनिश्चयपुरस्सरमर्पितं त-
 त्सत्यं परं विषदते न हि कोऽपि तत्र ॥२७॥

भगवान्के चरणोंमें और बाइसरायके पास मैंने पुर निश्चय करके, दीनवागीसे जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है । इसमें किसीको भी विवाद नहीं है ॥२७॥

सेनाव्ययो लघणशुल्कतदन्यशुंका
 मद्यादिफेनविषयोद्विष्टे व्ययस्थाः ।

एतेषु कस्यचिदपि प्रतिकूलतायां

संशेरते न सितवर्मभृतोऽपि जातु ॥२८॥

सेनाका खर्च, नमककर और दूसरे कर, शराब, अफीम, तम्बाकू आदिकेलिये जो कानून हैं, इनमेंसे किसीकी भी प्रतिकूलतामें (यद् कर और कायदे अन्यायी हैं इस विषयमें) अंग्रेजोंको भी कभी सन्देह नहीं होता है । अर्थात् सर्वसम्पत्तिमें यह सब चीजें अन्याय पूर्ण हैं ॥२८॥

सर्वेऽपि ते सविनयापितदोषपुञ्जं

मिथ्या धदन्ति न परन्तु समर्थयन्ते ।

कुर्युश्च कि परवशा द्रविणस्य लुब्धा

द्रव्यं न चेद्भवतु न प्रकृतिप्रपीडा ॥२९॥

विनयपूर्वक जिन दोषोंको मैंने उनके सामने रखा है, उन्हें वह अंग्रेज लोग भी मिथ्या नहीं बताते, समर्थन ही करते हैं । परन्तु पराधीन और घन-लोमी वह क्या करें ? यदि द्रव्य न हो तो प्रजाको कष्ट भी न हो ॥२९॥

ये रक्षिकार्यनिरता पुरुषाश्च केचि—

त्संयोजिता अधिकृता लवणाधिकारैः ।

ते नो न चेन्निगडितानिह भावयेयुः

स्यात्क्रीवतेति कथितो नयकोऽपराधः ॥३०॥

जो पुरुष वहाँ सिपाहीके काममें, नमकके अधिकारोंके साथ नियुक्त और अधिकृत किये गये हैं वह यदि हम लोगोंको गिरफ्तार न करें तो उनपर “नपुंसकता” का नया अपराध लगाया जायगा ॥३०॥

पश्येच्च कोऽपि यदि नः प्रहरी तदानीं

ध्वारं जलेन परिकल्पयतो महाब्धेः ।

आज्ञापितो दुरितशासनतोऽवशोऽसौ

शक्नोति नो निगडितुं सहसाऽयपापान् ॥३१॥

हम लोगोंको समुद्रके जलसे नमक बनाते हुए यदि कोई सिपाही देख ले तो दुष्ट सर्कारकी आशासे, विवश होकर वह हम लोगोंको पकड़ सकता है, यद्यपि हम निरपराधी ही होंगे ॥३१॥

पात्रं जलेन परिपूर्णमथानलस्थं
पश्येत्तदैव तदमत्रमपाहरेत् ।
पानीयमप्यसिलमेप महोदधेस्त—
द्यूष्टो विचाररहितो विनिपातयेत् ॥३०॥

यदि जलसे पूर्ण पात्रको अग्निपर रखा हुआ देखे तो वह सिपाही हमारे पात्रको मी छीन सकता है । वह विचारहीन असभ्य समुद्रके उस सारे जलको गिरा भी सकता है ॥ ३२ ॥

सज्जीकृतं च लवणं महता श्रमेण
लोकोपकारकरणाय मयाऽपरैश्च ।
एकेन किङ्करजनेन समेत्य तत्तु
शक्येत् हतुमथवा विकरीतुमद्य ॥३३॥

मैंने अथवा और अन्य किसीने भले घटे परिश्रमसे नमक तैयार कर रखा हो और वह लोकोपकारके लिये ही हो, परन्तु एक ही सिपाही, आकर आज उस सब नमकको छीन सकता है या बिदेर सकता है ॥३३॥

आस्ते निरर्थक उपप्लुतको लमुन्द्रे
क्षाराकरः कपटवज्जसमीप एव ।
शक्यं न कैरपि दशाऽपि निरीक्षितुं य—
त्रित्यं रजासि निहितानि भवन्ति तत्र ॥३४॥

कपटवज्जके पास लमुन्द्रामें निरर्थक नमककी गान मरी पटी है । उसे कोई आगसे भी नहीं देख सकता है क्योंकि रोज उसपर धूल डाली जाती है ॥ ३४ ॥

अन्याय एव नहि शक्य उपेक्षितु स्या-
 देपोऽपराध उद्गाच्च वहिर्दयायाः ।
 एषाऽऽसुरी भवति नीतिरनीतिपूर्णा
 ध्वंस्या क्षणेन सकलैरपि भारतीयैः ॥३५॥

यह अन्याय उपेक्षा करने योग्य नहीं है। यह अपराध दयाके बाहर चला गया—दया कर्त्रेयोग्य नहीं है। यह नीति भासुरी है और अत एव अन्यायपूर्ण है। सब भारतवासियोंको चाहिये कि इसे जल्द से जल्द नष्ट कर दें ॥ ३५ ॥

युष्माभिरप्युपहृता धनभस्त्रिकैषा
 तस्याः कृते स्वहृदये बहु धारयामि ।
 तोषाय न प्रभवतीह परं ममैषा
 याचेऽहमन्यदपि तेन सुखाय युष्मान् ॥३६॥

तुम लोगोंने भी मुझे यह रुपयोकी थैली दी है। इसकेलिये मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। परन्तु इस थैलीसे मुझे सन्तोष नहीं होगा। अतः मैं तुम्हारे पास कुछ और भी माँगता हूँ ॥ ३६ ॥

आरब्ध एव भगवानयमद्य यज्ञो
 युष्माभिरप्यनलकाटुतयः प्रदेयाः
 अध्यापकाः कुशलमाणवका भगिन्यः
 सर्वे सुखं स्वयमिहामिलिता भवन्तु ॥३७॥

इस यज्ञ भगवान्का आज आरम्भ किया गया है। इसमें तुम लोगोंको भी आहुति देनी होगी। अध्यापक, बड़ी उम्रके विद्यार्थी, बच्चों, सब अपने-आप प्रेम्से इस यज्ञमें शामिल हों ॥ ३७ ॥

अस्तिश्च धर्मसमरे न पराणि सन्धि
 शस्त्राणि सत्यमिति केवलमर्ष्यमस्त्रम् ।

तद्वाप्यर्हिसनमुसुक्रममीडितौजः

शस्त्रद्वयेन कुरुताद्य शिवं स्वकीयम् ॥३८॥

इस धर्मयुद्धमें दूसरे अस्त्र नहीं हैं। केवल पवित्र अस्त्र सत्य तथा पराक्रमी और प्रख्यात बलवाला अर्हिसा यही दो अस्त्र हैं। इन्हीं दोनोंसे आज अपना कल्याण बनाओ ॥ ३८ ॥

योग्योऽस्ति नो समय एष उपार्जनाय

विद्यागृहेऽक्षरचयस्य निरर्थकस्य ।

तस्माद्विहाय तरसा सकलं प्रपञ्चं

श्वःश्रेयसं जनिमुवोऽद्य विधत्त वीराः ॥३९॥

धर्ममें निरर्थक अक्षरज्ञान पैदा करनेका यह योग्य समय नहीं है। अतः हे वीरो! इस सब प्रपञ्चको छोड़कर जन्मभूमिकी मुक्ति प्राप्त करो ॥३९॥

घाचो ममाद्य यदि वो हृदये स्थिताः स्युः

कल्याणमेव लभतामुदयं च आशु ।

नोचेद्रतेऽश्वसरेषु समे मनुष्या

देशद्रुहोऽहह वः परिकीर्तयेयुः ॥४०॥

यदि आज मेरी बात तुम्हारे हृदयमें स्थान पा सके तो शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण हो जावे। अन्यथा, समयके बीत जानेपर सब लोग तुम्हारी गणना देशद्रोहियोंमें करेंगे ॥ ४० ॥

श्रीवल्लभोऽस्ति यदि नायकवर्य एष

कारागृहे निगदितः सितराज्यपालैः ।

नैतद्भवेदुचितमत्र हि यूयमद्य

विद्यालये क्षणमपि स्थिरतां विधत्त ॥४१॥

यदि बल्लभभाई जैसे प्रतिष्ठित तुम्हारे नेताको सकारने जेलमें बन्द कर दिया है तो अब उचित नहीं है कि तुम क्षणभर भी विद्यालयोंमें—
स्कूलों और कालेजोंमें रहो ॥ ४१ ॥

अस्मिन्मृघे न मिलिता यवनाः खिरिस्ति—
 लोका यद्द्विदिन इति प्रवदन्ति केचित् ।
 मिथ्यैव तां गिरमवेत यतो हि तेषा-
 मप्यस्ति नित्यमुपयोज्यमिहाक्षियं तत् ॥४२॥

कितने ही लोग कहते हैं कि इस लडाईंमें मुसल्मान, ईसाई और
 यहूदी शामिल नहीं हैं । उनके इस कथनको मिथ्या ही समझो । क्योंकि
 नमक तो उन्हें भी सदा उपयोग करनेकेलिये चाहिये ही ॥ ४२ ॥

यस्मात्करान्न वृषभा महिषा न माहा
 मुक्ता न वत्सतरका अपि तर्णका नो ।
 मुक्ता भवन्तु मनुजाः किमिवाथ तस्मा—
 न्मुक्ता भवन्तु कुत एव रणात्तदस्मात् ॥४३॥

जिसे नमकके क्रमसे बैल, बैल, गायें, छोटे छोटे बछड़े और तुरन्तके
 पैदा हुए बछड़े भी नहीं छूट सकते उस क्रमसे मनुष्योंमें जिनकी गिनती
 ही वे लोग कैसे छूट सकते हैं ? और यदि उस क्रमसे नहीं छूट सकते
 तो इस युद्धमेंसे वह कैसे छूट सकते हैं ? ॥ ४३ ॥

अस्मात्कराद्रह्यितुं निखिलान्समर्थाः
 साष्टाङ्गिकाः प्रणतयो यदि मत्कृताः स्युः ।
 सज्जोऽस्म्यहं रचयितुं किल यत्र तत्र
 धाराञ्छतं बहुविधा अपि ता नितान्तम् ॥४४॥

यदि मेरे किये हुए साष्टाङ्ग प्रणाम, सबको इस क्रमसे छुड़ा सकते
 हों तो मैं चाहे जहाँ सैकड़ों गार प्रणाम करनेको सदा तैयार हूँ ॥ ४४ ॥

राज्ये कृता विनतयो लिखितश्च पत्र—
 राशिर्विवेकवचनानि समर्पितानि ।
 नैराश्रयमेत्य सकलेभ्य उपायकेभ्य.
 पन्थानमेतमहमद्य समागतोऽस्मि ॥४५॥

सर्कारसे मैंने प्रार्थनाएँ कीं । पत्र लिखे । विवेकपूर्ण वचन अर्पण किये । सब उपायोसे निराश होकर आज मैंने इस मार्गको पकड़ा है ॥४५॥

जातोऽस्मि शासनविभङ्गविधानसञ्जो

राज्यद्रुहां मुखरतां प्रतिपन्न एव ।

कृत्वैतदद्य कथमप्यतिदुःखपूर्णः

शान्तं करोमि विरसं मम तान्तमन्तः ॥४६॥

राजद्रोहियोंमें मुख्य बनकर आज मैं कानून भङ्ग करनेके लिये तैयार हुआ हूँ । इतना करके किसी प्रकारसे अपने नीरस और व्याकुल अन्तःकरणको शान्त बनाता हूँ ॥ ४६ ॥

यूयं प्रशान्तिपथगे प्रविदारणेऽस्मि-

न्सर्वेऽपि भारतविपत्तिविपन्नचित्ताः ।

सङ्गत्य निर्मलधियो युधमाभजेत

क्षारः करः क्षरणमेप्यति सद्य एव ॥४७॥

भारतके दुःखसे दुःखित चित्तवाले होकर यदि तुम सब लोग भी इस शान्त—युद्धमे शामिल होकर, निर्मल बुद्धिसे युद्ध करो तो यह नमकका कर तो अभी नष्ट होता है ॥ ४७ ॥

युष्मासु पौरुषमुदेतु यदि प्रकृष्टं

स्थायि प्रनष्ट इव सैप करोऽस्ति नूनम् ।

दुर्दर्शनीयनृपनीतिरियं च सर्वा

आपत्तयोप्युपगता विलयं भजेयुः ॥४८॥

यदि तुममें पुरुषार्थ पैदा हो जाय और स्थायी बना रहे तो यह नमकके करका तो नाश हुआ ही समझो । नहीं देती जा सके ऐसी यह—वर्तमान राजनीति और सभी आपत्तियाँ विलय हो जायें ॥४८॥

साक्ष्यं विधाय नितिलगामवेद्यसर्व-

भूताधिनाथपरमात्मन एव युद्धे ।

आमन्त्रयेऽहमखिलानपि वस्ततोऽद्य

सार्थं कुरुध्वममलं विनिवेदनं मे ॥४९॥

सर्व धर्मपुस्तकोंसे जाननेकेयोग्य—सर्व प्राणियोंके स्वामी परमात्मा-
को साक्षी रखकर इस युद्धमें तुमलोगोंको मैं निमन्त्रण दे रहा हूँ । अतः
आज मेरे इस निर्मल—विशुद्ध निवेदनको तुम लोग सार्थक बनाओ ॥४९॥

सन्देहि नाल्पमपि यत्समुदायकेऽस्मि—

वृश्चेताङ्गका अपि बलं मम वर्धयेयुः ।

अन्यायमेकमभिपातुमनीश्वरास्ते

नान्यायपुञ्जदहनं ज्वलयेयुरद्धा ॥५०॥

मुझे बरा भी सन्देह नहीं है कि इस युद्धमें अप्रेज भी मेरे बलको
बढावेंगे । हे अज्ञातः = निर्दोष बन्धुओ ! एक अन्यायकी रक्षाकेलिये,
अनेक अन्यायरूप अग्निको वे लोग नहीं प्रज्वलित करेंगे ॥ ५० ॥

अस्याः पुरः स्थित इवास्ति कुराजनीते-

नांशो न संशयितुमर्हथ यूयमत्र ।

वीर्यं प्रदर्शयत वीरजनोचितं चे—

त्कामं फलिष्यति मुखेन व ईहितार्थं ॥५१॥

इस राजनीतिका नाश तो अब मानो सामने ही सड़ा है । इस
विषयमें अब तुम्हें सन्देह नहीं करना चाहिये । वीरजनोचित वीरताका
प्रदर्शन करो, कराओ । मुझ के साथ तुम्हारा मनोरथ अत्यन्त सफल
होगा ॥ ५१ ॥

स्वतन्त्रता महाप्रसादमेत्य शीतलानना

गृहीतमालिका करेण भारतार्तिहारिणी ।

समीपमेति विह्वला न चारतु नः पलायनं

समीहितं चिरेण पूर्तिमाशु नः प्रयातु ततू ॥५२॥

शीतलमुखवाली, भारतके दुःखको हरण करनेवाली स्वतन्त्रता (देवी)

हाथमें माला लेकर विह्वल होकर हमारे पास आ रही है। हम लोग भागें नहीं। चिरकालका मनोरथ शीघ्र अथ पूर्ण होगा ॥ ५२ ॥

पथ्यमेतदुपदिश्य सद्ब्रुवाः

कामपि श्रियमपूर्विकां दधत् ।

शर्वरीमुपनयन्कृतार्थतां

तां सुपेण इह सप्रगे ययौ ॥५३॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकश्रीस्वामिभगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

षोडशः सर्गः

सत्यवादी श्रीमहात्माजी इस हितकारक वस्तुका उपदेश करके किसी अथर्व शोभाको धारण करते हुए, उस रात्रिको कृतार्थ करके शान्तिपूर्वक प्रातःकाल सेनासहित चले गये ॥ ५३ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते षोडशः सर्गः



* सप्तदशः सर्गः

एष घोरसद्वासिमानवास्तद्वितार्थमुपदिश्य सत्कृतः ।
सत्प्रयाणमकरोच्च मानवैः प्रेमनिस्तजलाधिलोचनैः ॥ १ ॥

श्रीमहात्माजीने घोरसद् वासियोंको उनके हितका उपदेश करके लोगोंसे आहत होकर वहाँमें प्रयाण कर दिया । उस समय लोगोंकी धारोंमें प्रेमाश्रु भरे हुए थे ।

वर्त्मसंस्थितजानान्समुत्सुकान्मन्दहास्यमभिदर्श्य मानयन् ।
धर्मयुद्धरचनाचिकीर्षया सेनया सह यथा जवेन सः ॥ २ ॥

दर्शनकेलिए रास्तेमें बैठे हुए लोगोंको अपने मन्दहास्यसे सम्मानित करते हुए, धर्मयुद्धकी रचना करनेकी इच्छासे सेनाके साथ बिना विलम्ब चले गये ॥ २ ॥

संजगाम स च रासनानकं प्राममुत्प्रथितकीर्तिपुञ्जकम् ।
यत्र बल्लभ इडेन्द्रकिङ्करे प्रापितो वत निगृह्य वन्दिताम् ॥ ३ ॥

श्रीमहात्माजी बहुत कीर्तिवाले रास गाँवमें पहुँचे । जहाँ कि बादशाहके नौकरोंने—राजधर्मचारियोंने श्रीबल्लभभाईको पकड़कर कैदी बनाया था ॥ ३ ॥

दर्शनाय महतां महीयसो दूरतोऽपि जनता समागता ।
सा तुतोप तमवेक्ष्य सरष्टुहं सन्तुतोप स च तां धयन्दृशा ॥ ४ ॥

श्रीमहात्माजीके दर्शनकेलिये दूरदूरसे भी लोग आये हुए थे । लोग श्रीमहात्माजीको देखकर और श्रीमहात्माजी लोगोंको देखकर सन्तुष्ट हुए ॥४॥
पाष्णिभागमथ सा क्षणे क्षणे व्युत्थितं हि विरचय्य तं मुनिम् ।
चारणाद्गुलिपु भारमात्मनो विप्रहस्य विनिधाय वैक्षत ॥ ५ ॥

इस सर्गमें स्थोत्रता छन्द है ।

सा = वह जनता अपनी ऍंडीको ऊँची करके, और अपने शरीरका सब भार पैरोंके पञ्जेपर रखकर, उन श्रीमहात्माजीका दर्शन करने लगी । अर्थात् उचक उचक कर लोग उन्हे देखने लगे ॥ ५ ॥

श्रान्तिमेव पथि सङ्गता महाशान्तिभूमिपतिराश्वपानयत् ।
स्नानभोजनकृतिं च सत्कृती संवृतो जनतया समापयत् ॥ ६ ॥

सत्कृती और परम शान्त श्रीमहात्माजीने, मार्गकी थकावट को शीघ्र ही दूर कर दिया । जनतासे घिरे हुए ही उन्होंने स्नान और भोजनकी क्रियाको समाप्त किया ॥ ६ ॥

उच्चकैर्विरचितात्सुमश्चक्रात्प्रस्फुरद्द्युतिविशोभिताननः ।
चारुसञ्चितविचारमुन्दरः सुन्दरं वचनमाजहार सः ॥ ७ ॥

एक ऊँचा सिंहासन बनाया गया । उसपर बैठकर, देदीप्यमान मुखवाले और सुन्दर विचारवाले श्रीमहात्माजी सुन्दर उपदेश करने लग गये ॥ ७ ॥

ॐ एतदेव विलसन्महामहो मण्डलं स सरदारवल्लभः ।
जग्मिवान्सपदि यत्र चाञ्छिता वन्दितां परमवीरपूजितः ॥ ८ ॥

- यह वही महान् तेजस्वी प्रान्त है जहाँपर बड़े बड़े वीरोंसे पूजित श्रीसरदार वल्लभभाईने अपनी चाही हुई कैदको प्राप्तकी है ॥ ८ ॥

अस्ति मण्डलमिदं प्रतिष्ठितं यत्र पूर्वमतिगर्वितामिमाम् ।
राजनीतिमभिजित्य संगरे धल्लभो विजयमापदुज्ज्वलम् ॥ ९ ॥

यह वही प्रतिष्ठित प्रान्त है जहाँ पहिले श्रीवल्लभभाईने इस अभिमान-पूर्ण राजनीतिको युद्धमें जीतकर, उज्ज्वल विजयको प्राप्त किया था ॥ ९ ॥

ॐ यहाँसे महात्माजीका भाषण शुरू होता है ।

× सन् १९२४ ई० में इसी तालुकेमें श्रीवल्लभभाईने एक असहयोग युद्ध किया था जिसमें सरकारको अपनी भूल कबूल करनी पड़ी थी।

तद्धि कार्यमधुना मयेह वा तद्भवेद्य करणीयमद्य यः ।
 वल्लभस्य विजयार्चितस्य यन्मानसस्य परितोपमावहेत् ॥ १० ॥

इस समय मुझे भी वह कार्य करना चाहिये और तुम लोगोंको भी वही कार्य करना चाहिये जिससे कि विजयी श्रीवल्लभभाईके हृदयको सन्तोष प्राप्त हो ॥ १० ॥

ते प्रशस्यपदवीमुपागता ये जहुर्निजमुखित्वमर्थकृत् ।
 किन्तु सन्ति बहवः परेऽपि ये न त्यजन्ति धनलोभबन्धनम् ॥११॥

मुखीपना केवल अर्थ धन हरण करनेकेलिए ही होता है । जिन्दोने इस मुखीपनेको छोड़ दिया है वह प्रशसाके पात्र हैं । परन्तु अभी तो दूसरे बहुत मुसी हैं जो धनके लोभरूप बन्धनको नहीं छोड़ रहे हैं ॥ ११ ॥

वेतनाय मुखितां न ते क्वचिद्धारयन्ति मुखिताधिकारिणः ।
 केवलं तदधिकारलोभतस्तत्र तैः स्वहितमेव साध्यते ॥१२॥

वेतनकेलिये कोई भी मुखीपनेको स्वीकार नहीं करता । वह सभी मुखिता—मुखीपनेके अधिकारी हैं । अर्थात् मुखी बननेसे अनेक प्रकारकी अन्यायपूर्ण स्वतन्त्रताएँ मिलेंगी । केवल अधिकारके लोभसे ही लोग मुखी बनते हैं और उस अधिकारके मिलनेपर सब अपना ही हित साधते हैं ॥ १२ ॥

राजनीतिरियमद्य भारतं लुण्ठितुं रचितनिश्चितस्ततः ।
 देशनाशनविषो न दीयतां शासनाय भवतां सहायता ॥१३॥

आज इस राजनीतिने भारतको लूटनेका निश्चय कररखा है । अतः तुम लोग देशके नाश करनेमें राज्यको कोई भी अपनी सहायता मत दो ॥१३॥

ग्रामभाग इह ये तलाटिनो येऽभिवन्ति मुखिनोऽथ रक्षिणः ।
 तान्विधाय निजसाधनं महद्भ्राजनीतिशकटं प्रचाल्यते ॥१४॥

ग्रामोंमें जो तलाटी हैं, जो मुखी हैं और जो सिपाही हैं, उन सबको अपना एक बड़ा भारी साधन बनाकर इस राजनीतिके गाँडेको चलाया जा रहा है ॥ १४ ॥

कर्म किञ्चन न चेत्प्ररोचते नैव कार्यमिह कैश्चिदेव तन् ।
कैश्चिदप्यथ भयैः क्रियेत तत्कारकांश्च दुरितं समाश्रयेत् ॥१५॥

जो कार्य किसीको पसन्द न हो उसे नहीं करना चाहिये । किसी प्रकारके भयसे यदि वह कार्य किया जाय तो करनेवाले को पाप ही लगता है ॥१५॥

एतदान्तरभयप्रणाशने सक्त एव सरदारवल्लभः ।
राक्षसार्हनयपालनोद्यतैर्वन्दिसद्धानि निधीयतेऽधुना ॥१६॥

इसी ध्वान्तरिक भयको नष्ट करनेकेलिये श्रीसरदार वल्लभभाई लगे हुए थे । उन्हें इस राक्षसीनीतिकी रक्षामें लगे हुए राजकर्मचारियोंने जेलमें रक्त छोड़ा है ॥ १६ ॥

तेन न प्रयचनं क्वचित्कृतं नोदपादि एलु फोऽप्युपद्रवः ।
धिक्त्वापि नरपामरैर्महात्रायको विनिगृहीत एव तैः ॥१७॥

उन्होंने-वल्लभभाईने न तो कहीं कोई व्याख्यान दिया और न कोई उपद्रव किया । तथापि, धिक्कार है, कि नीचपुरुषोंने उन्हें पकड़ लिया ॥१७॥

आजगाम स ख यच्चि क्रीपया वल्लभोऽत्र गुजरातवल्लभः ।
तत्तु सर्वविदितं पुराऽभवद्गोपितं किमपि तेन नो सता ॥१८॥

गुजरातके वल्लभ सर्वप्रिय, धीवल्लभभाई जिस कामको करनेकी इच्छासे यहाँ आये थे वह तो पहिले ही सबको विदित था । उन्होंने कुछ छिपा नहीं रखा था ॥ १८ ॥

सत्यवर्त्मनि रतोस्ति यो नरस्तस्य गोप्यमिह किञ्चनास्ति नो ।
आगमत्स कृपया कृपापरो मार्गमार्जनकृते ममोद्वलः ॥१९॥

जो मनुष्य सत्यमार्गमें लगा हुआ हो उसके पास छिपाने योग्य कोई वस्तु नहीं होती है । वह तो कृपाकरके मेरे मार्गको याकू करनेकेलिये ही आये थे ॥ १९ ॥

क्षारदासनविभ्रानं परं मत्सहायकगणेन या मया ।
कार्यमत्र न परप्रयोजना योजनेयमुररीशत्राऽभयन् ॥२०॥

नमककानूनका तोडना या तो मेरे हाथ हो या मेरे साथियों-सैनिकोंके द्वारा हो। इस कार्यमें दूसरोंकी आवश्यकता नहीं है; इस तरहकी योजना बनायी गयी थी ॥ २० ॥

संस्तुता न निखिला भवन्ति वो ये मया सह समागता इह ।
एषु सन्ति बहवो गुणाश्रया बल्लभस्य सुधियः मुसेवका ॥२१॥

ये जो लोग मेरे साथ आये हैं यह सब तुम लोगोंके परिचित नहीं हैं। इनमें बहुत से तो सुधी श्रीबल्लभभाईके सेवक हैं ॥ २१ ॥

अल्पमेव परिदण्डयच्च त शासन गतमति व्यलज्जयत् ।
स्यं च तं च नरतल्लजं कुतो युद्धिरस्तु जडतापतादिते ॥२२॥

इस निर्बुद्धि सरकारने उनको थोडा सा ही दण्ड करके अपने को और उनको भी लजित किया है। जडतासे मारे गये हुएको अङ्क कहाँसे हो ? ॥ २२ ॥

देशवाह्यकरणं च मस्तकच्छेदनं च गुलिकाग्निभर्जनम् ।
दण्डनं यदि तु माहशामिदं शोभतेऽपि न हि तद्विशोभते ॥२३॥

मेरे जैसोंको तो देशनिकाला, या सिरकाटना, या गोलियोंसे मरवाना, यह सब दण्ड—शोभा देता है। वह दण्ड—तीन महीनेकी जेलकी सजा—नहीं शोभा देता ॥ २३ ॥

द्रोहणं दुरितशासनाय मे सम्मतं परमधर्मवर्धनम् ।
शिक्षयामि नितरामहं प्रजा धर्ममेतमथ मोक्षसाधनम् ॥२४॥

दुष्ट सरकारके प्रति द्रोह करना मेरी सम्मतिमें परम धर्मवृद्धिका कार्य है। इसी धर्मको मैं प्रजाको सदा सिखा रहा हूँ। यही धर्म मोक्षका—स्वतन्त्रताका साधन है ॥ २४ ॥

यच्च शासनमहर्दिव प्रजापीडनानि निखिलेषु निर्दयम् ।
क्षारशुद्धरचनां च दुर्घर्ययं सैनिकादिषु करोति सर्वदा ॥२५॥

वो सरकार शतदिन प्रजाको पीडित कर रही है और सघर—गरीब

और अमीरपर-नमकवा कर रत रही है, और जो फौज आदिकेलिये निरर्थक व्यय सदा कर रही है ॥ २५ ॥

यच्च पञ्चभिरहो सहस्रकैर्वेतनं गुणितमेव यच्छति ।
भूपतिस्थितिमुजेऽधिकं सदा भारतीयजनतायतोऽत्रपम् ॥२६॥

जो बाइसरायको भारतीय जनताकी आयसे ५ हजार गुणा अधिक वेतन सदा देती रहती है ॥ २६ ॥

पञ्चविंशतिमथापि वार्षिकीं यच्च कोटिमहिफेनमद्यतः ।
मुद्रिका जयति पष्टिकोटि यद्भिन्नदेशवसनक्रयादपि ॥२७॥

जो सर्कार २५ करोड रुपये प्रतिवर्ष अफीम और शराबसे पैदा करती है और अरे रे ! जो सर्कार ६० करोड रुपये विदेशी कपडोंसे पैदा करती है ॥ २७ ॥

संघशो मनुजनीनहर्दिवं संस्थितानिह च जीविकां विना ।
यन्न पश्यति दरिद्रतामहाराज्यमत्र विततं समन्ततः ॥२८॥

जो सर्कार, जिन को जीविका नहीं मिल रही है ऐसे उन असख्य मनुष्योंको भी नहीं देखती है और जो चारोंओर फैले हुए दारिद्र्यको भी नहीं देखती है ॥ २८ ॥

शासनस्य बत तस्य दुर्दृशो नाशनाय सततं समुत्सुकः ।
द्रोहमेव जनतापकारके धर्मनद्य परमं प्रवेदूम्यहम् ॥२९॥

उस दुर्विचारवाली सरकारका नाश करनेकेलिये मैं सदा उत्सुक हूँ ।
उस घातक सरकारके साथ द्रोह करना मैं परम धर्म मानता हूँ ॥ २९ ॥

शासनेन सहसेति वीक्षित वन्दितां हि गमितेऽद्य यद्भवे ।
भारतीयजनता भदिष्यति प्रेक्ष्य दुःखमतिभीपराहता ॥३०॥

इस दुष्ट सरकारने तो विचार होना कि श्रीवल्लभभाईको जेलरी सजा दे देनेपर, उस दुःखको देखकर भारतीय जनता मयभीत हो जायगी ॥ ३० ॥

भूतमद्य विपरीतमेव यन्निर्भयत्वमधिगत्य सर्वथा ।

भोतुमत्र मम हार्दिकं वचो धर्मभावगति यूयमागताः ॥३१॥

परन्तु हुआ उल्टा ही । जिससे कि आज तुमलोग अधिक निर्भय होकर मेरे हार्दिक और धार्मिक वचनको सुननेकेलिये यहाँ आये हो ॥ ३१ ॥

शासनं च यदि बन्धनेन मां योजयेदखिलसेनया सह ।

एष योऽस्तु परमोत्सवः परं कार्यमग्निममतोऽवधार्यताम् ॥३२॥

यदि सरकार मेरी सारी सेनाके साथ मुझे जेल भेज दे तो यह तुम लोगोंकेलिये आनन्दकी बात होनी चाहिये । और तब भविष्यकेलिये कर्तव्य निश्चित कर लेना ॥ ३२ ॥

शीघ्रमेव विजहीत बन्धवः शासनेन परिकल्पिता भृतिम् ।

देशदुःखरजनीविनाशने व्यापृता भवत भारतारुणाः ॥३३॥

माइयो ! राज्यकी दी हुई नौकरीको शीघ्र छोड़दो । देशकी दुःख-रात्रिको नाश करनेमें, हे भारतके अनेक सूयो । तुम तल्लीन हो जाओ ॥३३॥

एष तिष्ठति ढसाधरापतिस्त्यागमूर्तिरिव वो दृगङ्गने ।

गृह्यतां नरपतेरतः सदा साहसं परतरोऽपरिमहः ॥३४॥

यह दसा राज्यके राजा श्रीमान् गोपालदासभाई साक्षात् त्यागमूर्तिके समान तुम्हारी आँखोंके आगे प्रैटे हुए हैं । इन—राजासे साहस और महान्-अपरिमहका ग्रहण करो ॥ ३४ ॥

दत्तमेव धनमद्य मेऽधिकं नाधुना तदधिकं नयेष्यते ।

कामये युधि कृतं समर्पणं तत्समं यदिद्वोऽस्तु साम्प्रतम् ॥३५॥

तुम लोगोंने आज मुझे बहुत धन दिया है । अब उससे अधिक मैं धन नहीं चाहता हूँ । मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारा जो कुछ हो, वह सब इस लड़ाईमें अर्पण कर दो ॥ ३५ ॥

सन्तु ते सुतसुतादयोऽपि च. प्रार्पिता इह सुधर्मकर्मणि ।

यूयमद्य गतकल्मषा ध्रुवा. स्वात्मनो जुहुत युद्धपावके ॥३६॥

तुम्हारे उन—प्रिय बालबच्चोंको भी इस सुन्दर धर्मकार्यमें अर्पण कर दो। पवित्र और दृढनिश्चयी बनकर अपनेको भी इस युद्धाग्निसमें होम कर दो ॥ ३६ ॥

अत्र कस्यचिदपि प्रवर्तते हिंसनं न वचसापि संयुगे ।
दुःखमेव परिप्लव्य सर्वशः शासनं समुपदिश्यतां शठम् ॥३७॥

इस युद्धमें किसी की वाणीसे भी हिंसा नहीं की जायगी। केवल दुःखको ही सर्वथा सहन करके इस सकारको उपदेश देना है ॥ ३७ ॥

विश्वमद्य निखिलं समीक्षतां भारतीयजनतासहिष्णुताम् ।
अन्ततो विपरिवर्तितं भवेच्छासनस्य हृदयं विनिष्ठुरम् ॥३८॥

आज सारे जगत्को भारतवर्षकी प्रजाकी सहनशक्तिको देखने दो। अन्तमें सकारका अत्यन्त कठोर हृदय परिवर्तित हो जायगा ॥ ३८ ॥

यद्यपि प्रतिपलं समेधते क्रूरताद्य निखिलेऽपि शासने ।
नाशया विरहितो भवामि तन्निर्मलं स भगवान्विधास्यते ॥३९॥

यद्यपि सम्पूर्ण राज्यमें इस समय प्रतिक्षण निर्दयता बढती ही जा रही है; तथापि मैं निराश नहीं हो रहा हूँ। भगवान् उसे अवश्य पवित्र करेंगे ॥ ३९ ॥

क्रन्दनं जनतया कृतं महत्सत्वरं समधिगत्य सर्वथा ।
रक्षितुं हि भवितव्यमुद्यतैः शासकैर्विदितसङ्घटामिमाम् ॥४०॥

जनताके क्रन्दनको सुनकर, उसके सङ्घटोंका पता लगाकर शासकोंको उसकी रक्षा करनेकेलिये तैयार हो जाना चाहिये ॥ ४० ॥

शासनेन परमेतकेन तद्दुःखवृद्धिरभिवाञ्छिता सदा ।
इङ्गलैण्डपरिपोषणाय तत्सर्वथा प्रयतते दुराननम् ॥४१॥

परन्तु इस सकारने जनता के दुःखकी वृद्धिकी ही उदा इच्छा की है। यह दुर्मुख सकार इङ्गलैण्डके पोषण करनेकेलिये ही सर्वथा प्रयत्न करती है ॥ ४१ ॥

भारतस्य मुखसम्पदागमः शासनाय नहि रोचते मनाक् ।
नैव पामरजनो विचारयेत्स्वार्थहानिमपरस्य चोन्नतिम् ॥४२॥

भारतकी मुख-सम्पत्तिका आगम इस सर्कारको जरा भी अच्छा नहीं लगता है । ठीक ही है, पामरजन स्वार्थकी हानि और परायी उन्नतिको नहीं विचारते ॥ ४२ ॥

त्रासमेतदभिवर्धते सदा वर्त्म तेन हि मया विमार्गितम् ।
राजशासनविभङ्गनात्मकं सर्वदा सुरति सार्वकामिकम् ॥४३॥

यह शास सदा बढ़ता ही जा रहा है अतः मैंने राज्यकी आशाके भङ्ग करनेका, सुन्दर और सर्व कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, मार्ग हूँद निकाला है ॥ ४३ ॥

क्षारशुल्कनियमस्य भङ्गनाद्वन्धनाप्तिमपि सोढुमुद्यताः ।
धन्यवादसहितं सहामहे ताडनानि च कशाशतेरपि ॥४४॥

नमक शानूनको तोड़नेसे यदि जेल भी मिले तो उसे सहनेकेलिये हम तैयार हैं । यदि हमको सैकड़ों कोड़ोंकी भी सजा मिले तो हम धन्यवाद सहित उसे सहेंगे ॥ ४४ ॥

प्राणदण्डनभिया न शक्यते सङ्गराद्रचयितुं पलायनम् ।
आपदामवचयं निपातितं शासनेन शिरसा वहामहे ॥४५॥

प्राणदण्डके भयसे हम लोग रणभूमिसे भाग नहीं सकते । सर्कारकी ओरसे डाली गयी हुई आपत्तियोंके डेरको हम शिरपर चढ़ावेंगे ॥ ४५ ॥

शासकैर्विरचितासु भारते यावदेव नहि राजनीतिषु ।
धीयते सुपरिवर्तनं वयं नोपरन्तुमभिकामयामहे ॥४६॥

भारतमे प्रचलित राजनीतिमें जत्रतक शासकगण सुन्दर परिवर्तन नहीं करें तत्रतक हम लोग उपराम लेना नहीं चाहते हैं ॥ ४६ ॥

पोडशाब्दिकवयोभुयोऽतिगान्वालयकानपि जरातुरानपि ।
यौवने वयसि संस्थितानहं प्रार्थयेऽवतरितुं रणाङ्गने ॥४७॥

१६ वर्ष से अधिक आयुवाले बालकोंको भी, बूढ़ोंको भी और
जवानोंको भी मैं रणभूमिमें उतरनेकी प्रार्थना करता हूँ ॥४७॥

योपितामपि गणान्महाक्षणान्प्रार्थये विनयपूर्वकं तथा ।

यावदेप निरियान्न दिष्टकस्तावदेव समुपेत सर्वशः ॥४८॥

मैं परम उत्साही बहिनोंके भिन्न भिन्न समाजोंसे भी विनयपूर्वक
प्रार्थना करता हूँ कि समय बीतजानेसे पहिलेही वह भी इस युद्धमें सब
तरहसे धा जावें ॥४८॥

एवं स नायकशिरोमणिरद्भुताभि-

स्ताभिश्च गीर्भिरखिलस्वमनोभितापम् ।

स्त्रीपुंसशुद्धहृदयेषु च सङ्क्रमय्य,

कर्तव्यबोधनपटुर्विरराम योगी ॥४९॥

इति सर्वतद्वस्वतद्वपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

सप्तदशः सर्गः

नेताओंमें श्रेष्ठ और कर्तव्य बतानेमें निपुण श्रीमहात्मान्नी इस
प्रकारसे उन अद्भुत वचनोंसे अपने मनके समस्त दुःखोंको स्त्रीपुरुषोंके
हृदयोंमें सङ्क्रमण कराकर, चुप हो गये ॥४९॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपश्राष्ट्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते सप्तदशः सर्गः



❀ अष्टादशः सर्गः

प्रस्थाय रासादरविन्दनाभकान्तः स कङ्कापुरमाशु गत्वा ।
तत्रापि सर्वान्स्ववचः सुधाभिः सन्तर्पयामास दयालुचेताः ॥१॥

विष्णुके समान कान्तिवाले श्रीमहाःमाजीने राससे चलकर शीघ्र ही
कङ्कापुर जाकर, वहाँ भी सब लोगोंको अपने वचनानृतसे तृप्त किया ॥१॥
सम्मानितो मानिजनैर्महात्मा स्वसेनया सार्धमतिप्रसन्नः ।
गन्तुं स कारेलिमितोऽविलम्बं व्यतीत्य तां रात्रिमथ प्रतस्थे ॥२॥

मानिपुरुषोंसे सम्मानित होकर, कङ्कापुरमे ही रात्रिको बिताकर,
अतिप्रसन्न श्रीमहाःमाजी, शीघ्र कारेली जानेकेलिये अपनी सेनासहित
प्रस्थित हो गये ॥ २ ॥

कारेलिमभ्येत्य महाप्रसाद सदृष्टवान्मानवसागरं सः ।
नित्यक्रियाः स्वस्थतरः समाप्य सभास्थलं धीरगतिर्जगाम ॥३॥

श्रीमहाःमाजीने कारेली जाकर महाप्रसन्न मानवमहासागरको देखा ।
नित्यक्रियाको समाप्त करके, खूब स्वस्थ होकर तब, सभास्थानमें गये ॥३॥

पुलिस्पटेलान्मुखिनस्तलाटीस्त्यक्तुं समादिश्य महीपकार्यम् ।
गन्तुं च तद्दर्शितवर्त्मनैव साय गजेरा स समाससाद ॥४॥

कारेलीमें पुलिस्पटेलों, मुखियों और तलाटियोंके सर्गरी काम छोड़
देनेका और अपने वताये हुए मार्गमें ही चलनेका उपदेश देकर वह
गजेरामें पहुँचे ॥ ४ ॥

दूराच्छ्रुतं तेन महात्मना यद्गामे गजेराख्य उपस्थितानाम् ।
श्रद्धातभारोपगतान्त्यजानां सभाप्रवेशः प्रतिपिद्ध आस्ते ॥५॥

श्रीमहात्माजीने दूरसे ही सुना था कि गजेरा ग्राममें श्रद्धासे आये हुए अन्त्यजोंको उनको सभामें आनेकी मुमानियत की गयी है ॥ ५ ॥

उदारचेताः स पुराणिछोटालालं महाधीरमुपाजुहाव ।
पृष्टश्च तेनैष सुधीः पुराणी वृत्तं समस्तं समुदाजहार ॥६॥

उदारमनवाले श्रीमहात्माजीने महान् वीर श्रीछोटालाल पुराणीको बुलाया । महात्माजीके पृच्छनेपर उन्होंने सब समाचार कह सुनाया ॥६॥

उपासनायाः परमेव लोककृतार्थतायायनवद्यचर्यः ।
जवेन मध्येसभमाशु धीरो गत्वा सभाभूमिमभूपयत्सः ॥७॥

उपासना--प्रार्थनाके पश्चात् ही लोगोंको वृत्तार्थ करनेकेलिये पवित्र आचरणवाले और धीर श्रीमहात्माजीने शीघ्र ही सभामें जाकर सभास्थलको सुशोभित किया ॥ ७ ॥

सैन्यं तदीयं समुदन्त्यजानां दलेन सार्धं पृथगेव तस्थौ ।
एतत्तु दृश्यं हृदयप्रदारि महात्मनोऽसह्यमभूदतीव ॥८॥

श्रीमहात्माजीकी सेना (सभामें) अन्त्यजोंके साथ पृथक् बैठ गयी । यह हृदयविदारक दृश्य श्रीमहात्माजीकेलिये असह्य हुआ ॥ ८ ॥

वंहिष्ठधामा यतिभूमिभूप आप्यानशोकोऽन्त्यजबन्धुभेदात् ।
स्ववाचि रुन्धन्पटिमानमेप गिरं गभीरां समुवाच लोकान् ॥९॥

परमतेजस्वी यतिधर्मपालकशिरोमणि श्रीमहात्माजी, अन्त्यज भाइयोंको पृथक् करनेसे बड़े शोकातुर होकर बुद्धिमत्ताके साथ लोगोंको कहने लगे ॥९॥

सह्या न केनापि कुनीतिरित्येतस्मात्स्वराज्याभिरुचिः समुत्था ।
कथन्तरामन्त्यजवर्गकेऽस्मिन्ननीतिरेषा परिपालिता स्यात् ॥१०॥

किसीके भी अन्यायको नहीं सहना चाहिये, इसी सिद्धान्तसे स्वराज्यकी इच्छा पैदा हुई है । तब इस अन्त्यज समुदायपर क्या गया हुआ यह अन्याय कैसे बचाया जा सकता है ? ॥ १० ॥

उज्जीवनं भेदमतेर्यदि स्याद्दङ्ग्रेजराज्यं दृढमूलमेव ।
तदा भवेत्तेन विभेदभेदे प्रवृत्तिरेवास्तु महाजनानाम् ॥११॥

यदि भेदबुद्धिका उज्जीवन—उत्थान होगा तो अंग्रेजोंका राज्य अधिक मजबूत बनेगा । अतः भेदको नष्ट करनेमें ही महापुरुषोंकी प्रवृत्ति होनी चाहिये ॥११॥

भिन्नो भवेर्यं भुवि एण्डशोऽहं तथा परावृत्त्य निजाश्रमाय ।
गच्छेयमेतन्न परं समीहे पराभवेद्दुर्बलमत्र कोऽपि ॥१२॥

मैं टुकड़ा टुकड़ा हो जाऊँ, लौटकर आश्रममें चला जाऊँ; परन्तु मैं यह क्षमी भी नहीं चाहूँगा कि कोई भी गरीबोंका तिरस्कार करे ॥ १२ ॥

तदीयवाणीतपनोदयेन बुद्ध्यावृत्तिर्नाशमुपेयुषी तत् ।
आकारयामासुरिमे जनौवाः स्वयं स्वबन्धून्सविधेऽन्त्यजांस्तान् ॥१३॥

श्रीमहात्माजीके वाणीरूप तूयोंदयसे प्रकाशसे बुद्धिका आवरण नष्ट हो गया । अतः जनसमुदायने स्वयं ही अपने भाई अन्त्यजोंको अपने पास बुला लिया ॥ १३ ॥

ततः परं धर्मधुरीण एष तस्यां सभायां सकलानपेक्ष्य ।
समादिदेशेति विमुक्तिकामान्समुत्सुकान्मुक्तिधराधरेन्द्रः ॥१४॥

उसके पश्चात् धर्मधुरन्धर श्रीमहात्माजीने उस सभा में सबको उद्देश करके, स्वतन्त्रताकी इच्छा करनेवाले और उत्कण्ठित उन लोगोंको इस प्रकारसे उपदेश दिया ॥ १४ ॥

अङ्ग्रेजराज्यं खलु चोरराज्यमन्यायितायां निरित्थिलाप्रगामि ।
पापातिपापं निजदेशलोकपोषाय सज्जं च परार्थनाशि ॥१५॥

अंग्रेजी राज्य वस्तुतः चारोंका राज्य है । अन्यायीपनेमें यह सबसे बड़ा घटा है । यह पापाधम राज्य अपने देशको पालनेकेलिसे दूसरोंके लाभका नाश करनेको तैयार है ॥ १५ ॥

राज्येऽतिपापे वसतां जनानामपीह घोरं प्रभवेद्धि पापम् ।
कार्यो यथाशक्ति ततः प्रयत्नः पृथक्स्थितौ पापिजनभसद्भात् ॥१६॥

इस पापी राज्यमें बसनेवाले लोगोंको पाप घेरेगा । अतः पापियोंके प्रसङ्गसे पृथक् रहनेका यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये ॥ १६ ॥

अस्य प्रणाशातिशयोऽद्य कार्यः परंतु हिंसाव्यतिरेकमागैः ।
का नाम मात्रा सितदेहभाजोऽहिंसाप्रधानास्त्रभृतां पुरो नः ॥१७॥

हिंसारहित मागंसे इस राज्यका सर्वथा नाश करना चाहिये । अहिंसा—
अस्त्रधारी—हमलोगोंके सामने यह अंग्रेज किस गणनामें है ? ॥ १७ ॥

आस्तां सुदूरे लघुद्वप्रहारः खल्पैः शिलानां शकलैरपीमे ।
अस्माभिरारादपसारणीया एते तु नैतत्करणीयमिष्टम् ॥१८॥

लाठी और डंडेकी मार तो अलग रहो, हम कड़कों, पत्थरोंसे भी
इन्हें यहाँसे दूर भगा सकते हैं, परन्तु यह करना हमें इष्ट नहीं है ॥१८॥

लोकापवादोऽपि भविष्यतीति त्रिंशन्महाल्पेष्वपि कोटयस्ते ।
अंग्रेजकेपूपलखण्डखण्डैश्चक्रुः प्रहारं घत भारतीयाः ॥१९॥

इस प्रकारसे लोरुमें निन्दा भी होगी कि थोड़ेसे अंग्रेजों पर ३०
करोड़ हिन्दुस्तानियोंने कड़कोंसे प्रहार किया है ॥ १९ ॥

केशेषु केशेष्वधिगृह्य युद्धं बाह्योश्च बाह्योश्च तथा गृहीत्वा ।
दण्डैश्च दण्डैश्च विधाय घातं कार्यं न चास्माभिरियं युद्धम् ॥२०॥

बाल नोचनोचकर, या हाथारोंही फरके या लाठी पत्थर हमको
यह लड़ाई नहीं लड़नी है ॥ २० ॥

दृष्ट्वैव शान्तं बलमप्रहीणं पलायितुं भारतदेशतस्ते ।
विचारयेयुर्नियतं सितान्ना आदाय तेषां यसनासन्नानि ॥२१॥

शान्त और बलवती सेनाको देखकर ही ये अंग्रेज अपना बोरिया
विस्तर लेकर भारतसे भाग जानेका ही विचार करेंगे ॥२१॥

स्थातुं समीहा यदि भारते स्यात्तेषां तदा भारतवर्षवासैः ।
लोकैश्च मैत्री परिगृह्य मित्राणीवैव तिष्ठन्तु सदा सुखेन ॥२२॥

यदि उनकी (अंग्रेजों की) भारतमें रहनेकी इच्छा हो तो भारत-
वासियोंके साथ मित्रके समान ही सदा सुखसे रहें ॥ २२ ॥

आयात यूयं मम दर्शनार्थमहं स्वदेशाधिशमाय यामि ।
युद्धं नियोद्धुं सह शासनेन दांडी महायुद्धभुवं पवित्राम् ॥२३॥

तुम सबलोग मेरे दर्शनकेलिये आये हो । मैं भारतके मानसिक
दुःखके शान्त करनेके लिये, सरकारके साथ युद्ध करनेकेलिये इस महा-
युद्धकी पवित्र भूमि दांडीमें जा रहा हूँ ॥ २३ ॥

आमन्त्रयेऽहं निखिलानपीह युद्धाय गन्तुं विकटेऽत्र काले ।
उद्युङ्मध्वमन्यत्परिहाय कीर्तिं भूभारहारेण लभध्वमद्धा ॥२४॥

इस विकट समयमें तुम सब लोगोंको मैं आमन्त्रण देता हूँ । सबकुछ
छोड़कर युद्ध करनेकेलिये जानेका उद्योग करो । पृथिवीके भयको दूर
करके मुन्दर कीर्ति प्राप्त करो ॥ २४ ॥

यौष्माकवीर्येण भवेद्विमुक्ता रक्षोऽर्दिता भारतभूमिरेषा ।
जगरत्समस्तं सितकीर्तिगानं करिष्यते वो विजयधितुष्टम् ॥२५॥

तुम्हारे पुरुषार्थसे यदि यह भारतभूमि स्वतन्त्र हो जावे तो तुम्हारे
विजयसे प्रसन्न होकर सारा उसार तुम्हारे शुभ यशसा गान करेगा ॥ २५ ॥

गजेरलोकैः स्तुत एष देवो दिवावसानेऽणरिमाशु यातः ।
नक्तंनिवासेन जनान्प्रतोष्य जम्बूसरं गन्तुमथ प्रतस्थे ॥२६॥

गजेरावासियोंने श्रीमहात्माजीकी स्तुति की । सायंकाल वह वहसि
अणखी भोंवमें पहुँचे । वहाँ रात्रिमें निवास करके लोगोंको सन्तुष्ट करके
जम्बूसर जानेकेलिये चल दिये ॥ २६ ॥

महाजनानां स महासमुद्रो महाप्रभुं तं महतां चरिष्टम् ।
जम्बूसरीयो बहु सच्चकार महातिथिं भारतदुःसततम् ॥२७॥

जम्बूसरके उस महाजनोके महासमुद्रने भागतके दुःखसे तपे हुए महान्
अतिथि महाप्रभु—श्रीमहात्माजीरा बहुत बड़ा सत्कार किया ॥ २७ ॥

प्रस्तीमपुण्यं समवाप तत्र द्रष्टुं च संगन्तुमधीरचेताः ।
प्रयागराजाधिपतिप्रतीकः श्रीमोतीलालो द्विजवर्यसूर्यः ॥२८॥

महापुण्यशाली नेता श्रीमहात्माजीको मिलनेकेलिये और दर्शन
करनेकेलिये अधीरचित्तवाले प्रयागराजके राजासमान ब्राह्मणोंमें सूर्यसमान
पण्डित श्रीमोतीलालजी वहाँ—जम्बूसरमें पहुँचे ॥ २८ ॥

तेनैव सार्धं तनुजोऽपि तस्य महासभाया अधिपस्तदानीम् ।
महामना धैर्यधराधरेन्द्रो जवाहिरोऽप्यत्र पदं चकार ॥२९॥

श्रीपण्डित मोतीलालजीके साथ ही महामनस्वी, परमधैर्यवान्, उस
समय राष्ट्रिय महासभाके अध्यक्ष श्रीमान् पण्डित जवाहिरलाल नेहरू भी
वहाँ आ पहुँचे ॥ २९ ॥

आन्ध्राश्च केचित्सुधियोऽपि सद्य आनंहिरे तस्य दिदृक्षवोऽत्र ।
आजगुरभ्येऽपि च मोहमय्या महानगयो वितताभिलापाः ॥३०॥

वहाँ ही आन्प्रदेशके भी कुछ लोग श्रीमहात्माजीके दर्शनकेलिये
आये। महानगरी बम्बईसे भी दूसरे लोग बड़े अभिलाषसे वहाँ आये ॥३०॥

सर्वैः सहाऽयं सुधियां वरेष्यैरालापमालां रचयाञ्चकार ।
प्रसाद्य सर्वाननघो महात्मा युयोज हर्षेण सभाभुवं ताम् ॥३१॥

श्रीमहात्माजीने सब विद्वानोंके साथ वार्तालाप किया। सबको प्रयत्न
करके, सभाभवनको हर्षयुक्त बनाया—अर्थात् वह समामें गये ॥ ३१ ॥

ॐ यूयं हि सम्मानयितु मदीयं सैन्यं च मामधिराजमानाः ।
यैः सम्प्रसाद्याः प्रियशब्दजालैर्न तानि सन्त्येव मयीति लज्जा ॥३२॥

निश्चय ही आप लोग मेरी सेनाका और मेरा सम्मान करनेकेलिये

यहाँ उपस्थित हैं । जिन प्रियशब्दोंसे आपकी प्रशंसा करनी चाहिये, मुझे लजा है, कि मेरे पास वह शब्द नहीं हैं ॥ ३२ ॥

मुख्यादयो देशहिताभिलाषा ये ये जहू राज्यभृतिप्रहित्वम् ।
मान्याश्च ते सन्ति विनिस्सृतायन्निन्द्यातिनिन्द्यादतिपापपुञ्जात् ॥३३॥

देश-रू-हितकी इच्छावाले जिन जिन मुसीबतोंके राजकी नौकरियोंको छोड़ दी है वह हमारे माननीय हैं । क्योंकि नीचसे नीच और अतिपापके पुञ्जमेंसे वह बाहर निकल आये हैं ॥ ३३ ॥

यत्प्रीवितं ज्ञानपुरस्सरं तद्ग्राह्यं पुनर्नैव कदापि विद्मैः ।
हितं च युष्माभिरिदं पदं तद्ग्राह्यं भवेन्नैव कदापि भूयः ॥३४॥

विद्वान् लोग जान बूझकर जिस वस्तुको थूंक देते हैं उसका पुनः ग्रहण नहीं करते । तुम लोगोंने भी जिन नौकरियोंको छोड़ दी है उनका फिरसे ग्रहण मत करना ॥ ३४ ॥

संभर्त्सिता वा परितर्जिता वा राज्येन यूयं परिदण्डिता वा ।
मा मा पुनस्तत्पदकं ग्रहीष्ट कृतां प्रतिग्रामथ निर्वहध्वम् ॥३५॥

तुम्हें कोई झुटके या डरावे, या दण्ड करे परन्तु इन नौकरियोंको पुनः ग्रहण मत करना । अपनी की हुई प्रतिज्ञाका निर्वाह करना ॥ ३५ ॥

त्यक्त्वा पदं तद्यदि कोऽपि भूयो ग्रहीष्यते दुष्कृतमेव तत्स्यात् ।
चिरं मनो दोष्यति तच्च मे तद्विचार्य कार्यं निखिलं हि कर्म ॥३६॥

इन स्थानोंको—नौकरियों को छोड़कर पुनः यदि कोई ग्रहण करेगा तो वह पाप ही होगा । और वह पाप मेरे मनको चिरकालतक ध्वयित करता रहेगा । अतः सब काम विचारकर करना ॥ ३६ ॥

दाँडीमुपेत्यैव यदाहमाज्ञां करोमि सद्यो रमणीयभावाः ।
सज्जा अनादर्तुमलं भवेत् कुशासर्न लावणमत्यनिष्ठम् ॥३७॥

दाडी पहुँचकर जब मैं आज्ञा करूँ उसी समय मुन्द्रविचारवाले तुम लोग, नमकके कायदेका अनादर करनेकेलिये तैयार हो जाना ॥३७॥

अहं भवेयं निगृहीत एव तथापि युष्माभिरवश्यमेतत् ।
यदृच्छत्या कार्यमृते च कार्यादस्मान्न देशापदपण्ययः स्यात् ॥३८॥

मैं पकड़ा जाऊँ तो भी तुम लोगोंको यह कार्य अवश्य करना ही चाहिये । इस कार्यके बिना देशकी आपत्तिका नाश नहीं होगा ॥ ३८ ॥

श्रीचन्द्रुलालो मणिभायिरेप जम्बूसरीयाविह् नैतृवर्यौ ।
उपक्रमस्यास्य मया कृतस्य निवेदयेतामखिलेषु वृत्तम् ॥३९॥

श्री० डाक्टर चन्द्रूलाल और श्रीयुत मणिभाई यह लोग जम्बूसरके उत्तरदाता नेता हैं । मैंने यह जो आरम्भ किया है इस आरम्भका वृत्तान्त यह लोग सबको बतावेंगे ॥ ३९ ॥

तिष्ठेत यूयं गमनाय सत्ताः कारासु सोढुं विविधप्रहारान् ।
आरोढुमास्येन भटोचितेन वं मृत्युमञ्चं विगल्हप्रपञ्चम् ॥४०॥

तुमलोग जेल जानेकेलिये तैयार रहो, मार जानेकेलिये भी तैयार रहो और वीरोचित मुखसे उस फौसीके मचानपर चढ़नेकेलिये भी तैयार रहो जिसका ज़माना अब टल रहा है ॥ ४० ॥

ये हिन्दवो ये यवनाः सभायां सन्त्येव वा सन्ति न ये च तेऽपि ।
वचो मदीयं हृदये दधीरन् द्वाराणि मुक्तेर्विवरीतुकामाः ॥४१॥

जो हिन्दु और जो मुसलमान इस सभामें उपस्थित हैं अथवा जो उपस्थित नहीं हैं, यदि यह भारतकी मुक्तिके द्वारको उपाड़ना चाहते हैं तो मेरी बातको मुझे ॥ ४१ ॥

याश्चा मदीया न परास्ति पुंसु स्त्रीष्वप्यतस्ता अपि योधनेऽस्मिन् ।
अमेयशक्त्या हृदयस्य भक्त्या मानान्वितं देशममुं प्रकुर्युः ॥४२॥

पुरुषोंसे और स्त्रियोंसे मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं माँगता हूँ कि वह भी इस लड़ाईमें अपनी अपार शक्तिसे इस देशको गौरवशाली बनावें ॥ ४२ ॥

दादीयपौत्री खुरशेदनाम्नी श्रद्धास्वरूपाऽमलशेमुशीका ।
सम्प्रापिपत्यन्नमिदं मदीये करेऽद्य शौर्यानलदीपयित् ॥४३॥

श्रीपुत्र दादाभाई नारोजीकी पौत्री श्रीखुरशेद त्रिदिन जो स्वयं श्रद्धाकी
साक्षात् मूर्ति हैं और निर्मल विचारवाली हैं—उन्होंने आज ही मेरे पास
एक उत्साहप्रेरक पत्र भेजा है ॥ ४३ ॥

बालापि देवी मृदुलाऽमलाऽम्बालालस्य पुत्री द्रविणेश्वरस्य ।
प्रियंवदैकेन दलेन सोपालम्भं ददात्यद्य ममातितीव्रम् ॥४४॥

सेठ श्रीअम्बालाल सारामाई अहमदाबादकी पुत्री मृदुला देवी,
बालिका हैं तो भी और मधुरभाषिणी हैं तो भी वह आज एक पत्र द्वारा
मुझे अत्यन्त तीव्र उपालम्भ = उलाहना दे रही हैं ॥ ४४ ॥

पत्रद्वयेऽस्मिन्प्रणयप्रकोपः प्रदर्शितो योपिदगण्यताये ।
परं स्त्रियो नाऽवमता मया ता प्राद्या हि युद्धेऽवसरे समस्ताः ॥४५॥

इन दोनों पत्रोंमें स्त्रियोंकी अवगणनाकेलिये प्रेममय प्रकोप प्रकट किया
गया है । परन्तु मैंने स्त्रियोंकी अवहेलना नहीं की है । अवतर आनेपर
अवश्य ही मैं उनका इस युद्धमें प्रदूषण करूँगा ॥ ४५ ॥

सभाऽऽग्रहात्पण्डितमोतीलालो जवाहिरस्यास्य पिता महौजाः ।
वस्तुद्वयं व्याख्यदुदात्तपुण्यः सर्वस्य शङ्कृद्दुरितप्रणाशि ॥४६॥

सभाके आग्रहसे पण्डित मोतीलाल नेहरूजीने दो वस्तुका प्रतिपादन
किया । वे दोनों ही वस्तु लोगोंके कल्याण करनेवाली और दोषोंको
दूर करनेवाली थीं ॥ ४६ ॥

ॐ यूयं महाधर्या यदि वो नगर्यां सेनापतिर्मान्यतमो महात्मा ।
सैन्यं समादाय स भारतापद्विपादनायाद्य पदं व्यधत्त ॥४७॥

तुम लोग धन्य हो जो तुम्हारे ग्राममें सेनापति श्रीमहात्माजी अपनी
सेना लेकर भारतकी आपत्तिको दूर करनेकेलिये आये हैं ॥ ४७ ॥

ॐ यहाँसे ५३ वें श्लोकतक पण्डित मोतीलालजीका भाषण है ।

निनीपते येन पथा चमूनाम्पतिदचमूस्तेन सदा प्रयातुम् ।
धर्मोऽस्ति तासां विमलोदितस्मात्तमुद्यताःस्मोऽद्यतथाधिधातुम् ॥४८॥

सेनापति जिस मार्गसे सेनाको ले जाना चाहे उसी मार्गसे जाना सेनाका पवित्र धर्म है । अतः आज हम लोग सेनापतिकी इच्छानुसार चलनेको तैयार हैं ॥ ४८ ॥

यं यं सुपन्थानमयं स्वपादसमर्पणेनैव करोति पूतम् ।
तत्रत्यलोकानमृतान्धसोऽपि मान्यानसूयन्ति मताः समस्तैः ॥४९॥

श्रीमहात्माजी जिस जिस मार्गको अपने चरणकमलोसे पवित्र करते हैं वहाँके रहनेवाले माननीय महापुरुषोंके साथ, सबसे पूजित देवता भी भयूषा करते हैं ॥ ४९ ॥

लङ्कां विजेतुं भगवान्स रामो जगाम येनैव पथा ससैन्यः ।
तीर्थत्वमापत्स धरातलेऽस्मिन्मोक्षैकहेतुश्च ततो मतोऽपि ॥५०॥

लङ्का जीतनेकेलिये दाशरथि राम अपनी सेनाके साथ जिस जिस मार्गसे गये थे वह मार्ग तीर्थ पदवीको इस पृथिवीपर प्राप्त हुआ और इसीलिये मोक्षका हेतु भी वह माना गया ॥ ५० ॥

पन्थान एतेऽपि यतीश्वरेण पवित्रिताः पादरजोऽर्पणेन ।
त्रिविष्टपीकष्टविनाशकेन तीर्थीभयन्त्येव परप्रतापाः ॥५१॥

तीनों लोकोंके कष्टको नष्ट करनेवाले परमसयमी श्रीमहात्माजीने अपने चरणरजके द्वारा इन मार्गोंको भी परमप्रतापवान् तीर्थ बना दिया है ॥५१॥

त्राणाय तत्तीर्थवरस्य भार एतस्य युष्मासु समर्पितोऽस्ति ।
दृष्टिर्जनानामधुना प्रसक्ता युष्मद्विधातव्यकृतिष्वभीक्ष्णम् ॥५२॥

इस तीर्थराजकी रक्षा करनेका भार तुम लोगोंपर रखा हुआ है । लोगोंकी दृष्टि इस समय तुम्हारे कार्योंकी ओर सतत लगी हुई है ॥ ५२ ॥

अथ द्वितीयं गदितव्यमेतद्धर्म्ये प्रवृत्ते समरे सुखेऽस्मिन् ।
कायेन वाचा मनसापि सर्वैः सम्पादनीयैष सहायताऽप्य ॥५३॥

दूसरी बात यह कहनी है कि यह सुखदायक धर्मपूर्ण समर प्रवृत्त हुआ है। इसमें तन, मन और वचनसे सबको आज सहायता देनी चाहिये ॥ ५३ ॥

मा भूदकीर्तिः पटहप्रणादो युष्माकमस्मिन्समरे कथञ्चित् ।
यशोधनैः सन्ततसावधानै रक्ष्या स्वकीर्तिः सकलैरुपायैः ॥५४॥

इस युद्धमें किसी रीतिसे भी तुम्हारी अपकीर्तिकी टोल न बजने पावे। जिसका यश ही धन है उसे तो सदा सावधानीके साथ, सब उपायोंके द्वारा अपनी कीर्तिको ही सुरक्षित रखनी चाहिये ॥ ५४ ॥

गृहीतमौने विदुपीह तस्मिञ्जवाहिरः प्रार्थनया समेपाम् ।
महाप्रभावः शरदिन्दुबिम्बमनोहरास्यः सहस्रोदतिष्ठत् ॥५५॥

जब पण्डित मोतीलालजी चुप हुए तो सबकी प्रार्थनासे महाप्रभाव-शाली और शरद्वक्रतुके चन्द्रसमान मनोहरमुखवाले पण्डित जवाहिरलालजी खड़े हुए ॥ ५५ ॥

यद्यप्यहं भारतराष्ट्रनाथपदे प्रतिष्ठापित एव भव्ये ।
भवाद्दशौदारमनोभिरद्य तथापि मान्यस्तु न एष एव ॥५६॥

यद्यपि आप जैसे उदारमनवालोंने भारतके भव्य राष्ट्रपति पदपर मुझे स्थापित किया है तथापि हम सबके मान्य तो यही हैं—श्रीमहात्माजी ही हैं ॥ ५६ ॥

स्फारादरस्यास्य यशोधरस्य महात्मनो वाचि समञ्चितायाम् ।
यक्तुं किमप्येव न मेऽवशिष्टमित्येतदुक्तघोषविवेश धीमान् ॥५७॥

महान् आदर प्राप्त करनेवाले यशस्वी श्रीमहात्माजीकी वाणी पूजी जानेपर—इनकी आज्ञाको सुन लेनेपर, मेरे कहनेकेलिये कुछ बार्त्ता नर्दा रह जाता है, इतना बहदुर पण्डित जवाहिरलालजी बैठ गये ॥ ५७ ॥

स आर्यावर्तीयं हृदयममलं वाप्युदारं

पथाऽनेनैवासाँ सुसरलवचा वागधीशः ।

समेपामग्रे निर्भयमवितरां दर्शयित्वा

सुपामा श्रीमान्संन्यवृतदतिमोदं वभारः॥५८॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

अष्टादशः सर्गः

अत्यन्त सरलवाणीवाले, वागीके स्वामी श्रीमहात्माजी आयावर्तीय निर्मल, निर्भय और उदार हृदयको इस रीतिसे सबके समक्ष उपस्थित करके, रभासे लौट आये और प्रसन्न हुए ॥५८॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञभारतराष्ट्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते अष्टादशः सर्गः



❀ एकोनविंशः सर्गः

विसृज्य सर्वानतिथीन्महौजाः प्रस्थाय जम्बूसरतः ससेनः ।
आमोदमापन्मुदमादधानो लोकैः सहस्रैः परिवारितोऽभूत् ॥१॥

सर्वे अतिथियोंको भिदा करके महातेजस्वी श्रीमहात्माजी सेना सहित
जम्बूसरसे चलकर आमोद पहुँचे । सहस्रों लोगोंने वहाँ भी उन्हें
घेर लिया ॥ १ ॥

वृद्धं महात्मानमनन्तशक्तिमायान्तमालोक्य हृदि प्रसन्ना ।
जीव्याच्चिरं देवपतिप्रभोऽयं तारेण घाचं जनता जगाद ॥२॥

अनन्तशक्तिवाले वृद्ध महात्माजीको आते देखकर सभी लोग हृदयमें
प्रसन्न हुए । उच्च स्वरसे सब जनता बोले उठी कि देवराजसमान कान्तिवाले
यह महात्माजी चिरकालतक जीवित रहें ॥ २ ॥

उपस्थितान्वीक्ष्य जनान्सभायां दीनार्तितप्तः समगाच्च तत्र ।
गीर्भिः श्रुती नेत्रयुगं च तन्वा तेषा मनः सन्मनसाऽपुनात्सः ॥३॥

दीनोंके दुःखसे दुःखी श्रीमहात्माजी, सभामें लोगोंको इकट्ठेहुए देखकर,
वहाँ गये । समास्थित लोगोंके कानोंसे बचनोंद्वारा, आँसोंको अपने
शरीरद्वारा और मनको अपने पवित्र मनद्वारा उन्होंने पवित्र कर दिया ॥३॥

सज्जाः स्त गन्तुं हृदयेन दाँडों सम्प्रैपया अत्र यदाहमाज्ञाम् ।
स्त्रियः पुमांसः सकलाश्च यूय राज्ञा कदाज्ञावमर्ति कुरुध्वम् ॥४॥

दाड़ी जानेकेलिये हृदयमें तैयार रहो । मैं जब आज्ञा भेजूँ उसी समय
सब स्त्री और पुरुष सर्कारकी आज्ञाका अपमान करें ॥ ४ ॥

पटं स्वदेशोद्भवमेव घर्ष्यं तन्तून्स्वहस्तेन च निर्मिमीध्वम् ।
पान सुरायाश्च रसस्य ताल्यास्त्यक्त्वा पवित्रा भवतातिमात्रम् ॥५॥

❀ इस सर्गमें उपजाति छन्द है ।

अपने हाथसे तन्तुनिर्माण करो—सुत कातो, अपने देशका बख्त पहिनो, दारु-दारात्र और ताड़ीका त्याग करके अत्यन्त पवित्र बनो ॥ ५ ॥

निदिश्य तानेवमयं महात्मा भ्रामं बुवाख्यं सबलो जगाम ।
उत्साहगङ्गासलिलैः पवित्रां दूराददर्शजनतां प्रशस्ताम् ॥६॥

श्रीमहात्माजी इस प्रकार उपदेश देकर सेनाके साथ बुवा गाँवमें गये । उत्साहरूप गङ्गाजलसे पवित्र सुन्दर जनताको दूरसे ही देखा ॥ ६ ॥

विश्रम्य लोकानथ लोकपालो वाणीसुधाभिः सुहितांश्चकार ।
निदिश्य युद्धे सहयोगदानं शुद्धोऽतिबुद्धः समनीं जगाम ॥७॥

वहाँ थोड़ा विश्राम करके लोकपाल श्रीमहात्माजीने वहाँके लोगोंको अपने बचनानृतसे तृप्त किया । इस युद्धमें सहयोग देनेका उपदेश देकर शुद्ध और अत्यन्त शानी श्रीमहात्माजी समनी चले गये ॥ ७ ॥

लोकैर्विशोकैर्महनीयकीर्तिः प्रेम्णाऽऽदरेणाहत एव तत्र ।
कृत्यं समाप्त्यं स्वमुपस्थितांस्तान्वचःसुधाभिः स्रपयाम्बभूव ॥८॥

शोकानुर लोगोंने अथवा उनके दर्शनसे बिनष्टशोकवाले लोगोंने प्रेम और आदरसे परमयशस्वी श्रीमहात्माजीका स्वागत किया । श्रीमहात्माजीने अपना कृत्य समाप्त करके उपस्थित लोगोंको बचनसुधासे स्नान कराया ॥८॥

युधो हि मर्म प्रतिबोध्य सम्यक्छ्वेताङ्गराज्यस्य विबोध्य दौष्टयम् ।
चाराह्वेऽन्वेतुमुपस्थितांस्तानामन्त्रयामास मुदा महात्मा ॥९॥

श्रीमहात्माजीने, युद्धके मर्मको अच्छे प्रकार समझाकर अग्नेजी राज्यकी दुष्टताको लोगोंको जनाकर, नमस्को लडाईमें शामिल होनेके लिये सबको आमन्त्रण दिया ॥ ९ ॥

निदान्निवासेन च तत्र लोकान्कृत्वा कृतार्थान्गुदितः खरारिः ।
प्रातर्घिघेयानि विधाय शान्त्या स प्रालसां गन्तुमनाः प्रतस्थे ॥१०॥

रात्रिमें वहाँ ही निवास करके, सबको पृतार्थ करके, दुष्टोंके विनाशक

श्रीमहात्माजीने प्रसन्न होकर, शान्तिसे प्रातः कृत्य करके शालसा जानेके लिये, प्रस्थान कर दिया ॥ १० ॥

तत्राप्यवालोकि च तेन सङ्घः स्त्रीणां नराणां क्रमशः समुत्थः ।

मन्देन हास्येन समर्प्य तेषु तुषं परां स्वं शिविरं समीये ॥११॥

‘वहाँपर भी उन्होंने स्त्रियों और पुरुषोंके समुदायको क्रमसे खडा हुआ देखा । अपने मन्दहास्यसे सबको सन्तुष्ट करके अपने शिविरमें गये ॥११॥

निर्वर्त्य कर्माणि तनुश्रितानि गतः सभां भारतपारिजातः ।

सद्बोधदत्तैर्विरलाक्षरैः सल्लोकानुरागं स्ववशं चकार ॥१२॥

शरीराश्रित स्नान—उपासना आदि कर्मोंको समाप्त करके श्रीमहात्माजीने समामे जाकर थोड़ेसे सद्बोधके अश्रुओंको बोलकर सजनोंके प्रेमको जीत लिया ॥ १२ ॥

देशस्य रक्षा यदि नो कृता स्यादंग्रेजराज्याश्रितः प्रणाशः ।

ततो विधातुं महदेष युद्धं राज्येन साकं समुपैमि दाँडीम ॥१३॥

यदि अंग्रेजोंसे देशकी रक्षा न की जाय तो, अवश्य ही देशका नाश होगा । अतः राज्यके—सर्कारके साथ महान् युद्ध करनेकेलिये दाँडी जा रहा हूँ ॥ १३ ॥

युष्माभिरप्यद्य महानुभावैरायोधनेऽस्मिन्परधर्ममूले ।

साहाय्यमीड्यं सततं विधेयं राज्येन लेशोऽपि विमर्दनीयः ॥१४॥

महानुभाव तुम लोग भी उत्तमधर्मके मूलरूप इत युद्धमें प्रशसनीय सहायता करना और सर्कारके साथ सम्बन्ध भी छोड़ देना ॥ १४ ॥

एवं समादिश्य स देशभाग्यपयोजमानुः समरेष्वसह्यः ।

शान्तिं महात्मा व्यपनीय भार्गी देरोलमापद्रजनीमुखेऽप्यः ॥१५॥

देशके भाग्यरूप कमलको खिलानेकेलिये सूर्यसमान और युद्धमें अनुकेलिये असह्य, ऐसे श्रेष्ठ श्रीमहात्माजी लोगोंको पूर्वोक्त उपदेश देकर, थमापट दूर करके सायङ्काल देरोल पहुँचे ॥१५॥

स प्रार्थनां तत्र च जागदीशीमुपास्य सर्वानुपदिश्य भूयः ।
प्रवाध्य यौद्धं विधिमुप्रयुद्धः श्रान्तो महात्मा शयितुं जंगम ॥१६॥

वहाँ श्रीमहात्माजी भगवान् की प्रार्थना करके, सबको पुनः उपदेश देकर, युद्धकी विधिको समझाकर, थके हुए होने के कारण सोनेकेलिये चले गये ॥१६॥

सर्वान्प्रतुन्नान्त्रितरां प्रहर्ष्य युद्धे च सङ्गन्तुमतीवभारैः ।
पुनः प्रबोध्यारिविमर्दनाय प्रातर्भरुचाभिमुखो बभूव ॥१७॥

दुःखित-सब लोगोको अत्यन्त आनन्दित करके, युद्धमें शामिल होनेकेलिये भारपूर्वक पुनः समझाकर प्रातःकाल भरुचकेलिये चलदिये ॥१७॥

रसप्तसन्निर्विरलप्रकाशः प्रातर्धराभानुरसंख्यसन्निः ।
सार्धं भरुचावनिभासनाय व्यलोकिपातां समुदीयमानौ ॥१८॥

अल्पप्रकाशवाला आकाशरा सूर्य और असंख्य किरणोंवाला यह पृथिवीका सूर्य, दोनोंही सूर्योंको प्रातःकाल भरुचकी भूमिपर प्रकाश डालनेकेलिये उदय होते हुए लोगोंने देखा । अर्थात् श्रीमहात्माजी सूर्योदयके समय भरुचमें पहुँच गये ॥१८॥

महामहिम्नोऽस्य महात्मनस्ते लोकाः सुखं स्वागतमभ्यनन्दन् ।
आशासु सर्वासु जयेतिशब्दो लोकाननोत्थो घुषितो बभूव ॥१९॥

महामहिमावाले श्रीमहात्माजीके शुभागमनको लोगोंने मुग्धपूर्वक अभिनन्दन दिया । लोगोंके मुपसे निकला हुआ जयशब्द सब दिशाओंमें फैल गया ॥१९॥

गृहेषु मार्गेषु नदीतटेषु, हृदेषु पण्येषु स एव शब्दः ।
तारापथोऽस्मिन्समये बभूव शब्दाश्रयस्तप्यतया प्रतीतः ॥२०॥

मागोंमें, घरोंमें, नदीके किनारोंपर, बाजारोंमें, दुकानोंमें सर्वत्र घड़ी जयघोष हो रहा था । इस समय वस्तुतः निश्चय हुआ कि आकाश शब्दका आश्रय है ॥२०॥

लोकाश्चमार्गोभयपार्श्वभागे शान्ताः सहस्राणि वित्तिष्ठमानाः ।

जयेतिशब्दैः सुधियां वरिष्ठमावेष्टयामामुरधीरनित्ताः ॥२१॥

सड़कके दोनों ओर शान्त होकर हजारों आदमी सड़े पे । जय जयके शब्दोंसे, लोगोंने अधीर होकर श्रीमहात्माजीके घेर लिया ॥२१॥

सर्वथ मार्गेषु पलायिकाभिः संयोजिताः सर्वगृहाश्च सर्वैः ।

न केऽपि येषां हृदये न तस्य शुभ्राननं द्रष्टुमुदैत्समीहा ॥२२॥

सब जगह मार्गोंर जितने घर—मकान ये सबपर लोगोंने पतावाएँ लगा रती थीं । ऐसे कोई भी नहीं थे जिनके हृदयमें श्रीमहात्माजीके देदीप्यमान मुखके दर्शनकी इच्छा उदय न हुई हो ॥२२॥

हिन्दूजना या यवनाः तिरिस्तास्तथैव संख्यातिगपारसीकाः ।

यालाश्च वृद्धाः पुरपाश्च नार्यस्तदर्शानातुर्यजुषो बभूवुः ॥२३॥

हिन्दू, मुगलमान, ईसाई, अनन्त पारसी, बालक, वृद्ध, सब = युवा, पुरुष, स्त्री सभी उनके दर्शनकेलिये आतुर हो गये ॥२३॥

सेवाश्रमो दृष्टिपथं समागतक्रमेण तस्याश्रमनायकस्य ।

यश्चन्दुलालस्य सुपुण्यपुञ्जमिवास्ति चाद्यापि मह्ययशस्वी ॥२४॥

गयाग्रह आश्रमके नायक श्रीमहात्माजीकी दृष्टि में क्रमसे सेवाश्रम आया जो कि श्रीदाक्टर चन्दूलालजीके सुन्दर पुण्यपुञ्जके समान आजभी रियत है ॥२४॥

अन्तर्गृहं तं प्रविशन्तमेव सेवाश्रमीयाः सरला भगिन्यः ।

मुगन्धिपुष्पैः मुमचारहारैस्सम्पूजयामामुरथाश्रतैनाः ॥२५॥

जो ही श्रीमहात्माजी सेनाश्रमके भीतर गये, उत आश्रमकी स्त्रीयाँ सादा बर्दिनोंने मुगन्धित पुष्पोंसे, पुष्पकी सुन्दर मालामों और अश्रुसे उनका पूजन किया ॥२५॥

जापानदेशोद्भूतपाश्च कैचिदामेरिकाज्जा अपि कैचिद्वय ।

वरीश्यादाकलिनाः प्रमादात्तत्राययुः पुण्यकृतैकभाजः ॥२६॥

जापानदेशके उत्पन्न पाश्चिमिकोंमें से कुछ लोग भी प्रमादसे तत्र आययुः पुण्यकृतैकभाजः ॥२६॥

कुछ जापानीबन्धु और कुछ अमेरिकन बन्धु भी श्रीमहात्माजीके दर्शनकी इच्छासे वहाँ आये थे ॥२६॥

श्रीचोयिथाराम इयाय तत्र सिन्धुप्रदेशाद्बहुभिर्मनुष्यैः ।

हितं विचिन्धन्स च भारतोर्व्यास्तद्दर्शनार्थं प्रतपंस्तपस्याम् ॥२७॥

भारतभूमिके हितकी इच्छासे तपस्या करते हुए डाक्टर चोइथारामजी सिन्धुप्रदेशसे बहुतसे मनुष्योंके साथ श्रीमहात्माजीके दर्शनकेलिये वहाँ आये ॥ २७ ॥

कस्तूरवा भारतमातृतुल्या पतिव्रतानां प्रथमार्चनीया ।

तदङ्घ्रिसंस्पर्शमभीहमाना भरुचभूमावुपतिष्ठते ॥२८॥

पतिव्रताओंमें प्रथम पूजनीय भारतमाताके समान श्रीमती कस्तूरवा भी श्रीमहात्माजीके चरणस्पर्श की इच्छासे भरुचमें आगयी ॥ २८ ॥

सङ्गत्य सर्वैश्च निशम्य वार्तास्तेषां स सायं सदसे जगाम ।

अत्रासतैर्यज्वसरोजनीभ्यां व्याख्यानसिंहासनमारोह ॥२९॥

श्रीमहात्माजी सत्रसे मिलकर, उन सत्र लोगोकी बातोंको सुनकर सायंकाल सभामें गये । श्रीमान् अब्बाम तैयज्जी और श्रीमती सरोजिनी नायडूके साथ वह व्याख्यानवेदीपर पहुँच गये ॥ २९ ॥

लक्षाधिकास्तस्य मुस्ताविन्दशोभावलोकाय वचमुधायाः ।

धयाय दूरादपि तत्सभायामागत्य लोका स्थितिमाभजन्त ॥३०॥

श्रीमहात्माजीके मुखकमलके दर्शनकेलिये और उनके वचनमृतके पानकरनेकेलिये लाखों आदमी दूरदूरसे आकर उस सभामें बैठ गये ॥३०॥

उत्थाय तत्र प्रथमं स चन्दूलालस्तदाशिश्रवदागतानि ।

नृपीय सम्बन्धविभेदकानि तास्त्यागपत्राणि पटेलकानाम् ॥३१॥

उस सभामें पहिले डाक्टर श्रीचन्दूलालभाई राडे होकर उस समय मर्जारके साथ सम्बन्ध विच्छेदकरनेवाले जितने त्यागपत्र पटेलमाइयोंके आये थे उन्हें, सबको सुनाया ॥ ३१ ॥

आशीर्वचस्तस्य समिप्य स द्रागैष्ट स्वकीयासनकस्य पश्चात् ।
लोकाननाम्भोजविभाकरोऽयं प्रायाह्यत्स्यस्य गिरां प्रवाहम् ॥३२॥

वह डाक्टर श्रीचन्दूलालजी श्रीमहात्माजीके आशीर्वादकी इच्छा करके अपने आसनपर बैठ गये । पश्चात् लोगोंके मुखकमलको दिलानेके लिये सूर्यसमान श्रीमहात्माजीने अपनी वाणीका प्रवाह बहाना शुरु किया । ३२।

ॐ आशीर्वाचास्येय विचेतुमत्र लोभाकुलो वोऽहमुपायमद्य ।
ततश्च तद्दानकृतौ कथं स्यात्सामर्थ्यमर्थ्यं मम वन्धुयर्याः ॥३३॥

मैं लोभसे धिक्कर आज स्वयं तुम लोगोंका आशीर्वाद लेने आया हूँ ।
तब मेरे भाइयो ! आशीर्वाद देनेमें मैं समर्थ कैसे हो सकता हूँ ? ॥ ३३ ॥

अङ्ग्रेजराज्यं हि निशाचरीयं राज्यं ततस्तस्य विभञ्जनाय ।
युष्माकमस्मिन्समये समीहे साहाय्यमीड्यं हृदयेन दत्तम् ॥३४॥

अंग्रेज राज्य वस्तुतः राक्षस राज्य है । अतः इसके नष्ट करनेकेलिये इस समय मैं तुम्हारी हार्दिक सहायता चाहता हूँ ॥ ३४ ॥

एकाकिनेदं न मया कदापि साध्यं महत्कार्यमदो विचार्य ।
युष्माभिरप्यत्र समर्पणीया सहायताद्यात्महिताभिलाषैः ॥३५॥

इत बड़े भारी कार्यमें मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ । अतः विचार करके, आत्मइत्यागकी इच्छावाले तुमलोगोंको अपनी सहायता देनी चाहिये ॥ ३५ ॥

न धर्मभेदो न च जातिभेदः स्याद्बाधकोऽस्मिन्नतिपुण्यकार्ये ।
ईदृशस्य साहाय्यधलेन सर्वे पराभवामोऽरिगणं समुहा ॥३६॥

इस पवित्र कार्यमें न तो धर्मभेद बाधक है और न जाति भेद ।
भगवान्की सहायताके चलते हम सब इकट्ठे होकर शत्रुओंको जीतेंगे ॥ ३६ ॥

स्वोत्सर्गतो पात्मविशुद्धितो वा प्राप्येत साहाय्यमुत्तमस्य ।
ततोऽस्ति लाभः सकलप्रजानां सत्यामहस्तेन भवेत्समृद्धः ॥३७॥

अपने त्यागसे अथवा अपनी पवित्रतासे हम लोग उरुकुम भगवान्की सहायता प्राप्त कर सकेंगे। उससे सब प्रजाका लाभ होगा और अपना सत्याग्रह परिपूर्ण होगा ॥ ३७ ॥

बलेन युष्माकमथाद्य भीम युद्धं समारब्धमलीनपापम् ।
स्त्रीपुंसयूथानि महान्त्यमुष्मिन्स्वीयानि नामानि निवेशयन्तु ॥३८॥

तुम्हीं लोगोंके बलसे आत्र मने इस पवित्र युद्धका आरम्भ किया है ।
अतः स्त्री और पुरुष सभी इस युद्धमें अपना नाम लिखावें ॥ ३८ ॥

आदिश्य सन्दिश्य तथोपदिश्य युधं महात्मा महनीयकीर्तिः ।
सायं प्रतस्थे स ततोऽङ्कलेशं गन्तुं हरल्लोकमनास्यभीक्षणम् ॥३९॥

पवित्रकीर्तिवाले श्रीमहात्माजी युद्धका आदेश देकर, युद्धका सन्देश देकर और युद्धका उपदेश देकर, सबके मनोका अत्यन्त हरण करते हुए सायङ्कालमें अङ्कलेश्वर जानेकेलिये प्रस्थित हो गये ॥ ३९ ॥

येनाध्वनाऽसौ जगदेकवन्धुर्गन्तुं भरुचान्निरियाय पारम् ।
श्रीनर्मदायाः स तदा ध्वजाद्यैः रलंछतोऽभूत्सकलः कलाभिः ॥४०॥

जगत्के एकमात्र सहायक श्रीमहात्माजी जिस मार्गसे श्रीनर्मदाके पार जानेकेलिये निकले वह मार्ग कलाओंके साथ ध्वज आदिके द्वारा सजाया गया था ॥ ४० ॥

पद्याश्च रथ्याश्च गृहा गृहाणां प्रासादपृष्ठा निखिला गवाक्षाः ।
मनःप्रासादस्यद्विस्मृतस्त्रैः पूर्णा मनुष्यैरभवंस्तदानीम् ॥४१॥

बड़े बड़े रास्ते, गलियाँ, घर, घरोंकी छतें, शरोखे यह सभी मनुष्योंसे भर गये थे। उस समय सब लोग आनन्दके वेगसे अपनेको भूल गये थे ॥४१॥

तस्मिन्भरुचे समये च तस्मिन्नराश्च नार्योऽपि च निर्निमेवाः ।
सिपेविरे भेदममर्त्यवृन्दाद्भूयोगमात्रेण कथञ्चिदेव ॥४२॥

उस समय उस भरुचमें स्त्री और पुरुष सभी निर्निमेष थे—कोई भी अपनी पलकोंकी नहीं गिराता था। देवताओं और बर्होंके मनुष्योंमें उस

ॐ किञ्चिद्वैशिष्ट्यद्योतनार्थं तस्मिन्नितिपदम् ।

समय कुछ भी भेद नहीं रह गया था। भरुचवासी मनुष्य हैं, भेद तो केवल पृथिवीके—सयोगसे ही प्रकट होता था ॥ ४२ ॥

स्थितो गयाक्षेपु विनिश्चलाङ्गो लोकैस्तदा बालगणोऽपि रम्यः ।
निस्तब्धतायाः परिकल्पितोऽभून्नूनं तदा पुत्तलिकागणोऽसौ ॥४३॥

उस समय (श्रीमहात्माजीके दर्शनकेलिये) छोटे छोटे बच्चे भी रिडकियोमें चुपचाप—शान्त होकर बैठे। उनकी निस्तब्धताके कारण लोगोंने उन बच्चोंको पुतली समझ लिया था ॥४३॥

दृशौ न्यमीलन्हृदि तन्मुखाब्जलोकोत्तराभानिजिघृक्ष्यैव ।
स्वेपु प्रकल्प्यं दिविपत्त्वमारान्द्रुत्त्वा मनुष्यत्वमप्युपुपन्त ॥४४॥

श्रीमहात्माजीके मुखकी अलौकिक शोभाको अपने हृदयोंमें कैद करनेकी इच्छासे ही लोगोंने अपनी आँखें बन्द कर लीं। उनमें जो देवता-पनेका आरोप किया जा रहा था उसको छोड़कर मनुष्यत्वमें ही लोगोंने धारण किया ॥ ४४ ॥

साद्ग्रामिकोऽसौ नवयुद्धशिक्षाप्राचार्यवर्यो विदुषामुपास्यः ।
जनान्कृतार्थान्प्रणयन्महात्मा पुण्यं तटं प्राप च नर्मदायाः ॥४५॥

नवीन रणविशारदी शिक्षाके परमाचार्य, विद्वानोंके उपास्य रामामको वाहनेवाले श्रीमहात्माजी लोगोंने कृतार्थ करते हुए श्रीनर्मदाके किनारे तटपर पहुँच गये ॥ ४५ ॥

सुधर्मरक्षानिपुणो महात्मा तेजस्विनां मूर्धनि सत्रिविष्टः ।
सर्वापसम्मर्दनमव्यशक्तिपुञ्जं दधानोऽयमिहेतिपूज्यः ॥४६॥

○-सद्धर्मकी रक्षामें निपुण, तेजस्वियोंमें अग्रगण्य, सर्वपापोंके नाश

— कहा जाता है कि देवतालोक पृथिवीपर पर नहीं रहते।

○ यहाँसे ५४ वें श्लोकतक श्रीमहात्माजीके प्रति नर्मदानदीकी कथनाका वर्णन है।

करनेकी भव्यशक्तियोंको धारण करते हुए श्रीमहात्माजी यहाँ—मेरे यहाँ आ रहे हैं ॥ ४६ ॥

यन्नामसङ्कीर्तनतोऽपि लोका महाघभाजोऽपि भवन्ति शुद्धाः ।
-सोऽयं समिद्धोऽतिविशुद्धरूपस्तीरे मदीये समुपेति धीरः ॥४७॥

जिनके नामकीतनसे भी बड़े बड़े पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं वही, देदीप्यमान और अतिनिर्मलस्वरूप—शुद्धस्वरूप श्रीमहात्माजी मेरे किनारेपर आ रहे हैं ॥ ४७ ॥

येनास्य देशस्य महाविपत्तीर्दृष्ट्वा परित्यज्य सुखं स्वकीयम् ।
दीर्घं तपोऽतापि च साभ्रमत्यास्वटे तटे मेऽद्य स ऐति पुण्यः ॥४८॥

जिन्होंने इस भारत देशकी महाविपत्तियोंको देखकर, अपने सुखका त्याग करके श्रीसाभ्रमतीनदीके किनारेपर दीर्घ कालतक तपस्या की है वही पवित्रात्मा श्रीमहात्माजी आज मेरे तटपर आ रहे हैं ॥ ४८ ॥

स्वदेशदैर्न्यं हृदये निधाय त्यागः परः स्वीकृत एव येन ।
कौपीनवासाः स च विश्वबन्धुर्विश्वानुकूलोऽद्य तटे ममेति ॥४९॥

जिन्होंने देशकी दीनताका विचार करके परम त्यागका स्वीकार किया है वही कौपीनधारी, जगद्वन्धु और जगत्के प्राणिमात्रके अनुकूल श्रीमहात्माजी मेरे तटपर आ रहे हैं ॥४९॥

अंग्रेजराज्येन महासमृद्धदारिद्र्यदूरोगनिपीडितायाः ।
शुचं प्रजाया अपहतुकामो दांडी यियासन्निह सोऽभ्युपेति ॥५०॥

अंग्रेजराज्यके कारण अत्यन्त बढ़े हुए दरिद्रितारूप दुष्ट रोगसे पीडित प्रजाके शोकका अपहरण करनेकी इच्छावाले श्रीमहात्माजी दांडी जानेकी इच्छासे यहाँ आ रहे हैं ॥ ५० ॥

कङ्कालयुक्तेन क्लेशरेण वृद्धेन रोगीरपि पीडितेन ।
वीरैः स्वकीयैर्विरलैः परीतो समैति योधप्रवरः स चात्र ॥५१॥

केवल हड्डीयुक्त वृद्ध और रोगीशरीरसे उपलक्षित यह महान् वीर

श्रीमहात्माजी थोड़ेसे अपने वीरोंके साथ आज यहाँ आ रहे हैं ॥ ५१ ॥

येनास्य देशस्य युधाः समस्ता नार्यो नरा एकपदेन धात्रा ।

आवर्जिता भारतरक्षणेऽद्य भ्रमातिथित्वं समुपैति सोऽर्घ्यं ॥५२॥

जिन्होंने देशके समस्त समझदार खियों और पुरुषोंको शीघ्र ही भारतकी रक्षामें जुटा दिया वही पूजनीय श्रीमहात्माजी आज मेरे यहाँ अतिथि होकर आ रहे हैं ॥ ५२ ॥

इयं त्रिलोकी विजिता ह्येन सत्येन सत्यक्रियकेण येन ।

सोऽयं महाभास्वरदिव्यचक्षुर्मत्तीरमैतीह सुविचिन्तामा ॥५३॥

आनन्दकी बात है कि जिन्होंने सत्याचरणशील होकर क्षणभरमें ही तीनों लोकोंका विजय कर लिया है वही महान् प्रफादाशील दिव्यचक्षुनाले ख्यातनामा श्रीमहात्माजी मेरे किनारेपर आ रहे हैं ॥ ५३ ॥

विष्टन्ति साहाय्यसमर्पणाय सोऽका अमर्त्या अपि नाम यस्मै ।

सोयं पदातिर्यमिनां वरिष्ठस्तटे जगन्मोहन ऐति मेऽद्य ॥५४॥

जिनको सहायता पहुँचानेकेलिये देवता भी सदा उत्कण्ठित रहते हैं वही जगत्को मोहनेवाले परमसयमी श्रीमहात्माजी आज पैदल मेरे किनारेपर आ रहे हैं ॥ ५४ ॥

एवं विचार्यैव महानदी सा लोकरप्रसिद्धा दुरितोद्विजित्री ।

अशेषलोकैः परिपूजिता त तालैस्तरङ्गैर्बहु सञ्चार ॥५५॥

ऐसा विचारकर हो, लोक प्रसिद्ध, पापनाशिनी, सर्वपूजित उग महानदी नर्मदाने अपने बड़े बड़े तरङ्गोंसे श्रीमहात्माजीका अत्यन्त सत्कार किया ॥ ५५ ॥

ॐ एषेव सा सर्वसरिद्धरेण्या या पापभाञ्ज्यन्वतिदुर्गुणानि ।

नृणां मनासीह तनोति शुद्धान्यादवेव विदयोद्भृतिदत्तचित्ता ॥५६॥

ॐ यहाँसे ५१ वें श्लोकतक धीनर्मदाने प्रति श्रीमहात्माजीकी बख्शनाका वर्णन है ।

यही वह सर्वश्रेष्ठ नदी है जो मनुष्योके अत्यन्त पापी और दुर्गुणयुक्त मनको भी शीघ्र ही पवित्र कर देती है और जगत् के उद्धारकेलिये दत्तचित्त है ॥ ५६ ॥

नर्मप्रदानेन भवीयतापप्रतप्तलोकान्प्रशमान्करोति ।
अन्वर्थनाम्नी च ततो धरिड्यां श्रद्धालुलोकैः परिपूजितास्ति ॥५७॥

नर्म—सुखप्रदानकरके, ससारके सन्तापसे तपे हुए लोगोंको शान्त करती है अत एव इस नदीका नर्मदा यह नाम अन्वर्थ है—सार्थक है । और अत एव श्रद्धालु लोग इसे पूजते हैं ॥ ५७ ॥

संस्पर्शमात्रेण धरातलेऽस्मिन्महाजघन्यानपि मानवान्या ।
उच्चैः पदं प्रापयितुं समुत्का सैपा नमस्या दृगवेक्षितास्ति ॥५८॥

इस पृथिवीपर, स्पर्शमात्रसे भी जो नर्मदा अत्यन्त नीचोंको भी उच्चपद प्राप्त करानेकेलिये सदा उत्कण्ठित रहती है उसी नमस्कार करने योग्य इस नर्मदाको मैं आँखोंसे देख रहा हूँ ॥ ५८ ॥

नामग्रहेणापि जगत्यमुष्मिन्यस्या मनुष्या नितरां प्रमोदम् ।
व्रजन्ति शुद्धेषु मनस्सु नित्यं सा सर्वपापापनुदद्य दृष्टा ॥५९॥

इस जगत्में जिसके नाम लेनेसे भी मनुष्य अपने पवित्र हृदयमें परम आनन्द प्राप्त करते हैं उसी सर्वपापहारिणी नर्मदाको मैं आज देख रहा हूँ ॥ ५९ ॥

समागतं मामिह सा विदित्वा प्रेमातुरा प्रेमे विवृण्वतीयम् ।
अन्वेव कल्लोलकरान्प्रसायं संश्लेष्टुकामैव विभाति मेऽद्य ॥६०॥

मुझे देखते ही इसका राग बढ़ गया है । प्रेमातुर बन गयी है । अपने प्रेमको प्रकट करती हुई माताके समान अपने तरङ्गरूप हाथोंको फैलाकर, मुझे आलिङ्गन करना चाहती है, ऐसा मादम होता है ॥ ६० ॥

सन्तापशान्तिप्रदतां स्वकीयां प्रदातुकामैव घलेन मद्ग्राम् ।
प्रेमातिरेकेण जवेन नूनं धावन्त्यसावैति ममातिपादर्ये ॥६१॥

सन्तारोरो शान्त करनेवाली अपनी शक्तिको मानो मुझे इठात् देनेकेलिये प्रेमपूर्ण वेगसे दौड़ती हुई यह मेरे पास आ रही है ॥ ६१ ॥

धियैवमिद्वार्थधियां समर्च्यः विचिन्तयन्स्वे मनसि प्रहृष्टः ।
श्रीनर्मदायास्तटमेत्य सम्यक्तस्यै विनम्रोऽञ्जलिमार्पितस्तः ॥६२॥

पवित्र बुद्धिवालोंके पूजनीय श्रीमहात्माजीने इस प्रकार विचार करते हुए और मनमें प्रसन्न होते हुए नर्मदाके किनारे पर—एकदम किनारे पर आकर नम्रताके साथ हाथ जोड़ा ॥ ६२ ॥

स तामुदारं स्वयमप्युदारः पूतां स्वभावेन महापवित्रः ।
पस्पर्श हस्तेन तदार्यव्यस्तारैज्याराविरवैः परीतः ॥६३॥

उदार कर्तिवाले, महापवित्र, आर्यव्य श्रीमहात्माजीने उस उदार, स्वमानतः पवित्र नर्मदाको, जय जय करनेवाले लोगोंके शब्दोंसे युक्त शेरकर अपने हाथोंसे स्पर्श किया । अर्थात् जिस समय वह उसका स्पर्श करने लगे, लोगोंने जय ध्वनि की ॥ ६३ ॥

नीका अनेकाः पुलिनेषु तस्या अलङ्कृताः सध्वजतोरणाद्यैः ।
नृत्यत्यताकाकरपल्लवैः स्यं ता आह्वयन्तीरिय सन्ददर्श ॥६४॥

नर्मदाके किनारे अनेक नौकाएँ सुन्दर सुन्दर पत्र, तोरण आदिसे सजाकर रखी गयी थीं । उनके ऊपर राष्ट्रिय झण्डे फहरा रहे थे । वह झण्डे मानो उन नौकाओंके हाथ थे । महात्माजीने देखा कि मानो वह नौकाएँ उन्हें अपनी ओर कहराते हुए झण्डेरूप हाथोंसे बुला रही हैं ॥ ६४ ॥

रत्नाकरस्य प्रियया सरारेः स्थातुं महात्मप्रवरस्य स्वस्याः ।
गृहेऽन्तरलैरिय सदरैस्ता आन्छादिताः सर्वजना अपश्यन् ॥६५॥

समुद्रकी प्रिया—नर्मदाने अपने घरमें सरारि—श्रीमहात्माजीके, बैठनेकेलिये, सफेदरत्न समान सदरोंसे उन नौकाओंको टाँक रखा था, उसे सब लोगोंने देखा । तात्पर्य यह है कि उन नौकाओंपर बैठनेकेलिये सदर बिठाया गया था ॥ ६५ ॥

मद्येव तिष्ठत्वयमर्चनीय आसीत्समासामभिलाप एषः ।
तेनैव सर्वाधिकरूपमस्मै निदर्शयामासुरिमास्तरण्यः ॥६६॥

यह पूजनीय महात्मा मेरे ऊपर ही बैठें, इस प्रकारकी सब नौकाओंकी इच्छा थी। अतएव सबने एक एकसे बढ़कर अपना रूप श्रीमहात्माजीको दिखाया। तात्पर्य यह कि बहुतसी नौकाएँ रूब सजाकर वहाँ रखी हुई थीं ॥ ६६ ॥

खरारिवर्गोऽपि निरीक्ष्य यं श्रीनौराजराजं स्वविमानवृन्दे ।
योग्यां घृणामेव बभार भूयस्तस्मिन्स्थितं तं जनताऽऽल्लुलोके ॥६७॥

जिस सुन्दर नौकाको देखकर देवता भी अपने अपने विमानोंसे घृणा करने लगे उसी सुन्दर नौकामें बैठे हुए श्रीमहात्माजीको लोगोंने देखा ॥६७॥

तस्मिंश्च नौराजगहाधिराजे संस्थापितस्यार्च्यमहाध्वजस्य ।
अधः स्थितं तं जनताऽथ मेने श्रीपारिजातस्थितविष्णुमेव ॥६८॥

उस सुन्दर नौकापर समर्चनीय राष्ट्रध्वज स्थापित हुआ था। उसीके नीचे बैठे हुए श्रीमहात्माजीको देखकर लोगोंने ममज्ञा कि कल्पवृक्षके नीचे श्रीविष्णुभगवान् बैठे हुए हैं ॥ ६८ ॥

आजीविकोपायहर्ति न क्षुर्याद्यत्मादयं दीनजनाधिनाथः ।
तस्माद्यतेः श्रीचरणायनक्तिं न कामयामास मनाक् स दाशः ॥६९॥

श्रीमहात्माजीका उस महाहने ॐ पादप्रणामन नहीं किया। उसकी ऐसा करनेकी इच्छा भी नहीं हुई। क्योंकि उसको विश्वास था कि श्रीमहात्माजी दीनाके स्वामी हैं। वह दीनोंकी आजीविकाका नाश नहीं करेंगे ॥ ६९ ॥

ॐ श्रीरामजीके केवटने उनका चरणप्रक्षालन किया था क्योंकि उसने समझा कि वहाँ रामजीके चरणस्पर्शसे मेरी काठकी नाव अहत्या के सम्मान रखे यत्तु गयी तो मेरी जीविका ही नष्ट हो जायगी। यह भय श्रीमहात्माजीके मल्लाहको नहीं हुआ।

अयं महात्मा क्व च मादृशां क्व वासस्थली काष्ठमयीत्यवेक्ष्य ।
मेने स दाशोऽस्य पदाब्जतस्तां पुण्यां भवन्तीं स्वमपीह पुण्यम् ॥७०॥

कहाँ यह श्रीमहात्माजी और कहीं मेरी यह लकड़ीकी बनी हुई नौका-
मेरा निवासस्थान ? दोनोंमें बहुत अन्तर है, ऐसा समझकर उस महत्ताइने
महात्माजीके चरणसे अपनी नौकाको और अपनेको भी पवित्र होता हुआ
समझा ॥ ७० ॥

एकाधिकाशीतिरमुष्य धीराः सेनानरा नौपु यथावकाशम् ।
समे परास्वारुहस्तदानीमन्ये तदन्यासु च साभिलापाः ॥७१॥

श्रीमहात्माजीकी सेनाके ८१ नरवीर दूसरी नौकाओंमें यथावकाश
बैठ गये । दूसरे लोग दूसरी नौकाओंमें जा बैठे ॥ ७१ ॥

श्रीतैयवो वृद्धपितामहोऽसौ श्रीब्रह्मकन्येव सरोजिनी सा ।
सता महामेयमनोबलेन तेनैव तयां च समास्थिताताम् ॥७२॥

वृद्धपितामह भी तैयवजी और सरस्वतीसमान श्रीमती सरोजिनी
नायक यह दोनों जन भी उसी नौकामें अमेय मनोबलवाले श्रीमहात्माजीके
साथ ही बैठ गये ॥ ७२ ॥

श्रीनर्मदाया हृदयानुरागः केनापि कल्प्यो न भवेत्कदाचित् ।
न चेत्तदुत्तुङ्गतरङ्गमालाजालं जनानां नयनाजिरे स्यात् ॥७३॥

यदि नर्मदाजीके बड़े बड़े तरङ्ग लोगोंकी नजरमें न आते तो नर्मदाके
हृदयके अनुरागकी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती थी ॥ ७३ ॥

निर्याति चेदेप भरुचपुर्या अनन्तरदिमर्मयका किमर्थम् ।
स्थातव्यमत्रेति सहस्ररदिमस्तेनैव साधं विजहौ भरुचम् ॥७४॥

एषने भी यह विचार कर कि, जब अनन्त रदिमजाले श्रीमहात्माजी
ही इस भरुचमेंसे चले जा रहे हैं तो मैं यहाँ—सहस्ररदिमवाला ही—रहकर
बसा करूँगा, श्रीमहात्माजीके साथ ही भरुचमें छोड़ दिया । अर्थात् जब
श्रीमहात्माजी भरुचमें चले उस समय एषांस्त हो रहा था ॥ ७४ ॥

भारूचनारीनरसद्गणेन सन्ध्यापि तस्मिन्विबभार रागम् ।
हृदा दधाराथ सरिद्वरा तं श्रीवायुदेवोऽपि सुखं सिपेवे ॥७५॥

भरूचके स्त्रीपुरुषोंके साथ ही सन्धाने उन श्रीमहात्माजीमें राग प्रकट किया । नर्मदाने उन्हें अपने हृदयसे धारण किया । वायुदेवने उनकी सुखसे सेवा की ॥७५॥

नेतुं महात्मानमनादिदेवं पारं तटिन्या अथ नर्मदायाः ।
सहस्रलोकार्तविलोचनास्त्रैर्दाशोऽमुचन्नावमनूनभाग्यः ॥७६॥

अनादिदेव श्रीमहात्माजीको नर्मदा नदीके उस पार लेजानेकेलिये भाग्यशाली मल्लाहने हजारों लोगोंके आँखोंके साथ नावको छोड़ दिया-खोल दिया ॥ ७६ ॥

तत्कालदृश्यं तद्भूतपूर्वमक्षणां सहस्रैरनुभूतमेव ।
कस्याऽस्तु वाणीविषयस्तु पुंसः धीशारदाम्बापि च यत्र मीनम् ॥७७॥

उस समयका वह अभूतपूर्व दृश्य, जिसे कि हजारों आँखोंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था, किसकी वाणीका विषय हो सकता है ? जब कि माता सरस्वती भी चुप धारण किये हुए ही ॥७७॥

ॐ आयातो यो नितिलज्जनताविपत्तिमहानिधेः
धत्तुं शोषं स्थित इह भयान्गुधेर्जगदीश्वरम् ।
लीलानाथं तमयमनघं करोति च दाशकः
पारं नद्या महदभवदेष पाद्गतमत्र तत् ॥७८॥

समस्त जनताके विपत्तिमहासागरको और मवसागरको मुखादेनेकेलिये जो यहाँ आये हैं और निवास कर रहे हैं उन्हीं जगदीश्वर, लीलानाथ, निष्पाप श्रीमहात्माजीको यह मल्लाह नदीसे पार कर रहा है । यह बात सशुभो अत्यन्त आश्चर्य पैदा करा रही थी ॥७८॥

ॐ जगद्भिरामे गतवति पारं
 महति जनौघे भवति निमग्ने ।
 प्रशमिनि तस्मिन्भरुचमनुष्या
 निजभवन्नानि प्रययुरधीराः ॥७९॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचाचार्यमहाराजप्रणीते
 भारतपारिजाते एकोनविंशः सर्गः

प्रशमी — महाजितेन्द्रिय वह श्रीमहात्माजी जब पार पहुँच गये और
 भारी भीड़में छिप गये तब भल्लूचनिवासी अधीर होकर अपने अपने घर
 चले गये ॥७९॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचाचार्यमहाराजप्रणीते
 रूपेणभारतराष्ट्रभाषाटीकासहिते
 भारतपारिजाते एकोनविंशः सर्गः



विंशः सर्गः

दीपे प्रकाशिते दीप्तो महोत्कण्ठाविगुण्ठितम् ।
महात्मा सुधियां ध्येयः सोऽथ प्रापाऽङ्कलेश्वरम् ॥१॥

देदीप्यमान श्रीमहात्माजो दीपकके जलनेके समय अत्यन्त उत्कण्ठित
अङ्कलेश्वरमे पहुँचे ॥ १ ॥

तत्रत्यानां समेषां स सभायां सभ्यनायकः ।
आदेशेनोपदेशेन कृतार्थान्कृतवाञ्छनान् ॥२॥

यहाँके लोगोंकी सभामें श्रीमहात्माजीने उपदेश और आदेशसे सब
लोगोंको कृतार्थ कर दिया ॥ २ ॥

समरेऽस्मिन्मरो नास्ति मृत्युमालिङ्गितोऽपि च ।
कीर्तिक्रायेन जीवन्ति धर्म्ये युद्धे मृता नराः ॥३॥

इस युद्धमें मरनेपर भी मृत्यु नहीं होता है । धर्मयुद्धमें जो मनुष्य
मरते हैं वह अपने कीर्ति-देहसे जीते ही रहते हैं ॥३॥

धर्म्यमेतन्महायुद्धमाहतं देशरक्षया ।
युयं सङ्गत्य सस्नेहं नरदेहं पुनीत वत् ॥४॥

देशरक्षाकेलिये आरब्ध किये गये हुए इस महायुद्धमें शामिल होकर
मानवदेहको पवित्र करो ॥ ४ ॥

एयमादिदय लोकेशो मोहनः स्त्रीर्नराब्धिशून् ।
श्रोतृनुपस्थिताब्धिशान्दर्पपुष्टादिचकार सः ॥५॥

लोचनायक श्रीमोहनने—श्रीमहात्माजीने स्त्रियोंको और बालकोंको भी
इस प्रकारकी आश देकर प्रसन्न कर दिया ॥५॥

निशं निनाय तत्रैव सोऽनिशं जामदात्मनि ।
भाते प्रभाते सेनानीः सेनया सह निर्यथी ॥६॥

श्रीमहात्माजीने वहाँ ही रात्रि व्यतीत की और प्रातःकाल सेनासहित वहाँसे चले गये ॥ ६ ॥

ॐ जह्जोडं सजोडं स कर्पसेनामनेनसम् ।
जनैर्जुष्टं रयैः पुष्टं पुपावाद्घिरजःकणैः ॥७॥

अपनी निदोष—पवित्र सेनामें लेते हुए श्रीमहात्माजीने सजोड ग्रामको अपने चरणरजसे पवित्र किया । उस ग्रामके तीन विशेषग है ।
(१) जह्जोड = भारतके बन्धनको काटडालनेकेलिये जो तैयार था ।
(२) बहुतसे जन समाजसे भरा हुआ था । (३) जिसमें रूब कलकल हो रहा था ॥ ७ ॥

आत्मसन्देशमादिश्य स्त्रीपुंसान्दर्शनार्थिनः ।
तेषां तोषं प्रणीयाशु माङ्गरोलमगान्मुनिः ॥८॥

स्त्रीपुरुषोंको अपना सन्देश देकर, उनको मन्तुष्ट करके श्रीमहात्माजी शीघ्र ही मांगरोल गये ॥ ८ ॥

अलङ्कृत्य च तं ग्राममलं कृत्या मनःसिदाम् ।
इहत्यानां सुखेनायं रायमां प्रययौ पुरम् ॥९॥

उस मांगरोल गाँवको सुशोभित करके, उस गाँवके लोगोंके मानसिक रोदको दूर करके सुखपूर्वक श्रीमहात्माजीने रायमात्रेलिये प्रयाण किया ॥ ९ ॥

संसदं दिविपत्रख्यां व्याख्यानेन महामुनिः ।
महावृत्तां विधायास्यां कर्मभारं समार्षिपत् ॥१०॥

देवगात्रोंकी समाके समान वहाँकी समामें जाकर श्रीमहात्माजीने समाको महावृत्त बनाकर, कार्यभार उसे सौंप दिया ॥१०॥

ॐ जुड बन्धने इतिधातुग्रम् । जोड.—बन्धनम् । जोडं जहीति य भाट स जह्जोडः ।

उपराठी कीममुत्तीर्य प्राप्य लोकमनःखिदाम् ।

अचिच्छित्तसत धर्मात्मा गतस्तेन सभाभुवम् ॥११॥

मांगरोलमे कीम नदीको पार करके उपराठी पहुँचकर महात्माजीने लोगोंके दुःखके छेदन करनेकी इच्छाकी । अतः सभास्थानमें वह गये ॥११॥

भियो भिन्त मनस्तापं छिन्त संमानसङ्कुलाः ।

इत्यल्पेनैव वचसा निरास्थन्मोहमण्डलम् ॥१२॥

मानपरिपूर्ण-प्रतिष्ठित बन्धुओ ! भयको फाड़ डालो । मानसिक सन्तापको टुकड़े टुकड़े कर दो । इस तरहसे थोड़े ही शब्दोंमें श्रीमहात्मा जीने उनलोगोंके मोहको धूर करदिया ॥१२॥

महनीया समादाय सेना शान्तिनिषेधिणीम् ।

उत्सुकोल्लोलकलोलं शाहोलं सद्वलो ययौ ॥१३॥

अपनी महनीय और शान्त सेनाको लेकर सत्यबलवाले श्रीमहात्माजी शाहोल गये ॥१३॥

तत्रत्यान्प्रणयन्दीप्तास्तेजसा सूर्यसन्निभः ।

पर्यङ्करोन्महाबाहुर्भटग्रामं महाभटः ॥१४॥

सूर्यमान तेजस्वी श्रीमहात्माजी ने शाहोल के लोगोंको उत्तेजित करके भटगाँवको अलङ्कृत किया ॥ १४ ॥

चञ्चलकलाप्रपञ्चेन सञ्जा व्याख्यानवेदिकाम् ।

वेदभेदविदा वेद्यः स आरोहन्महाप्रभः ॥१५॥

बहुत सुन्दर कलाओंसे सजायी गयी हुई व्याख्यान वेदीपर श्रीमहात्माजी ऊपर विराजमान हुए ॥१५॥

शान्तिमूर्ति समार्ताना विषदुब्जासकं गुदां ।

अक्षणां पुटेः सहस्रैस्ते निर्निगपं जनाः पपुः ॥१६॥

दुःखियोंके दुःखको दूर करनेवाले, उन शान्तमूर्ति श्रीमहात्माजीकी लगेने सहस्रों आँसोंसे पान किया—लोगोंने उनका खूब दर्शन किया ॥१६॥

निःशब्दे च समापन्ते जनानां मण्डले तदा ।

। अखण्डाखण्डलाभासो मुत्तमुद्रां मुमोच सः ॥१७॥

जब सब लोग एकदम चुप हो गये— शान्ति छा गयी तब इन्द्रके समान अखण्ड तेजस्वी श्रीमहात्माजीने अपने मुँहको उघाड़ा— बोलना शुरू किया ॥ १७ ॥

जिह्वावर्ता तु सर्वेषामुपदेशो न दुर्लभः ।

दुरवापोपदेशुं सा योग्यता किन्तु केवलम् ॥१८॥

जिनके पास जीभ है उनको उपदेश करना तो दुर्लभ नहीं है किन्तु उपदेश करनेकी योग्यता ही दुःगसे प्राप्त करने योग्य है ॥ १८ ॥

यत्किञ्चिदहमग्राय कथयिष्यामि यः पुरः ।

उपदेशस्तदग्यद्वा यथारथि विकल्प्यताम् ॥१९॥

आज मैं तुम लोगोंके नामने जो कुछ कहूँगा उसे, तुम्हारी मर्जी हो तो उपदेश समझना, तुम्हारी मर्जी हो तो और कुछ समझना ॥ १९ ॥

अंग्रेजराज्यनियता - न्महादोषा - न्यथायथम् ।

ज्ञात्वा च ज्ञपयित्वा च मनसोपं निपेयते ॥२०॥

अंग्रेजी राज्यमें जो जो महान् दोष हैं उनको जानकर, और जनाकर ही मेरे मनको सन्तोष होता है ॥ २० ॥

परं यः कोपि दोषः स्यात्परमाणुसमोऽपि मे ।

मुमेरुरिष दीर्घत्वं धत्ते नित्यं हि मद्दृष्टि ॥२१॥

परन्तु यदि मेरा कोई दोष परमाणु परमाणु परमाणु भी (अल्प) हो तो भी पर सचमुच मेरी दृष्टिमें मुमेरु पर्वत जितना बड़ा प्रतीत होता है ॥२१॥

नास्तीर्यासोऽपि ते लोका ये स्वदोषान्महेद्वरे ।

समर्च्यैव मनः स्वीयं नयन्ते तोषमन्दिरम् ॥२२॥

और ऐसे लोग धोटे नहीं हैं जो अपने दोषोंको भगवान्को ही अर्पण करके सन्तोष मान लेते हैं ॥ २२ ॥

सर्वसामान्यसम्मान्यं मार्गमेतमहं पुनः ।
विहाय विहरन्नत्र कैश्चित्त्यक्तोऽप्यनादरात् ॥२३॥

अपने दोषको ऋबूल न करना अथवा भगवान्को उसे अर्पण कर देना वह सर्वसाधारणका माननीय मार्ग है । मैंने इस मार्गका त्याग किया है । मैं अपने दोषोंको भी दोष मानता हूँ, दूसरोंके दोषोंको भी दोष मानता हूँ । और इसीलिए मेरे कितने ही साथियोंने मेरा त्याग भी कर दिया है ॥ २३ ॥

ये भदीया महामोदा जनाः सन्ति मया सह ।
सेनारूपेण ते सर्वे सावधानीकृता मया ॥२४॥

मेरे साथ सेनाके रूपमें जो मेरे आनन्दी साथी हैं, मैंने उन सबको सावधान कर दिया है ॥ २४ ॥

प्रदेशेस्मिदश्च बहवः सुहृदः सन्ति संस्तुताः ।
तत्कृतं योग्यमातिथ्यं ग्रहीतव्यं न चान्यथा ॥२५॥

इस प्रदेशमें बहुतसे परिचित मेरे बन्धु निवास करते हैं । बदलोग अच्छासे अच्छा अतिथिसत्कार करेंगे । जो योग्य आतिथ्य है उसे ही ग्रहण करना, अन्यथा नहीं ॥ २५ ॥

न स्मो वयं सुरा वापि तत्समा वापि फेधलम् ।
अनेकैर्दुर्गुणैर्लोभैः पूर्णाः स्मो मानया ननु ॥२६॥

हम लोग न तो देवता हैं और न देवताओंके समान ही हैं । हम तो अनेक दुर्गुणों और लोभोंसे परिपूर्ण फेदल मनुष्य हैं ॥ २६ ॥

अमी अयगुणाः सर्वेऽस्माभिर्हेया अशेषतः ।
एषं प्रयोधिता एते मया सर्वे पुनः पुनः ॥२७॥

हम लोगोंकी यह सब अयगुण सर्वथा छोड़ देने चाहिये । हम प्रचारसे मैंने धार-भार इन लोगोंको सिराया है ॥ २७ ॥

एवं कृतेऽपि मद्दृष्टावस्मद्दोषाः समागताः ।

तदर्थं भर्त्सिता एते मया भूयोऽनुयायिनः ॥२८॥

ऐसा करनेपर भी—समझानेपर भी हमारे दोष मेरी दृष्टिमें आ गये हैं । इसकेलिए मैंने अपने इन साथियोंको बहुत डाटा है ॥ २८ ॥

साधं भयैव वसतां मदभिन्नात्मनां यदि ।

सैनिकानां भवेद्दोषः खेदार्यैव स मे भवेत् ॥२९॥

मेरे ही साथ रहनेवाले, साक्षात् मेरे आत्माके समान इन सैनिकोंमें यदि दोष हो तो वह अवश्य मुझे खिन्न करावेंगे ॥ २९ ॥

अत्मदर्थं व्ययो भूयान्भवत्येवेह सर्वथा ।

तदसह्यं महद्बुधुरासं मानसं सन्दुनोति मे ॥३०॥

यहाँपर हम लोगोंकेलिए सब प्रकारसे अधिक व्यय हो रहा है । वह असह्य महादुःख मेरे मनको व्यथित कर रहा है ॥ ३० ॥

दीनरक्षानिमित्तेन निर्गता ययमद्य चेत् ।

न तदावाद्बन्धयो योग्यः पञ्चाशद्गुणिताधिकः ॥३१॥

यदि हम लोग दीनोंकी रक्षाकेलिए निकले हों तो दीनोंकी आसते ५० गुणा अधिक व्यय हम नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥

पाइन्नायस्य सविध उपालम्भपुरस्सरम् ।

भवेत्तत्प्रहितं पत्रं नाधिकारविचेष्टितम् ॥३२॥

पाइखरायके पास जो मैंने उल्लाहनेका पत्र भेजा है वह अनधिकार चेष्टा ही हुई है ॥ ३२ ॥

दूरादानाययन्तेऽत्र मृद्धीका भूमिजन्मुक्ताः ।

भवन्तोऽस्माकमातिथ्यं क्तुं श्रद्धातिथिहलाः ॥३३॥

भद्राके मारे हमारे आतिथ्यकेलिए आप लोग दूर-दूरसे द्राक्षा और नारही मँगाने हैं ॥ ३३ ॥

सर्पिष्कुण्डिकया दुग्धमहाभारैश्च सत्कृताः ।

भवतां हृदयक्षोभभीत्या सर्वं सहामहे ॥३४॥

घीके कुण्डोसे और दूधके मारसे हमारा सत्कार किया जा रहा है ।
आपके हृदयको आघात न पहुँचे, इसलिए हम सब कुठ सह रहे हैं ॥३४॥

अतिश्रम्य कृतः शक्तिं व्ययः शोभेत न क्वचित् ।

चौर्यमेव भवेदेतच्चौर्यान्न स्याज्जयो युधि ॥३५॥

शक्तिसे अधिक यदि व्यय किया जाय तो वह शोभा नहीं देगा ।
ऐसा व्यय चोरी ही है । और चोरीसे युद्धमें जय प्राप्त नहीं होगा ॥३५॥

यद्यप्यद्य वयं सर्वे भवामोऽल्पे परं यदि ।

असंख्याः सेवका ईयुर्निर्वाहः स्यात्कथं तदा ॥३६॥

यद्यपि हम लोग आज अवश्य ही थोटे हैं परन्तु यदि असंख्य
स्वयंसेवक आ जायें तो कैसे निर्वाह होगा ? ॥ ३६ ॥

अहं दीनो धनैर्हीनो मलिनो मनसा पुनः ।

किमर्थं मामका यूयं स्वीयं दूषयथात्र माम् ॥३७॥

मैं दीन हूँ । निर्धन हूँ । मनका मलिन हूँ । तुम सब लोग मेरे हो ।
मैं तुम्हारा हूँ । तुम लोग मुझे दूषित क्यों करते हो ? ॥ ३७ ॥

युष्माभिरेष यत्कथ्यं विट्सन्दीपप्रयोजनम् ।

अस्मिन्प्रामे किमासीद्यज्यालितोऽग्रायिचारितम् ॥३८॥

तुम्हीं बताओ कि इस गाँवमें छिट्छन् छाड़कर क्या प्रयोजन था जो
तुम लोग बिनाविचारे यहाँ जला रहे हो ? ॥ ३८ ॥

लक्ष्णेणैव जनैर्जातं घृतमद्य विदुण्ठनम् ।

असह्यं किं पुनर्गिरिशत्कोटिलोकैर्मिथः घृतम् ॥३९॥

एक सात आदर्मा (अग्नेः) लूट रहे हैं, यही अशुभ हो रहा है ।
यदि ३० फरोद लोग आरगमे ही लूटगाट करने लग जायें तो मेरे दुःखका
कहना ही क्या है ? ॥ ३९ ॥

एतद्दीपमिषेणात्र सर्वान्सेवापरायणान् ।

सावधानानहं कर्तुं प्रयते सर्वकर्मसु ॥४०॥

इस किट्सन् लाइटके बहानेसे मैं सब सेवकोंको सब कार्योंमें सावधान करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ ॥ ४० ॥

मया प्रदर्शितेनैव यत्तद्ध्वं न पथा यदि ।

कदर्थितं भवेद्द्व सर्वथा जीवनं मम ॥४१॥

मेरे बताए हुए मार्गसे ही यदि तुम लोग नहीं चलोगे तो मेरी जिन्दगी खराब होगा ॥ ४१ ॥

अहं न नियतं वेद्मि राज्यं प्रत्येष केवलम् ।

कर्तुं सत्याग्रहं सर्वैः सम्बन्धिभिरपीडितः ॥४२॥

मैं केवल सफ़ारके साथ सत्याग्रह करना नहीं जानता प्रत्युत अपने सम्बन्धियोंके साथ भी करना जानता हूँ ॥ ४२ ॥

सत्याग्रहं समादत्तुं राज्यं प्रति विचारयन् ।

नीतयान्वत्सरगणं सत्वरं सोऽस्तु यः प्रति ॥४३॥

सफ़ारके प्रति सत्याग्रह करनेमें तो विचार करते करते मैंने क्यों बिना दिए । परन्तु तुम्हारे साथ तो उते करते देर न होगी ॥ ४३ ॥

प्रबन्धारोऽपि शृण्वन्तु प्रार्थनामाहता मया ।

कार्यं तदेव कर्तव्यं सर्वेषां यत्सुखप्रदम् ॥४४॥

मेरी इस की हुई प्रार्थनाको व्यवस्थापक लोग भी सुनें । काम वही करना चाहिए जो सबकेलिए सुखदायक हो ॥ ४४ ॥

इदमस्ति न चास्मीदमिदमायादिदं न हि ।

इत्यस्माभिः कदाचिद्धो नोपालम्भः प्रशस्यते ॥४५॥

यह है और यह नहीं है, यह चीज आयी और यह नहीं आयी, इस तरहसे हम लोग कभी भी आपको उलहना नहीं देंगे ॥ ४५ ॥

रोगिपेयं पयो यूयमानयेत न मत्कृते ।
विपवत्तन्मया त्याज्यं पिपासामि न तत्पयः ॥४६॥

जो दूध रोगियोंके पीनेकेलिये हो उसे मेरेलिये आप लोग न ले आवें । मैं उसका विपके समान त्याग करूँगा । उसे मैं पीना नहीं चाहता ॥ ४६ ॥

भाजा शाकानि दुग्धादि आनीयन्तेऽत्र सूरतात् ।
अचिह्यं न भजेतैतच्छोभते न च सा कृतिः ॥४७॥

भाजी, शाक और दूध भी आप लोग सूतसे मँगाते हैं । यह न तो उचित ही है और न शोभा ही देता है ॥ ४७ ॥

भजेरघ्नासयो नाशं विना शाकं विना पयः ।
तद्विना म्रियमाणानाममन्यूना तु फा क्षतिः ॥४८॥

शाक और दूध बिना तो हम लोग मर नहीं सकते हैं । और यदि उनके बिना मर भी जायें और फाँव न पड़ें, तो क्षति ही क्या है ? ॥४८॥

मोटरादिषु यानेषु कार्येऽन्येऽप्यपीहितः ।
विपोढव्यो व्ययो योग्यो घोढःयोऽप्यव्ययो नहि ॥४९॥

मोटर आदि याहनोमें और दूगरे फायोमें भी योग्य व्यव ही करना चाहिये । अरन्यवसा भार नहीं उठाना चाहिये ॥ ४९ ॥

पदानिगमनं श्रेयोऽसामर्थ्यं रेलगाटिका ।
तदशक्ये ह्यो प्राह्लादशक्ये च मोटरम् ॥५०॥

पैदल चलना सबसे उत्तम है । अशक्ति हो तो रेलगाड़ीमें जाना अच्छा है । उगकेलिये भी पनाटिक अभाव हो तो घोड़ाका प्रयोग करना चाहिये । जब यह भी न मिले तब मोटरका प्रयोग करना चाहिये ॥ ५० ॥

घोटोनां प्रिप्ततो नृगामिदं युद्धं प्रपुष्यताम् ।
न निष्पद्यामपत्रं द्रव्यमोटरैषां कदापन ॥५१॥

घोटोनां प्रिप्ततो नृगामिदं युद्धं प्रपुष्यताम् ।
न निष्पद्यामपत्रं द्रव्यमोटरैषां कदापन ॥५१॥

३० करोड़ आदमियोंका यह युद्ध है । द्रव्यसे या मोटरसे यह कभी भी सफल नहीं हो सकता है ॥ ५१ ॥

धृत्वीडापीडितैर्वापि पिपासाकुलितैरपि ।
योद्धव्यमिति निश्चित्य यूयमामन्त्रिता भया ॥५२॥

भूखकी पीड़ासे पीड़ित होकर भी, प्याससे व्याकुल होकर भी इस युद्धको लड़ना है, ऐसा निश्चय करके मैंने तुमको आमन्त्रण दिया है ॥ ५२ ॥

नायकाशं लभेतैव युद्धेऽस्मिन्वो विलासिता ।
क्षणायापि कदाप्येतन्न विस्मयं कदाचन ॥५३॥

इस युद्धमें विलासिताकेलिये स्थान नहीं है, यह बात कभी क्षण-भरकेलिये नहीं भुलानी चाहिये ॥ ५३ ॥

विना भोगविलासैर्था विना द्रव्यैर्विना सुखैः ।
यदि शक्यं तदा योध्यं प्रपलायध्वमन्यथा ॥५४॥

विना भोगविलासके, विना द्रव्यके और विना मुरखके यदि शक्य हो तो लड़ो नहीं तो चले जाओ ॥ ५४ ॥

न पत्रं पत्रिका नापि न लेखो नापि वाम्बिता ।
अस्य युद्धस्य साफल्ये हेतुता वहते ध्रुवम् ॥५५॥

इस युद्धकी सफलतामें पत्र, पत्रिका, लेख और भाषण आदि कारण नहीं हो सकते ॥ ५५ ॥

जप्यं श्रीरामनाम्नैव युद्धमेतत्क्षणादपि ।
निश्चप्रचं तदेवास्ति साधनं सर्वसाधनम् ॥५६॥

श्रीरामनामके बलसे ही यह युद्ध क्षणभरमें जीता जा सकता है । सर्ववस्तुओंका साधनरूप रामनाम ही इस युद्धमें भी साधन है ॥ ५६ ॥

लोकाभिमतनीचस्य पुरुषस्याद्य कस्यचित् ।
सोपष्टभ्यं महादीपं स्थापयित्वाऽथ मूर्धनि ॥५७॥

मदमे गन्तुमादिष्टो हस्तपादादिमानसौ ।

कुर्वतामीदृगन्याय्यं कुतः प्राप्या स्वतन्त्रता ॥५८॥

लोगोंकी दृष्टिमें जो नीच है उस पुरुषके सिरपर आज स्टूल सहित—बैठकर सहित यह बड़ा भारी गेस रखकर, हाथ पैरवाले उस आदमीसे मेरे आगे-आगे चलनेकेलिए कहा गया । इतने अन्याययुक्त कर्मोंके करनेवालोंको स्वतन्त्रता कैसे मिल सकती है ? ॥ ५७-५८ ॥

ममैतद्वच आकर्ण्याऽनुत्साहो वः पराभवेत् ।

विमूर्खीभूय न परं पलायिष्ये रणादहम् ॥ ५९ ॥

मेरी इस बातको सुनकर अनुत्साह तुमको दूरा सकता है । परन्तु मैं विमुख होकर युद्धसे नहीं भागूँगा ॥ ५९ ॥

सर्वथा रक्षणीयैव प्रतिज्ञा या मया कृता ।

उत्पादितं हि तद्गङ्गात्पापं मा मां वर्धादिति ॥ ६० ॥

मैंने जो प्रतिज्ञाकी है उसकी तो मैं रक्षा करूँगा ही; जिससे कि प्रतिशमद्भसे उत्पन्न हुआ पाप मेरा नाश न कर डाले ॥ ६० ॥

यायसानां शुनां तुल्यं मृत्युमालिङ्गतो मम ।

वैमुख्यं न भवेद्युद्धात्सत्यमेतन्न संशयः ॥ ६१ ॥

कीओं और कुत्तोंकी मौतको भी स्वीकारता हुआ मैं युद्धसे विमुख नहीं होऊँगा, यह सत्य है । इसमें सन्देह नहीं है ॥ ६१ ॥

क्षुधितस्तृपितो वापि प्रामाद्व्रामं घनाद्वनम् ।

अटन्ध्वराज्यवामोऽहं मृत्युमालिङ्गितास्म्यलम् ॥ ६२ ॥

ध्वराज्यकी इच्छावाला मैं भूखा और व्यासा एक ग्रामसे दूसरे ग्राम में और एक वनसे दूसरे वनमें भटकता हुआ मृत्युका आलिङ्गन करूँगा ॥ ६२ ॥

नानुत्साहो न वैषयं प्रभवेन्मां प्रवाधितुम् ।

यूयं जानीथ नियतं मोहनो द्विर्न भाषते ॥ ६३ ॥

मुझे न तो अनुत्साह हैरान कर सकता है और न व्यग्रता । तुम लोग जानते ही हो कि मैं (मोहन) दो बार नहीं बोलता । अर्थात् मेरी प्रतिज्ञा कभी उलटती नहीं है ॥ ६३ ॥

मुहम्मदपुरं साय ययौ लोकाधिनायकः ।
सांधियेरं च देलाडं क्रमादापन्महामुनिः ॥ ६४ ॥

श्रीमहात्माजी सायद्वाल मुहम्मदपुर गये । उसके बाद क्रमसे सांधियेर और देलाड पहुँचे ॥ ६४ ॥

श्रीमती खुरशेदाख्या देवी सत्याग्रहाश्रमात् ।
आगता अपरा देव्यो देलाडं निपिपेविरे ॥ ६५ ॥

श्रीमती खुरशेद रहिन और मत्याग्रह आश्रम सायग्रमतीसे भी कुछ बहिनें यहाँ आ गयी थीं और उन्होंने देलाडकी अच्छी तरह सेवा की ॥ ६५ ॥

सर्वाः संमार्जनीहस्ता प्रामेयकसमन्विताः ।
पर्यङ्कुर्यत तं ग्रामं सोत्साहा मातृशक्तयः ॥ ६६ ॥

दलाड ग्रामके लोगोंका साथमें लेकर इन सब बहिनोंने हाथमें झाड़ू लेकर उत्साहसे उस ग्रामको परिष्कृत = स्वच्छ कर दिया ॥ ६६ ॥

आदाय मार्जनी शुभ्रां खुरशेदमहोदया ।
श्रीमती मृदुला घोभे अन्त्यजावासमीयतुः ॥ ६७ ॥

श्रीपुरशेद बहिन और श्रीमृदुला बहिन दोनों ही झाड़ू लेकर अन्त्य-
जाडेमें चली गयीं ॥ ६७ ॥

सत्याग्रहसदाचार्य इदं सयं विलोकयन् ।
मन प्रसत्तिमापेदे बुषितोऽपि गतेऽहनि ॥ ६८ ॥

श्रीमहात्माजी रत दिवस क्रुद्ध हो गये थे तो भी आज यह सब कार्य देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया ॥ ६८ ॥

हरित्पद्मशोभाढ्ये स नभःपटमण्डपे ।

मन्दमन्दं स्फुरदीपैः शोभितेऽगात्सभागृहे ॥ ६९ ॥

हरे हरे पत्तोसे सजाये गये हुए, मन्द मन्द दीपकोसे शोभित, खुले आकाशमें होनेवाली सभामें श्रीमहात्माजी गये ॥ ६९ ॥

प्रतानपि सुपामासौ जगन्मंगलवर्धकः ।

समस्तवित्त्वात्सत्प्रख्यो वाचमाचमयजनान् ॥ ७० ॥

यद्यपि श्रीमहात्माजी कुछ दुःखी हो रहे थे तो भी शान्तियुक्त होकर, सर्ववित् होनेके कारण सुन्दर ज्ञानसम्पन्न और अत एव जगत्के कल्याणका बदानेवाले उन्होंने लोगोंको उपदेश करना शुरू किया ॥ ७० ॥

ॐ गतेऽहनि समुत्थेन दुःखदावानलेन मे ।

तप्तं हृदयमघास्ते कथंचिच्छान्तिसद्धानि ॥ ७१ ॥

बल्द मेरे हृदयमें जो दुःखदायकानल मुझमें रहा था उससे मेरा हृदय सन्तप्त था । परन्तु आब यह थोड़ासी शान्ति में है ॥ ७१ ॥

प्रेमानललज्ज्वाला प्राकटयं गमिता मया ।

मित्रेभ्यः सा न दुःस्वप्न जातेति मुदितं मनः ॥ ७२ ॥

प्रेमरूप अग्निकी जिस प्रचण्ड ज्वालामें मैंने प्रकट किया था उससे मेरे मित्रोंका दुःस्वप्न नहीं हुआ है, इससे मेरा मन प्रसन्न है ॥ ७२ ॥

अकृत्रिममिदं सर्वं समालोक्य समन्ततः ।

अद्य मे हृदयं शान्तिं संप्रपद्यमुपधावति ॥ ७३ ॥

आज यह सब अकृत्रिम—स्वाभाविक (रचना) को देखकर मेरा हृदय शान्तिको स्वप्न करनेकेलिये दीड रहा है ॥ ७३ ॥

प्राण्यजीवनमस्माकं परमं षाडम्बरोमहान् ।

समयोः स्पष्टमाभाति विततं महदन्तरम् ॥ ७४ ॥

ॐ यहाँसे भी महात्माजीका भाषण है ।

कहाँ तो हम लोगोंका ग्राम्यजीवन और कहीं यह महान् आडम्बर ।
इन दोनोंमें स्पष्ट ही महान् अन्तर दीख पड़ रहा है ॥ ७४ ॥

धूमयानं न यत्रास्ति नगराणि विदूरतः ।
तासु ग्रामटिकास्वेव लोकसेवा मनीषिता ॥ ७५ ॥

बिना छोटे छोटे गाँवोंमें न तो रेल है और न जिनके पास कोई शहर
है उन्हींमें हम लोगोंको जनसेवा करनी है ॥ ७५ ॥

युक्तप्रान्तेषु वङ्गेषु विहारेष्वपि या मया ।
दृष्टा ग्रामदशा सा तु दुर्दर्शा नात्र दृश्यते ॥ ७६ ॥

सयुक्तप्रान्तमें, बंगालमें और बिहारमें भी ग्रामोंकी जो दशा मैंने
देखी है, सद्भाग्यसे वह दशा यहाँ नहीं है ॥ ७६ ॥

तेषु प्रान्तेषु ये ग्रामा दुःखागारा मता मम ।
न दीपो न सुखं धर्म भरणं सर्वतः शुनाम् ॥ ७७ ॥

उन प्रान्तोंमें जो ग्राम हैं मेरी दृष्टिमें दुःखागार ही हैं । यहाँ न रोशनी
है, न अच्छा रास्ता है । चारोंआर कुत्ते भूकते रहते हैं ॥ ७७ ॥

गुर्जरग्रामगोद्रेभ्यो निरुष्टा एव तत्र ते ।
लोका लोकितकङ्काला निस्त्वेजस्काश्च सर्वथा ॥ ७८ ॥

गुजरातके गाँवोंके घरोंका अपेक्षा उन प्रान्तोंके घर बहुत निकृष्ट हैं ।
लोगोंकी हड्डियाँ दीरसती रहती हैं । लोक सब तरहसे तेजोहीन हैं ॥ ७८ ॥

शरीराच्छादनं तेषां शीतर्तौ कुर्वितेऽपि न ।
कृतेऽपि प्राप्यते यत्ने धिग्दैवस्य विदग्धनम् ॥ ७९ ॥

उन लोगोंको मयङ्कर ढंडोंमें भी, यत्न करनेपर भी शरीर ढाँकनेके-
लिये ओढ़ना नहीं मिलता है । दैवकी दृग् विदग्धनाकी धिक्कार है ॥ ७९ ॥

अन्नं नास्ति क्षुधः शान्त्यै तृपः शान्त्यै न वा जलम् ।
दैवस्य दुर्विपाकोऽयं यांचितः स्वदशा मया ॥ ८० ॥

वहाँ भूख मिटानेको अन्न नहीं है और प्यास दूर करनेको जल नहीं है । भाग्यका यह दुष्ट विपाक मैंने अपनी आँखोंसे देखा है ॥ ८० ॥

दीपाभावेन , तत्राहेर्दशनात्प्रतिवत्सरम् ।

लक्षाणि विंशतिर्लोका गच्छन्ति यममन्दिरम् ॥ ८१ ॥

वहाँ गाँवोंमें रोशनी के बिना, सोंपके काटनेसे प्रतिवर्ष २० लाख आदमी मरा करते हैं । (यह सख्या सरकारद्वारा प्रकाशित है) ॥ ८१ ॥

दशायां वर्तमानायामस्यां संशोभतां कथम् ।

बन्धवोऽस्माकमद्यैतदैश्वर्यस्य प्रदर्शनम् ॥ ८२ ॥

ऐसी अवस्थामें, भाइयो ! हम लोगोंको आडम्बर दिखाना कैसे शोभा दे सकता है ? ॥ ८२ ॥

शनैः शनैः समारूढं योग्यं विपरिवर्तनम् ।

सम्भूयैव स्वराज्यस्य प्राप्तिहेतुर्भविष्यति ॥ ८३ ॥

धीमे धीमे आरूढ-होनेवाले योग्य परिवर्तन, एक दिन सब मिलकर स्वराज्यप्राप्तिके कारण बन जायेंगे ॥ ८३ ॥

यथा वहिस्तथा कारागारेऽप्यात्मविशुद्धयः ।

भ्रातरोऽस्माकमत्यन्तं कामिता जीवितुं मुदा ॥ ८४ ॥

भाइयो ! जैसे बाहर जैसे ही जेलमें भी, हमलोगोंको जीनेकेलिये आत्मशुद्धि अत्यन्त इष्ट वस्तु है ॥ ८४ ॥

पत्रं मसी च कार्पासं चक्रं कार्पासमार्जनी ।

कारागारेऽपि लब्धव्यं गीतारामायणाद्यपि ॥ ८५ ॥

जेलमें भी कागज़, स्याही, रुई, चरुं, पीपल, (धुनकी, गीता और रामायण) आदि मिलेंगे ॥ ८५ ॥

यदि नैतानि यस्तूनि लभ्येरन्दन्दिमन्दिरे ।

शान्त्या सम्यतया सर्पैः प्राप्तव्यानि प्रयत्नतः ॥ ८६ ॥

यदि जेलमें यह सब चीजें न मिलें तो शान्तिसे सम्यताके साथ प्रयत्न करके इन्हें प्राप्त करना चाहिये ॥ ८६ ॥

आदेशकुशाखाचार्यो दर्शनोत्कण्ठिताञ्जनान् ।

उपदिश्यैवमहाय छापराभाठमीयिचान् ॥ ८७ ॥

आदेश करनेमें परमनिपुण आचार्य श्रीमहात्माजी दर्शनकेलिये उत्कण्ठित लोगोंको इस प्रकार उपदेश देकर शीघ्र ही छापराभाठा चले गये ॥ ८७ ॥

ततरतापीं नदीं रम्यां पापसन्तापतापिनीम् ।

ततार मुनिराजोऽयं ससेन्यो भारताप्रणीः ॥ ८८ ॥

वहाँसे उन्होंने अपनी सेनाके साथ पापसन्तापनी नष्ट करनेवाली ताप्ती नदीको पार किया ॥ ८८ ॥

असंख्यजनसंघातपरिवारित एव सः ।

प्रतीक्षानिरतं साधु सुरतं प्रययौ पुनः ॥ ८९ ॥

असंख्यकी भीड़से घिरे हुए श्रीमहात्माजी, राह देखकर बैठे हुए सुरतकेलिये चल दिये ॥ ८९ ॥

भगवत्प्रार्थनान्ते स भगवत्त्वयिभूषितः ।

प्रविवेश सभागोहं जयघोषैः समर्चितः ॥ ९० ॥

भगवान्की प्रार्थनाके पदचात् भगवत्त्व-भगवद्दर्शनसे शोभित श्रीमहात्माजीने जयघोषोंके साथ सभागोहमें प्रवेश किया ॥ ९० ॥

नेत्राण्युपोपितानोध लोकानामातुराणि तम् ।

सम्प्राप्य सहसा तत्र सुप्तं विरमधासिपुः ॥ ९१ ॥

लोगोंकी आँखें भूरी और व्याकुलके समान बनी हुई थीं । श्रीमहात्माजीको यहाँ अदृश्यान् पाकर उन आँखोंने सुप्तपूरक विरमधासक उनका पान किया ॥ ९१ ॥

तत्रत्यानामशान्तानि हृदयानि जगाहिरे ।
महाशान्तिमहासिन्धुं दर्शनेन महात्मनः ॥ ९२ ॥

वहाके लोगोके अशान्त हृदयोंने श्रीमहात्माजीके दर्शनसे महाशान्ति-
सागरका अवगाहन किया—अर्थात् शान्ति प्राप्त की ॥ ९२ ॥

लोकानां श्रवणे तृप्ते कर्तुं तृप्तः स आत्मवान् ।
कृतार्थयन्मुधादिग्धां याचं प्रोवाच मानवान् ॥ ९३ ॥

आत्मशक्तिसम्पन्न श्रीमहात्माजी लोगोको तृप्त करनेकेलिये लोगोको
कृतार्थ करतेहुए अमृतसिक्त वचन बोले ॥ ९३ ॥

सभ्यान्सर्वान्धारवारान्दृष्ट्वा प्रतिसभं मया ।
मन्यते भगवान्सर्वप्रेरकोऽद्य प्रसीदति ॥ ९४ ॥

प्रत्येक सभामे छुण्डके छुण्ड आदमियोंको देखकर, मैं समझता हूँ कि
सबके प्रेरक भगवान् आज प्रसन्न हैं ॥ ९४ ॥

अनेकदोषसंजुष्टैः सैनिकैर्नितरामहम् ।
दोषैराशिर्न योग्योऽस्मि सत्कारस्यास्य सर्वथा ॥ ९५ ॥

अनेक दोषोंसे भरे हुए मेरे सैनिकोंके साथ मैं दोषोंका भण्डार हूँ ।
अतः किसी प्रकारसे भी मैं इस सत्कारके पात्र नहीं हूँ ॥ ९५ ॥

इष्टं यद्वस्तु सर्वेषां तदेवाप्तुं ययं घृजिम् ।
रचयाम इति छादात्सत्कारस्तस्य मन्यते ॥ ९६ ॥

जो वस्तु (स्वरान्य) सबको प्रिय है उसीको प्राप्त करनेकेलिये हम
सोग जा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि, इसी प्रसन्नतासे उगी वस्तुकेलिये
(स्वरान्यकेलिये) यह सत्कार है ॥ ९६ ॥

निस्सन्देहं समायाता यूयं प्रेमपुरस्तराः ।
परं तु परमैः स्वैष्टं विना दुःखैर्न चाप्यते ॥ ९७ ॥

निस्सन्देह तुम प्रेमके साथ यहाँ आये हो । फलतः इष्ट वस्तु दुःखोंके
बिना मिलती नहीं है ॥ ९७ ॥

अन्याद्यः कर आस्तेऽयं लवणोऽयं शिशोरपि ।

महात्यागत्रतायत्तादपि राज्येन गृह्यते ॥ ९८ ॥

यह नमक कर अत्यन्त अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह बालकसे भी और परम विरक्त सन्यासीसे भी लिया जाता है ॥ ९८ ॥

अस्य राज्यस्य नाशाय लवणोऽयं करः स्थितः ।

एतेनैव निमित्तेन तमीशो नाशयिष्यति ॥ ९९ ॥

इस राज्यके नाशकेलिये ही यह नमक कर है । इसी निमित्तसे भगवान् इसका नाश करेंगे ॥ ९९ ॥

धर्मग्रन्थेष्वधीतेषु श्रुतेषु च मया ननु ।

निर्धनेषु च योपित्सु दृष्टं करविवर्जनम् ॥१००॥

मैंने सभी धर्मोंके ग्रंथ पढ़े और मुझे हैं । सब जगह यही पाया है कि गरीबोंसे और स्त्रियोंसे कर न लिया जाये ॥१००॥

यथा युद्धे न हन्तव्या बालाः प्रययसः स्त्रियः ।

करादपि तथा वर्ज्या एते सर्वत्र सर्वथा ॥१०१॥

जिस तरहसे युद्धमें बालक, वृद्ध और स्त्रियोंका बध नहीं करना चाहिये, ऐसे ही इन तीनोंको सर्वथा करमेंसे भी बचा लेना चाहिये ॥ १०१ ॥

राज्येऽस्मिन्कर एषोऽस्ति ब्राह्मः सर्वेभ्य एव तत् ।

राज्ञसस्यास्य राज्यस्य महापुण्यघिनाशकः ॥१०२॥

इस राज्यमें यह कर सबसे ही लिया जाता है । अतः इस राज्यके पुण्यका नाश करनेवाला ही यह कर है ॥ १०२ ॥

भगवन्तमुपासीना नार्हन्ति शुभचारिणः ।

उपासितुमिदं राज्यं भ्रान्त्यापि नययत्समिभत् ॥१०३॥

जो लोग भगवान् की उपासना करते हैं उन धर्मात्माओंको इस अन्यायी राज्यकी कर्ना भी उपासना—सेवा नहीं करना चाहिये ॥१०३॥

अंग्रेजराज्यताशाय प्रातः सायं महेश्वतः ।

कर्तव्या प्रार्थना सर्वैरेष धर्मः सनातनः ॥१०४॥

प्रात और सायकाल, दोनोंसमय भगवानसे अंग्रेजो राज्यके नष्ट होजानेकी प्रार्थना करनी चाहिये । यही सनातनधर्म है ॥ १०४ ॥

एवं प्रार्थयमानान्न कारां नयतु शासकः ।

शिरदछेदं च कुर्याद्वा सर्वं सह्यमनाकुलैः ॥१०५॥

शासक, इस तरहसे प्रार्थना करते हुए हम लोगोंको चाहे जेलमें ले जायें और चाहे मलकच्छेदन करें, सब कुछ शान्तिसे सहन करना चाहिये ॥१०५॥

प्रगृह्यारमान्निगडितान्कुर्यात्कारां नयेत वा ।

राज्यं तथापि तस्यापि वाञ्छामः सात्त्विकीं भक्तिम् ॥१०६॥

हम लोगोंको पकड़कर बेडी डाल दें या जेलमें यह सकार ले जाय तो भी हम उस राज्यकेलिये भी सात्त्विकी बुद्धिकी ही इच्छा करेंगे ॥१०६॥

कुर्वीत बन्धनं नो वा राज्यं नः परमेकदा ।

अनीत्या ह्येतयाऽशेषो देशः सन्तापमेष्यति ॥१०७॥

यह राज्य हम लोगोंको पकड़े या न पकड़े परन्तु एक दिन आवेगा जब इस अनीतिसे सम्पूर्ण देश मुलग उठेगा ॥ १०७ ॥

तदा नयतु नः कारां नवेति न भवेद्भिदा ।

सपद्येव विमोक्षः स्यात्तदा भारतवर्षिणाम् ॥१०८॥

और उत समय यह राज्य हमें जेलमें ले जाय या बाहर रखे, दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं होगा । भारतवर्षकी शोष ही मुक्ति मिल जायगी ॥१०८॥

बलभेनात्र चार्तानां बलभेन निरन्तरम् ।

बहुकृत्वः समादिष्टं कृत्यं यौष्माकमञ्जसा ॥१०९॥

दोनोंके प्रिय श्रीबलभानेने हमेशा बहुत बार तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य-का उपदेश किया है ॥ १०९ ॥

तत्फलं चात्र किं जातमेतदेव विचार्यते ।
स्वस्ति भूयात्तलाटिभ्यः संत्यक्तं येः स्वकं पदम् ॥११०॥

उस उपदेशका क्या फल हुआ है, मैं इसीका विचार करता हूँ ।
उन तलाटियोंका कल्याण हो जिन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया है ॥११०॥

प्राङ्घ्रिवाचस्तथा छात्रगणोऽकुर्वन्क्रियत्किमु ।
न्यायालयास्तथा पाठशालास्तैस्तु हिता नवा ॥१११॥

कमीलोंने और छात्रोंने क्या किया और कितना किया ? उन्होंने
छ कचहरियों और स्कूलोंको तथा कालेजोंको छोड़ दिया या नहीं ॥१११॥

तकलीभाषणं मेऽद्य युष्माभिर्वीक्षितं खलु ।
एष एवाद्य सर्धेपां धर्मो दुरितपावनः ॥११२॥

तुम लोगोंने मेरे — तकलीभाषणको देख लिया । आज यही सब
पापोंको पवित्र बग्नेवाला सबका धर्म है ॥ ११२ ॥

एतद्द्वीपपरिधानेन नम्रता नैव यो भवेत् ।
भवेत्तदापि नो हानिर्दुष्टेऽस्मिञ्छासनेऽद्भते ॥११३॥

एतद्द्वीप = राादी बरकके पहिरनेसे तुम नंगे नहीं माने जाओगे । यदि
नंगे रहो तो भी इस दुष्ट राज्यमें कोई क्षति नहीं है ॥११३॥

शरीराच्छादनं चेद्धो भवेदिष्टं तदा तु तत् ।
कर्तव्यं सद्दरेणैव यासौभिर्न विदेशिभिः ॥११४॥

छ कच = केश । शरी = हरण करनेवाली । मुकुटमा लङ्गते लङ्गते
सिरके बाल नुप जाते हैं इसलिये उसका नाम कचहरी है ।

— धीमहामाजी कभी कभी जय सभाओंमें बहुत अशान्ति होती
है तो मौनिक भाषण न करके चुपचाप टेकुआपर काता करते हैं ।
इसीका नाम तकरी-भाषण है । मुजयती भाषामें तकली का अर्थ
टेकुआ है ।

अगर तुम्हें शरीर टंकना हो तो खहरसे ही टंकना, विदेशी कपटोसे नहीं ॥ ११४ ॥

स्वदेशयोपितां हसैः पवित्रैः सूत्रसम्पुटैः ।

सज्जीकृतैः कृतं वस्त्रं परमानन्दमावहेत् ॥११५॥

अपने देशकी, बहिनोके पवित्र हाथोसे तैयार किये गये हुए सूत्रके सम्पुटोसे बनाया हुआ वस्त्र परम आनन्द देगा ॥११५॥

आदेशं मेऽद्य शृण्वन्तु योपितो ध्यानपूर्वकम् ।

व्रतं गृह्णन्तु हस्तेन सर्वदा सूत्रनिर्मितैः ॥११६॥

स्त्रियां ध्यानपूर्वक मेरे आदेशको सुनें । तुम लोग सदा हाथसे कातने-केलिये व्रतधारण करो ॥११६॥

मद्यपानां गृहं गत्वा मृद्वया प्रार्थनया सदा ।

मद्यपानविरक्तांस्तान्कुर्वन्तु सुरतस्त्रियः ॥११७॥

इस सूत्रकी बहिनें शराबियोके घर जाकर, नम्रप्रार्थनाके द्वारा उन्हें मद्यपानसे पृथक् करें ॥११७॥

योपितां वचनं श्रुत्वा कुप्येयुर्नहि मद्यमाः ।

लज्जिता विवशा भूत्वा सुरां हास्यन्ति ते सुखम् ॥११८॥

तुम लोगोके (बहिनोके) वचनोको सुनकर वह शराबीलोग क्रोध नहीं करेंगे । वे लज्जित होंगे और लाचार होकर शराब पीना मुत्तसे छोड़ देंगे ॥११८॥

हिन्दवश्च मुसल्मानाः सर्वे भारतसूनवः ।

परस्परं न थोद्धव्यं कदाचिद्देशबन्धुभिः ॥११९॥

हिन्दू और मुसलमान दोनों ही भारतकी सन्ततिया हैं । देशभाइयो-को कभी परस्पर लडना नहीं चाहिये ॥ ११९ ॥

पारसीका अपि प्रार्थ्याः सुरायाः क्रयविक्रयौ ।

परित्यक्तुं स्वदेशार्थं धर्मार्थं चापि सर्वदा ॥१२०॥

शरावणे खरीदने और बेचनेको, स्वदेश और धर्मकेलिये छोड़ देनेके-
लिये मैं पारसी भाइयोंकी सर्वदा प्रार्थना करूँगा ॥ १२० ॥

यास्तुधाभि. स सन्तर्प्य सर्धानेव जनान्मुनि ।

विश्रमायागमच्छ्रीमाञ्छिविरं स्वं दृढव्रतः ॥१२१॥

वागीमुधासे सब लोगोंको तृप्त करके श्रीमान् दृढव्रतनाले श्रीमहात्माजी
अपने शिविर = निवासस्थानको चले ॥१२१॥

डीडोली याज्ञमप्येवं गत्या लक्षं जनानपि ।

बोधयित्वा रहस्यं तद्योधनं धामणं गतः ॥१२२॥

डीडोली और याज्ञ इन गाँवोंमें जाकर व्यक्तों आदमियोंको इस
मुद्देके रहस्यको समझाकर वह धामण गये ॥१२२॥

सैन्येन श्रीमता साहं ततो लोकसहस्रकैः ।

सहितः समियायैप जमालपुरमुत्तमम ॥१२३॥

सेनासहित तथा अन्य हजारों लोगोंके साथ श्रीमहात्माजी जमालपुर-
में पहुँचे ॥१२३॥

नवसारी ततः श्रीमानुपेत्याधिसभं निशि ।

प्रायेण पारसीकेभ्य उपदेशं चकार सः ॥१२४॥

उत्तरे बाद नवसारी आकर, रात्रिमें सभामें जाकर श्रीमहात्माजीने
अधिकाशमें पारसियोंको उपदेश दिया ॥१२४॥

वपविदयासनं प्रोच्चैर्यमिष्ठमार्णा महीपतिः ।

पारसीकगुणान्पूर्यं निस्सङ्घोचमवर्णयत् ॥१२५॥

योगिपुरुषोंमें श्रेष्ठ श्रीमहात्माजीने ऊँचे आसनपर बैठकर पहिले तो
बिना किसी उद्योचके पारसीलोगोंके गुणोंके वर्णन किया ॥१२५॥

नाम्ना लैङ्गेन वेनापि गौराङ्गेण निरूपितम् ।

औदार्यं पारसीकानामतिप्रम्य जनान्निव्यतम् ॥१२६॥

किसी लैङ्गनामक अग्नेजने भी पारसियोंकी लोभोत्तर उदारताका वर्णन किया है ॥ १२६ ॥

जनसंख्याऽतिबहुला नैतेषामस्ति यद्यपि ।
दानं तथापि निष्पक्षं निखिलानतिगच्छति ॥१२७॥

यद्यपि इनकी जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं है तथापि इनका पक्षपात-रहित दान सबसे बढ जाता है ॥१२७॥

यौष्माकेणैव हस्तेन प्रान्तेऽस्मिन्मदिरालयाः ।
पारसीकाः प्रचालयन्ते देशनाशस्य कारणम् ॥१२८॥

पारसी भाइयो ! इस प्रान्तमें आप लोगोंके ही हाथोंसे शराबकी बड़ी बड़ी दूकानें खलायी जा रही हैं जो देशनाशके कारणभूत हैं ॥१२८॥

सौरं व्यापारमद्येह मत्वेशद्रोहमात्मनि ।
यूयं पार्थक्यमेवाशु ततो गृहीत वन्धवः ॥१२९॥

भाइयो ! मदिराने व्यापारको अपने मनमें आपलोग ईश्वरका द्रोह मानकर शीघ्र ही उससे अलग हो जाइये ॥१२९॥

अन्येऽप्यनुकरिष्यन्ति युष्मानत्र महोदयाः ।
सुद्राणा रक्षणं तस्मात्कोटीना पञ्चविंशतेः ॥१३०॥

दूसरे लोग भी आपका अनुकरण करेंगे और उससे २५ करोड रुपयोंकी रक्षा होगी ॥१३०॥

मुक्तिसेनानुयायिन्यो योषितो मद्यहापनम् ।
प्रकुर्वन्त्यो भया दृष्टाः सकला धर्मसेवकाः ॥१३१॥

मुक्तिफौजकी बहिनोंको मदिरापानका निषेधकार्य करती हुई मैंने देखा है । वह धर्मकी सेविना हैं अत एव वह इस कार्यमें सफल हुई हैं ॥१३१॥

कुर्वन्त्यत्रापि ता आर्या यवन्धः पारसीकिकाः ।
योषितः परमं शुद्धमेतत्कर्म निजेच्छया ॥१३२॥

इस देशमें भी हिन्दू, मुसलमान और पारसी बहिनें स्वेच्छासे इस परम पवित्र कर्मको कर सकती हैं ॥१३२॥

मद्यपाः पुरुषैः साकं मद्यपाननिषेधकैः ।

कलहं ते फरिष्यन्ति योपिद्भिर्न परं क्वचित् ॥१३३॥

मदिरा पीनेवाले लोग मद्यपान निषेध करनेवाले पुरुषोंके साथ तो अवश्य ही झगडा करेंगे परन्तु बहिनोंके साथ तो नहीं ही ॥१३३॥

प्रेमप्लुतेषु नेत्रेषु स्त्रीणा दृष्ट्वा सुधानिधिम् ।

अवश्यं मद्यपा शुद्धा भविष्यन्त्यचिरादिद् ॥१३४॥

स्त्रियोंके प्रेमपूर्ण नेत्रोंमें सुधानिधियों देखकर शरागी अवश्य ही शीघ्र ही पवित्र बन जायेंगे ॥१३४॥

मद्यपानां गृहं गत्वा संद्रक्ष्यन्ति यदि स्त्रियः ।

तेषा तदर्भकाणां च दशास्तासु दयोद्धवेत् ॥१३५॥

यदि बहिनें शरात्रियोंके घर जाकर उनकी और उनके बच्चोंकी दशा देखेंगी तो उह अवश्य दया आवेगी ॥१३५॥

निर्वन्धा च गृहे भार्या निराहाराश्च बालकाः ।

बहवो निर्गृहाश्चापि सुरापाणामियं दशा ॥१३६॥

शरात्रियोंकी यह दशा है कि उनके घरमें स्त्रीय शरीरपर बल नहीं है । बच्चे भूखे पडे हैं । और कितने ही ता बिना घरके हैं ॥१३६॥

दशा एता निरीक्ष्यैव योपित्वा नाम सा भवेत् ।

यस्या न हि प्रजायेत हृदये करुणा परा ॥१३७॥

इस दशाको देखकर कोन ऐसी बहिन होगी कि जिसके हृदयमें दया न पैदा हो ? ॥१३७॥

मिट्टूदेवी सुरापाणां दशा एता निरीक्षत ।

दयासागरमग्ना सा तदुद्धारपराऽभवत् ॥१३८॥

श्रीमिद्वृबहिनने शरात्रियोंकी इस दशाको देता । उन्हें दया आ गयी । वह उनके उद्धारमें लग गयी ॥१३८॥

मातरं स्वां विहायैषा गृहं गृहसुखानि च ।

सर्वांन्सुरायितुं व्यप्रा त्यागिनो सहसाऽभवत् ॥१३९॥

श्रीमिद्वृबहिन अपनी माताजीको छोड़कर, घर और घर सुखोंको छोड़कर, सबको सुरायी बनानेकेलिये व्याकुल होकर एक दम त्यागिनी—सत्यासिनी बन गयी ॥ १३९ ॥

नैकयैव परं साध्यं पारसीकमहेलया ।

महत्कार्यमिदं तस्मात्सर्वाः संहृत्य कुर्वताम् ॥१४०॥

परन्तु यह बड़ा भारी कार्य है । एक ही पारसी महिला इसे पूरा नहीं कर सकती । अतः सब बहिनें मिलकर इस कार्यको करें ॥ १४० ॥

कारां नयेत राज्यं मां यदि तास्वलिलास्विमम् ।

स्वसन्देशं विनिक्षिप्य गमिष्यामि सुखेन ताम् ॥१४१॥

यदि सरकार नुझे जेल ले जावगी तो मैं अपने इस सन्देशको पारसी बहिनोंको सौंपकर सुखसे जेल चला जाऊँगा ॥१४१॥

गुर्जरो योपितः सर्वा अन्यप्रान्तवधूगणात् ।

कुशलाः सन्ति कार्येऽस्मिन्पवित्रे धर्मरक्षणे ॥१४२॥

अन्य प्रा तोंकी स्त्रियोंकी अपेक्षा गुजरातकी बहिनें इस धर्मरक्षण रूप पवित्र कार्यमें कुशल हैं ॥१४२॥

मिद्वृदेवी तु यत्क्षेत्रं स्त्रीकृत्य स्वां समर्पयत् ।

तस्मिन्नेव महाक्षेत्रे मुद्युष्माकं विवर्धताम् ॥१४३॥

श्री मिद्वृबहिनने जिस क्षेत्रको स्वीकार करके अपनेको उसीमें लगा दिया है उसी महान् क्षेत्रमें तुम लोगोंकी भी रुचि बढ़े ॥१४३॥

नगरेऽस्मि - न्पुरागार रतस्त्री पुस संचये ।

शुभां वाचं प्रसार्यायं प्रययावप्रता मुनि ॥१४४॥

शरावकी दूकानमें प्रेम है बिनका ऐसे स्त्रीपुरुषोंसे भरे हुए सूरन शहरमें श्रीमहात्माजी अपनी पवित्र घाणीको पैलाकर आगे चले गये ॥१४४॥

प्रातः पेथाणमाप्यासौ कराडीं च निशामुखे ।

प्राप सर्वगुणागारः सेनानोः सेनया सह ॥१४५॥

प्रातःकाल पेथाणमें पहुँचकर सायङ्काल कराडींमें सर्वगुणागार श्रीमहात्माजी अपनी सेनाके साथ पहुँच गये ॥१४५॥

कराडीं प्रविशन्नग्रे स्वयं रेजे महामुनिः ।

ततः परं क्रमेणैते सैनिका अनुवव्रजुः ॥१४६॥

कराडींमें प्रवेश करते हुए श्रीमहात्माजी सबसे आगे आगे शोभित हो रहे थे । उनके पीछे क्रमसे यह सैनिक चल रहे थे ॥१४६॥

ॐ प्यारेलालश्छन्नलालजोशी च श्रीसरे तथा ।

गोडसे श्रागणपतिश्च पृथिवीराज आसरः ॥१४७॥

१—श्राप्यारेलालजी, २—श्रीछगनलाल जोशी, ३—श्रीसरेपण्डितजी, ४—ज्ञातक गणपतराव गोडसे, ५—श्रीपृथिवीराजआसर ॥१४७॥

महावीरश्च बालश्च तथा रङ्गबहादुरः ।

रसिको विट्ठलो हर्षो जात्यान्त्यज उदाहृतः ॥१४८॥

ॐ श्रीमहात्माजीके सैनिकोंके नाम है ।

१—श्रीमहात्माजीके प्राइवेट सेक्रेटरी । पञ्जाबयुनिवर्सिटीके बी० ए० । १९२० ई० में एम० ए० क्लाससे असहयोग किया । वय ३० वर्ष । २—बी० ए० (वय ३५) । श्रीपुतभाई मगनलाल गांधीजीके मृत्युके पश्चात् सत्याग्रह आश्रम साबरमतीके व्यवस्थापक । प्रो० पेट्रिक गेडिसके विद्यार्थी । १९२० में असहयोग किया । वय ३५ वर्ष । ३—पण्डित विष्णुविगमर के भान्धवमहाविद्यालयमें १२ वर्षतक संगीतका अध्ययन किया । आश्रमके संगीत शिक्षक । प्रार्थना कराते हैं । वय ४२ वर्ष । ४—गुजरात विद्यापीठके ज्ञातक । शिक्षक । वय २५ वर्ष । ५—

६-श्रीमहावीरजी, ७-श्रीबाल कालेलकर, ८-श्रीरङ्गबहादुर,
९-श्रीरविक देसाई, १०-श्रीविठ्ठल, ११ श्रीदुर्ग अन्वयज ॥१४८॥

श्रीमत्तनुसुखो भट्टः कान्तिगांधी च शङ्करः ।

आनन्दहिंगोराणी च श्रीरमणीकलालकः ॥१४९॥

१२-श्रीतनुसुख भट्ट, १३-श्रीकान्तिगांधी, १४-श्रीशङ्कर कालेलकर,
१५-श्रीआनन्द हिंगोराणी, १६-श्रीरमणीकलाल मोदी ॥१४९॥

छोट्टुभाईपटेलश्च श्रीमदब्बास एव च ।

नारायणो ममभायी पूजाभायी च माधवः ॥१५०॥

१७-श्रीछोट्टुभाई पटेल, १८-श्रीअब्बासजी, १९-श्रीनारायण,
२०-श्रीमगनभाई, २१-श्रीपूजाभाई शाह, २२-श्रीमाधवलाल ॥१५०॥

आश्रमकी पाठशालाके छात्र । वय १६ वर्ष । ६ महावीर । नेपाली ।
आश्रमके छात्र । वय १९ वर्ष । ७-श्रीकाकासाहेबजी-दत्तात्रेय कालेल-
करके छोटे पुत्र । आश्रमके छात्र । वय १८ वर्ष । ८-पहाड़ीबन्धु । यह
पीछेसे महात्माजीकी विशेष आज्ञासे, मार्गमें भर्ती हुए थे । ९-आश्रम-
के छात्र । वय १९ । १०-आश्रमके छात्र । वय २० वर्ष । ११-वणकर-
लोकोक्त अस्पृश्यजाति । वय १८ वर्ष ।

१२-गोसेवा सघके कार्यकर्ता, वय २० वर्ष । १३-श्रीमहात्माजी
के पौत्र । वय २० वर्ष । १४-श्रीकाका कालेलकरके बड़े पुत्र । कालेल
और कई छात्रवृत्तियों छोड़कर पीछे नडियादमे आकर सैनिक बने ।
१५-बी० ए० (बम्बई) । इनके पिता एग्जिक्यूटिव इंजिनियर थे । वय
२४ वर्ष । १६-बी० ए० (बम्बई) आश्रमकी शालाके शिक्षक । वय
३८ वर्ष । १७-खात्री कार्यकर्ता । वय २२ वर्ष । १८-खात्री उद्योग-
शालाके शिक्षक । वय २० वर्ष । १९-उत्कल उद्दीसाके खात्री कार्य-
कर्ता । वय २२ वर्ष । २०-उत्कलमे खात्री कार्यकर्ता । वय २५ वर्ष ।
२१-कितनेही वर्षोंतक आश्रममें रहे थे । वय २५ वर्ष । २२-बी० ए०

हुद्गर्शीः सोमभायी च द्वारकानाथ एव च ।

रामजी किं च दाऊदभाई श्रीभानुशङ्करः ॥१५१॥

२३—श्रीशुंगरगीभाई, २४—श्रीसोमाभाई, २५—श्रीद्वारकानाथ,
२६—श्रीरामजीभाई, २७—श्रीदाऊदभाई, २८—श्रीभानुशङ्कर ॥१५१॥

गजाननो हंसमुखरामः श्रीकृष्णनाथरः ।

जेठालालश्च गोविन्दहर्करैः शङ्करन् तथा ॥१५२॥

२९—श्रीगजानन, ३०—श्रीहंसमुखराम, ३१—श्रीकृष्णनाथर,
३२—श्रीजेठालाल, ३३—श्रीगोविन्दहर्करै, ३४—श्रीशङ्करन् ॥१५२॥

मुन्शीलालः पाण्डुरङ्गः राघवनाथवार्चकः ।

सुल्तानमिहत्तपननाथरौ प्रेमराजजी ॥१५३॥

३५—श्रीमुन्शीलाल, ३६—श्रीपाण्डुरङ्ग, ३७—श्रीराघवनाथजी,
३८—श्रीसुल्तानमिहत्तपननाथर, ३९—श्रीप्रेमराजजी ॥१५३॥

(पाषट्) निष्पत् । २३—कच्छमें गार्दी कावंपर्ता । वय २० वर्ष । २४—
भाधमकी गोमी मैनात्नेवाले । नागपुरके प्यत्तमपासदमें जेठ गये । वय
२५ वर्ष । २५—दुग्धालयके कावमें निपुण । धी० एय० री० (किल्पोर्निपा) ।
भमेरिामें बहुत दिनेगक निक्षण और अनुभव प्राप्त किये । गृध्र भाधम-
मीकी पदवी छोड़कर भाधमके दुग्धालयके अत्यत । वय ३० वर्ष
२६—पगहर-श्रीरोज भद्रपुत्र । १२ वर्षोंके भाधममें रहते थे । वय
४५ वर्ष । २७—दुग्धमान् । पहिले कासभाई निरगरी 'भद्रि'में
गौकर । वय २५ वर्ष । २८—गार्दी विद्यार्थी । वय २२ वर्ष । २९—
गार्दी शास्त्रांत रंगनिशक । ३०—मेज के काममें । वय २५ वर्ष । ३१
जगिया विद्यार्थीके छात्रक । गार्दी विद्यार्थी । वय २५ वर्ष । ३२—
गार्दी विभागमें । वय २५ वर्ष । ३३—गार्दी विद्यार्थी । वय २५ वर्ष ।
३४—गार्दी विद्यार्थी । वय २५ वर्ष । ३५—गार्दीविद्यार्थी । वय ३८ ।
३६—गार्दीविद्यार्थी । वय २२ । ३७—गार्दीविद्यार्थी । वय २५ । ३८—गार्दी
विद्यार्थी । वय २५ । ३९—गार्दीविद्यार्थी । वय २५ । ४०—गार्दीवादे-

शिवायत. शिवाभायी जशभायी तथैव च ।

पटेलो रावजीभायी टाइटस्जी च रत्नजी ॥१५४॥

४१—श्रीशिवाभाई, ४२—श्रीजशभाई, ४३—श्रीरावजीभाई पटेल,

४४—श्रीटाइटस्जी, ४५—श्रीरत्नजी ॥१५४॥

दुर्गेशचन्द्रदासश्च तथा केशवचित्रके ।

अम्बालालपटेलश्च श्रीज्योतीरामजी तथा ॥१५५॥

४६—श्रीदुर्गेशचन्द्रदास, ४७—श्रीकेशवचित्रे, ४८—श्रीअम्बालाल पटेल, ४९—श्रीज्योतीरामजी ॥१५५॥

जयन्तीपारिखो विष्णुशर्मा च श्रीसुरेन्द्रजी ।

गांधीश्रीमणिलालश्च हरिभाऊ-सु-मोहनी ॥१५६॥

५०—श्रीजयन्ती पारिख, ५१—श्रीविष्णुशर्मा, ५२—श्रीसुरेन्द्रजी, ५३—श्रीमणिलाल गांधी, ५४—श्रीहरिभाऊ मोहनी ॥१५६॥

कर्ता । वय २२ । ४१—गुजरात विद्यापीठके स्नातक । दफ्तरमें काम करते थे । वय २७ । ४२—खादीविद्यार्थी । वय २० । ४३—१९२० ई० में ग्रान्ट मेडिकल कालेजसे असहयोग किया । गुजरातमें आरम्भसे ही खादीकार्यकर्ता । प्रलय और दुष्कालसंकटनिवारण कार्यमें बल्लभभाई पटेलके स्वयंसेवक । वय ३० । ४४—ईसाई । इण्डियन डेरीसे प्रमाणपत्र प्राप्त किया । ४५—अंत्यज आश्रम गोधराके । वय १८ । ४६—खादीविद्यार्थी । बङ्गालमें सर्कारी नौकरी छोड़ दी । वय ४४ । ४७—खादीविद्यार्थी । वय २५ । ४८—१९२० में ग्रांट मेडिकल कालेजमेंसे असहयोग किया । खादीकार्यकर्ता पहिलेसे ही । दुष्काल और प्रलय सङ्कटनिवारणमें बल्लभभाई पटेलके स्वयंसेवक । वय ३० । ४९—खादीविद्यार्थी । वय ३० । ५०— । ५१—शिक्षक । वय ३० । ५२—संस्कृतविशारद । आश्रमके चर्मालयके अध्यक्ष । ५३—इण्डियन ओपीनियन के भूतपूर्व सम्पादक । दक्षिण अफ्रिकासे तुरन्त ही आये थे । श्रीमहामाजीके द्वितीय पुत्र । वय ३८ । ५४—बी० ए० । शिक्षक । वय ३२ । ५५—

शास्त्री चिन्तामणिर्विद्वान् नारायणमहाशयः ।

श्रीयुतबालजीभायी देशाई विष्णुपन्तकः ॥१५७॥

५५-श्रीशास्त्रीचिन्तामणि, ५६-श्रीनारायणजीभाई, ५७-श्रीबालजी-
भाई देशाई, ५८-श्रीविष्णुपन्त ॥१५७॥

श्रीमान्दिनकररायः सुब्रह्मण्यं महाशयः ।

श्रीयुतश्रीहरिलालमाहीमत्रा गुणालयः ॥१५८॥

५९-श्रीदिनकरराय, ६०-श्रीसुब्रह्मण्यम्, ६१-श्रीहरिलाल माही-
मत्रा ॥ १५८ ॥

श्रीमोतीवासदासश्च सूर्यभानुः सुधीदवरः ।

श्रीमन्मदनमोहनचतुर्वेदी द्विजोत्तमः ॥ १५९ ॥

६२-श्रीमोतीवासदास, ६३-श्रीसूर्यभानु, ६४-श्रीमदनमोहन
चतुर्वेदी ॥ १५९ ॥

मजूमदारश्रीहरिदासो हरिप्रसादकः ।

श्रीमहादेवमार्तण्डश्चिम्भनलाल एव च ॥१६०॥

६५-श्रीहरिदास मजूमदार, ६६-श्रीहरिप्रसाद, ६७-श्रीमहादेव
मार्तण्ड, ६८-श्रीचिम्भनलाल ॥१६०॥

पुराने आध्रमवासी समिवनेकी राष्ट्रियपालामें रहते थे । पृथ ४० ।
५६-उत्कलमें शाहीकार्यकर्ता । पृथ २२ । ५७-गुजरात कालेजमें अंग्रेजी
के अध्यापक थे । १९१६ में कांग्रेसमें शामिल होनेकेलिये सरकारसे मनाई
हुए अतः कालेज छोड़ दिया । हिन्दु युनिवर्सिटीमें भी अध्यापक थे । उस
समय गुजरात विद्यापीठमें अध्यापक थे । बहुत दिनोंमें "यह्मद्विन्द्या" में
काम करते थे । १९२१ में जेठ गये । पृथ ३५ । ५८-शादीविद्यार्थी ।
पृथ २५ । ५९..... (१) । ६०-शादीविद्यार्थी । पृथ २५ ।
६१-पी० ए० एल्० एल्० पी० (एम०ई) शादीविद्यार्थी । पृथ २७ ।
६२-शादीविद्यार्थी । पृथ २० । ६३-श्रीसूर्यभानु । ६४-श्रीमदनमोहन
पुरी । ६५-एम्० ए० पी० एच्० टी (विस्कोनसीन) । उसी समय

सुमङ्गलप्रकाशोऽपि पुरातनबुधोऽपि च ।
श्रीगांधीहरिदासश्च श्रीपन्नालालजौहरी ॥१६१॥

६९—श्रीसुमङ्गलप्रकाश, ७०—श्रीपुरातन बुध, ७१—श्रीहरिदास-
गांधी, ७२—श्रीपन्नालाल जौहरी ॥ १६१ ॥

श्रीमद्विरिवरधारी चौधुरी भैरवस्तथा ।
श्रीमन्माधवलालश्च रामधीरश्च माधवः ॥१६२॥

७३—श्रीगिरिवरधारी चौधरी, ७४—श्रीभैरवदत्त, ७५—श्रीमाधवलाल,
७६—श्रीरामधीरराय, ७७—श्रीमाधवजीमाई ॥१६२॥

श्रीमद्विनायकरावः शङ्करभाषि लालजी ।
श्रीजयन्तीप्रसादश्चेत्येते तस्य च सैनिकाः ॥१६३॥

७८—विनायकराव, ७९—शङ्करभाई, ८०—लालजी, ८१—जयन्ती-
प्रसाद, यह सब श्रीमहात्माजीके सैनिक थे ॥ १६३ ॥

अमेरिकासे आये थे । वय २५ ॥ ६६—फ़ीजीमें जन्म । राष्ट्रीयकार्यमें
पारङ्गत होनेके लिये ही हिन्दुस्तान आये थे । वय २० ॥ ६७—खादी विद्यार्थी ।
वय १८ । ६८—गुजरात प्रलयसङ्कट निवारणके कार्यकर्ता (खादीविभागके)
वय २४ । ६९—काशीविद्यापीठमें हिन्दी अध्यापक । वय २५ ॥ ७०—
गुजरात विद्यापीठके छात्रक । वय २५ ॥ ७१—पहिले रुईके व्यापारमें
थे । वय २५ । ७२—पन्नाराज्यके भूतपूर्व दीवानसाहेबके पुत्र । उस
समय गोसेवासंघमें थे । वय २५ । ७३—खादीविद्यार्थी । वय २० ।
७४—खादी विद्यार्थी । वय २५ ॥ ७५—बी० ए० (चम्बई) शिक्षक ।
७६—ब्रह्मदेशमें पोष्टमेनकी नौकरी छोड़कर खादीविभागमें काम करते
थे । वय ३० ॥ ७७—लडनमें विजयी व्यापार करते थे । कलकत्ताका
बहुत बड़ा व्यापार छोड़कर थोड़े दिन ही पूर्व आश्रममें आये थे ।
वय ४० ॥ ७८—महाराष्ट्रमें खादी कार्यकर्ता । वय ३३ वर्ष । ७९—
खादीविद्यार्थी । वय २० वर्ष । ८०—वणकर-लोकोक्त अस्पृश्य । वय
२५ वर्ष । ८१—खादीविद्यार्थी । वय ३० वर्ष ।

लोकादधीतसन्देशाः कराडीग्रामवासिनः ।

अवर्ण्योत्साहसम्पन्ना ग्रामतो यहिरागताः ॥१६४॥

लोगोसे उनके आनेका समाचार सुनकर सभी—कराडी ग्रामके निवासी अत्यन्त उत्साहयुक्त होकर ग्रामसे बाहर आये ॥ १६४ ॥

यस्मै स्पृहयमाणास्ते विलसद्भर्ममूर्तये ।

विनिद्रा वसुका आसंस्तं द्रष्टुं सस्यदा ययुः ॥१६५॥

जिस साक्षात् धर्ममूर्तिकेलिये—श्रीमहात्माजीकेलिये लोग स्पृहा कर रहे थे, चागरण कर रहे थे वीर उत्सुक थे; उन्हींको देखनेकेलिये वेगसे सब लोग गये १६५

कर्पन्तं शान्तसेनां तां जनतामपरामपि ।

वायुवेगेन धावन्तमिवापश्यन्वतीदधरम् ॥१६६॥

अपनी उस शान्त सेनाको तथा अन्य बड़ी भारी भीड़को साथमें लींचते हुए, वायुधमान दौड़ते हुए श्रीमहात्माजीको लोगोंने देखा ॥१६६॥

श्रीसत्यदेव ऋजुमूर्तिरसौ यमानः

कौपीनमेकममलं च हृषीकनाथः ।

लोकेन सरृष्टमतीव विनिद्रतर्षे—

दृषसम्पुटैरपगतः परिपीयते स्म ॥१६७॥

एक निर्मल—निर्दोष कौपीन पहिरे हुए उन इन्द्रियविज्ञेता, उदारमना श्रीमहात्माजीका लोगोंने अपनी प्यागी आँसुसे नूप पान किया—दर्शनकिया १६७

तद्वैभवं जितभयं परिवीक्ष्य लोकाः

स्फुरादरायनतमस्वरुमालिकाभिः ।

सम्पूज्य तस्य युगलं पद्मपद्मयोस्त—

द्वामाङ्गणं स्म गमयन्ति मुदा सरारेः ॥१६८॥

दुर्लभके दमन करनेवाले श्रीमहात्माजीके उस लोहोत्तर येमन्को देखकर महान् आदरसे सब लोगोंने उनके चरणदमलोंमें शिर घुसा दिया । पश्चात् आनन्दसे लोग उन्हें गर्वमें ले आये ॥ १६८ ॥

माङ्गल्यसूचकपदोद्धृतानि गीता-

न्यालाप्य सर्वहृदयाधिसुखारुणि ।

स्त्रीणां गणो गुणधराप्रभुतापरीतः

स्वानन्दवृद्धिमतनोदतनुप्रकाशः ॥१६९॥

माङ्गल्यसूचक पदोंसे बनाई हुई, सर्वहृदयोंको परम सुख देनेवाली गीतिवाओंको परमगुणवती वहिनें गाकर अपने आनन्दकी वृद्धि करनेवाली ॥१६९॥

तत्रैव रात्रिमतिवाह्य विनीय खेदं

ब्राह्मे मुहूर्त उदतिष्ठदयं यतीन्द्रः ।

सेनासहाय उररीकृततापसत्व

आराधने च भगवद्विनतौ रतोऽभूत् ॥१७०॥

वहाँपर ही रात्रि बिताकर, शकावटको दूर करके, तापसधर्मको स्वीकार करनेवाले श्रीमहात्माजी अपनी-सेनाकेसहित प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्तमें उठ गये और भगवत्पार्थनामें लग गये ॥१७०॥

मोदादुदारवचनैश्च कराडिवासा-

नादिश्य गन्तुमखिलान्युधि वीरभूमौ ।

धर्मं स्वकीयमपुपत्तदधीरचित्ते—

ष्वप्येष धर्मरतिमातत दीनबन्धुः ॥१७१॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

विंशः सर्गः

दीनबन्धु श्रीमहात्माजीने प्रसन्नतासे अपने उदार वचनोंसे कराडी ग्रामके सब निवासियोंको वीरभूमि—युद्धमें चलनेकेलिये आज्ञा देकर अपने वर्तव्यका पालन किया और ग्रामवासियोंके अधीरचित्तमें धर्मके प्रति प्रेम बढ़ा दिया ॥७१॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपहराष्ट्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजातेविंशः सर्गः

❀ एकविंशः सर्गः

विकसति दिवि भानौ दिव्यभानुः स कल्पे
 रघुकुलपतिपादाभोजयुग्मं पवित्रम् ।
 परमविमलभक्त्या मानसे सन्निधाय
 प्रहसितवदनोऽसौ सम्प्रतस्थेऽथ दांडीम् ॥ १ ॥

प्रातःकाल जब आकाशमें सुदोदय हुआ तब वह दिव्यकिरणवाले श्रीमहात्माजी रघु = जीवोके, कुल = समुदायके, पति = स्वामी सच्चिदानन्दके पवित्र घरणवमलोंसे, निर्मलभक्तिसे मनमें धारण करके हँसते सुपसे दांडीके लिये चल दिये ॥ १ ॥

चलति मुनिमहीन्द्रे सेनया सार्धभारा—
 द्रगणितजनयूथं साश्रुपातं चचाल ।
 त्रिगुणभुवमतीत्य प्रील्लसच्चिद्विलासे
 सकलजनमनोहो को न बध्नाति मानम् ॥ २ ॥

सेनाके साथ जब श्रीमहात्माजी कराडीसे चले, अगणित लोग ओंछोंमें ओंछें भरकर साथ चलने लगे । परमसुन्दर त्रिगुणातीत चित्स्वरूपमें किसको बादर न हो ? ॥ २ ॥

बहुविधमनुजामुव्रातपातक्षमाणि
 हृदयकमलकम्पीन्यन्नशस्त्राणि विभ्रत् ।
 सिततनुजनराज्यं क्रूरकर्माऽतिवृद्धो
 व्रजति विगतशस्त्रो रोद्धुमेतद्धि चित्रम् ॥ ३ ॥

बहुत प्रकारसे मनुष्योंके प्राणोंको हरणकरनेमें समर्थ थीर हृदयको दहलानेवाले अत्र शस्त्रोंको धारण किये हुए, क्रूर कर्म करनेवाले अपेजी

❀ इस सर्गमें मालिनी छन्द है ।

राज्यको बिना शस्त्रके ही रोकने—दबानेकेलिये यह वृद्ध महात्माजी चारहे हैं। अवश्य ही यह आश्चर्य है ॥ ३॥

नहि भवति निरीक्ष्यं यच्छरीरावकाशे
व्यतिगतपिशितालं कीकसं चान्तरेण ।
किमपि ननु कथं सा निर्बलात्यल्पसेना
प्रभवति परियोद्धुं मत्तसेनाभिरद्य ॥ ४ ॥

जिसके शरीरमें लोह और मूस बिना हड्डीके अतिरिक्त और कुछ भी दीसने योग्य नहीं है वह बलहीन और अल्पसेना, मतवाली सेनाओंके साथ कैसे युद्ध कर सकती है ॥ ४ ॥

इतिविविधविचारान्भोजमालाविधानै—

रनु मुनिवरमेते ग्रामलोकाः सशोकाः ।
ययुरथ मुनिवर्यः श्रीमताऽव्यक्तसत्त्वोऽ—
परिमितबलपूर्णेनाऽऽशु सैन्येन यातः ॥ ५ ॥

इस प्रकारके पैदा हुए विचाररूपकमलोंकी माला बनाते हुए अर्थात् विचार करते हुए ग्रामके लोग शोकातुर होकर श्रीमुनिराज श्रीमहात्माजीके पीछे पीछे गये। और जिनके बलको सब जानते थे वह श्रीमहात्माजी भी अपनी अपारबलवाली सेनाके साथ शीघ्रतासे चल पड़े ॥ ५ ॥

अतिमुदितमनस्को निम्नगानाथ एष
ल्पगतमभिधीक्ष्य स्वस्य तोरे यमीन्द्रम् ।
ऋषिमुनिपरिचर्यामाचरन्तं सशब्दं
प्रणिपतितमिबोर्व्यामाशु तेने प्रणामान् ॥ ६ ॥

प्रसन्न चित्तवाले महासागरने अपने किनारेपर पासमें ही आये हुए महायतीन्द्र, और महर्षियों, मुनियोंके आचरणको पालनेवाले, श्रीमहात्माजीको देखकर, मानो अपने शरीरको पृथिवीपर लिटाकर शब्दोच्चारण सहित प्रणाम कर रहा था ॥ ६ ॥

निजहृदयविजातं भोदमानन्दधान्नः
प्रबलदुरितदारिप्रेषपादी निरीक्ष्य ।

निजतुमुलतरंगैरुन्नमद्भिर्नमद्भिः
प्रकटयितुमजस्रं वारिधिश्चोद्यतोऽभूत् ॥ ७ ॥

परमानन्दधाम श्रीमहात्माजीके उन प्रिय चरणचमलोंको देखकर जो बड़े बड़े पापोंको फाड़ डालते हैं-समुद्रके मनमें जो ध्यानद उत्पन्न हुआ था उसे, नीचे ऊँचे होनेवाले अपने बड़े बड़े तरङ्गोंसे प्रकट करनेकेलिये, यह तैयार हो गया ॥ ७ ॥

दुरितपथविधातो दीनरक्षैकचिन्तः
सलिलनिधिमभीक्ष्णं सक्षुण्णं सोऽवलोक्य ।

पुलकितशुभगात्रः श्रीहरिदयामतायाः
स्मृतिरतिमभितन्वन्प्रेमराशौ समञ्ज ॥ ८ ॥

दुष्टमार्गसे विनाशक, दीनोंकी रक्षाकी ही चिन्ता करनेवाले, यह श्रीमहात्माजी बारम्बार उत्साहसे महासागरको देखदेखकर, रोमाञ्चित शरीरवाले होकर भगवान् की श्यामताका स्मरण करके प्रेमसागरमें डूबगये । ८ ।

जलनिधितटमित्था शान्तिसीमावनीन्द्रोऽ-
परिगणितमनुष्यैर्वेष्टितो धीननाथः ।

मृदुलमृदुलवाचा शीतधाराप्रवाहै-
रसिचदिति समेषामान्तरं तत्त्वमीशः ॥ ९ ॥

शान्तिकी सीमाभूमिके राजा=परमशान्तिमान्, दीनोंके नाथ और अगणित मनुष्योंसे घिरे हुए श्रीमहात्माजीने कोमल कोमल वाणीकी शीतधारासे प्रवाहोंसे छत्रके अन्तःकरणको सींच दिया-ठंडा कर दिया ॥ ९ ॥

ॐ निरसरमहमत्र प्राप्तुकामो मदीयैः
परमविमलचेतोमृद्भिरल्पैश्च सैन्यैः ।

मम च न च परेषां मानसेषु प्रतीतिः

क्षणमपि उपजाता द्रष्टुमेतां तु दांडीम् ॥ १० ॥

जिस समय मैं यहाँ पहुँचनेकेलिये थोड़े परन्तु अन्यन्त निर्मलचित्त-वाली अपनी सेनाके साथ (आश्रमसे) निकला उस समय न तो मुझे और न किन्हीं अन्योको भी क्षणभरकेलिये भी विद्वास था कि हम दांडीको देखेंगे ॥ १० ॥

परमशममुपेतां मामकीनां चभूं त—

इधदपि निजिलामेवान्तकृच्छक्तिधाराम् ।

अभवदथ विवेकान्नातिदूरं हि राज्यं

न हि गलितशरीरां मानयाशि व्यधत् ॥ ११ ॥

सभी शक्तियोंको धारण करती हुई भी यह सर्कार विवेकमार्गसे भ्रष्ट नहीं हुई और अत एव वह नरभक्षी होनेपर भी मेरी इस शान्त सेनाको निगल नहीं गयो ॥ ११ ॥

परमुत्तरपरिनिन्द्यं कृत्यमाधायकोऽपि

श्रयति यदि विलज्जां स्यात्तु सोऽपीह सभ्य ।

कथमिह लभतां नो धन्यवादं निरग्रन—

न्न दलमपि सशक्तं राज्यमाश्रीडयाऽपि ॥ १२ ॥

जिस कृत्यकी अथ लोप निन्दा करें, उसे भी करके यदि कोई लजित होता हो तो वह भी सभ्य कहा जा सकता है । सरकारने शक्तिके होते हुए भी थोड़ी लज्जासे ही सही, मेरी सेनाको नहीं रोकता अतः वह धन्यवादका पात्र क्यों न हो ? ॥ १२ ॥

लक्षणरविमर्दः श्वोऽविलम्बेन सेदा

तमपि यदि विषोढा नाशमीयात्करोऽसौ ।

मम दृशि स विनष्टप्राय एवाद्धि तस्मि—

न्व्यधिपत पगमल्पेऽप्येतदाभङ्गनाय ॥ १३ ॥

नमकके कानूनका भङ्ग कहूँ अवश्य होगा । उसको भी यदि सफ़ार
सह लेगी तो नमककर खला बायगा । मेरे विचारमें तो नमककर उसी दिन
दूट गया जिस दिन, मले थोड़े ही लोगोंने, इसके तोड़नेकी प्रतिज्ञा ली ॥ १३ ॥

यदि मम बलमेतन्मां च राज्यानुशिष्टे—

नृपतिपरिकरास्तद्वृन्दिशालां नयेरन् ।

अधिहृदयमुदीयास्तोकमप्यत्र शोकः

क्षुणमपि न यतः सैवास्ति नः प्रार्थनीया ॥ १४ ॥

यदि सफ़ारकी आज्ञासे सफ़ारी नौकर मेरी सेनाको और मुझे अपने
जेलमें ले जायें तो मेरे हृदयमें क्षणभरकेलिये भी जरा भी शोक नहीं
होगा; क्योंकि जेलको ही तो हम चाहते हैं ॥ १४ ॥

अहमथ निगृहीतः स्यामुताहो समस्तो

नरवरगण एव स्यात्प्रसिद्धोऽत्र देशे ।

अभिलपति न कंचिच्छीयमानान्धकारा

प्रकृतिरथ कदाचिन्नायकं भारतीया ॥ १५ ॥

और यदि मैं पकड़ा जाऊँ अथवा इस देशके प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी
नेता पकड़ लिये जायें, परन्तु प्रजाका अन्धकार अब नष्ट होने लग गया है,
अतः यह किसी आदमीको नेता बनानेकी इच्छा नहीं करेगी । तात्पर्य
यह कि प्रजामेंसे कोई भी या सभी अब नेता हो सकेंगे ॥ १५ ॥

दुरितविरतिमेतन्नाश्रयेतात्र याव—

द्भवतु नहि विरामस्तापदल्पोऽपि वोऽद्य ।

अविरतमतियन्नात्क्षारपाकं विधाय

क्षितिपलवणराशिं व्यर्थतां प्रापयध्वम् ॥ १६ ॥

जब तक यह सफ़ार पाप—अत्याचारसे विरक्ति न प्रहण करे तब तक
तुमलोग थोड़ा भी विश्राम मत लेना । निरन्तर अत्यन्त यत्नसे नमक
बनाकर सफ़ारके नमकको व्यर्थ बना देना ॥ १६ ॥

भवति न यदि पूज्या जन्मभूमिः स्वतन्त्रा
 न हि कथमपि राज्यं त्रैटिशां क्रूरकर्म ।
 मुक्तिभिरथ पटेलैस्त्यक्ततत्सङ्गलेशै—
 दुर्नितसमधिबृद्धये ' स्यान्नमस्कार्यमत्र ॥ १७ ॥

यदि अपनी जन्मभूमि माता स्वतन्त्र न हो तो, जिन्होंने नोकरी और सम्बन्ध छोड़ दिये हैं वह पुलिसपटेल और मुली लोग इस पापी बृटिश-राज्यके सामने शिर न झुकावें । अन्यथा पाप ही बढ़ेगा ॥ १७ ॥

अथ भवतु न कस्याप्यागतिस्तम्य दाँड्यां
 परधरणिजबल्लैश्छन्नदेहो भवेद्यः ।
 विनतिरियमिदानीं पालिता नाभविष्य—
 त्पुरपथमुत्तभागे नृन्समस्थापयिष्यम् ॥ १८ ॥

जिसके शरीरपर विदेशी वस्त्र हों वह कोई भी आदमी यहाँ दाडीमें न आवे । यदि इस मेरी प्रार्थनाका पालन नहीं होगा तो मैं दाडीग्रामके रास्तेके नाकेपर आदमियोंको बैठा दूँगा ॥ १८ ॥

विनयनयसमृद्धैर्भर्त्सितैस्तर्जितैर्वा
 प्रबललगुडपातैस्ताडितैर्वा सुसभ्यैः ।

स्वदरवसनमद्धा सेवकैः प्रार्थनीयाः
 सनति च परिधातुं यूयमत्यादरेण ॥ १९ ॥

जो आदमी नाकेपर बैठावे जायेंगे वह बहुत धिनयी होंगे । उनको आप झिड़केंगे, फटकारेंगे, छाठी लेकर मारेंगे तब भी वह सभ्य सेवक नमस्कार करके आपको परम आदरके साथ खादी पहिरनेके लिये प्रार्थना करेंगे ॥ १९ ॥

दृढतर इति चः स्यान्मानसे प्रत्ययो य—

त्सकलहृदयरजच्छ्रीपतिप्रेरणातः ।

सिततनुपरपत्तापापधाम्नो लवित्रं
 भवति मुसदमेपा धर्मधामेव दाँडी ॥ २० ॥

तुम्हारे मनमें यह दृढतर विश्वास होना चाहिये कि सबके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान्की प्रेरणासे, दांडी अंग्रेजोंकी पराधीनतारूप पापधामका नाश करनेवाला मुजद धर्मधाम ही है ॥ २० ॥

कथमपि न विचार्य पापमेत्यैव दांडीं
कथमपि न निर्गाथा याद्मृपा कैश्चिदत्र ।

भ्रुधितजनमुखायाऽऽगम्य एव प्रदेशः
किमपि किमपि पुण्यं कार्यमेवात्र भूमौ ॥ २१ ॥

यहाँ दांडीमें आकर किसी प्रकारसे भी पाप विचार नहीं करना चाहिये । यहाँ झूठा बचन नहीं बोलना चाहिये । इस प्रदेशमें भूखे लोगों-को मुजद देनेकेलिये ही आना चाहिये और यहाँ कुछ न कुछ पुण्य करना ही चाहिये ॥ २१ ॥

उपगमयति दैर्ही सम्पदं नाशमागं
समलमतिमुपरथाप्यातिदुःखं विधत्ते ।
विरमत नितरां तत्तालनिःस्यन्दपाना—
द्वयत विपरिशुद्धाः कारिसुद्वय दुष्टम् ॥ २२ ॥

तालनिःस्यन्द = ताड़ी पीनेसे बुद्धि दूषित होती है, दुःख होता है और शारीरिक क्षीणता प्राप्त होती है । अतः ताड़ी पीनेसे सब लोग बच जाओ और इस दुष्ट कार्यको छोड़कर पवित्र पना ॥ २२ ॥

इह विमलधरायां तालवृक्षा महागो—
रतिजननपरास्तत्ताननिन्द्या हि यूयम् ।

नरकुलमुखशान्त्यामोदसम्पोषणार्थं
शकलयत कुठारैस्तीव्रतीव्रैः क्षणेन ॥ २३ ॥

इस पवित्र भूमिमें तालके वृक्ष महान् आग—पापमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, अतः मेरे पवित्र बन्धुओ ! तुम लोग मानवजातिके मुग्ध, शान्ति और आनन्दका नृद्विषेलिये अत्यन्त तीव्र कुठारे लेकर ताड़ोंको टुकड़े टुकड़े कर डालो ॥ २३ ॥

जहित जहित मद्य सद्य एवाद्य यूयं
प्रबलतममद्य तत्पानतो जायतेऽल्म् ।

भवत भवत तस्माद्भूतपापाश्च यस्मा—
त्परमयतिपतीनां भूर्विजिह्वेति सेयम् ॥ २४ ॥

आज अमी ही सब लोग दारू-शराब पीना छोड़ दो । उसके पीनेसे
भारा पाप होता है । जल्दीसे इस दोषको छोड़ कर पवित्र हो जाओ क्योंकि
परमसयमी महात्माओंकी यह भूमि लजित हो रही है ॥ २४ ॥

अथ पुनरपि युष्मान्स्मारयामीति युद्धं
लवणकरविनाश घाञ्छदेतत्प्रवृत्तम् ।
भवति त्रिमुखता चेदस्य रक्षाविधाना—
दनुदिनमिह दुःखावृत्तिरेवाऽस्त्वजेथा ॥ २५ ॥

मैं पुन तुम लोगोंको स्मरण कराता हूँ कि यह लड़ाई नमककरकी
तोड़नेकेलिये शुरू की गयी है । यदि इस लड़ाईकी रक्षासे तुम लोग
विमुक्त रहें तो दुःखोंकी आवृत्ति रोज रोज होती रहेगी और उनको कोई
हटा नहीं सकेगा ॥ २५ ॥

विधिविधिधविलासप्रसूतानन्ततानै
पतितमतय एवाद्यैत आङ्गला अभूवन् ।
तत इह निखिलास्ते खण्डशो यो विदध्यु—
स्तदपि न निजमुष्टि चारपूर्णा प्रसार्या ॥ २६ ॥

विधिकी विधिप्रकारसे गुरू हुई लीलाके विस्तारसे—अर्थात् भाग्यकी
लीलासे इन अंग्रेजोंकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है । अत वे उन यदि तुमको टुकड़े
टुकड़े कर डालें तब भी नमस्से भरा हुई मुट्ठीको तुमलोग नहीं छोड़ना ॥ २६ ॥

सरलसदुपदेशैरित्यजेयात्मशक्ति
समुपगतजनास्तान्प्रोध्यित्त्रैप तत्त्वम् ।
लवण नियमभङ्गोपक्रम संव्यवत्त
प्रथमदिवस आतो राष्ट्रसत्ताह एव ॥ २७ ॥

इस प्रकारसे सरल सद्गुणदेशोंसे सब उपस्थित लोगोंको, तत्त्वको समझाकर, राष्ट्रसप्ताह-राष्ट्रियसप्ताहके प्रथमदिनमें अजेय शक्तिवाले और आत्त श्रीमहा-माजीने नमककायदाका तोड़ना शुरू किया ॥ २७ ॥

दुरितदलनदत्तो नीरधि सत्यसन्धः

परिहिततनुकौपीनैकवासाः प्रविश्य ।

स्मृतरघुपतिनामा स्नानमासेव्य धीमा—

ञ्जलधितदगतं स क्षारमाराज्जहार ॥ २८ ॥

पापोंके नाश करनेवाले सत्यप्रतिज्ञ धीमहा-माजीने शरीरपर केवल एक छोटीसी लंगोटीको धारण करके, समुद्रमें घुसकर, स्नानकरके, राम-नामका स्मरण करके समुद्रके तटपर पड़े हुए नमक उठा लिये ॥ २८ ॥

अतिकलकलरावैर्मेदिनीं पूर्यद्भिः

स्रमपि निलिलमेतैर्ध्यानयद्भिस्तदीयैः ।

मुदितहृदयतत्त्वैः क्षारमुष्टिं दधद्भिः—

नृपतिनियमभङ्गः सेनिकैरप्यकारि ॥ २९ ॥

अत्यन्त जड़-आदिकोलाहल शब्दोंसे पृथिवीको भरते हुए और उन्हीं शब्दोंसे सम्पूर्ण आकाशको गुंजाते हुए उन सैनिकोंने भी प्रसन्न होकर मुठ्ठीमें नमक लेकर राजाके कानूनको तोड़ डाला ॥ २९ ॥

तदनु तु निप्रिलेऽस्मिन्भारते क्षाररक्षि-

नियमतनुविभङ्गोऽभून्महोत्साहशाली ।

अनतिमुलभदेवेनाऽऽहिता या तपस्या

फलतु नहि कथं सा सर्वशुद्धा समिद्धा ॥३०॥

उसके बाद तो, आश्चर्य है, कि सारे भारतमें उत्साहपूर्ण नमक खानन तोड़ा गया । अतिदुर्लभदेवने जिस परमपवित्र और प्रदीप्त तपश्चर्या-का अनुष्ठान किया यह क्यों न पत्नीभूत हो ? ॥ ३० ॥

असफुदभषदेप

क्षारलुण्ठकमस्तैः

प्रतिदिनगुपयुक्तः किन्तु नो राजकीयैः ।

व्यरचि कुपुरुपेस्तद्वन्धनं भग्नमानै-
रिति विजयपताका नाकमालीढ नूनम् ॥३१॥

श्रीमहात्माजीके उन साथियोंने इसी प्रकार नमक लूटनेका काम रोज और अनेक बार जारी रखा, परन्तु राजकीय दुष्टपुरुषोंने अपना मान गँवा दिया और उनको पकडा नहीं। अतः विजयपताका आकाशको चूमने लग गयी ॥ ३१ ॥-

मुनिवरपदपद्मप्रेक्षणाशां वहद्भि-
र्विकटपथमतीत्यैवागतिं • सेवमानैः ।
सदयहृदयमेतस्यर्षिवर्यस्य .लोकै-
र्विवशितमधिवस्तुं तैस्ततस्तां कराडीम् ॥३२॥

श्रीमहात्माजीके दर्शनों की आशामें लोग उस विकट मार्गको पार करके आते थे। उन लोगोंने श्रीमहात्माजीके हृदयको विवश कर दिया कि वह लोगोंने सुविधाने लिये कराडीमें जाकर निवास करें ॥ ३२ ॥

इह विलसति विद्यामन्दिरं राष्ट्रार्धि
हृदयरमणदक्षे ग्रामवाहीकभागे ।
अतिसविधमदीर्घं चूतपण्डं च तस्य
तदध उदजमध्ये सोऽभवद्वासशीलः ॥३३॥

इह = कराडीमें राष्ट्रकी उन्नति करनेवाला एक विद्यामन्दिर है। वह परमरमणीय ग्रामने वाहरके भागमें है। उसके पासमें ही एक छोटीसी ग्रामकी पत्रा है। उसीके नोचे शोपडोमें श्रीमहात्माजी रहने लग गये ॥ ३३ ॥

त्रिभुवनमुनिमान्यश्चैकदा छारवाडा-
मगमदथ विलोक्य क्षारराशीन्वहुत्र ।
परिचलितमनास्त्वान्संप्रहीतुं सभाया-
मितिवचनमुर्धोपैस्तपयामास लोकान् ॥३४॥

एक दिन श्रीमहात्माजी छारवाडा गये। यहाँ बहुत जगहोंमें नमस्कार

छेर देकर उनका मन उन डेरोंका लेनेकेलिये विचलित हो गया ।
उन्होंने लोगोंको छ इन बचनोंसे तुम किया ॥ ३४ ॥

अभवमहमवश्यं क्षारचौरः प्रसिद्धो
निजपरिजनवागावेदितो वस्तुतस्तु ।
गिरिमिममतिरम्यं लावणं संविभिद्य
पदमिदमुपलब्धुं साधु योग्यो भवामि ॥३५॥

मेरे साथियोंके कहनेसे मैं अवश्य ही प्रसिद्ध नमकचोर बन गया
हूँ । परन्तु सब तो यह है कि इस रमणीय नमकके पहाड़को तोड़कर
ही मैं इस पद (नमकचोर) को पानेकेलिये ठीक ठीक योग्य हो
सकता हूँ ॥ ३५ ॥

अशनवसनयोश्चेत्संयमः कस्यचित्स्या-
द्भयति यदि च कौपीनेन युक्तोऽपि कोपि ।
क्षटिति स हि महात्मा स्यात्सुदेशेऽस्मदीये
परमिह मुलभो न क्षारचौरेत्युपाधिः ॥३६॥

यदि कोई आदमी भोजन और वस्त्रमें संयम रखने लग जाय और
एक लंगोटी पहिन ले तो वह हमारे इस सुन्दर देशमें ही महात्मा
बन जाता है । परन्तु नमकचोरकी उपाधि सुनसे प्राप्त करने योग्य
नहीं है ॥ ३६ ॥

अथ यदि न भवामि प्ररराज्यस्य दण्ड्यः
प्रतिदिनमपि सुयन्तारलुण्ठि प्रसह्य ।
कथमपि न भवेयं घोरशब्देन घाच्यो
भयति न हि मदीयं शृत्यमेतत्तु चौर्यम् ॥३७॥

मैं रात दिन नमक टूटनेपर भी यदि इस राज्यका दण्डित न होऊँ
तो घोरशब्दके प्रयोग करनेका मैं पाय कैसे बन सकता हूँ । और यह
मेरा काम, चोरी है भी नहीं ॥ ३७ ॥

ॐ पद वचन ३५ वें श्लोकमें शुरू होने हैं ।

अपहत इह न स्याच्चेदयं क्षारराशि-
 विगतभयभुवा धारासणो भायदरैः ।
 अपहत इह खाराघोड एवापि नो चे-
 च्छिशुजनसुलभ स्यात्क्रीडन सर्वमेतत् ॥३८॥

यदि निर्भय होकर मैं इस नमकके कारखानेको छूट न लूँ, धारासणा और भायदरा और खाराघोड़ा इन तीनों स्थानोंके कारखानोंको भी न छूट लूँ तो यह सब मेरा काम केवल बच्चोंका खेल माना जायगा ॥३८॥

नियत इह कृत स्याल्लौण्टनो यर्हि कालो
 निखिलनिजजनाना संघमादाय शुद्धम् ।
 प्रियरणभुवि युष्माभिस्तदानीं समेत्य
 शशिसमसुरदं स्वं कीर्तिकुञ्ज प्रसाद्यम् ॥३९॥

इन सबके छूटनेका जब समय नियत किया जाय उस समयपर तुम लोग अपने अपने प्रामाणिक जनोको साथ लेकर प्रियरणभूमिमें आ कर चन्द्रसमान मुखद अपनी कीर्तिको उज्ज्वल बनाना ॥ ३९ ॥

इह परित उपैत्येवास्य देशस्य यो यो
 हृदयकमलशोपी दुस्समाचारराशिः ।
 क्षणमपि न विधत्ते सोऽद्य मामार्तिचिन्तं
 मम हृदयमनिन्द्य वञ्चलिप्तं यतोऽभूत् ॥४०॥

इस देशके--भारतके विभिन्न भागोंसे वो जो हृदय कँपानेवाले तराव तराव समाचार आ रहे हैं उनसे मैं जरा भी दुःखित नहीं हो रहा हूँ । आज तो मेरा हृदय वज्रसे भी लज्जित करनेवाला--अत्यन्त क्रोधर बन गया है ॥ ४० ॥

विगतदयमनुष्यैस्ताहिता यष्टिभिदचे-
 श्रिरपकृतय एतैः प्रूरयुतैः समे ते ।
 क्षतिरिह नहि काचिद्दृश्यते यत्परेषा-
 मयमनय इह स्यात्तत्पराभूतिचिह्नम् ॥४१॥

निर्दय क्रूर इन अग्नेजोंके धादमियोंने यदि निरपराध उन स्वय-
सेयकोंको लाठियोंसे मारा है तो कोई क्षति नहीं है । यही अन्याय तो
अग्नेजोंके पराजयका सूचक होगा ॥ ४१ ॥

परमविपदुपेतान्भारतीयान्विलोम्य

प्रबलहृदयपीडापीडिता धन्धवो नः ।

लवणसमरभूमावागता वीरयोधाः

प्रतिदिनमपि ताड्यास्ते भवन्तीह दुष्टैः ॥४२॥

भारी विपत्तियुक्त भारतीयोंको देतकर भारी हार्दिक पीडासे पीडित
होकर हमारे भाई इस नमस्की लड़ाईमें आवे हैं और प्रतिदिन दुष्ट
उन्हें मारते हैं ॥ ४२ ॥

भवति नहि मदीये कोऽपि खेदो मनस्ये-

तदनघजनदुःखं वाञ्छनीयं निशम्य ।

बलिघरजयरामस्ताडितश्चेत्कराच्यां

सुभगरुधिरदानात्पावितं तेन युद्धम् ॥४३॥

निरपराधों को जो दुःख मिल रहा है, उससे मेरे हृदयमें कुछ भी
रोद नहीं होता है । यह तो इष्ट ही है । वीरवर श्रीजयरामदासजीको भी
यदि कराचीमें मारा गया है तो उस लोहसे यह युद्ध पवित्र हो
गया है ॥ ४३ ॥

अतिपतितकुराज्येनामिवपं विधाय

क्षत इह जयरामश्चेदुरस्येव युद्धे ।

इह यजनमुखि स्यान्नीय तरमात्पवित्रो

बलिरिति हृदये नस्तोप एवाऽस्त्वनेन ॥४४॥

इस पतित राज्यने यदि अग्निर्जा करके श्रीजयरामदासकी छातीमें
घाव किया है तो इस यज्ञभूमिमें इससे पवित्र बलिदान हो ही नहीं सकता ।
इससे हम लोगोंको सन्तोष ही होना चाहिये ॥ ४४ ॥

विमलकृतिऋतात्मा विट्टलो गुर्जरे वा
परिविदितमहौजा मेघराजः कराच्याम् ।

अतिबहुबलिदत्तात्रेय उद्धोऽपि तत्राऽ-

सुलभमृतिमुपास्य स्वर्गताः पुण्यभाजः ॥४५॥

पवित्र कर्मसे कृतार्थ विट्टलभाई गुजरातमें और प्रख्यात तेजस्वी श्रीमेघराज और अतुल बलशालियोंमेंसे श्रीदत्तात्रेय घराचीमें दुष्प्राप्य मृत्युका इस युद्धमें आलिङ्गन करके स्वर्ग चले गये ॥ ४५ ॥

लवणनिचयमीड्यं श्रीमहादेवदेसा-

व्यधिशकटमुपस्थाप्यातिहर्षान्वितोऽसौ ।

निगाहित इति निन्द्यै राजकीयैर्मनुष्यै-

रधिगतमुदगान्मे तेन वित्ते प्रसादः ॥४६॥

श्रीमहादेव देसाई गाडामें नमःका ढेर लेकर प्रसन्न हुए थे और सर्कारी नौकरोसे पकड़े गये, इस समाचारको सुनकर मेरे वित्तमें प्रसन्नता हुई है ॥ ४६ ॥

परमलितमहं तत्सन्निधौ पत्रमेकं

न हि भवसि महांस्त्वं वन्दिशालाप्रयाणात् ।

किमपि नहि तवान्नं छिन्नमीपन्न भग्नं

न च शिरस उदस्थादुष्णरक्तप्रवाहः ॥४७॥

परन्तु मैंने महादेवभाईके पास पत्र लिखा है कि जेल जानेसे ही द्रुम गौरवशाली नहीं बन सकते । अभी तो शरीरका कोई भी अङ्ग न तो फटा और न टूटा । शिरमेंसे गर्म गर्म लोहकी धारा भी नहीं निकली ॥ ४७ ॥

भवतु हि जयरामस्तादितः प्ररुहस्तै-

रपि भवतु महादेवोऽपि तुल्यास्तथाऽऽभ्याम् ।

भवति नहि समर्थः कोऽपि रोद्धुं तदानीं

जगदधिपकृपायाः स्रोतसां सम्प्रयाहम् ॥४८॥

क्रूरहाथोंसे चाहे जयरामदास मारे जायँ और चाहे महादेवभाई मारे जायँ अथवा इन दोनोंके समान ही दूसरे लोग भी मारे जायँ; परन्तु भगवान्की कृपाके लोतका जो प्रवाह है उसे रोकनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ ४८ ॥

यदि रधिरपिपासाशान्तये वाञ्छितं स्या—

भन्तुजकुलसहस्रं देयमेवाद्य तेभ्यः ।

प्रधनमिदमवद्यामानुपाचारलोकै—

विपद् उपहृता आसोढुमेव प्रवृत्तम् ॥४९॥

यदि हजारों और लाखों धादमियोंकी उन अग्नेजोंको जरूरत पड़ेगी, तो मैं अवश्य ही उन्हें उतने धादमी दूँगा । क्योंकि यह लड़ाई शुरू ही इसलिये हुई है कि गोच और अमानुषीय आचारवाले—राक्षसोंके द्वारा जो जो आपत्तियाँ आवें उनको सहन किया जाय ॥ ४९ ॥

भवति न मम हर्षः शोक एवापि कृत्ये

रिपुकुलपरिपोष्येऽत्रातिहीनातिहीने ।

विलसति यदि सर्वप्रेक्षिका कापि शक्तिः

कथमिह मम चिन्ता जायतां दुःखदाय ॥५०॥

शत्रुओंके इस नीचातिनीच कर्मसे मुझे न तो हर्ष होता है और न शोक । यदि कोई सर्वप्रेक्षी शक्ति जगत्में विद्यमान है तो मुझे दुःखद चिन्ता आज क्यों करनी चाहिये ? ॥ ५० ॥

प्रभुरहमिति गर्वः संनिधत्ते नराणां

गणमिति नितरां सक्रोध एवात्र दृष्टः ।

अविशसनगतोऽसौ सद्गतं रक्षितुं त—

न्नहि भवति समर्थः प्रायशः कार्यकाले ॥५१॥

नराणां गणम्—पुरुषोंको यह अभिमान रहता है कि हम समर्थ हैं, अतः यह हमेशा क्रोधी ही देखे जाते हैं । और अत एव वह अहिंसारूप उत्तमव्रतकी रक्षा करनेमें प्रायः समयपर असमर्थ हो जाते हैं ॥ ५१ ॥

सद्यहृदय एव प्रेक्ष्यते स्त्रीगणोऽसौ
 विशसनविरतिर्वा त्यागशक्तिर्ह्यपूर्वा ।
 नियतमिह निवासं सन्तनोतीति तस्मा-
 त्कृतिविभजनमेतत्साधु सम्पादितं स्यात् ॥५२॥

स्त्रियों सदा दयालु हृदयवाली होती हैं । हिंसासे उनकी विरक्ति रहती है । अपूर्व त्यागशक्ति भी उनमें अवश्य ही निवास करती है । अतः इस प्रकारका (निम्नलिखित प्रकारका) कार्य विभाग करना अच्छा होगा ॥५२॥

प्रतिगृहमुपगम्य प्रश्रयेणैव कश्य-
 ग्रहणनिरतलोकान्प्रेमतः सम्प्रबोध्य ।
 अबुधजनसहस्रं त्रायतां घोरपापा-
 न्मधुरमधुरवाचा योपितां सदणोऽयम् ॥५३॥

बहिर्ने घर घर जाकर नम्रताके साथ शरावियोंको मीठे मीठे शब्दोंसे समझाकर इस घोर पापसे उन्हें बचावें ॥ ५३ ॥

प्रतिनगरमपूयं युद्धमेतत्क्षणेन
 प्रतिदिनमधिकाभ्युत्साहपूयं प्रसर्पत् ।
 ब्रिटिश्नृपतिपोष्याः किङ्कराः क्रूरवृत्ताः
 प्रतिहतगतिं कर्तुं यत्नमारेभिरे ते ॥५४॥

जब यह युद्ध थोड़े ही समयमें प्रतिदिन प्रत्येक शहरमें अत्यन्त उत्साहके साथ फैलने लग गया तो इसे रोकनेके लिये सरकारके निर्दय नौकर बल करने लगे ॥ ५४ ॥

यतिपतिरपि शीघ्रं निर्णयं लुण्ठनस्य
 व्यधित निजबलेनैवास्य धारासणस्य ।
 जलजलवणपुञ्जस्यार्तलोकार्तिहारी
 व्यलितदिति च पत्रं लार्ड इविंसमीपे ॥५५॥

धीमहात्माजीने भी धारासणके इस बल (समुद्रीय) के घने हुए

नमकके रखानेपर लूट चलानेकेलिये निर्णय कर लिया और दीनलोगोंके दुःख दूर करनेवाले उन्होंने, लाडं शर्विन् के पास इस प्रकारसे छंद पत्र लिखा ॥५५॥

यतनमथ विधास्ये कर्तुमस्मद्वशे तं
जलनिधिजलसङ्घैर्निर्मितं क्षारराशिम् ।
निगदितमिति यद्वैयक्तिकः सोऽस्ति तत्तु
छलननयविधानं राजभृत्यैः प्रकल्पम् ॥५६॥

अब मैं समुद्रके जलसे बने हुए तन्नाम नमकके समूहको अपने कब्जेमें करनेका यत्न करूँगा । यह जो सकारने कहा है कि वह सब नमकके कारणाने व्यक्तियुक्त है—सकारी नहीं हैं—राजकर्मचारियोंने धोखा देनेका नया उपाय रच लिया है ॥ ५६ ॥

लज्जकरनिरोधोऽथ त्यया घुष्यतां या
मम च मम बलस्याप्यस्तुकारानिवासः ।
अधमजनविशोभिस्वैच्छयष्टिप्रहारै—
रपि भवति निरुद्धं चैतदास्कन्दनं नः ॥५७॥

या तो आप नमक करके बन्द होनेकी घोषणा करें तब यह मेरी लूट बन्द हो सकती है या मैं और मेरी सेना जेलमें घली जाय तब बन्द हो सकती है । नीचजनोंके समान लाठीके प्रहारोंसे भी इस लूटको रोकना जा सकता है ॥ ५७ ॥

परमिदमपि बोध्यं चेदचिन्त्येशशक्त्या
विषदभिहतलोभाः शरीयरक्षां विधातुम् ।
विशसनरहितेऽस्मिन्नागताः सम्प्राये
भवति नहि निरोध्याग्रान्तिरेषा यदाचिन् ॥५८॥

परन्तु यह भी समझ लेना चाहिये कि यदि अनिन्तम भगवान्की शक्तिसे दुःखके मारे हुए लोग अपनी रक्षा करनेकेलिये इस अहिंसाप्रधान

छंद यहाँसे १८ वें श्लोक तक यह पत्र है ।

सुद्धमें आ गये—झामिल हो गये तब यह क्रान्ति कभी रोकी नहीं जा सकेगी ॥ ५८ ॥

मम मनसि तु पूर्वं प्रत्ययः सर्वथासो—

त्समरभुवि सुसभ्यौचित्यमेपा न जह्यात् ।

अहमपि ननु सभ्यास्मीति गर्वैक्षयित्री

कथमपि किल शिष्टिर्ब्रूँटिशी नष्टगर्वा ॥५९॥

मेरे मनमें तो पहिले सर्वथा निश्चय था कि अंग्रेजोंकी सभ्यता “मैं भी सभ्य हूँ” ऐसा गर्व दिखाती है, अतः समरभूमिमें वह कभी भी सुसभ्योंके औचित्यका त्याग नहीं करेगी। परन्तु वह नष्ट गर्व हो गयी—उसका, सभ्य होनेका अभिमान नष्ट हो गया ॥ ५९ ॥

इदमिह यदि राज्यं सर्वसाधारणीय—

प्रचलितनयमाश्रित्याकरिष्यत्समन्तात् ।

व्यवहृतिमखिलैस्तैर्धर्मसङ्ग्रामयोधैः

कथमपि वचसो मे नाऽभविष्यत्प्रसारः ॥६०॥

यदि यह सफ़ार सर्वसाधारण प्रचलित नीतिका आश्रय लेकर, धर्मसंग्रामके उन सब योद्धाओंके साथ, व्यवहार करती तो मुझे कुछ कहनेकी कभी भी आवश्यकता न पडती ॥ ६० ॥

अभवद्यमतीवानेकवाराननर्थो

बहुषु च नगरेषु प्रान्तकेषु प्रचण्डः ।

कतिपयनगरेषु प्राहरन्मानवेषु

त्वद्दहदयजनास्ते पावकास्त्रैर्नृशंसाः ॥६१॥

बहुतसे प्रान्तोंमें, बहुतसे शहरोंमें अनेकोंशर घोर अन्याय हुआ है। कुछ नगरोंमें तो आपके हृदयशून्य आदमियोंने लोगोंपर गोलियों भी बर्सायी हैं ॥ ६१ ॥

क्रियत इह नृशंसेस्तावकैरस्थिभङ्गो

दुरितविरहितानां मत्स्वयंसेवकानाम् ।

व्यपगतमतिलेशैस्तैश्च गुह्याङ्गभागः

करगतलघणानां पीडयते धिग्विलज्जैः ॥६२॥

इस युद्धमें आपके निर्दय मनुष्य मेरे निरपराध स्वयंसेवकोंकी हड्डियाँ तोड़ रहे हैं। वे निर्बुद्धि और निर्लज्ज (सिपाही) स्वयंसेवकोंके हाथोंमेंसे नमक छुड़ानेकेलिये उनके गुह्य अङ्गोंको दबाते हैं। धिक्कार है ॥ ६२ ॥

अधिमथुरत्मकत्मात्कस्यचिद्बालकस्य

परममृदुलहस्ताद्राष्ट्रियं केतुदण्डम् ।

नृपतर उपमैजिष्ट्रेटमाच्छिद्य भूयः

शिशुकमदुरितं तं निर्दयं प्राहरत्सः ॥६३॥

मथुरामें अकृत्मात् ही किसी बालकके कोमल हाथमेंसे हण्डेको एक सिपाहीने छीन लिया और मैजिष्ट्रेटके सामने ही उस निरपराध बच्चेको निर्दयरीतिसे मारा ॥ ६३ ॥

अभितयतनसिद्धं यष्टिहृत्तैस्त्वदीयै—

र्षदुमुकलितशालिक्षेत्रराशिः प्रदग्धः ।

अदान्तमपि बहूनां निर्दयं तैर्गृहीतं

सकलमपि च केचिच्छाकपण्यं व्यलुण्ठनं ॥६४॥

बडे बलसे तैयार किये हुए, सूख फले हुए अन्नके पेटोंको आपके सिपाहियोंने जला डाला है। बहुतोंके भोजनको भी सिपाहियोंने निर्दयताके साथ छीन लिया है। कितने सिपाहियोंने तो साराका सारा शाक बाजार सूट लिया है ॥ ६४ ॥

अहमपि तव रोपं स्पष्टमार्गं प्रणेतुं

यतनमथ विधित्से शुद्धशुद्धेऽप्र युद्धे ।

दमनकृतिरियं ते धर्षता धर्षता नो

दमनसह्नशक्तिः प्रत्यहं दुष्प्रताप ॥६५॥

मैं भी आपके क्रोधको स्पष्टमार्गमें ले जानेका यत्न करूँगा। १४

परमपवित्र युद्धमें आपका दमनकार्य बढ़े और हमारी उसके सहन करनेकी अपारशक्ति सदा बढ़े ॥ ६५ ॥

यद्दमिह विधातुं कामये कार्यमद्य
विलसति च भयं यत्तत्र तद्भेद्वि नूनम् ।
परमिह यदि सोढा स्वेच्छयास्माभिराप—
द्विजयतुमुलनादो धार्यतां तर्हि केन ॥६५॥

आज मैं जो काम करना चाहता हूँ, उसमें जो भय है मैं उसे अच्छे प्रकारसे जानता हूँ । परन्तु अगर हमलोग स्वेच्छासे आपत्तिको सह लेंगे तो हमारे विजयके डंकेको कौन रोक सकता है ? ॥ ६६ ॥

नियतमिह मते मे जेतुमद्याथ हिंसा
न हि किमपि सुशस्त्रं विद्यते चान्तरेण ।
सहनमिह विपत्तेः शत्रुसम्पादिताया
अविचलपदपद्मां निष्कलङ्कामहिंसाम् ॥६६॥

मेरे मतमें तो यह नियम है कि आज शत्रुद्वारा प्राप्त अतिविपत्तिके सहन करनेके सिवाय और स्थिर निष्कलङ्क अहिंसाके सिवाय, हिंसाको जीतनेकेलिये कोई भी दूसरा अच्छा शस्त्र नहीं है ॥ ६७ ॥

विदितमदुपदेशैरप्यहिंसाविरोधि
यदपि किमपि कृत्यं भारतीयैः क्रियेत ।
कथमपि मयि न स्यात्तस्य भारो न हेयः
कथमपि भविता या मार्ग एष प्रशस्यः ॥६८॥

जिन्होंने मेरे उपदेशको जान लिया है वह भी भारतीय यदि अहिंसाका विरोधी कोई कृत्य करलेंगे तो उसका भार मेरे सिर नहीं होगा । और यह अहिंसा-युद्धका उत्तम मार्ग किसी प्रकारसे भी मेरेलिये त्याज्य नहीं होगा ॥ ६८ ॥

ॐ इदं पत्रं श्रीमान्मुभगपदनिष्ठं लिखित्वा क्षणेन
 प्रहेष्यामि श्रेयः प्रतिनिधिसमीपे धरापो विधातुम् ।
 इति ध्यात्वा देवः कथमपि च सुप्तो निशीथे मनुष्यैः
 समायातैर्भैर्यतिपतिरयं बन्दितां नीत एव ॥६९॥

श्रीमान् महात्माजीने इस सुन्दर पत्रको उत्साहके साथ लिखकर,
 राजाके प्रतिनिधि-चाइसरापके पास, कल्याण करनेकेलिये भेजूंगा, ऐसा
 विचार कर किसी किसी तरहसे आधी रातको सोये थे । इतनेमें ही
 राजपुरुषोंने आकर उन्हें कैद कर लिया ॥ ६९ ॥ •

— आकर्ष्यैतमनिष्ठमिष्टमथवा वृत्तान्तमेतेऽखिलाः

सेनावीरवराः सपद्यभिययुस्तत्सन्निधौ सत्यपाः ।

पूजान्ते प्रणतिं विधाय सकलास्तत्पादपद्मेऽनमन्

गायन्तो गमयाम्बभूवुरथ तं गीतिं च तस्य प्रियाम् ॥७०॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
 भारतपारिजाते
 एकविंशः सर्गः

इस अनिष्ट अथवा इष्ट समाचारको मुनकर सब सैनिक शीघ्र ही वहाँ
 आ गये । सबने पूजाके पश्चात् उनके चरणोंमें प्रणाम किया और उनके
 प्रिय X गीतको गाते हुए सबने उन्हें बिदा किया ॥ ७० ॥

ॐ मेघविस्फूर्जिता छन्द ।

— शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

X वैष्णव जन से तेने कहिये पीर पराई जाणे रे,
 परदुःखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आणे रे ॥ १ ॥

सकल लोकमाँ सहुने घन्दे निन्दा न करे केनी रे,
 घाय पाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे ॥ २ ॥

समदृष्टी ने कृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे,
 जिहा थकी असत्य न बोले परधन नय शाले हाथ रे ॥ ३ ॥

मोह माया व्यापे नहि जेने दृढ वैराग्य जेना मनमो रे,
 रामनाम श्रुं ताली लागी सकल तिरथ तेना मनमो रे ॥ ४ ॥
 वणलोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध नावार्या रे,
 भणे नरसैयो तेनुं दरशन कुल ऐकोतर तार्या रे ॥ ५ ॥

इति सर्वतन्त्ररूपतन्त्रस्यामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

स्वोपज्ञराष्ट्रभाषाटीकासहिते

भारतपारिजाते

एकविंशः सर्गः.



❀ द्वाविंशः सर्गः

गते यतिपती च बन्धभवनेऽवने विरचितस्य तेन मुनिना ।
क्रमस्य सकलस्य कार्यविततेर्बभूव गतिमानवांस ऋषिदृक् ॥१॥

श्रीमान् महात्माजीके जेल चले जानेपर उनके बनाये हुए सम्पूर्ण कार्य-श्रमकी रक्षा करनेमें ऋषिसमान दृष्टिवाले श्रीअन्वातजी तैयार हो गये ॥ १ ॥

अवासमणिलालकौ नरहरिस्तथा जुगतराम ईडितमतिः ।
स वालजिरिभामसाहिव इमे समीकसमितिं तदा विदधिरे ॥२॥

श्रीअन्वातजी, श्रीमणिलाल गाधी, श्रीनरहरिभाई परित, श्रीजुगतराम दूवे, श्रीबालजीभाई और श्रीइमामताहेव, इन लोगोंने उस समय एक युद्धसमिति बनाली ॥ २ ॥

— अयं समर एति शान्तिपदवीमुपेत्य हि तथापि राजपुरुषाः ।
बहून्प्रकृतिसेवकानपरुपास्तिरस्कृतिपदं नयन्ति सततम् ॥३॥

यह युद्ध शान्तिमार्गका अवलम्बन करके चल रहा है, तो भी राज-
पर्मचारी बहुतसे प्रजासेवकोंका यदा अपमान करते रहते हैं। (इस
श्लोकका सम्बन्ध ८ वें श्लोकके अन्वास इति घोषणाम् के साथ है) ॥३॥
महात्मपर आत्मनि प्रहरणं दलेऽपि निखिले निजे नृपजनैः ।

मृतं हुतभुगस्रजालपिहितैरकामयन तन्मयाऽपि लपितम् ॥४॥

श्रीयुत महात्माजी चाहते थे कि उनके ऊपर और उनकी सेनाके
ऊपर बन्दूकधारी राजकर्मचारी प्रहार करें, यही इच्छा मेरी भी है ॥ ४ ॥

❀ इस सर्गमें जलोद्गति छन्द है ।

— यहाँसे ८ वें श्लोकतक श्रीयुत भग्याम तैयवजी भूतपूर्व जन
बहोदाधी घोषणा है ।

अथो भवतु राजपद्धतिरियं सदा सुखकरो नृणां निवसताम् ।
इहेत्यपि मुनीश्वराभिलषितं तदेवमयकापि कामितमिति ॥ ५ ॥

श्रीमहात्माजीकी यह भी इच्छा थी कि—अथवा इस राज्यमें रहने-
वाली प्रजाओंकेलिये यह राजनीति सदा सुख देनेवाली बने, वही वस्तु
में भी चाहता हूँ ॥ ५ ॥

इदं निजमनीषितं सुमुनिना सिताङ्गनृपतेः प्रति प्रकटितम् ।
दलं लिखितमेव कर्तुमथ तन्मया प्रहितमद्य तस्य सविधे ॥ ६ ॥

श्रीमहात्माजीने इस अपनी इच्छाको वाइसरायपर प्रकट करनेकेलिये
एक पत्र लिखा था जिसे मैंने आज वाइसरायके पास रवाना किया है ॥६॥

धरासनधरागतं लवणनिर्मितिस्थलमवश्यनैजवशम् ।
विधातुमनुरुध्यते स्म मुनिना तदेव भवताञ्च इष्टमधुना ॥ ७ ॥

धरासणाकी भूमिमें जो नमक बनानेकी जगह है—कारखाना है उसे
अवश्य ही अपने वशमें करनेकेलिये श्रीमहात्माजीका अनुरोध था । यही
वस्तु आज हमें भी इष्ट होनी चाहिये ॥ ७ ॥

अनेन सुघलेन तस्य सुधियो धरासनमुवं प्रयाभि सपदि ।
अत्रास इति घोषणां जनतया मतोऽकृत महौजसा परिवृतः ॥ ८ ॥

श्रीमहात्माजीकी इस सेनाकी साथमें लेकर मैं शीघ्र ही धरासणा
जाऊँगा । बड़े भारी ओजस्वी और जनतासे पूजित श्रीअन्नासजीने, यह
घोषणा की ॥ ८ ॥

दिने नियमिते स सैन्यपतितामुपेत्य चलितुं धरासनमभि ।
समुद्यत उपेत्य राजधनमुद्धमहाधमनरैर्यरुध्यत परम् ॥ ९ ॥

धरासना जानेकेलिये जो तारीख नियत की गयी थी उस दिन सेना-
पति बनकर जग चलनेकेलिये श्रीअन्नासजी तैयार हुए तब राजधनके
रानेवाले अधमजनोंने आकर उन्हें रोक लिया ॥ ९ ॥

क्रमेण निखिलाश्चभूपतिमनु प्रजीनतनुमार्तिभञ्जनपरम् ।
स्थिताः शुशुभिरे चतुर्मुखमनु प्रतिष्ठितचमूनरा इव सुराः ॥१०॥

अत्यन्त वृद्ध शरीरवाले, दुःखोंके दूर करनेवाले सेनापति उन श्रीअम्बासजीके पीछे क्रमसे सब सैनिक लड़े हो गये और उस समय ऐसा मालूम होता था मानों ब्रह्माजीके पीछे सब देवता लड़े हों ॥ १० ॥

समर्चित उदारया कुमुममालया स ऋषिकल्प उन्नतमनाः ।
प्रसन्नमुखकस्तुराङ्गजननीपवित्रकरतो बभूव मतिमान् ॥११॥

प्रसन्नबदना श्रीमती कस्तूरबाके पवित्र हाथोंसे, बुद्धिमान्, ऋषिसमान और उदार विचारवाले श्रीअम्बासजी, मालसे पूजे गये ॥ ११ ॥

सकृच्छतजनासुसंहृतिकरैरतीव भयदायुर्धैर्नरगणात् ।
उवाच नयपाल एत्य पुरतो विभक्तिमुपगच्छतेति सकलान् ॥१२॥

एक बारमें ही सैकड़ों लोगोंके प्राणोंके सहार करनेवाले भयङ्कर हथियारोंसे युक्त मनुष्यों-सिपाहियोंके समूहमेंसे मैजिस्ट्रेट आगे आ कर उन लोगोंको कहा कि सब लोग तितर बितर हो जाओ ॥ १२ ॥

अवास इति वाचमाह सहसा ययं न गणयाम ईदृशमिदम् ।
यचस्तथ ततो यथेच्छमभितः कुरष्य जहि नो वधान निगडैः ॥१३॥

एक दम श्रीअम्बासजी बोल उठे कि हम लोग तुम्हारी इस बातमें नहीं मानते । अतः तुम तुम्हारी इच्छा हो तो हम लोगोंको कैद करलो, और इच्छा हो तो मार डालो ॥ १३ ॥

चुकोप स ततो प्रहीतुमपिलान्यजिज्ञापदमून्निजानसिधरान् ।
क्षणेन स च तैः स्वसैनिकनरैर्जगाम नरपालग्रन्थनविधिम् ॥१४॥

ऐसा कहनेपर वह मैजिस्ट्रेट गुम्मा हो गया और उसने सब लोगोंको पकड़ लेनेके लिये अपने तलवारधारी सैनिकोंको आश दी । क्षणभरमें ही श्रीअम्बासजी अपने सैनिकोंके सहित कैदी बन गये ॥ १४ ॥

उपैच्च सुरताच्छतद्वयमतो नृणां युधि रसं परं निदधताम् ।
गुणैकनिलया बभूव च सरोजिनी स्थितवती चमूपतिपदे ॥१५॥

इस सत्याग्रह युद्धमें प्रेम रखनेवाले दो सो आदमी-सैनिक सुरतसे आ गये । सर्वगुणवती श्रीमती सरोजिनी नायडूने सेनापति पदको स्वीकार किया ॥ १५ ॥

चमूं समुपचित्य सा लवणभृद्धरासनभुवं जगाम कृतिनी ।
व्यशोभत च झांसिराजमहिषी यथा सुविदुषी जनैरनुगता ॥१६॥

सुन्दर कृतिवाली वह देवी सुरतसे आयी हुई सेनाको लेकर नमकपूर्ण घरासणाकी भूमिमें गयी । वह अपने सैनिकोंके साथ ऐसी शोभा देती थी जैसे अपने सैनिकों सहित शांसीकी महाराणी श्रीलक्ष्मीबाई ॥ १६ ॥

अकारि लवणालयं च परितो दृढं सततरक्षणं यतनतः ।
नृपस्य दनुजैरिजैत्य मनुजैरयोरचितरञ्जुभिर्वहुविधम् ॥१७॥

राक्षसजैसे भयङ्कर सर्कारी नोकरोने वहाँ आकर बहुत यत्न के साथ बहुत तरहसे उस नमकके कारखानेके चारों ओर लोहेके तारोंसे दृढ़ रक्षण कर लिया ॥ १७ ॥

प्रवेशपथमाकलय्य मृदुलस्वभावरचिता च सा नृपजनैः ।
उपाविशदथावृत्तं ग्रहपतिप्रतप्तघृणिमूर्च्छिताऽपि तृपिता ॥१८॥

कारखानेमें प्रवेश करनेके मार्गोंको सिपाहियोंसे बन्द किये हुए देख कर कोमलस्वभाववाली वह श्रीसरोजिनीदेवी, प्यासी हुई थी तो भी और सूर्यके प्रसर तापसे मूर्च्छित हो गयी थी तो भी वहाँ ही बैठी रही ॥ १८ ॥

यतीन्द्रपरिकल्पितक्रममियं प्रपूरयितुमेव * वीरजननी ।
दलेन सह सा स्थिता स्थिरमतिः क्षुधं तृपमपीह नो गणयता ॥१९॥

श्रीमहात्माजीके बनाये हुए कार्यक्रमको पूरा करनेकेलिये वीरमाता और स्थिर बुद्धिवाली वह श्रीसरोजिनीदेवी, भूख और प्यासकी परवा न करनेवाले सैनिकोंके साथ वहाँ ही बैठी रही ॥ १९ ॥

विलोक्य तपनातितप्तवदनां नितान्तमुकुमारतां च दधतीम् ।
'मुखस्य च विधित्सयाऽसिचदिमां निदाघमिपतो जलेन यरणः ॥२०॥

अत्यन्त मुकुमारी श्रीसरोजिनीको धूपसे बहुत व्याकुल बदनवाली देखकर, उनको मुख देनेको इच्छासे श्रीवृषणदेवने पसीनेके बहानेसे जलसे उन्हें सींच दिया ॥ २० ॥

धरासनभवा धनेकमहिलास्तथोटडिभयाः मुशीतलजलैः ।
घटैरुपगताः प्रसन्नवदना जनैर्नरपतेस्तु वारितगमाः ॥२१॥

धरासनाकी और उंटडीकी बहुत सी बहिनें ठंडे पानीसे भरे घटोंको छे छे कर, प्रसन्न होकर वहाँ आयीं परन्तु राजकर्मचारियोंने उन्हें रोक दिया ॥ २१ ॥

इतः परमकोमलाक्षित ललना चमूपतिपदप्रकाशनपरा ।
सतो दुरितदासुणा नृपनराः करोतु भगवान्निजेहितमिति ॥२२॥

इपर परम मुकुमारी एक महिला सेनापतिके पदको उज्ज्वल बना रही है, और उधर बड़े बड़े शापी राजपुरुष खड़े हुए हैं । भगवान् की को इच्छा हो, उसे बंद करें ॥ २२ ॥

विलोकितुमुपागमन्स्वभयनैर्विदृश्यमिदमद्भुतं सुमहिलाः ।
सहस्रश उदारहृदुयनजा नराश्च समराङ्गणीयमतुलम् ॥२३॥

अपनी आँखोंसे समरभूमिके इस भयङ्कर अद्भुत और अनुपम, दृश्य-को देखनेकेलिये उदार हृदयकमलमाली महिलाएँ और पुरुष वहाँ सहस्रोंकी संख्यामें आ गये ॥ २३ ॥

चमूपु मिलिताः सुसेवकगणा मुथं निजजनेनिशाचरगणात् ।
प्रदान्तमनसो हि पातुमभितो जयेन्न हि कथं यतेर्ननु तपः ॥२४॥

अपनी जन्मभूमिके निशाचरोके हाथोंमेंसे बचानेकेलिये शान्तमन-वाले पशुतसे स्वयंसेवक चारोओरसे आपर सेनामें शामिल हो गये । मला भीमहाःमात्रीकी तपस्या क्यों न विद्वदको प्राप्त करे ! ॥ २४ ॥

अयोधृतिमरिन्दमा वलिधरा निकृत्त्य कथमप्यलं समरगाः ।

विलुण्ठ्य लवणं तदा समभवन्प्रसादसहिताः कृतार्थमनसः ॥२५॥

समरमें गये हुए शत्रुओंको दमन करनेवाले बलिधीर, सर्कारके लगाये हुए तारके धेरोको काटकर, नमकको लूटकर बहुत प्रसन्न और कृतार्थ हो गये ॥२५॥

अनुष्ठितमिदं स्तुतै रणरतैरनेकदिवसेषु हन्त तु पुनः ।

हता लघुहर्कैर्नरैरपदयैः शिरस्तु नरपत्य निर्दयतया ॥२६॥

जिनका सब प्रशंसा कर रहे थे उन योद्धाओंने बहुत दिनोंतक ऐसा ही किया । परन्तु पीछेसे सर्कारके निर्दय कर्मचारियोंने निर्दयताके साथ उनके सिरपर लाठियोंका प्रहार किया ॥ २६ ॥

रणे निपतितान्महासुरभटप्रहारबहुलैर्नैरीक्ष्य समरे ।

यतीन्द्रसुभटान्परे रणधियो गताश्च समुदाऽऽहता अविकलाः ॥२७॥

रणभूमिमें असुरसैनिकोंके प्रहारोंसे गिरे हुए श्रीमहात्माजीके सैनिकोंको देखकर दूसरे सैनिक लड़ाईमें गये और सबके सब आहत हुए ॥ २७ ॥

विपद्य परमापदामपि ततीर्न ते मनसि भे जिरे कथमपि ।

हताशपदवीं ययुः प्रमुदिताः समिद्भुयमसंख्यका वलिधराः ॥२८॥

अनेक आपत्तियोंके सहन करनेपर भी श्रीमहात्माजीके सैनिक हताश नहीं हुए और प्रसन्न हो होकर असंख्य सैनिक युद्धभूमिमें गये ॥ २८ ॥

इमामसाहिव इतो रणभुवि प्रसिद्धरत्नताविदारिसुभटः ।

न्यगृह्यत परं क्षणेन सुधियां यरो नरपतेर्जनैः प्रथमतः ॥२९॥

दुष्टताके नाश करनेमें प्रसिद्ध महावीर इमामसाहिव रणभूमिमें गये । परन्तु राजपुत्रोंने उन्हें पहिले ही पकड़ लिया ॥ २९ ॥

ततश्च स पियारलाल इह सदृगुणैकनिलयः सतामतिमतः ।

न्यबध्यत भटैः सिताङ्गजपतेर्जगाम सुखतोऽथ वन्द्यभवनम् ॥३०॥

उसके बाद परमगुरुवान् और सज्जनोंसे आहत श्रीप्यारेलालजी भी सर्कारी विप्राद्वियोंसे पकड़ लिये गये और सुखसे जेल चले गये ॥ ३० ॥

शतानि रणरङ्गिणो हृदयमुद्धराः शिरसि ताडिता अहृदयैः ।
शतानि नृपमानुषैः सपदि सम्परायवसुधातलाच्च विवृताः ॥३१॥

हृदयानन्दसे युक्त सैकड़ों रणयुद्धियोंको तो हृदयहीन सर्कारी आदमियोंने पीटा और सैकड़ोंको उस रणभूमिमेंसे पकड़ लिया ॥ ३१ ॥

अयाचितजनाधिसेवनपराः समाययुरभीष्टकार्यकुशलाः ।
ततोऽभवदलं वलीन्द्रपटलप्रपूर्णमभितः स्थलं च समितेः ॥३२॥

अभीष्ट कार्य करनेमें कुशल, बहुतसे स्वयसेवक वहाँ आ गये । अतः रणभूमि योद्धाओंके समूहसे परिपूर्ण हो गयी ॥३२॥

विलीमुरधरासणे च हुँगरी स्थलेष्विनि बभूव सैनिकगणः ।
स्थितः परमतेजसा प्रमुदितो दधत्त्वहृदयेन युद्धकुतुकम् ॥३३॥

विल्लीमोरा, धरासणा और हुंगरी इन तीनोंमें परम तेजस्वी, आनन्दी और युद्धमें जानेकेलिये कुतूहलवाले सैनिक निवास कर रहे थे ॥ ३३ ॥

प्रणीय जयनादमेभिररिखैः स्थितैर्भुवि युधः समेत्य युगपत् ।
अहोतुमभितो भिद्या विरहितैर्यये सपदि तैर्हितैश्च लयणम् ॥३४॥

यह सत्र सैनिक जयघोषनि करते हुए युद्धभूमिमें एक साथ ही एरनित होकर, निर्मय होकर नमक लेनेकेलिये गये ॥ ३४ ॥

विलोक्य यमयष्टिधारिमनुजा निरखगणमेनमागतमलम् ।
प्रहृत्य विदयं निशाचरचराः स्वतोपमभिमेनिरे बहुविधम् ॥३५॥

यमराज छमान दण्डधारी सर्कारी सिपाहियोंने इन निरख सैनिकोंको आये हुए देखकर निर्दयताके साथ उन्हें पीटकर सन्तोष प्राप्त किया ॥३५॥

पदोः शिरसि पृष्ठके च समरे तथैव करयोः प्रहारविषलाः ।
स्वदेशहितसेयनात्तनियमा धराशयनसङ्गतास्तु सहसा ॥३६॥

स्वदेशसेवाके नियमको लेनेवाले ये सैनिक पैरोंमें, निरमें, पीठमें, और हाथोंमें, प्रहारसे व्याकुल होकर, एषदम पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥

समादिशदनुक्षणं दधदयं क्रुधं नयनयोस्तथा च हृदये ।
ग्रहीतुममुमाटिषा निजनरा न्यतीन्द्रतनयं मणिं नरमणिम् ॥३७॥

ओंलोमे और हृदयमें प्रत्येक क्षण क्रोध धारण करते हुए छ
आटियाने श्रीमहात्माजीके पुत्र श्रीमणिलाल गाधीको पकड़नेकेलिये अपने
सिपाहियोंको आज्ञा दी ॥ ३७ ॥

गतोनरहरिः परीख इति सनिशम्य मणिवन्दिता कलिभुवम् ।
निनीपुरभवच्चमूं च महतीं परं न सफलो बभूव मुकृती ॥३८॥

श्रीमणिलाल गाधीका पकड़ा जाना सुनकर परीख श्रीनरहरिभाई
युद्धभूमिमें पहुँच गये। उस विशाल सेनाका नेतृत्व करना चाहते थे परन्तु
वह सफल नहीं हुए ॥ ३८ ॥

नराशनपरायणा नृपनरा रणावनिमुपेतमिद्धतपसम् ।
क्षणेनकरपादपृष्ठशिरसि प्रहृत्य लगुडे क्षत विदधिरे ॥३९॥

मनुष्योंके भक्षण करनेवाले राजसिपाहियोंने राजभूमिमें आये हुए
परमतपस्वी श्रीनरहरिभाईको क्षणभरमें ही, हाथ पैर, पीठ और शिरमें
लाठी मारकर घायल कर दिया ॥ ३९ ॥

नृदेवपतिसैनिका सपदि तं परिप्लुतमवेक्ष्य रक्तसलिलैः ।
स्रुतै शिरस एतद्वृत्तिनिरता उपस्थितिमशिश्रियन्त विकला ॥४०॥

श्रीमहात्माजीके सैनिक श्रीनरहरिभाईको शिरसे बहते हुए रक्त-
जलमें डूबे हुए देखकर, व्याकुल होकर उनकी रक्षामें तत्पर होकर सब
सैनिक वहाँ उपस्थित हो गये ॥ ४० ॥

पर नृपनरैस्तु तेऽपि लगुहप्रहारशतकै कृता निपतिता ।
कथचिदथ मूर्च्छितो नरहरिर्जनै शिविरमापितो नरहरिः ॥४१॥

परन्तु सर्कारी सिपाहियोंने सैकड़ों लाटियों मारकर उन सबको भी

छाँटिया नामका एक सार्जण्ट था जो लाठी चलानेमें बहुत
प्रख्यात था ।

गिरा दिया । उसके बाद मूर्छित हुए धीनरहरिभाईको लोग किसी प्रकारसे शिविरमें ले आये ॥ ४१ ॥

सहस्रमथ सैनिका यतिपतेः प्रहारविकला भुवं निपतिताः ।
तथापि न निरागता यतिचमूं चुचुम्ब निजदेशरक्षणपराम् ॥४२॥

श्रीमहात्माजीके हजारों सैनिक मार ताफर पृथिवीपर पड़े हुए थे तो भी उन देशरक्षामें लगे हुआंको निराशा न हुई ॥४२॥

स्वकीयकरणं विधातुमखिला यतीन्द्रशिविरं महाऽनयपराः ।
सिताङ्गजचमूनराः प्रलगुडैस्तथानलमहायुधैरभिययुः ॥४३॥

महान् अन्यायी अंग्रेजोंके सैनिक, श्रीमहात्माजीके शिविरछावनीको अपने कण्ठमें लेनेके लिये बड़ी बड़ी लाठियों और बन्दूक लेकर वहाँ गये ॥४३॥

ययुः प्रथमिमे कुनीतिरसिका जवेन निखिलाः सचेतउटडीम् ।
शतद्वयमिमे यतीन्द्रशिविरस्थितिश्रितनृणामकुर्वत बहिः ॥४४॥

अन्याय करनेके रसिक अंग्रेजीसिपाही सभी बड़े वेगसे पहिले सचेत बनी हुई उटडी में गये । वहाँ दो सौ सैनिकोंको—जो कि उस राष्ट्रियशिविरमें थे—सिपाहियोंने बाहर करदिया ॥४४॥

गतासुरभवद्य तेषु सुभगः प्रतिष्ठिततमः स दाजितनयः ।
क्षतोऽसितनयैर्नरेन्द्रमनुजै रतीय स च भाइलाल ऋजुनाक् ॥४५॥

उनमेंसे श्री—दाजीके पुत्र भाईलाल, उन कालीनीतिवाले सिपाहियोंसे पीटे जानेपर मरण धर्मको प्राप्त हुए ॥ ४५ ॥

क्षतोपि शिरसि महारशतकैरसौ नरहरिर्नृपालमनुजैः ।
गृहीत इति संमुदा निजजनान्स आदिशदलं विवेकपरवान् ॥४६॥

सैकड़ों प्रहार पड़नेसे शिरमें घायलगा या तो भी पलिसने श्रीनरहरि-भाईको पकड़ लिया । पकड़े जानेपर विवेकी उन्होंने अपने आदमियोंको, प्रसन्नतासे, यह आश दी ॥४६॥

ध्वजो भवतु रक्षितोऽयमखिलै स्वदेशहितकामुकैर्नरवरै ।
समेतु च धरासणासमरभू शुभां विजयमालिकामचिरत ॥४७॥

स्वदेशके हित चाहनेवाले सब लोग इस राष्ट्रध्वजकी रक्षा करें ।
शीघ्र ही यह धरासणाकी युद्धभूमि विजयमालाको प्राप्त करें ॥ ४७ ॥

यतीन्द्रशिविर विरिक्तमधुना विभाति तु तथापि गुर्जरभुय ।
परेभ्य उत मण्डलेभ्य इह ते रणे च सहसाऽऽव्रजन्तु कुशला ॥४८॥

इस समय वत्रपियह राष्ट्रिय छावनी खाली पड गयी है तथापि गुजरातसे
तथा अन्य प्रान्तोसे भी इस लडाईमें, कुशल सैनिक आ जावें ॥ ४८ ॥

अहिंसकतया विधातुममलां युध भवति धीरता यदि तदा ।
समागतिरिहास्तु कस्यचिदपि प्रशान्तमनसो यतीन्द्रमुखदा ॥४९॥

अहिंसकरूपसे इस पवित्र युद्धको लडनेकेलिये यदि धैर्य हो तो
शान्तमनवाले, चाहे जो यहाँ आ जावें । उनका आना धीमहात्माजीको
आनन्ददायक होगा ॥ ४९ ॥

जगाद् स ततो नयाधिपपुरो वचो गतभय स्फुट नरहरि ।
भवेच्चरलिदानमत्र मुधियां भवेच्च विजयोऽत्र न शिवतर ॥५०॥

इसके बाद मैत्रिस्त्रेटके सामने धीनरहरिमाईने वचान दिया कि इस
युद्धमें सुन्दर विचारवालोंका बलिदान दिया जायगा और हमारा सुन्दर
विजय होगा ॥ ५० ॥

पतनय इहास्ति सत्यसमरे कदापि न ततोऽस्ति नो जय इह ।
नृपस्य हृदये कथञ्चिदपि तद्वत्सुपरिवर्तनं घृतपदम् ॥५१॥

सत्नामहयुद्धमें पराजय तो कभी होता ही नहीं है अतः गण ही
हमारा विजय है । इस युद्धमें कुछ न कुछ सकारण हृदयमें भी सुन्दर
परिवर्तन हुआ होगा ॥ ५१ ॥

मतामथ नृणां भवेदिह यदि प्रकाशपरफो बलि प्रमुतम ।
अयेन्नृपनय प्रकाशमधिक प्रनेदय लय प्रयर्तित इह ॥५२॥

यदि इस युद्धमें सज्जनोंका जाज्वल्यमान समर्थ बलिदान होगा तो यश—हिन्दुस्तानमें अथवा इस युद्धमें प्रवर्तित राजनीतिमें या तो अधिक प्रकाश प्राप्त होगा अथवा वह नष्ट हो जायगी ॥ ५२ ॥

ततः शिविरमास्थितं सपदि तद्वशं सततमन्विकापटिलके ।
स चापि समवाप निग्रहमथो सहैव घत तेन स त्रिभुवनः ॥५३॥

उसके बाद छावनी श्रीअग्रालाल पटेलको सौंप दी गयी परन्तु वह भी और उनके साथ ही डाक्टर त्रिभुवनदासजी भी पकड़ लिये गये ॥५३॥

इदं न नृपसम्मतं हि शिविरं ततस्तद्व्यपातनाय बहवः ।
धुराजभृतिभोजिनो नियमिताः स्वभावपतिताः पतङ्गसदृशाः ॥५४॥

यह राष्ट्रियछावनी सर्कारको पसन्द नहीं है अतः उसका नश्व करनेकेलिये राजाजपानेवाले, स्वभावतः पतित आदमियोंको नियुक्तकर दिया गया ॥ ५४ ॥

विभेद पटमण्डपांश्च विततान्वटानपि च कोऽपि कर्मठगणः ।
प्रदीपमपि किट्सनेति परितः स कोपि बलवान्पण्ड्यदपि ॥५५॥

किसीने तम्बू फाड़ डाले, किसी कर्मकुशलने घड़े फोड़ डाले, किसी बलवान् सिपाहीने किट्सन् लाइटको तोड़ दिया ॥ ५५ ॥

अथाहृतजनाधिशान्तिमुखदं तदौपधनिफेतनं च विभिदे ।
विभेद च ततः सिताङ्गनृपतेर्जडत्वमधिकं मतेश्च मनसः ॥५६॥

ब्रह्मी सेवकोंकी शान्ति और मुखकेलिये जो श्रीमहात्माजीके शिविर—छावनीमें अस्पताल बनाया गया था उसे भी मर्दाने तोड़ दिया, और अपनी बुद्धि और मनकी दशाको जनतापर प्रकट कर दिया ॥५६॥

तथापि तिलमप्यसौ यनिपते र्गणो न सरति स्म भूमिभूतनात् ।
तदास्य च गणस्य यत्प्रोसु मुखं समैच्छदथ कोपि मोटरगतिम् ॥५७॥

इतना सब होजानेपर भी वह श्रीमहात्माजीका अनुदाय उस भूमिरूप

भवनसे तिलभर भी न हटा । तब किसी अंग्रेजने उन सैनिकोंपर मोटर दौड़ानेकी भी इच्छा प्रकट की ॥ ५७ ॥

अनीतिमथ लोकदाहनिपुणां विलोकितुमिमामुपागमदिह ।
अतीव जनताऽऽतुरा तदवनिं भविष्यति च किं व्यकम्पत पुनः ॥५८॥

यह एक ऐसा अन्याय था जिससे सारा सत्तार मरम हो जाता । उस अन्यायको देखनेकेलिये जनता अत्यन्त आतुर होकर वहाँ आयी । क्या होगा यह विचारकर वह काँप गयी ॥ ५८ ॥

यथायमृतलालठक्कर उदाहृतं नरपशुप्रणेयमखिलम् ।
स्वयं स्वनयनेन लोकितुमिदं सितांगजनतामनः स्थितिमिमाम् ॥५९॥

नरपशुओंकी इस लीलाको और अंग्रेजोंकी मानसिक स्थितिको अपनी आँजोंसे स्वयं देखनेकेलिये श्रीअमृतलाल ठक्कर बापा भी वहाँ गये ॥५९॥

हयैरपि विमर्दिताश्च बहवो रणाङ्गनगताः सिताङ्गमनुजैः ।
जघन्यकृतयोऽपरा अपि कृता न ताः कथयितुं विधावति मनः ॥६०॥

युद्धभूमिमें अंग्रेजोंके आदमियोंने बहुतसे लोगोंके ऊपर घोड़े भी दौड़ाये थे । अन्य दूसरे ऐसे-ऐसे नीच कर्म इन्होंने किये जिसे कहनेकेलिये मन नहीं चाहता है ॥ ६० ॥

अनीतिशतकं कृतं तदमुरैः परैस्तु मनसापि यत्कचन नो ।
भवेदपि विचारिवं यतपले धिगस्तु नरपालतां हतमतिम् ॥६१॥

इन अमुरोंने सैफ़ड़ों ऐसे ऐसे अन्याय श्रीमहात्माजीकी सेनापर किये कि जिनका दूसरे अमुरोंने कभी विचार तक भी नहीं किया था । ऐसे निजुद्धि राजपनेको धिक्कार है ॥ ६१ ॥

मुनिं जिनमेतुस्थितं जिनजयं तथा च रणछोहलालधनपम् ।
निगृह्य परिदण्डयन्नयपति स्तुतोप हृदये चिरादधितपन ॥६२॥

बैनमतके परम विरक्त मुनि श्रीजिनविजयजीको तथा सैठ धीरगण्डोद-

भाईको पकड़कर दण्ड देते हुए न्यायाधीशको बहुत संतोष हुआ क्योंकि वह बहुत दिनोंसे मनमें ही जल रहा था ॥ ६२ ॥

पुरातनबुधोपि सैन्यसहित सन्धा च दलप्रन्तराय ऋतयान् ।
अनीतिरमणीरवैर्हृतभगैः प्रताड्य विवशाँ वृताँ निगदितौ ॥६३॥

अनीतिमार्गमें प्रेम रखनेवाले इन अग्नेत्री सिपाहियोंने श्रीयुतपुरातन बुध और श्रीबलवन्तरायको भी सेनासहित पकड़ लिया, मारा और कैद कर लिया ॥ ६३ ॥

स भावनगरीयसैनिकयुवा तनावहह यस्य कण्ठकशिखाः ।
निवेद्य नरपामरा नृपजना मन सुरमपूपुपन्पुणयतः ॥६४॥

भावनगरका एक बड़ जवान सैनिक था जिसके घारे शरीरमें इन पामर अग्नेत्री आदमियोंने काँटे चुनोये थे ॥ ६४ ॥

घनाघन इयाय तेन समरो धरासणधरातलेऽतित्रिकटे ।
विचारचतुरैर्महात्मपद्वीप्रयाणकुशलै समाहित सः ॥६५॥

धर्माकृत आ गया अतः अत्यन्त विकट धरासणकी भूमिमेंसे विचार-चतुर तथा महात्माजीके मार्गमें चलोवालीमेंसे कुशल लोगोंने इस युद्धको खींच लिया ॥ ६५ ॥

निरप्य युधमत्र ते प्रयतनैरयानप्रसथेषु नीतिनिपुणाः ।
प्रयोष्य सफलं कृपीघलर्गणं भुवां फरभरं न्यस्तसत धिरम् ॥६६॥

उन लोगोंने युद्धको रोककर गाँवोंमें प्रयत्न के साथ एक स्थानोंको समझाकर मालगुजारी देना रोक दिया ॥ ६६ ॥

भयद्वारमिदं धभूय हृदयप्रमापणमल प्रबानरपयोः ।
निरस्त्रजनतां स्थितां स्थितिपदे सशस्त्रनरमत्तना समगिलन् ॥६७॥

राजा और मन्त्रिका यह युद्ध हृदयको भेडा देनेवाला भयद्वार युद्ध था । अपनी मर्यादामें रही हुई निरस्त्रजनताको यह सशस्त्र राक्षस निम्नले लगे गये ॥ ६७ ॥

हृतानि भवनानि वस्त्रनिचयो हृतोऽश्नमपि प्रदग्धमभितः ।

हृतं पशुधनं हृताः कृपिभुवः प्रजा विकलिताः कृता नृपनरैः ॥६८॥

राजकीय पुरषोने घर छीन लिये, वस्त्र छीन लिये, सेत भी छीन लिये । प्रजा व्याकुल बना दी गयी ॥ ६८ ॥

विहाय निजपूर्वपूरुपगणैरुपार्जितमिदं गृहं च धरणीः ।

कृपोवलमहाशयाश्च निरयुः स्वदेशहितरक्षणव्रतधियः ॥६९॥

ये विचारशील किसान स्वदेश रक्षाके व्रतको स्वीकार करके अपने पूर्वजोंके उपार्जित घर और जमीनको छोड़कर बाहर निकल गये ॥ ६९ ॥

उपार्जितमभूत्कियत्किमथवा सुपुण्यमथ पूर्वजन्मसु च तैः ।

यदाश्रयणतः स्वदेशरतिरीदृशी स्वहृदयेषु हन्त पुपुषे ॥७०॥

उन किसानोंमें पूर्वजन्मोंमें कितना और कौन सा पुण्य किया होगा जिसके आश्रयसे उन्होंने अपने हृदयोंमें इस प्रकारका स्वदेश प्रेमका रक्षण किया ? ॥ ७० ॥

स्तनन्धयगणोऽथ ते च जरठा अदृष्टविपदानना विधुमुखाः ।

कुलस्त्रिय उदस्य गेहनिरतां रतिं समभजन्त काननभुवि ॥७१॥

दूष पांनेवाले बच्चे, बूढ़े और जिन्होंने विपत्तिका मुर मी नहीं देखा या ऐसी सुन्दर कुलीन बहिनें भी घरके प्रेमको छोड़कर बङ्गलमें रहने लग गयीं ॥ ७१ ॥

रविप्रसररश्मिभि - र्धनघटागलज्जल - महावृषत्रिपतनैः ।

हिमैश्च शिशिरे तनुश्चतकरैर्मनागुदविजन्त ते न जयिनः ॥७२॥

सूर्यके तीक्ष्ण किरणोंसे, मेघके बलके बड़ी-बड़ी घुँदोंसे, और शरीरमें पार पैदा करनेवाली टंडने भी, यह विजयी-किराण व्याकुल नहीं बने ॥७२॥

महासमितिःसंगताश्चनिसिलाजनानिगडिता मुधीशमुमताः ।

सभामनुहरन्समस्तसदसा पयोऽप्यभवदेव शण्डिततनुः ॥७३॥

महासभाके साथ जो जुड़े हुए थे वह सब के सब विद्वान् बॉय लिये गये । जितनी भी अन्य सभाएँ महासभाके ध्येयके साथ चल रही थीं वह सब सरकारसे तोड़ डाली गयीं ॥ ७३ ॥

स्वदेशहितचिन्तनं समभवन्महापतितकर्म भारतभुवि ।
सिताङ्गनृपतेर्मतौ मृतमतेर्निजार्थपरिपालने रतिमतः ॥७४॥

स्वार्थी और निर्बुद्धि अंग्रेजी सरकारके मतमें, भारतवर्षमें अपने देशका कल्याण करना महान् पतित कर्म बन गया ॥ ७४ ॥

न कोऽपि भवति स्म भारतभुवि स्वकीयहितमिच्छता नृपतिना ।
स्वदेशहितमोदमान इह नो गृहीत इति नापि दण्डित इति ॥७५॥

भारतवर्ष में ऐसा कोई भी नहीं था जो अपने देशकी भलाई चाहता रहा हो और उसे स्वार्थी सरकारने न पकड़ा हो और दण्ड न दिया हो ॥७५॥

स्त्रियोऽपि पुरुषाश्च बालकगणः प्रजीनवयसोऽपि हन्त समरे ।
गता नृपतिमानवैर्निगडितास्तिरस्कृतिपर्दं समापुरनिशाम् ॥७६॥

स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे और बुढ़े भी जो जो इस लड़ाईमें उतरे थे । राजपुरुषोंने सबकी पकड़लिया और सबका अपमान किया ॥ ७६ ॥

विलोम्य तदपत्रपस्य नृपतेरनीतिमिति सर्वजीवशरणम् ।
दयापरवशाः समुद्यंतकरो हरिः स्मरति स स्म नैजहरिताम् ॥७७॥

निर्दल सरकारकी इस अनीतिको देखकर सर्वजीवोंके शरण देनेवाले परमदयालु भगवान्ने अपना हाथ ऊँचा किया और अपनी पापनाशिनी शक्तिका स्मरण किया ॥ ७७ ॥

धियश्च विजयस्य कण्ठमभितः क्षिता यतिपतेर्वलस्य मुदिताः ।
पराभवविपत्पराहतनृपस्तताप हृदयेऽनयाध्वपथिकः ॥७८॥

विजयभीने प्रसन्न होकर भीमहात्माजीकी सेनाके कण्ठका आलिङ्गन किया । हार खाकर अन्यायी सरार हृदयमें दुःखी होने लगी ॥ ७८ ॥

अभूद्यतिपतिर्विमुक्तनिगडो विमुक्तिमथ भेजिरे च सुभटाः ।
जयेति विजयस्व चेति सुरवैः समर्चित इहाभवत्स यतिराट् ॥७९॥

श्रीमहात्माजी भी छोड़दिये गये । सब सैनिक भी छूट गये । जय हो
विजय हो, इत्यादि शब्दोंसे महात्माजीकी पूजा होने लगी ॥ ७९ ॥

स देहलिमगान्मृपप्रतिनिधेरवाप्य हृदयं सनातनशिवः ।
विधाय सह तेन वाग्निमयं करं तु लवणस्य दूरमकरोत् ॥८०॥

सनातनशिव श्रीमहात्माजी बाइसरायका हृदय पाकर—उनका आमन्त्रण
पाकर दिल्ली गये । वहाँ उनसे घातचीत करके नमकका छे कर दूर
किया ॥ ८० ॥

चकार विविधेष्वसौ नरपतिप्रतीकपदवीमुपास्य मतिमान् ।
विचारमथ नीतिशास्त्रनिपुणः प्रबुद्धविषयेष्विह स्थितिमता ॥८१॥

दिल्लीमें बुद्धिमान् और नीतिशास्त्रनिपुण श्रीमहात्माजीने बाइसरायके
साथ प्रस्तुत बहुत से विषयोंपर विचार किया ॥८१॥

प्रसन्नबुद्धिर्विरचय्य सन्धिपत्रं स्वहस्ताक्षरितं च ताभ्याम् ।
विधाय तद्बुद्धिविरामकालमपोषयत्सोऽस्थिरमेव तर्हि ॥८२॥

प्रसन्नबुद्धिवाले श्रीमहात्माजीने सन्धिपत्र—सुलहनामा तैयार किया ।
उसपर वह स्वयं और श्रीबाइसराय दोनोंने अपने हस्ताक्षर किये । इस
प्रकारसे उस समय महात्माजीने अस्थायी बुद्धिविरामकी घोषणा की ॥८२॥

ये भारतेऽस्मिन्नखिले गृहीता महारणे ते निखिला विमुक्ताः ।
क्षणं तु देशे प्रससार शान्तिः सिताङ्गसेनापि मुदं प्रपेदे ॥८३॥

इस महायुद्धमें समस्त भारतमें जो राष्ट्रसैनिक पकड़े गये थे वह

❀ यद्यपि गांधी-इर्विन् समझौतेके अनुसार नमकका कर सर्वत्र दूर
नहीं हुआ था तथापि अपने अपने उपयोगकेलिये समुद्रके किनारे से कोई
भी नमक ले सके, इतनी छूट हुई थी ।

सबके सब छोड़ दिये गये । क्षणभरकेलिये देनाम शान्ति फैल गयी ।
अंग्रेजी सेना भी प्रसन्न हुई ॥८३॥

गन्तु तदा श्रीयतिराजराज
सम्प्रार्थितो चतुर्लुगोष्ठिकायाम् ।
भूत्वा सदस्य सपदीर्विनेन
स लन्दन धीरवरो जगाम ॥८४॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
भारतपारिजाते
द्वाविंश सर्ग

उक्त समय लार्ड ईर्विनेने श्रीमहात्माजीसे गोल्येज परिवदमे सदस्य
होकर जानेकी प्रार्थना की । अत वह लन्दन गये ॥८४॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते
स्वोपश्रारट्टभाषाटीकासहिते भारतपारिजाते
द्वाविंश सर्ग



त्रयोविंशः सर्गः

गत्वाथ लन्दनपुरं मतिमद्वरिष्ठो
भूत्वैककः प्रतिनिधिः स महासभायाः ।

यद्भाषणं व्यतत तत्र समूहतश्च-
निर्माणसंसदि पठन्तु तदत्र धीराः ॥ १ ॥

बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीमहात्माजीने महासभा-काग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि होकर, लन्दनमें जाकर समूहतन्त्रनिर्माणसमितिके जो भाषण दिया था उसे विद्वान् लोग यहाँ पढ़ें ॥ १ ॥

भूयान्हि शासनमहासभयोर्विचारे
भेदोऽस्ति तत्त्वत इति प्रयतः प्रवेद्मि ।
विश्वासयाम्यहमतो निखिलान्सदस्या-
न्नाहं भवामि भवतामिह विघ्नकर्ता ॥ २ ॥

मे इस बातको भले प्रकारसे जानता हूँ कि सरकार और कांग्रेसके मतोंमें-विचारोंमें तात्त्विक भेद है । अतः मैं आप लोगोंकी विघ्न करनेवाला नहीं बनूँगा ॥ २ ॥

यस्या महापरिपदोऽत्र दधत्समागा-
मस्यामहं प्रतिनिधित्वमलं समित्याम् ।
सा राष्ट्रियैव परिपन्निखिलस्य हिन्दु-
देशस्य सर्वजनमानमहो विभर्ति ॥ ३ ॥

जिस महासभाका मैं प्रतिनिधि बनकर आया हूँ वह राजनैतिक परिपद् समस्त हिन्दुस्तानके सब लोगोंकी माननीय है ॥३॥

श्रीह्यम एव जनकः समितेश्च तस्या
असीत्पितामहसमोऽपि ततः स दादा ।

फीरोज़शाह इति सर्वमतौ अशस्तौ
तद्रक्षणं बहुविधैर्नितरां न्यधत्ताम् ॥ ४ ॥

इस हमारी राष्ट्रिय महासभाके जन्मदाता तो (एक अंग्रेज) श्री०
ह्यूम साहेब थे। उनके पश्चात् पितामहके समान श्रीयुत दादाभाई
नौरोजी और श्रीफिरोजशाहजी यह दोनों ही बहुत प्रशंसनीय थे अत एव
सर्वके माननीय थे। इन दोनों महानुभावोंने उस कांग्रेसका बहुत रक्षण
किया ॥ ४ ॥

मौहम्मदाः प्रथमतोऽथ च पारसीकः
स्त्रिस्तादशो विविधधर्मजुषः परेऽपि ।
आसंस्तथैव बहवः श्रुतिमार्मभाजो
भेदादृते बुधयतः सदसः सदस्याः ॥ ५ ॥

आरम्भसे ही हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बिना किसी भी
भेदके इस महासभाके सदस्य रहे हैं ॥५॥

अस्या महापरिषदोऽधिपतित्यमापु-
र्विद्वान्मुहम्मदअली स मुहम्मदीयः ।
एनी महामतिमती च सरोजिनीयं
धर्मी महाकविरिमे अबले महेले ॥ ६ ॥

इस महासभाके सभापतिपदपर, मीलाना मुहम्मदअली भी थे और
श्रीमती एनीबेसेण्ट तथा श्रीमती व्याख्यात्री और महाकवि श्रीसरोजिनी
नायडू यह दो स्त्रियों भी थीं ॥ ६ ॥

प्रारम्भतोऽन्त्यजगणोऽपि महासभायां
सत्कार्यं इत्यविकलाभिमतं बभूव ।
धीरानटे मुनिपुषं तत एष तस्य
सेवा चकार दुरितानि निराचकार ॥ ७ ॥

महासभामें शुरुते ही अन्त्यजगण्ण भी उत्क्रांतेके साथ और सबके

अभिमत रहे हैं । श्री० रानडेने इस अन्त्यज समाजकी सेवा की है और दोषोंको दूर किया है ॥७॥

हिन्दूमुहम्मदपदानुगयोर्यथैक्यं

स्वातन्त्र्यलाभजनकं सभया महत्या ।

अङ्गीकृतं हरिजनैरपि साकमेधं

तद्राजकीयसरणावनिवार्यमेव ॥ ८ ॥

जिस तरहसे महासभाने यह मान लिया है कि हिन्दू और मुसलमान-का परस्पर मेल भारतकी स्वतन्त्रताका साधन है वैसे ही अन्त्यजोंके साथ ऐक्यस्थापन भी राजनैतिक जगत्में अनिवार्य ही है ॥ ८ ॥

हे भारतीयनरनाथकुलावतंसा

आदौ महापरिपदा ननु वोऽपि पक्षः ।

युष्मद्विताय जगृहे निजजन्मभूमि—

रक्षापरायणतया तदपि स्मरेत ॥ ९ ॥

भारतीय महाराजो ! आप इस बातकी याद करें कि आरम्भमें आपके हितकेलिये, महासभाने आपका भी पक्ष लिया है । क्योंकि महासभा तो अपनी जन्मभूमिकी रक्षामें तत्पर है ॥ ९ ॥

काश्मीरभूपतिमहीसुरनाथयोस्त—

साहाय्यमादधत हिन्दपितामहोऽसौ ।

तद्राजयंशयुगलं विमलं सभायै

तस्यै च धारयति तद्बहु नात्र शङ्का ॥१०॥

काश्मीर और मैसूरके महाराजोंको श्रीदादाभाई नौरोजीने सहायता दी थी । अतः वह दोनों ही राजवश महासभाके ऋणी हैं, इसमें शङ्का नहीं है ॥१०॥

सा हिन्दराष्ट्रपरिपन्महती कदाचि—

दद्यावधि क्षिपति नैव करं स्वकीयम् ।

कृत्येषु वः समचिनोदुपकारमेव
तेनैवमत्र विमतिर्न पदं दधीत ॥११॥

अमीतक भी महासभा आप लोगोंके कार्योंमें हस्तक्षेप नहीं करती है। अतः इसने आपका भी उपकार ही किया है इसमें दो मत हो ही नहीं सकते ॥ ११ ॥

एतत्स्वरूपमिदं यः पुरतो मयाऽद्य
यच्चित्रितं निखिलहिन्दिमहासभायाः ।
तेनाऽस्तु वोऽधिगतिरत्र सुखेन तस्या-
स्तत्त्वस्य ह्यन् निहितस्य तदर्थनायाम् ॥१२॥

आपके समक्ष मैंने महासभाका स्वरूप चित्रित कर दिया है। इससे अनायास ही आपको, महासभाकी जो मांग है उसकी असलियत का ज्ञान हो जायगा ॥ १२ ॥

स्यादेतदप्यथ कदाच निजार्थनायां
यैफल्यमेव सभया परिसेवितं स्यात् ।
सत्यं तथापि नितरामिदमस्ति यत्सा
यारान्ब्रह्मणुपगता सफलत्वमेव ॥१३॥

यह भी सम्भव है कि महासभाको अपनी इष्टप्राप्तिमें कभी असफलता भी मिली हो परन्तु यह भी सत्य ही है कि उसे बहुत बार सफलता ही मिली है ॥ १३ ॥

एकान्ततः समिदियं खलु भारतस्य
लक्ष्येषु सप्तसु च संवसथेषु तेषु ।
दारिद्र्यदायपरिदग्धमुत्प्रातिशान्ति-
सम्पन्नयव्याधितदीनजनैकजिह्वा ॥१४॥

भारतके सात लाख गाँवोंमें दरिद्रताकी आगसे मुरा, शान्ति और सम्पत्ति बिनकी मरुत हो गयी है—ऐसे गरीबोंकी यह महासभा ही एकमात्र धीम है ॥ १४ ॥

क्षुत्क्षामकण्ठगलदस्रुजनातिपीडा-

नाशाय सर्वमपि लाभमपास्य सद्यः ।

सेयं महापरिपदार्तजनार्तिस्त्रिन्ना

सर्वं करिष्यति भवेत्परमोचितं यत् ॥१५॥

भूखसे जिनके कण्ठ सूखे हुए हैं, औंसू जिनके बह रहे हैं उन गरीबोंके दुःखको दूर करनेकेलिये दूसरे सभी लाभजनक कार्योंको छोड़कर, दीनोंके दुःखसे दुःखित यह महासभा सब कुछ करेगी जो कि उचित होगा ॥ १५ ॥

स राष्ट्रसंसदवशेऽत्र सहस्रयुग्मे

ग्रामेऽधे लक्षवनिताभरणादिकृत्ये ।

साहाय्यमपेयति कार्यगणं च चर्खा-

सङ्घेन योग्यविधया सततं प्रदाप्य ॥१६॥

यह राष्ट्रिय महासभा दो हजार ग्रामोंमें ५० हजार स्त्रियोंके नित्य मरणपोषणकेलिये अखिलभारतवर्षीय चर्खा सङ्घके द्वारा योग्य मार्गसे कामधन्दा दिलाकर, उनको सहायता कर रही है ॥ १६ ॥

प्रत्येमि यद्विदितमेव भवेदनेन

स्पष्टं स्वरूपमिह राष्ट्रमहासभायाः ।

सम्प्रेक्षितस्य च तथात्र निवेदनाय

प्राप्तोऽस्मि तच्छ्रवणगोचर्यन्तु सन्तः ॥१७॥

मुझे विश्वास है कि मेरे इस वक्तव्यसे महासभाका स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट हो गया होगा । अब महासभाके जिस इष्ट वस्तुके निवेदन करनेके लिये मैं यहाँ आया हूँ उसे सज्जन महानुभाव आप सुनें ॥१७॥

सा कार्यकारिसमितिश्च महासभाया

हिन्दीयशासनमदोऽस्थिरमेव सन्धिम् ।

संमित्य यं परिधिचार्यं बहु व्यधत्त

स स्वीकृतोऽस्ति संभयापि करचिपुर्याम् ॥१८॥

महासभाकी उस कार्यकारिणी समितिने और इस भारतसर्कारने मिलकर और बहुत विचारकर जो अस्थिर सन्धि की है उसे महासभाने भी कराचीमें सर्वथा स्वीकृत कर लिया है ॥ १८ ॥

व्यस्पष्टयीदथ तथापि महासभेयं
जातेऽपि शासनमहासभयोश्च सन्धी ।

पूर्णस्वराज्यसमयाप्तिरभिन्नदेहा
ध्येया भविष्यति महासभया तदन्ता ॥१९॥

इस महासभाने, सर्कार और महासभाके बीचमें सन्धि हो जानेपर भी यह स्पष्ट कर दिया है कि जबतक पूर्णस्वराज्य भारतवर्षको नहीं मिलेगा तबतक सब प्रकारसे पूर्णस्वराज्यकी प्राप्ति, उसका ध्येय बना रहेगा ॥१९॥

मार्गो भवेद्यदि सिताङ्गशासनस्य
लोकैः सह प्रतिनिधित्वमुपाश्रयद्भिः ।

हिन्दस्य च प्रतिनिधिप्रहयेऽपि सा द्राक्
कृत्या तथा निजमनीपितमर्धयेत् ॥२०॥

अमेज़ी हुक्मतके प्रतिनिधियोंके साथ कहींपर भी, महासभाको भी अपने प्रतिनिधियोंको भेजनेका, यदि मार्ग होगा तो, महासभा उन्हें भेजकर अपने इस कार्यकी श्रद्धि परेगी ॥ २० ॥

सेनाधिकारपरदेशसमस्तकृत्य-

द्रव्याधिकारधननीतिपराधिकारान् ।

सम्प्राप्तुयात्सविधि भारतवर्षमत-

त्सम्प्रेष्य सा प्रतिनिधीस्तु तथा प्रबुयीत् ॥२१॥

सेनाधिकार, परदेशके समस्त व्यवहारोंका अधिकार, द्रव्याधिकार और धननीतिका अधिकार इतने अधिकारोंको भारतवर्ष जैसे प्राप्त कर सके, वैसा यह महासभा अपने प्रतिनिधियोंको भेजकर करेगी ॥२१॥

निष्पक्षमण्डलमथो त्रिटिशाधिराज्ये-

नात्रार्थराशिबिनियोगममुं कृतं तम् ।

किञ्चित्परीक्ष्य नियतं विदधीत देयं
किं भारतेन किमथाङ्गुलभुवेति तत्र ॥२२॥

बृटिश सरकार द्वारा किये गये हुए इस घनव्ययकी कोई निष्पक्षमण्डल जाँच करके फैसला करे कि उसमेंसे कितना भारतको देना चाहिये और कितना इङ्गलैण्डको ॥२२॥

प्राप्तं भवेच्च समभागभुजोर्द्वयोस्त-
त्यार्थक्यमाश्रयितुमेव समांशितायाः ।
स्वत्यं यथेच्छमिति चापि महासभा सा
सम्प्रेष्य तत्प्रतिनिधीनवधारयेत् ॥२३॥

कांग्रेस और सरकार इन दोनों भागीदारोंको भागीदारीमेंसे छूट जानेका अधिकार प्राप्त हो, इसकेलिये भी महासभा अपने प्रतिनिधियोंको भेजकर निश्चय करायेगी ॥२३॥

लाभाय भारतभुवो ननु कोपि बन्ध
आवश्यकस्तदपहानमपेक्षितं वा ।
तत्सर्वसाधनविधौ प्रभवो भवेयुः
सम्प्रेषिताः प्रतिनिधिप्रमुखाः सभायाः ॥२४॥

भारतभूमिके लाभकेलिये यदि कोई बन्धन आवश्यक होगा अथवा किसी बन्धनका तोड़ डालना आवश्यक होगा तो उसके करनेकेलिये, महासभाके भेजे हुए यह प्रतिनिधि समर्थ होंगे ॥२४॥

ता गोलसंसदुपपादितगोष्ठिकाभिः
संपादिता व्यवसितीर्विनिवेदनानि ।
साम्राज्यनिश्चयभृतानि महाप्रधान-
संघोषितानि मनसाऽमनमेव शान्त्या ॥२५॥

राउण्ड टेबल का-ग्रेस—गोलमेज परिषत्की बनायी हुई उपसमितियोंके द्वारा किये गये निर्णयोंको और महाप्रधानके द्वारा घोषित साम्राज्यके निश्चयसे युक्त निवेदनोंको मँने मन लगाकर शान्तिसे मनन किया है ॥२५॥

ज्ञातं मया तदखिलं परमात्ममेव
ध्येयान्महापरिपदोऽस्ति ततो न गृह्यम् ।
न्यूनाधिकप्रचने प्रभुरस्मि किन्तु
तच्छासनानुगतवस्तुनि नान्यथैव ॥२६॥

गुह्ये मादक्ष्य हुआ कि, यह सब निर्णय और वह सब निवेदन, महा-
सभाके प्रेयसे बहुत ही अल्प है अत एव उनका अदृग नहीं हो सकता है ।
न्यूनाधिक करनेमें मैं समर्थ हूँ परन्तु इस सामर्थ्यका उपयोग मैं उनीधस्तुने
कर सकता हूँ जो महासभाके शासनके अनुकूल हो, अन्यथा नहीं ॥२६॥

दिस्त्यां महापरिपदा सितशासनेन
सम्पादितं तमभिपन्थिमहं स्मरामि ।
सात्रोररीकृतवती च समूहवन्त्र-
सिद्धान्तमेव चिरमौढ्यविचारपूर्वम् ॥२७॥

दिल्लीमें महासभा और सरकारके बीचमें पवित्र और छुन्दर खनि
हुई है । उसमें भी महासभाने बहुत समय तक प्रशस्त विचार करके,
समूहवन्त्र सिद्धान्तको ही स्वीकार किया है ॥२७॥

तत्रैतया परिपदा ह्यधिमध्यवर्ति-
सत्तं प्रजाधिकृतिरप्युरीकृताऽस्ति ।
ये हिन्दुसभजनकाः समयया मतास्ते
ग्राह्या भवेयुरिति चापि तदीयमिष्टम् ॥२८॥

दिल्लीमें महासभाने यह भी स्वीकार किया है कि मध्यवर्ती सत्तामें
प्रजाका अधिकार होना चाहिये । और हिन्दुस्तानके शिक्कारक नियम
राज्यसे स्वीकार कराये जायें, यह भी महासभाका इष्ट है ॥ २८ ॥

सम्यन्धहानमय पूर्णतया नहीष्टं
हिन्दीयतत्परिपदो मिटिशस्य किन्तु ।
श्रीभारतेन सह तत्स्यसमादितात्वं
स्वीकृत्यमत्र सुखतः स्वपितासथेच्छम् ॥२९॥

भारतीय महासभाको पूर्णतया ब्रिटिशका सम्बन्धत्याग इष्ट नहीं है ।
किन्तु वह भारतके साथ अपनी भागीदारीका स्वीकार करके यहाँ अपनी
इच्छाके अनुसार रह सक्ता है ॥ २९ ॥

स्वं ब्रिटिशी प्रकृतिमेव पुरा स्म मन्ये
सोऽहं भजन्नरपतेः प्रतिरोधिभावम् ।
नो कामये कथमपीह समाशितां तां
साम्राज्यके प्रकृतितन्त्रगतौ च सेष्टा ॥३०॥

जो मैं अपनेको ब्रिटिशकी प्रजा मानता था वह मैं आज राजाका
प्रतिरोधी होकर बैठा हूँ । मैं किसी प्रकारसे भी साम्राज्यमें तो नहीं परन्तु
कॉमनवेल्थमें उस भागीदारीको चाहता हूँ ॥ ३० ॥

भागित्वमेतद्व्यकल्पितमत्र न स्या—
द्विन्दीयराष्ट्रसदसा परिभञ्जनीयम् ।
नैतद्भवेद्यदि परस्परलाभदायि
विच्छेद्यमेव भविता नियतं तदानीम् ॥३१॥

इस हिस्सेदारीको राष्ट्रिय महासभा नहीं तोडेगी । परन्तु यदि इससे
एक दूसरेको कुछ लाभ न होगा तो अवश्य ही तोडी जा सकेगी ॥ ३१ ॥

स्याद्भारतं यदि वश करवालशक्त्या
नीतं भवेत्प्रकृतिकोप इहेति सत्यम् ।
प्रेम्णा भजच्च सह तेन समाशुभुक्तवं
सहयोगमेव लभता ब्रिटिश सदैव ॥३२॥

यदि हिन्दुस्तानको तलवारसे वशमें किया जायगा तो यह बिल्कुल
सत्य है कि प्रजामे क्रोध उत्पन्न होगा । यदि ब्रिटिश प्रेमसे भारतके साथ
हिस्सेदारी निभावे तो भारतका सहयोग ही वह पाता रहेगा ॥ ३२ ॥

आवश्यकं यदि भवेत्तु यहच्छयैव
साहाय्यमारचयितुं ब्रिटनस्थ हिन्दः ।

युद्धेपि कुत्रचिदलं स समुद्यतः स्या—

त्कुतुं शिषं निखिलमानवदेहभाजाम् ॥ ३३ ॥

यदि आवश्यकता पड़े तो ब्रिटनकी सहायता करनेकेलिये हिन्द किसी युद्धमें भी तैयार हो सकता है। परन्तु वह युद्ध यदि समस्त जगत्का कल्याण करनेवाला हो तो ॥ ३३ ॥

स्वातन्त्र्यमस्मद्वनेरपि कामितं मे

नो लुण्ठितुं क्वपि देशमथापि जातिम् ।

सर्वाधिकारसमतामुररी न कुर्यां

योग्यो भवामि नहि तत्परिलब्धयेऽहम् ॥३४॥

हमको हमारे देशकी भी स्वतन्त्रता किसी अन्य देश या जातिको छूटनेकेलिये नहीं चाहती है। यदि मैं सबके अधिकारकी समानताका स्वीकार न करूँ तो मैं भारतकी स्वतन्त्रता पानेके योग्य नहीं हूँ ॥ ३४ ॥

अल्पीयसी विरलसाम्यगुणा च धीरा

दास्यं विजित्य परिलब्धयशाः प्रजैका ।

वारान्वहनबलरक्षणघोषणाऽपि

चक्रे तथा स्ववदनेन जगद्धिताय ॥३५॥

एक प्रजा (ब्रिटिशप्रजा) थोड़ी है परन्तु वीर है, उसमें ऐसे गुण हैं कि ब्रिटनकी ममता मिलनी कठिन है, दासताको चीतकर कीर्ति प्राप्त कर चुकी है और जिसने निर्धलीकी रक्षाकी घोषणा अपने मुँहसे अनेकों बारकी है ॥ ३५ ॥

भूतार्थशारदशशिप्रतिभाच्छकीर्तिः

शौर्यातिरोमपरिहर्षणसत्कथाद्वया ।

हिन्दूमुहम्मदितिरिस्तगपारसीकै

रम्याऽपराऽय महनीयगुणा प्रजैका ॥३६॥

एक प्रजा (भारतीय प्रजा) ऐसी है जिसको भूतकालके पादोंके

कारण शरच्चन्द्रके समान शुभ्रकीर्ति प्राप्त है, उसके पास अपने ऐसे ऐसे इतिहास हैं कि उसकी शूरतासे रोवें रखे हो जाते हैं, हिन्दु, मुसलमान्, ईसाई और पारसी लोगोंसे जो रमणीय है और जिसमें अनन्त गुण हैं ॥ ३६ ॥

सर्वस्य संस्कृतिगणस्य महद्दकेन्द्रं
हिन्दोऽस्ति हिन्दुयवनौ यदवाप्नुयाताम् ।

एक्यं तदा हितकरः कतरश्च हिन्दः

स्वाधीनतामुपगतः परतन्त्रतां वा ॥३७॥

हमारा यह हिन्दुस्तान सर्व संस्कृतियोंका केन्द्र है । यदि हिन्दु और मुसलमान् एकता प्राप्त करें तो कौन हिन्दु हितकर सिद्ध होगा—स्वाधीन वा पराधीन ? ॥ ३७ ॥

स्पृणोऽयमस्ति मम वः पुरतो मयाद्य

स्पृष्टीकृतोऽत्र लवतोऽपि न मैपवेपः ।

न्यूनं यदस्तु परिपूरयितव्यमत्र

युष्माभिरेव वचसो मम नावकाशः ॥३८॥

यह मेरा स्वप्न है, इसे मैंने आप लोगोंके समक्ष स्पष्ट कर दिया है । इसमें मैप-वेप-कपटभेख कुछ नहीं है । मेरे इस कथनमें जो कमी हो, उसे आपलोग पूरा कर लें । मेरे कहनेकेलिये जगह नहीं है ॥ ३८ ॥

आगच्छतो विगलतोऽपि समांशभाज

इष्टा परं भवति तद्व्ययहारशुद्धिः ।

तस्मादृणे नहि कदाचिदपीह दूष्या

तन्निर्णयाभिलषणेन महासभा स्यात् ॥३९॥

कोई हिस्सेदार चाहे आवे या चला जाय, परन्तु उसके व्यवहारकी शुद्धि अथवा त इष्ट है । अतः महासभा जो सर्कारी ऋणके सम्बन्धमें निर्णय करानेकी इच्छा रखती है, इसकेलिये उसे बुरा नहीं कहा जा सकता ॥३९॥

देवस्य तत्सुपरिषीक्षणमथ निष्पत्त्या—

एभाय भारतभुवो नहि केवलयाः ।

निदचप्रचं त्रिटिनमप्युपलप्स्यते तं

तस्मात्परीक्षणनिर्दं परमोपयोगि ॥४०॥

देव—कनकी समीचीन परीक्षा केवल भारतपर्यंके ही सामर्थ्यलिङ्गे नहीं है; मत्स्युत यह सर्वथा निश्चित है कि उक्त सामर्थ्यो वृद्धन भी प्राप्त करेगा । अतः यह परीक्षा बहुत ही उपयोगिनी है ॥ ४० ॥

हिन्देन यद्भवति घन्यगृणं प्रदेयं

नो तस्य राष्ट्रसभया क्रियतेऽपलापः ।

तस्माच्च तद्व्यमथदयमिहासृजाऽपि

निःशेषतः मुकृतयः प्रतिशोधयाम ॥४१॥

धर्मपुत्र को ऋण हिन्दुस्तानके दिखसेमें पड़ेगा उसके देनेकेलिङ्गे राष्ट्रीय महासभा सभी भी इन्कार नहीं कर सकती । भारतीयसभका कचरिखनी प्रजा है अतः हम शोग उक्त ऋणको अपने रक्तसे भी अवरुध अदा करेंगे ॥ ४१ ॥

अस्यां च हन्त ! समिती नियतान्समस्ता —

नालोक्यन्प्रतिनिधीनह्मातंभाषम् ।

यातो यतो न जनता वृणुते स्म तांस्त—

निमर्ष्येय भाति समिते रचना समस्ता ॥४२॥

ऐस है कि इस समितिमें नियत किये गये समस्त प्रतिनिधियोंको देगकर मैं दुःखित बना हूँ; क्योंकि इन प्रतिनिधियोंको बनताने पगन्द नहीं किया है । और हकीमिये गनिठिठी कागं रचना कृतो निष्पत्ती भी प्रतीत हो रही है ॥ ४२ ॥

अस्यां विषादविततोर्न विनोश्यतेऽन्तो

नो वा हतो भवति कारि ततः पलात्ता ।

एवं स्थिते तदवशिष्टमनेकवस्तु—

व्रातं विलोड्य ननु निष्फलतां व्रजेम ॥४३॥

इस समितिमें जो विवाद चल रहे हैं उनका अन्त दिखायी नहीं पड रहा है। ऐसी स्थितिमें बचे हुए जो अनेक वस्तु-विषय हैं उनको मथकर भी हम लोग निष्फल ही रहेंगे ॥ ४३ ॥

पारेन्वुघेरिह तु नो निवृत्तकार्यहाना—

दानाप्य किन्न मुराभागमधीक्षपक्ष्याः।

गृह्णन्तु ते यदि भवेयुरजिह्वचित्ता

यः कोऽपि निर्णय उदेप्यति नात्र शङ्का ॥४४॥

सम्राट्के पक्षके लोग, हम लोगोंको हमारे कामोंसे—कर्तव्योंसे छुडाकर यहाँ समुद्रपार बुलाकर, अग्रभाग क्यों नहीं ग्रहण करें ? वह लोग यदि अपने हृदयको सरल बना लें तो कोई भी निर्णय अवश्य हो सकेगा, इसमें शङ्का नहीं ॥ ४४ ॥

हिन्दीयभूपतिगणाय निवेदयामि

स्वायोजितामधिसमित्यथ योजनां याम्।

ते स्थापयेयुरिह तत्र ननु प्रजानां

स्थानं भवेदिति भवेच्छिवदा समेषाम् ॥४५॥

भारतीय नरेन्द्रोंसे मैं एक प्रार्थना करता हूँ। इस समितिमें वह लोग अपनी जिस आयोजित योजनाको रखना चाहें उसमें प्रजाको स्थान भी यदि अवश्य ही मिले तो वह योजना सबको हितप्रद होगी ॥ ४५ ॥

ते स्युर्नवाऽत्र मिलिताः समवायतन्त्रे

यद्रोचतां तदिह ते विदधत्वमङ्गम्।

मार्गप्रदानमिति नः कृतिरस्तु तेभ्य—

स्तेषां च साऽस्मदनुकूलपथाधिसृष्टिः ॥४६॥

वह लोग इस समूहतन्त्रमें शामिल हो या न हो, जैसा उन्हें रुचे

ऐसा यह करें। उनको मार्ग देना हमारा कर्तव्य है और हमारे अनुकूल मार्ग बनाना उनका कर्तव्य है ॥ ४६ ॥

संयोजितो द्रढयितुं निजराजसत्तां
वीतंस एष इति वक्तुमहं न शक्नुे ।
यद्येवमस्तु विजयोस्तु चिराय वोऽन्न
पार्यक्यमेप्यति च हिन्दिमहासभाऽतः ॥४७॥

इसमें क्या सन्देह है कि यह सारीकी सारी योजना अपना राजमत्ताको हट करनेकेलिये बनायी गयी है ! यदि सचमुच ऐसा ही है तो आपका क्या हो, और महासभा इसमेंसे अलग हो जायगी ॥ ४७ ॥

यां योजनां समनुसृत्य कदापि नैव
स्वातन्त्र्यपादप इहास्तु समृद्धिशीलः ।
सन्त्यज्य तां दहलवर्षाणं सभा सा
सञ्जाऽदितु च विपिनाद्विपिनं तदर्धम् ॥४८॥

जिस योजनाके अनुसरण करनेपर स्वतन्त्रता कभी मिल ही नहीं सकती है, उसे छोड़कर निश्चय ही, हमारी महासभा अक्षरणीय वर्षोंतक वन वन में अपनी इष्टसिद्धिकेलिये भटकनेको तैयार है ॥ ४८ ॥

ऊरीकरोति नितिलामथ भारतार्थं
तां योजनामिति घचो नितरामसत्कम् ।
यद्विन्द्वयोपिद्रुणैरपि धिक्वृत्तं त—
द्वैशेषिकं प्रतिनिधित्वमिदं हि साक्ष्यम् ॥४९॥

और जो यह कहा जाता है कि इस योजनाको आपा भारत निस्सन्देह-रूपसे स्वीकार करता है, यह कहना व्यत्यन्त असत्य है, जिस रास प्रति-निधित्व की किसीने भी उपेक्षा की है वही इस विषयमें गवाह है ॥४९॥

भूपश्य वक्तुमिति सङ्घ्यतीह न्यात्मा
हिन्दे शताभिघतुरान्परिहाय लोकात् ।

सर्वे जना अनुसरन्ति महासभां त—

त्सत्यं परं परमसत्यमतो विरुद्धम् ॥५०॥

एक और भी बात कहनेमें मुझे सङ्कोच नहीं होता है। हिन्दुस्तानमें १००में से ३-४ आदमियोंको छोड़कर बाकी ९६, ९७ आदमी महासभाके ही अनुयायी हैं। यही सत्य है। और इसके विरुद्ध सब असत्य है ॥५०॥

ईदृश शासनमिदं यदि भारतीय—

लोकानुमोदनपरीक्षणमस्मि सन्नः ।

अल्पभ्रमादिह भविष्यति सुप्रकाशं

सर्वांशतोऽस्ति यत्तने मम सत्यतेति ॥५१॥

यदि सरकार यह परीक्षा करना चाहे कि कितने भारतीयोंका अनुमोदन सरकारके बंधारणके साथ है तो मैं इसकेलिये तैयार हूँ। थोड़े भ्रमसे ही यह विदित हो जायगा कि सर्वांशमें मेरी बातमें सत्यता है ॥ ५१ ॥

हिन्दीयमन्दिगृहरक्षितपब्जिकातो

हिन्दीयराष्ट्रियमहासदसोऽपि तस्याः ।

मारो भवेदथ न वेदितुमित्यनेके

मौहम्मदा अपि च तामनुयान्ति नित्यम् ॥५२॥

हिन्दुस्तानके जेलोंमें जो रजिष्टर रखे हुए हैं अथवा कांग्रेसके जो रजिष्टर हैं उनसे यह जान लेना कठिन नहीं होगा कि मुसलमान् भी कांग्रेसके सदा अनुयायी हैं ॥ ५२ ॥

मौहम्मदा अपि खिरिस्तजना अपीह

कार्पासयन्त्रपतयो धनशालिनोऽपि ।

ये हाडिकाश्च कृपकाः श्रमिकाश्च तेऽपि

सन्त्येव तस्य महतः सदसः सदस्याः ॥५३॥

मुसलमान्, ईसाई, मिलमालिक, इलचलानेयाले, किसान, मजदूर सभी महासभाके सदस्य हैं ॥ ५३ ॥

सन्दर्शितं सुगतिं वर्त्म महासमित्या
त्यक्त्वा निजेच्छमभितो नियमानुसृष्टिः ।

इष्टा भवेद्यदि तदा परि योजनायाः
स्थास्याम एव किल कृत्रिमराज्यतन्त्रान् ॥५४॥

महासभाके बताये हुए मार्गको छोड़कर यदि स्वेच्छासे नियम बनाना पसन्द हो तो इस योजना और कृत्रिम राज्यतन्त्रके बिना ही हम रहेंगे ॥५४॥

हिन्दूमुहम्मदिसिखेभ्य इहास्तु रुच्यो
यो निर्णयः स सभयाऽप्युररीकृतः स्यात् ।

संख्याल्पतां च दधतीः प्रति सा तु जाती—
र्न स्वीकरिष्यति पुनः पृथगासनानि ॥५५॥

हिन्दू, मुसलमान् और सिक्ख इन तीनोंको जो निर्णय रुचिकर हो, महासभा भी उसे स्वीकार कर लेगी । अल्पसंख्यक जातियोंकेलिये पृथक् निर्वाचनको तो महासभा नहीं ही स्वीकार करेगी ॥ ५५ ॥

सर्वाधिकप्रियजनोऽस्म्यहमन्यजानां
तेषां हितं प्रियमथास्ति ममासुतुल्यम् ।

लब्ध्वाधिपत्यमसपत्नमपि त्रिलोक्या—
स्त्यक्ष्यामि नैव हितमत्र कदापि तेषाम् ॥५६॥

अन्यजोंका सबसे अधिक प्रियजन मैं ही हूँ । मुझे उनका हितप्राणोंसे भी अधिक इष्ट है । तानों लोकोंका बिना किसी शत्रुके ही, राज्य मिलनावे तो भी उनके हितको मैं त्याग नहीं करूँगा ॥ ५६ ॥

मौहम्मदाः सततमेव मुहम्मदीयाः
श्रीनानकानुगतसिक्खगणोऽपि सैव ।

स्थास्यन्त्यमी सितकलेवरकास्त्रयैवाऽ—
सृश्या भवेयुरथ नो सततं हि निष्टयाः ॥५७॥

मुसलमान् हमेशा मुसलमान् ही रहेंगे एवं सिक्ख भी सदा सिक्ख

ही रहेंगे । और अंग्रेज भी अंग्रेज रहेंगे । परन्तु यह अन्त्यज सदा अस्पृश्य नहीं रहेंगे ॥ ५७ ॥

सन्त्युन्नतिप्रणयिनो बहवोऽथ हिन्दु—

ध्वस्तृश्यताघविलयाय कृतप्रतिज्ञाः ।

हिन्दीयराष्ट्रियसभाऽपि ततोऽन्त्यजाना—

मुद्धारकर्मणि रता सततं सतर्का ॥ ५८ ॥

हिन्दुजातिमें बहुतसे संशोधक—मुधारक इस अस्पृश्यतारूप पापको नष्ट करनेकेलिये प्रतिज्ञा ले कर बैठे हैं । अतः महासभा भी सतर्क होकर अन्त्यजोंके उद्धारकार्यमें लगी हुई है ॥ ५८ ॥

सन्वन्त्यजा यदि मुहम्मदिधर्मशीलाः

खैस्ता भवन्त्वथ कथंचिदिदं सहिष्ये ।

प्रामेषु हिन्दुजनता लभतां विभक्तिं

सह्यं भवेन्न मम वस्तु कथंचिदेतत् ॥ ५९ ॥

अन्त्यज भाई यदि मुसलमान बन जायें या ईसाई बन जायें, इसे तो मैं जैसे तैसे सह लूँगा; परन्तु गाँवोंमें हिन्दु प्रजा विमक्त होकर रहे, यह वस्तु मुझे कभी भी सह्य नहीं है ॥ ५९ ॥

अस्पृश्यताऽभिलभतां यदि हिन्दुधर्म

संजीवनं भवति चेष्टतमः प्रणाशः ।

तस्याद्य मे परमहं सुदृढं विजाने

साऽसौ शनैरपसरत्यप हिन्दुधर्मात् ॥ ६० ॥

यदि हिन्दू धर्ममें अस्पृश्यता जीती रह जाय तो मुझे मरण ही अधिक दृष्ट हं गा । परन्तु मैं विश्वासपूर्वक जानता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मको छोड़कर धीरे धीरे जा रही है ॥ ६० ॥

हिन्दूसमाजरचनाक्रममेव

नाद्य

हिन्दुस्थितिं च निरुत्थितां परिचिन्वते ते ।

ये राजनीतिविषयेऽन्यत्रघन्धुवर्गं
चाच्छन्ति कर्तुमभितः पृथगेव सर्वम् ॥६१॥

जो लोग राजनीतिमें अन्यत्र-घुवर्गोंको भलग्न करना चाहते हैं वह लोग हिन्दूसमाजकी रचनाके क्रम को नहीं ही जानते हैं ॥६१॥

नूनं जगद्यदि भवेदरिणं प्रतीपं
स्यामेक एव जगतोह हरीच्छया चेत् ।
प्राणार्पणावधि विरोधमहं विधास्ये
विश्लेषणातुरचनेऽत्र तथापि तेषाम् ॥६२॥

यदि एका सभार प्रतिकूल हो जाय और भगवदिच्छासे मैं जगत्में अकेला ही रह जाऊँ तो भी अन्त्यजोंके पार्थक्यका मैं प्राणान्त विरोध करूँगा ॥ ६२ ॥

एवं विषोष्य सकलेषु विदर्पदारी
शृण्वत्सु तेषु परिषद्गृहसंस्थितेषु ।
कार्त्तं प्रताय सितकीर्तिकलाधरोऽसौ
कीर्तिं सितामहापतो न्यवृत्तस्वदेशम् ॥६३॥

समस्त समासदोंके सुनते हुए, सबके बहहकारको फाड़नेवाले, सुत्र-कीर्तिकलाधर श्रीमहात्माजी भारतभूमिके यशका विस्तार करके भारतको लौट आये ॥ ६३ ॥

सुम्नापुरीं धतिपतिः समगाद्यदाऽसौ
सञ्चक्रुरेनमधिकप्रतिमानयन्त ।
संधीक्ष्य तत्पदपयोजयुगं पवित्रं
ते मेनिरे निजजनिं परमा पवित्राम् ॥६४॥

जब श्रीमहात्माजी भारतमें, बम्बईमें आये, बड़े बड़े प्रतिभाशालियोंने भी उनका स्वागत किया । उनके पवित्र चाणक्यमलोंके दर्शन करके खायोंने अपने जन्मको पवित्र समझा ॥६४॥

अब्दुल्फार—शिरवानि—जवाहिराणां
कारानिधासर्वपदा व्यथितान्तरत्ना ।

लज्जामवाप किल वज्रवसुन्धरायां
बालाकृतं सिततनोर्दननं निशम्य ॥६५॥

श्रीयुत अब्दुलगफ्फारखॉं, श्रीशेरवानी और श्रीजवाहिरलालजीके कारानिवासके दुःखसे दुःखित होकर, बङ्गालमें दो बालिकाओंके द्वारा एक बंग्रेजके किये गये बधको सुनकर श्रीमहात्माजी लजित हो गये ॥६५॥

आजादभूमिमधिगत्य परस्सहस्रा—
ह्योकानुपादिशदयं कर्णावनीन्द्रः ।

आगामिनि प्रधान ईहितसिद्धिकामै—
भोष्यं दृढ शतभुगल्लसहैर्नितान्तम् ॥६६॥

दयालु श्रीमहात्माजीने वहाँ आजाद मैदानमें जाकर हजारों आदिमियों को उपदेश दिया कि आगामी युद्धमें जाकर अपने मनोरथकी सिद्धि चाहनेवाले भाई, बन्दूकमें सड़न करनेवाले बन जायें ॥६६॥

त्यक्तं भवेन्मृतिभयं मम बन्धुभिश्चे—
त्को नाम लाभ इह नैव भवेत्प्रलब्ध ।

अस्मान्निजार्थपरिपोषककृत्यदक्षा—
न्मुक्तिं भजेत ननु भारतसद्य राज्यात् ॥ ६७ ॥

बदि हमारे भाई मृत्युका भय छोड़ दें तो वह कौनसा लाभ है जो न मिल जाय ! अपने स्वार्थको पुष्ट करनेमें प्रवीण इस राज्यसे भारत आज ही मुक्ति पा जाय ॥ ६७ ॥

अन्यायवद्विपरिचुम्बितविग्रहाश्चे—
त्सीत्कारमप्यथ मुखान्न बहिर्नयाम ।

जित्थैव वसद्ददयं सितकायकानां
नूतनं भवेम विजयद्विसमर्चितास्तु ॥६८॥

अन्यायकी आत्से जलाये जानेपर भी यदि हमारे मुखासे “सीक्कार” शब्द भी बाहर न निकले तो अवश्य हम अंग्रेजोंके वज्रसमान हृदयकी जीतकर विजयी हो सकेंगे ॥६८॥

येऽद्याऽन्त्यजा मयि विधेः प्रतिकूलतायाः

कोपं दधत्यथ भविष्यति विष्ट एते ।

महेहमेतमवदाय

पयोधिमघ्ये

ते चेत्क्षिपेयुरनृणा ऋ न तथाप्यमान्याः ॥६९॥

भाष्यकी प्रतिकूलताके कारण जो अन्त्यज भाई ध्यान मुहापर श्लोष कर रहे हैं वह यदि बल्ह मेरे इस शरीरको टुकड़े टुकड़े करके समुद्रमें फेंक दें तो भी उनका अपमान नहीं करना ॥६९॥

सम्प्रैपयहल्मनुद्धतवृत्तिरम्यो

वीलिङ्गुडनेऽपगतये हृदयस्य तस्य ।

कायं च कि कथमिहास्तु मयेति सर्वं

प्रष्टुं दयासरिदधीश्वर एष सद्यः ॥७०॥

शान्तवृत्तिवाले होनेके कारण अति रमणीय, दयासागर श्रीमहात्माजीने लार्ड विलिंग्टनको, उनके हृदयका भाव जाननेकेलिये, लिखकर पूछा कि अब मुझे क्या और कैसे करना चाहिये ॥७०॥

पप्रच्छ तं स यतिराडिति धापि यन्मे

सर्वं सहायकरणस्त्वयका गृहीतः

कस्मात्क्षुतोऽदयतया ज्वलनैः प्रदग्धाः

सीमानिधासनिरता यथना अर्हिस्राः ॥७१॥

श्रीमहात्माजीने वाइसरायको यह भी पूछा कि मेरे सब साधियोंकी

ॐ अनुणा ! इस विशेषणका यह आशय है कि यदि अन्त्यज महारमाजीकी मार डालें तो उनके मरनेसे सारा देश उन्नत हो जायगा—अन्त्यजोंके साथ देशने जो अन्याय किया है उस अपराधसे यह छूट जायगा

आपने क्यों पकड़ लिया । तथा निर्दयताके साथ सीमाप्रान्तके अहिंसक सुखलमान बन्धुओंको गोलियोंसे क्यों जला दिया गया ? ॥७१॥

बङ्गेषु नूतनविधाननिधानसेत—
त्किं चिन्तयञ्जनमनस्तपनोपमाहम् ।

प्राचार - यस्तदपि वेत्तुमये मदीयं
चेतः कुतूहलपरं शमयाशु तच्च ॥७२॥

यह भी लिखा कि—क्या विचारकर आपने बङ्गालमें लोगोंके दिलको बलानेवाले नये कायदोंका प्रहार किया है ? इसको जाननेकेलिये मेरे मनमें कुतूहल है । अतः उचर देकर मेरे मनको शान्त करें ॥७२॥

जन्मानुजो भवति नः परतन्त्रताया
हानेऽधिकार इति न श्रुवता कदाचित् ।
अब्दुगफारसुधिया रचितोऽपराधः
कस्माद्भूष तव बन्धगृहातिथिः सः ॥७३॥

जन्मके पश्चात् ही परतन्त्रताके नाश करनेका अधिकार हम लोगोंको प्राप्त है, ऐसा कहनेसे श्रीअब्दुल गफारखाने कोई अपराध नहीं किया था । तब भी वह आपके कैदी कैसे बन गये ? ॥७३॥

ॐ स्वराज्य मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है । इसी वस्तुको प्रकट करनेकेलिये “जन्मके पश्चात् ही परतन्त्रता नाश करनेका अधिकार हम लोगोंको प्राप्त है” ऐसा कहा गया है । जन्मके पश्चात् ही इस कहनेका तात्पर्य यह है कि इस अधिकारको प्राप्त करनेमें जन्मके बाद इतना अव्यतम समय लगा कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती । अतः इसका अर्थ “जन्मके साथ ही” हो जाता है । वस्तुतः तात्पर्य तो यह है कि जीव तो स्वतन्त्र ही है । परतन्त्रता तो आंशिक वस्तु है । उस उपाधिके तोड़नेका भान तो जन्मके पश्चात् ही होता है । अतः यह प्रयोग उचित ही है ।

लाहोर एव नगरे सभयाऽपि सम्य—

कर्यं तदेव समघोषि . विचारपूर्वम् ।

तल्लन्दनेऽसकृदिहापि मयापि तारैः

स्पष्टाक्षरैर्निगदितं न कथं प्रवेत्सि ॥७४॥

लाहोरमें ही, महासमाने भी इस तत्वकी भले प्रकार घोषणा कर दी है । मैंने भी अनेकवार इस स्वतन्त्रताकी बात हिन्दुस्तानमें भी की है । लन्दनमें भी मैंने स्पष्ट शब्दोंमें इस बातकी घोषणा की थी । इन सबको आप क्यों नहीं समझते ? ॥ ७४ ॥

एषोऽपराध

इतिचेद्भवत्प्रतीतः

किं प्रेषितोऽहमतिथन्नपरेण तात !

तद्गोलसंसदि सदस्यतया त्वयैव

सुप्तं स्मृतिं स्मरसि किं न विचारदक्ष ॥७५॥

यदि ऐसा करना आपको अपराध मान्य हुआ तो आपने मुझे बहुत प्रयत्न करके गोलमेजी परिषद्में सदस्य बनाकर क्यों भेजा ? इस सोई हुई स्मृतिको क्यों नहीं स्मरण करते ? क्या नहीं जगाते ? ॥७५॥

प्राप्तं भवेन्न यदि योग्यमलं त्वदीयं

शुद्धोत्तरं सपदि तत्पुनरप्यजस्रः ।

युद्धानलोऽत्र भविता ज्वलितो न तत्र

दूष्यो भवामि कथमप्यथ केनचिद्वा ॥७६॥

यदि शीघ्र ही आपका कोई शुद्ध-उत्तर, स्पष्ट-उत्तर मुझे नहीं मिलेगा तो पुनः युद्धकी आग मड़केगी और उसका नाश नहीं होसकेगा । और तब मुझे दोष मत देना ॥७६॥

तद्भारतातिहरणोत्सुकचेतसोऽस्य

पत्रं प्रपठ्य यतिमूर्धविभूषणस्य ।

क्रुद्धोऽभवत्प्रतिनिधि सितकायसंभू—

द्रूपस्य सत्त इय लार्डविलिड्गडनोऽसौ ॥७७॥

भारतके दुःखोंके हरनेवाले ❀ यतिराज श्रीमहात्माजीके इस पत्रको पढ़कर वाइसराय क्रुद्ध होकर पागलके समान हो गये ॥७७॥

आज्ञापितोऽनयपथे कुपितेन . . . तेन
कोऽप्येप किङ्करवरो मणिमन्दिरात्तम् ।
निन्द्रां गतं मुनिवरं पुरि मोहनय्या
नक्तं निनाय ननु वन्दिपदं प्रबोध्य ॥७८॥

वाइसराय क्रुद्ध हुए । उन्होंने एक बड़े आफिसरको आज्ञा दी । उसने बम्बईमें मणिभुवनमें सोते हुए श्रीमहात्माजीको जगाकर गिरफ्तार कर लिया ॥ ७८ ॥

‡ न देशो नो कालो न हि कमपि वस्तु स्तुतमपि
व्यवच्छेत्तुं तत्त्वं प्रभवति च यन्नित्यमजडम् ।
तदेवाऽनात्मज्ञा . उपलकलनाकल्पितगृहे
यरोडाख्ये ग्रामेऽमनिपत् निबद्धं जडधियः ॥७९॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिभाषकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

प्रयोधिंशः सर्गः

वेदान्तशास्त्रमें त्रिविध परिच्छेद परिगणित है । देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत । अमुक देशमें अमुक वस्तु है और अमुकदेशमें वह नहीं है इसका नाम देशपरिच्छेद है । अमुक कालमें अमुकवस्तु थी और अमुक कालमें नहीं रहेगी और अथ है, इसका नाम कालपरिच्छेद है ।

❀ इन्द्रियोंकी सयम रखनेवालोंकी यति कहा जाता है । गृहस्थ अथवा संन्यासी दोनों ही यति हो सकते हैं । विशेषकर त्यागी-महापुरुषोंके लिये ही इस शब्दका प्रयोग होता आया है । श्रीमहात्माजीके समान त्यागी जगत्में दुर्लभ है । उनके समान सयमके पालन करनेवालेसे आज जगत् क्षुण्य है । अतः उनसे बढ़कर यति मिलना भी कठिन ही है ।

‡ शिखरिणी छन्द ।

अमुक वस्तु अमुक वस्तुके समान है इसका नाम वस्तुपरिच्छेद है। जिस नित्य और अजड चेतन तत्त्वको देश, काल और वस्तु, परिच्छिन्न नहीं कर सकते हैं अर्थात् जो तत्त्व नित्य है, चेतन है और देशकृत, कालकृत, तथा वस्तुकृत परिच्छेदसे परे है उसी सखिदानन्द सर्वव्यापक तत्त्वको अनात्म शानियोने यरोडा ग्रामके तपसरोके बने मकानमें—जेलमें बंधा हुआ—कैद किया गया हुआ मान लिया ॥७९॥

इति सर्वतन्त्रस्वतंत्रस्वामिश्रीमद्भगवद्वाचार्यमहाराजप्रणीते
स्वोपश्रराष्ट्रभाषाटीकासहिते
भारतपारिजाते त्रयोविंशः सर्गः



चतुर्विंशः सर्गः

वसताऽथ सता तेन यरोडाबन्दिमन्दिरे ।

मासाः कतिपये शान्तं निन्द्यरे शान्तिमूर्तिना ॥ १ ॥

यरोडा जेलमें निवास करते हुए शान्तिमूर्ति श्रीमहात्माजीने शान्ति-
के साथ कुछ महीने व्यतीत किये ॥ १ ॥

यत्रिर्गेतुं महात्मासौ लन्दने गोलसंसदि ।

जगाम पूर्वं तत्तन्त्रं घोषितं राज्यमन्त्रिणा ॥ २ ॥

जिस तन्त्रके निर्णयकेलिये श्रीमहात्माजी लन्दनमे गोलमेजी परिषद्में
गये थे उस तन्त्रकी-नूतन शासनविधानकी घोषणा राजमन्त्रीने कर दी ॥ २ ॥

स्वराज्यं दातुकामास्ते भारताय सिताननाः ।

एकं विज्ञापनापत्रं प्रकाशितमकुर्वत ॥ ३ ॥

भारतको स्वराज्य देनेकी इच्छावाले अंग्रेजोंने एक सूचनापत्र
प्रकाशित किया ॥ ३ ॥

भारतातिहरः श्रीमान्सच्चिदानन्दविग्रहः ।

निचिक्षेप दृगाक्षेपं तत्र पत्रे स उत्सुकः ॥ ४ ॥

भारतके दुःख हरनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीमहात्माजीने उत्सुक होकर
उस पत्रमें अपना दृष्टिपात किया ॥ ४ ॥

अन्त्यजानां स हिन्दूतो विच्छेदं तत्र दृष्टवान् ।

अधिकाऽप्युत्थग्दत्तास्तेभ्यो व्यैक्षिष्ट हिन्दुतः ॥ ५ ॥

उस सूचनापत्रमें श्रीमहात्माजीने देखा कि अन्त्यजों और हिन्दुओंको
बलग-बलग कर दिया गया है और हिन्दुओंसे प्रत्यक् अन्त्यजोंको अधिकार
दिये गये हैं ॥ ५ ॥

तस्य चेतः समाक्राम्यच्छोकशङ्कुरनङ्कुशः ।

अङ्गभङ्गः स हिन्दूनाममन्यत महापद्म् ॥ ६ ॥

उनके चित्तपर शोकरूप ब्रह्मेने निरङ्कुश होकर हमला कर दिया ।
हिन्दुओंके अङ्गभङ्गको उन्होंने दुःसह दुःख माना ॥ ६ ॥

अध्यात्मतत्त्ववेत्तासौ भारतात्प्रति मोहनः ।

समर्थोऽपि कथं पश्येत्स्वसिद्धान्तविमाननाम् ॥ ७ ॥

अध्यात्मतत्त्वके जाननेवाले, भारतके प्रतिनिधि श्रीमहात्माजी समर्थ
होते हुए, अपने सिद्धान्तके अपमानको कैसे देखा सकते थे ? ॥ ७ ॥

विधेयं केन विधिना किमस्मिन्विषयेऽहनि ।

सर्वशक्तिनिधिं रामं प्रकाशं समयाचत ॥ ८ ॥

इस विषयमें किस तरहसे क्या करना चाहिये, इसकेलिये सर्वशक्ति-
मान् रामसे उन्होंने प्रकाशकी प्रार्थनाकी ॥ ८ ॥

अंग्रेजसुहृदस्तस्य फ़ादरेणैल्विनेन ते ।

प्रतिशुक्रं जगन्नाथ-प्रार्थनां समचोदयन् ॥ ९ ॥

फ़ादर एलविन्के साथ महात्माजीके सच अंग्रेज मित्रोंने प्रत्येक
शुक्रवारको भगवान्की प्रार्थनाकी प्रेरणा की ॥ ९ ॥

यरोडाबन्दिशालायां महात्माप्यनुयायिभिः ।

ज्योतिर्ज्योतिः स्वरूपेशं सततं याचते स्म सः ॥ १० ॥

यरोडा जेलमें श्रीमहात्माजी अपने साधियोंसहित ज्योतिःस्वरूप
भगवान्से सदा प्रकाशकी प्रार्थना करते थे ॥ १० ॥

निद्रानाशमुपास्यैव स आरात्रि कदाचन ।

उपासीनः परात्मानमकस्माज्ज्योतिराप्तवान् ॥ ११ ॥

एक दिन उन्होंने सारी रात जागरण करके, परमात्माकी उपासना
करते हुए अकस्मात् प्रकाशको प्राप्त किया ॥ ११ ॥

ईशप्रेरणया लब्धं ज्योतिरालिङ्ग्य सन्मनाः ।

सेमुअल्होरमुदिदय प्रैपयत्पत्रमब्जसा ॥१२॥

भगवत्प्रेरणासे प्राप्त हुए इस प्रकाशकी ग्रहण करके उन्होंने शीघ्र ही एक पत्र सेमुअल्होरको भेजा ॥१२॥

पृथङ्निर्वाचनादेशमन्त्यजानां करोपि चेत् ।

उपवत्स्याम्यहं नूनमा - मृत्योरीश्वराज्ञया ॥१३॥

यदि आप अन्त्यजोंके पृथक् निर्वाचनकी आज्ञा करेंगे तो मैं ईश्वरकी आज्ञासे आमरणान्त उपवास करूँगा ॥१३॥

उपवासो ममैपोऽस्तु प्रतिवादाय ते मतेः ।

क्षारमिश्रजलेनैव प्रतीक्षिष्ये मूर्ति पुनः ॥१४॥

यह मेरा उपवास नमक और जलके साथ, आपके विचारके प्रति-
वादकेलिये होगा । मैं मृत्युकी प्रतीक्षा करूँगा ॥१४॥

लोकानामनुरोवेन स्वेच्छया वा भवान्यदि ।

अन्यथयेन्मतं स्वं स्यादुपवासविवासनम् ॥१५॥

लोगोंके अनुरोधसे या अपनी इच्छासे यदि अपने इस विचारको
आप बदल देंगे तो मैं उपवास छोड़ दूँगा ॥१५॥

पृथङ्निर्वाचनं चैतद्वातकत्वेन मे मतम् ।

हिन्दूनां चेद्भ्रमो मेऽत्र भ्रमः सर्वत्र कल्प्यताम् ॥१६॥

यह पृथक् निर्वाचन मेरी दृष्टिमें हिन्दुओंका घातक है । यदि इसमें
मेरा भ्रम प्रतीत होता हो तो, सब वस्तुमें भ्रम ही मान लेना चाहिये ।
अर्थात् मेरे इस कथनमें भ्रम नहीं है ॥१६॥

असंख्यका नरा नाथो विरघसन्तीह ये मयि ।

तेषां भारविमोनाय प्रायदिचत्ताय मे मृतिः ॥१७॥

ॐ यहाँसे १८ वें श्लोकपरक श्रीमहात्माजीरा यह पत्र है जिससे उन्होंने
हिन्दूके प्रधानमन्त्रीको लिखा था ।

असह्य जो स्त्री और पुरुष मुझमें विश्वास करते हैं, उनके श्रेणको दूर करनेकेलिये, यह मेरी मौत प्रायश्चित्तस्वरूप हो ॥१७॥

यद्यपि निर्णयो मे स्यान्निर्भ्रमोऽसंशयं पुनः ।

पूर्णतां नेष्यते नूनं स मे जीवनयोजनाम् ॥१८॥

यदि मेरा यह निर्णय निर्भ्रम होगा तो निस्सन्देह ही मेरे जीवनकी योजनाको यह पूर्ण करेगा ॥१८॥

सेमुअल्होर ' एत सद्भिचारं प्रत्यपद्यत ।

वीतरागस्य रागीशः सोऽन्त्यजानां हितद्विषम् ॥१९॥

रागवान् सेमुअल होरने वीतराग श्रीमहात्माजीके इस विचारको अन्यबोके हितका घातक समझा ॥१९॥

समाधित महात्मासौ भूयो मन्त्रिकुशङ्किकाम् ।

विपरीतंभवद्बुद्धिर्बिचारं मम पश्यति ॥२०॥

सेमुअल होरकी इस झुट्ट और छोटीसी शङ्का उन्होंने पुनः समाधान किया । कहा कि आपकी बुद्धि मेरे विचारको उलटा ही देख रही है ॥२०॥

भवन्मते विचारोऽसावन्त्यजाहितहर्षदः ।

शुद्धधर्मतया नूनं मन्मतावेष तिष्ठति ॥२१॥

आपके विचारमें यह मेरा मत अन्त्यजों के अहितको बढ़ानेवाला है और मेरे मतमें मेरा यह विचार शुद्ध धर्म है ॥ २१ ॥

पृथङ्निर्वाचनं द्वारीकृत्यैतत्तु विपासरः ।

प्रवर्तेत सदा हिन्दूजीवनोच्चासकः परः ॥२२॥

अवश्य ही, इस पृथक् निर्वाचनको द्वार बनाकर सदा हिन्दूजीवनको नष्ट करनेवाला एक बड़ा विपका प्रवाह प्रवृत्त होगा ॥ २२ ॥

अन्त्यजैरपि नो लाभो लप्स्यते कोऽपि तत्कृत्वात् ।

ततो नार्हन्ति ते क्वापि हिन्दुजाते. पृथक्कृतिम् ॥२३॥

उस क्रमसे—पृथक् निर्वाचनके क्रमसे अन्त्यज भी कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे । अतः उन्हें हिन्दुजातिते पृथक् नहीं करना चाहिये ॥२३॥

भूयो भूयो मयाऽघोपि महापातककारकम् ।

अस्पृश्यतां पुरस्कृत्य वर्णान्तरविकल्पनम् ॥२४॥

मैंने बार बार घोपणा की है कि अस्पृश्यताको लेकर अन्त्यजोंके वर्णान्तर होनेकी कल्पना महापापको पैदा करनेवाली है ॥२४॥

हिन्दूधर्मे महत्पापं प्रवृत्तमिदमर्दितुम् ।

प्रवृत्तानां बहूनां स्यादेतस्मात्कार्यंशातनम् ॥२५॥

हिन्दूधर्ममें प्रवृत्त हुए इस (अस्पृश्यतारूप) महापापको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुए बहुतसे लोगोंके कर्मको इस आपकी घोपणासे, बहुत धका लगेगा ॥२५॥

अधिकारिगणाज्ञत्वविनाशनसदिच्छया ।

यतिराजो विचार्यै नमुपमासमजुघुपत् ॥२६॥

अधिकारियोंकी अज्ञानताके नाश करनेकी मुन्दर इच्छासे, यतिराज भीमहात्माजीने विचार करके इस मरणान्त उपवासकी घोपणा कर दी ॥२६॥

निशम्य निश्चयं तस्य सत्यसन्धस्य धीमतः ।

देशे देशे च शोकाग्निरवकाशमवाप्नुत ॥२७॥

सत्यपतिश भीमहात्माजीके इस निश्चयको सुनकर देशमें शोकाग्नि फैल गया ॥२७॥

समस्ते भूतले शोकसांविग्नहृदयैर्जनैः ।

यतिप्राणाभिरक्षार्थं प्रयत्नोपक्रमः कृतः ॥२८॥

समस्त पृथिवीमें रहनेवाले लोग शोकसे ध्याकुल होकर भीमहात्माजीके प्राणोंकी रक्षाकेलिये प्रयत्न करने लग गये ॥ २८ ॥

तेजोबहादुरः सप्रूर्धन्धात्तस्य विमोक्षणम् ।

ययाचे शासनं शीघ्रं पूजितस्य सतां विदाम् ॥२९॥

श्री० तेजबहादुरसमूने सज्जनों और विद्वानोंके पूजित श्रीमहात्माजीके छुटकारेकी प्रार्थना की ॥२९॥

असहायोऽपि यः सर्वं निर्णेतुं साम्प्रदायिकम् ।

क्षमते कलहं तस्य प्राणा रक्ष्यास्तु शासकैः ॥३०॥

जो अकेले ही सभी सम्प्रदायिक झगडेका फैसला कर सकते हैं उन श्रीमहात्माजीके प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिये ॥३०॥

इत्येतां प्रार्थनां समूः शासकान्प्रति सादरम् ।

एकस्यां सार्वजनिकसभायामकरोद्व्यथी ॥३१॥

श्रीयुत समूजीने एक सार्वजनिक सभामें शासकोंसे दुःखित होकर, यह उपर्युक्त प्रार्थना की ॥३१॥

श्रीयाकूबहुसेनोऽपि बन्धून्कौरानिकान्समान् ।

आदिशन्नितिर्लैर्मान्येऽस्मिन्दर्शयितुमादरम् ॥३२॥

श्रीयुत याकूबहुसेनने भी सभी मुसलमान भाइयोंको, समके माननीय श्रीमहात्माजीमें आदर प्रकट करनेकेलिये आशा दी ॥ ३२ ॥

स्ववशीकृतलक्ष्मीको महोदारो दयानिधिः ।

श्रीघनश्यामविडला सेवकश्चान्यजावलेः ॥३३॥

दीनरक्षी च राजेन्द्रप्रसादोऽप्यपरे तथा ।

यतिराज्ञामुरक्षार्थं मिलिताः समघोषयन् ॥३४॥

परम घनवान्, महान् उदार, दयासागर और अन्यजोंके सेवक शैठ श्रीघनश्याम विडलाजी, शरणागतकी रक्षा करनेवाले बाबू राजेन्द्रप्रसाद-जी तथा और भी अन्य लोगोंने एक सम्मिलित घोषणा की ॥३३॥३४॥

द्विजाद्यकुलपाथोजसम्भासनदिवाकरः ।

मालवीय. स मदनमोहनः सर्वमोहनः ॥३५॥

धर्मधी राजगोपालश्चक्रवर्ती तथाऽपरे ।

नेतारो निखिला मान्याः समवेतास्तु संसदि ॥३६॥

ब्राह्मणकुल-कमलदिवाकर पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजी, धर्म-
बुद्धिवाले श्रीराजगोपालाचार्य चक्रवर्ती तथा अन्य भी माननीय नेता
समामें उपस्थित हुए ॥३५॥३६॥

एकस्मिन्दिवसे सर्वैरुपवासः सहेतुकः ।

कार्य एवेति सदसा निरचायि तथा तदा ॥३७॥

उस समाने निश्चय किया कि एक दिन सबको एक विशेष उद्देश्य
लेकर उपवास करना चाहिये ॥३७॥

श्रीपोलको दयाधीमानैण्डूजरच तथाऽपरे ।

अप्रेजमुहदः सर्वे बभूवुश्चिन्तिता परम् ॥३८॥

श्रीयुत पोलक और दयालु ऐण्डूजसाहब तथा अन्य सभी अप्रेज मित्र
अत्यन्त चिन्तित हो गये ॥३८॥

लन्दनेऽन्यत्र चाप्यत्र यथा रक्षा महात्मनः ।

भवेत्तथाऽखिलाः कर्तुं प्रवृत्ताः खिन्नमानसाः ॥३९॥

लन्दनमें भी तथा अन्यत्र भी जिस प्रकारसे महात्माजीकी रक्षा हो,
वह करनेके लिये दुःखितमनसे सब लोग प्रवृत्त हो गये ॥३९॥

श्रीमाल्लेन्सवरीत्याह महात्मा चेदिवं गतः ।

भविता भविता शक्तिर्द्विगुणा तस्य धीमतः ॥४०॥

श्रीयुत लेन्सवरीने कहा कि यदि श्रीमहात्माजी स्वर्ग चले जायेंगे तो
उनकी शक्ति दूनी हो जायगी ॥४०॥

अन्वरीत्सीत्स सपदि मुख्यमन्त्र्यादिकांस्तदा ।

संपर्पजनकं त्यक्तुं निर्णयं चान्यजसृष्टाम् ॥४१॥

श्री० लेन्सवरीने मुख्यमन्त्री आदिकीसे अनुरोध किया कि अन्यजोके
रुग्णधर्म ऐसा निर्णय न करें कि जिससे संपर्प पैदा हो ॥४१॥

लन्दने स्थितिमापन्ता भारताश्च सिताद्भजाः ।

आरात्रि जामतः सर्वे प्रार्थयन्त महेश्वरम् ॥४२॥

लन्दनमें रहनेवाले हिन्दुस्तानी और बहुतसे अंग्रेजोंने सारी रात जागकर भगवान्से प्रार्थना की ॥४२॥

देवतायतनेष्वेतैर्यतीन्द्रशुभवाञ्छया ।

प्रत्येकं भानुघस्त्रे च स्थापितः प्रार्थनाक्रमः ॥४३॥

इन गुणग्राहकोंने प्रत्येक रविवारको देवमन्दिरोंमें प्रार्थना का क्रम रखा ॥४३॥

श्रीमती साफिया जगलुल् पाशाश्च मुस्तफानहस् ।

मिश्रदेशाद्यतीशस्य जग्मतुः समदुःखिताम् ॥४४॥

श्रीमती साफिया जगलुल और पाशा मुस्ताफानहस् मिश्रदेशसे महात्मा जीके दुःखमें भागीदार हुए ॥४४॥

फ्रेण्ड्स् आफ् इण्डिया कृतवान्विधातुं समुपोषणम् ।

विश्वव्यापि समारोहैर्निश्चयं तच्छिवाश्रयम् ॥४५॥

“फ्रेण्ड्स् आफ् इण्डिया” ने बड़े समारोहके साथ विश्वव्यापी उपवास करनेका इस्लिये निश्चय किया कि उससे महात्मा जीको शान्ति मिले ॥४५॥

श्रीमान् श्रीन्द्रनाथोऽपि श्रीमच्छान्तिनिकेतने ।

छात्राणामुपदेशार्थमिति व्याख्यानमावृणोत् ॥४६॥

श्रीमान् कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ टैगोरने भी शान्तिनिकेतनमें अपने छात्रोंके उपदेशके लिये इस प्रकारसे व्याख्यान दिया ॥४६॥

सामाजिकदुराचारनिर्णेजनकृते कृतः ।

उपदेशाय लोकानामुपवासो महात्मना ॥४७॥

लोगोंके सामाजिक दुराचारकी पवित्रताके लिये तथा उपदेश देनेके लिये श्रीमहात्मा जीने यह उपवास किया है ॥४७॥

भेदभावो विपत्तीनां सदा सद्भवपर्यकः ।

तस्मात्तस्य विनाशः स्याच्छान्तिलाभाय सर्वथा ॥४८॥

भेदभाव सदा विपत्तियोंके सद्भावको—सत्ताको ही बढ़ाता है। अतः उसके नाशसे शान्ति मिल सकती है ॥ ४८ ॥

मुम्बापुरीकलिकातामद्रासानां कुल्यङ्गनाः ।

अस्पृश्यत्वविनाशाय प्रयत्नं जगृहुर्मुदा ॥४९॥ .

बम्बई, फलकत्ता और मद्रासकी कुलीन स्त्रियोंने अस्पृश्यताके नाश-केलिये प्रयत्न करना शुरू कर दिया ॥४९॥

एकादशभिरेकत्र संघैः सम्भूय खण्डिता ।

कलिकातानगर्यां तु सेमुअल्होरघोषणा ॥ ५० ॥

फलकत्तेमें तो ११ समाधोंने एकत्रित होकर सेमुअल होरकी घोषणाका खण्डन किया ॥५०॥

विडला यादवः श्रीमांश्चिन्तामणिरनेकशः ।

अनेकाश्च समास्तस्य प्रार्थयन्त यतेर्मुचिम् ॥५१॥

श्रीविडला, श्रीयादव, श्रीचिन्तामणि इन लोगोंने तथा अनेक समाधोंने श्रीमहात्माजीको जेलसे छोड़ देनेकी प्रार्थना की ॥५१॥

शासकाप्रे महात्मासौ हठं संप्राचकाशत ।

यरोडाबन्धनागार उपवासनिषेधणे ॥५२॥

और श्रीमहात्माजीने शासकोंके सामने अपना आग्रह प्रकट किया कि उपवासके दिनोंमें उन्हें यरोडामें जेलमें ही रहने दिया जाय ॥५२॥

शासनेन तदीया सा स्वीचक्रे प्रार्थना तदा ।

यान्कांश्चिदपि सङ्गन्तुं स्वेच्छमेव व्यजिज्ञपत् ॥५३॥

सरकारने श्रीमहात्माजीकी प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया। वह जेलमें ही रखे गये। और सब किसीको स्वेच्छासे मिलने देनेकेलिये भी आशा सरकारने दे दी ॥५३॥

अलिखत्सान्त्वनापत्रं श्रीमान्स्तत्याग्रहाश्रमे ।

वसतो व्याकुलानस्मात्समाचारात्सुधीरिति ॥५४॥

विद्वान् श्रीमान् महात्माजीने इस समाचारसे व्याकुल बने हुए लोगोंको सान्त्वना देनेकेलिये सत्याग्रह आश्रम साबरमती को पत्र लिखा ॥ ५४ ॥

उपवासप्रयोगेण प्राणाहुतिसमर्चनैः ।

आश्रमादर्शयज्ञोऽयं पूर्णतां परिचुम्बतु ॥५५॥

इस उपवासके प्रयोगसे और प्राणोंकी आहुतिके द्वारा पूजन करनेसे यह आश्रमका आदर्शरूप यह पूर्णताको प्राप्त करेगा ॥५५॥

मच्छरीरवियोगाग्निद्ग्धोत्साहपलाशिनः ।

मा यूयं कार्ष्णं सत्कार्यच्छायाच्छेदं कदाचन ॥५६॥

मेरे शरीरके वियोगरूप अग्निसे जल गया है उत्साहरूप वृक्ष बिनका, ऐसे होकर—अर्थात् हिस्साह होकर तुमलोग सत्कार्यरूप छायाका नाश नहीं करना। अर्थात् जो आदमी जो काम करते हैं, उसे यह करते ही रहे ॥५६॥

पुरपैर्महिलावृन्दैः सततं दृढनिश्चयैः ।

भान्यं समुद्यतैर्होतुमात्मनो दुःखपावके ॥५७॥

स्त्रियों और पुरुषोंको, दृढनिश्चयवाले होकर अपनेको दुःखज्वालामें घोंप देनेकेलिये सदा तैयार रहना चाहिये ॥५७॥

पात्रता च ममाप्यद्य विपन्निकपघर्षणात् ।

परीक्षिष्यत एषा सत्परीक्षकगणैर्ध्रुवम् ॥५८॥

सत्परीक्षकलोग आज इस विपन्निकरूप कसौटीपर घिस करके मेरी इस पात्रता—योग्यताकी भी परीक्षा करेंगे ॥५८॥

मृत्योः पूर्वं न कोऽप्यत्र सुखसाम्राज्यभोगिताम् ।

घत्ते चेत्ति घवः सत्यं सोलनस्य विभाज्यताम् ॥५९॥

श्रीसोलनके इस वचनको सत्य ही मानना चाहिये कि “मृत्युसे पूर्व कोई भी सुखका भोग नहीं कर सकता है” ॥ ५९ ॥

मया सम्पादिते त्यागे नात्र स्तो द्वेपरोपणे ।

यूयं विधत्त साक्ष्यं मे नूनं सद्भावसम्प्लुते ॥६०॥

सद्भावपूर्ण मेरे इस त्यागमें द्वेष और रोष यह दोनों ही चीजें नहीं हैं, इस विषयमें तुमलोग ही मेरे गवाह रहना ॥६०॥

ईश्वरेच्छां समाश्रित्य जगद्भ्रमति सर्वथा ।

एतदाचरणं मेऽपि तदिच्छामनुधावति ॥६१॥

ईश्वरेच्छाके आश्रित होकर सब जगत् भ्रमण कर रहा है । मेरा यह कार्य भी ईश्वरेच्छाका ही अनुसरण कर रहा है ॥६१॥

देहासक्तिपरित्यागाद्वैर्यरत्नावलम्बनात् ।

प्रसीदत परं वीक्ष्य परीक्षावसरं मम ॥६२॥

देहासक्तिना त्याग करके और परमधैर्यका आश्रय लेकर मेरी इस महती परीक्षाके अवसरको देखकर तुम लोग प्रसन्न हो ॥६२॥

विषमं पतनं नद्यां नास्ति पारं परं परम् ।

तदवाप्तुं ततः पूर्वं तितीर्षोः नो कृतार्थता ॥६३॥

नदीमें कूद पड़ना कठिन नहीं है । परन्तु नदीमें पहुँचकर उस पार पहुँचना कठिन है । पार पहुँचे बिना तो नदीमें तरनेकी इच्छावालेको कृतार्थता नहीं मिलती है ॥६३॥

• युष्माभिर्निहितां शुद्धां प्रार्थनां परमेश्वरे ।

साहाय्यमवलम्ब्याधिगमिष्यामि मनीषितम् ॥६४॥

तुम लोग भगवान्के समक्ष जो पवित्र प्रार्थना करोगे, उसका अवलम्ब लेकर मैं अपने मनोरथको सिद्ध कर सवूँगा ॥६४॥

श्रीमती यमुनालालपत्नीमपि दुःखिनीम् ।

सन्दिदेश दयासिन्धुः, पत्रद्वारेति जानकीम् ॥६५॥

(श्रीयमुनालाल बजाजकी धर्मपत्नी) श्रीमती जानकी बाई को भी श्रीमहात्माजीने पत्रद्वारा यह सन्देश भेजा ॥६५॥

हिन्दुजातेर्न यावत्स्याद्भेदबुद्धिप्रणाशनम् ।
प्रयतन्तां तपस्यिन्यो भगिन्यस्तावदञ्जसा ॥६६॥

जबतक हिन्दुजातिकी भेदबुद्धिका नाश नहीं होता है तब तक स्व
बहिर्नें प्रयत्न करें ॥६६॥

प्रयत्नासफलत्वेन विषादो मैतु वः प्रति ।
सद्भावेन कृतो यत्नः कदाचित्तु फलिष्यति ॥६७॥

प्रयत्नमें यदि सफलता न मिले तो तुम लोगोंको चिन्तित नहीं होना
चाहिये । शुद्धभावसे किया गया यत्न कभी तो अवश्य ही सफल होगा ॥६७॥

यावदेकापि भगिनी व्याप्तोद्देश्यपूरणे ।
मम तावदहं देहे जीवामि - विगतेऽपि च ॥६८॥

जबतक मेरी एक भी बहिन उद्देश्यपूर्तिमें लगी हुई रहेगी, तबतक
मैं, शरीरके मर जानेपर भी, जीता ही रहूँगा ॥६८॥

मनः कामं निजात्मानं समर्प्य परमात्मनि ।
तदिच्छामवलम्ब्यैव कर्माचरत निर्मलम् ॥६९॥

मन और आत्माको सर्वथा परमात्माकेलिये अर्पण करके, उषीकी
इच्छाके सहारे निर्मल कर्म यत्नलोग करती रहो ॥६९॥

विलियम् शरत्ने कस्मिन्पत्रे मुनिवरं प्रति ।
प्रेषिते मधुराक्षेपात्कियतोऽप्यकृतेदशः ॥७०॥

विलियम शरत्ने श्रीमहात्माजीके प्रति भेजे हुए एक पत्रमें दस प्रकार
के कुछ मधुर आक्षेप किये थे ॥ ७० ॥

हिन्दिराष्ट्रमहासंसन्नेतृत्यमहणाद्भवान् ।
हिन्दुमोहमदीयानां पारसीकितिरिस्तिनाम् ॥७१॥
सर्पेणामेष नेतृत्यं सततं भयति स्थितम् ।
स्वयमाह भयानेतद्बुद्धृत्यो बहुय च ॥७२॥

आपने बहुत जगहोंपर बहुत बार स्वयं कहा है कि भारतीय राष्ट्रिय महासभाके नेतृत्व ग्रहण करनेके कारण हिन्दु, मुसलमान, पारसी और ईसाइयोंका भी नेतृत्व आपमें विद्यमान है। अर्थात् आप सब कौमोंके नेता हैं ॥ ७१-७२ ॥

कथं तर्हि भयानेकजातिद्वैतोरसुव्ययम् ।

स्वस्य कर्तुं महाविद्वानथ हन्त व्यवस्यति ॥७३॥

यदि ऐसा ही है तो आप केवल एक हिन्दु जातिकेलिये ही, समझदार होकर भो, अपनी जानको क्यों गँवाते हैं ? ॥ ७३ ॥

सङ्ग्रामोऽयं स्वराज्यस्य साम्प्रदायिकतां न हि ।

स्पृशतीति भवद्वाणी मिथ्यात्वमवगाहते ॥७४॥

“यह सङ्ग्राम स्वराज्यकेलिये है। साम्प्रदायिकताकेलिये यहाँ जगई नहीं है” आपकी यह वाणी मिथ्या हो रही है ॥ ७४ ॥

हास्येन मुखमाधुर्यं वर्धयन्दीनवत्सलः ।

आमेरिकस्य मित्रस्य ददानुत्तरमित्ययम् ॥७५॥

श्रीमहात्माजीने हँसीसे अपने मुखकी मधुरताको बढ़ाते हुए उन अमेरिकन मित्रको इस तरहका जवाब दिया ॥ ७५ ॥

उपवासो ममायं नो केवलं हिन्दुशोधकः ।

निखिलं हि मनुष्याणां समाजं शोधयेदयम् ॥७६॥

मेरा यह उपवास केवल हिन्दुओंको ही पवित्र करनेवाला नहीं है। यह तो मनुष्योंके सभी समाजोंको शुद्ध करेगा ॥ ७६ ॥

येन केनापि रूपेण यत्र कुत्राप्यवस्थितम् ।

अस्पृश्यत्वमपाकुर्यादुपवासोऽयमच्युतः ॥७७॥

जिस किसीरूपमें, जहाँ कहीं भी यह अस्पृश्यता रहेगी, सबको मेरा यह अखण्ड उपवास दूर कर देगा ॥ ७७ ॥

व्रतारम्भदिने तेन व्रतराजेन घोषितम् ।

अस्पृश्यत्वविनाशेन निष्कलङ्कं जगद्भवेत् ॥७८॥

व्रतके पहिले दिनमें श्रीमहात्माजीने घोषणा की कि अस्पृश्यताका नाश करके जगत् को पवित्र हो जाना चाहिये ॥ ७८ ॥

मानवाशुद्धिमात्रं स्यादस्पृश्यत्वेन सम्मितम् ।

एतस्मादुपवासात्स्यात्सर्वदोषविशोधनम् ॥७९॥

मनुष्यकी अशुद्धिमात्र—सारी अशुद्धि अस्पृश्यताके समान ही मानी जानी चाहिये । मेरे इस उपवाससे सर्व दोषोंकी शुद्धि हो ॥ ७९ ॥

ध्येयसाफल्यविश्वासो हिन्दूविश्वास एव च ।

जनस्यभायविश्वासो विश्वासः शासनस्य च ॥८०॥

ममैतेषु चतुर्विधे स्तम्भेषु विलसद्वरम् ।

हरिं प्रसादयेदेतदुपवासनिकेतनम् ॥८१॥

ध्येयकी सफलतामें विश्वास, हिन्दुजातिकी विश्वास, मानवीय स्वभाषका विश्वास और सत्कारका विश्वास, इन चार स्तम्भोंके ऊपर यह मेरा उपवासरूप घर विलसित हो रहा है और यह उपवास भगवान् को भले प्रकारसे प्रसन्न करेगा ॥ ८० ॥ ८१ ॥

रागद्वेषविहीनोऽयमुपवासो भवेद्यदि ।

मनुष्यजातिरखिला सहाया मे भविष्यति ॥८२॥

अगर यह उपवास रोग और द्वेषके बिना ही होगा तो सारी मनुष्यजाति मेरी मदद करेगी ॥ ८२ ॥

परसन्तापहरणो दारिद्र्यहरणो धनी ।

नियते समये सोऽभूदुपवासपरायणः ॥८३॥

दूसरोके सन्तापको हरनेवाले और दरिद्रताको दूर करनेवाले मनीषी श्रीमहात्माजी नियत समयपर उपवासमें बैठ गये ॥ ८३ ॥

यरोडावन्दिशालायां सहकारतरोरधः ।
मानवान्यायनाशाय व्रतमेव उपाददे ॥८४॥

यरोडा जेलमें, आम्बवृक्षके नीचे, मनुष्योंके नाश करनेकेलिये श्रीमहात्माजीने इस उपवासको ग्रहण किया ॥ ८४ ॥

त्रिलोकीं कम्पयन्नेव एजयन्हृदयान्यपि ।
मनुष्याणां महायोगी तीव्रे तपसि संस्थितः ॥८५॥

महान् योगी श्रीमहात्माजी तीनों लोकोंको कँपाते हुए और मनुष्योंके हृदयको भी कँपाते हुए तीव्रतपस्यामें बैठ गये ॥ ८५ ॥

श्रीमत्सरोजिनी देवी विदुषी कर्मयोगिनी ।
तत्रैव वन्दिशालायां निबद्धा स्मावतिष्ठते ॥८६॥

विदुषी और कर्मयोगिनिपुत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू भी उसी यरोडा जेलमें कैद थीं ॥ ८६ ॥

महाव्रते समासीनं मुनिनाथं निपेवितुम् ।
समाहूता समागात्सा तत्र सौभाग्यशालिनी ॥८७॥

व्रतमें बैठे हुए श्रीमहात्माजीकी सेवाकेलिये वह बुलायी गयीं और शीघ्र ही वहाँ बह आ गयीं ॥ ८७ ॥

मातृशक्तिर्यतेस्तस्य परिचर्यापरायणा ।
सावधाना च तद्रक्षाकरणे कृत्यवेदिनी ॥८८॥

बह मातृशक्ति—श्रीमती सरोजिनी श्रीमहात्माजीकी सेवामें लग गयीं । उनकी रक्षामें वह सावधान थीं क्योंकि वह कर्तव्यको समझती थीं ॥८८॥

साभ्रमत्याश्च कारातो मुक्तिमाप्य समागता ।
यरोडां श्रीमती साध्वी कस्तूरीदाऽचिरेण सा ॥८९॥

साबरमतीकी जेलसे छूटकर श्रीमती कस्तूरबा भी वहाँ शीघ्र ही आ गयीं ॥८९॥

देवीदासोऽपि तत्सूनुः कनीयांस्तत्र चागमत् ।
अन्येऽपि बहवो लोका दर्शनार्थमुपागताः ॥९०॥

श्रीमहात्माजीके छोटे पुत्र भाई देवीदास भी आ गये । अन्य भी दूसरे लोग इनके दर्शनकेलिये वहाँ आ गये ॥ ९० ॥

श्रीकवीन्द्रो रवीन्द्रोऽपि वङ्गदेशादपिप्रभः ।

समायात्तत्र सहसा मुनिवर्यं विलोकितुम् ॥९१॥

ऋषिसमान भीयुत महाशक्ति श्रीरवीन्द्र ठाकुर भी श्रीमहात्माजीके दर्शनकेलिये बङ्गालसे वहाँ आये ॥ ९१ ॥

समागत्य द्विजेशोऽसौ नयनाभ्यां पिवन्मुनिम् ।

चिरात्तर्पाभिसन्तप्तः सौहित्यं नापदुन्मनाः ॥९२॥

श्रीयुत टैगोर महात्माजीको नेत्रोंसे बार बार पीते हुए भी, चिरकालसे विपासासे तपे हुए होनेके कारण वृक्ष नहीं हुए ॥ ९२ ॥

सनाथीकृत्य तं देशं मधुरालापवर्जितम् ।

पटेन मुखमाच्छाद्य विललाप चिरेण सः ॥९३॥

श्री रवीन्द्रबाबू वहाँ आकर, चुपचाप रहकर, कपडेसे मुँह ढँक कर बहुत देरतक रोते रहे ॥ ९३ ॥

चित्तरञ्जनदासस्य वासन्ती प्राणवल्लभा ।

उर्मिला च स्वसा तस्य कलिकातान आगते ॥९४॥

श्रीयुत देवबन्धु चित्तरञ्जनदासजीकी साध्वी पत्नी श्रीवासन्तीदेवी और बहिन श्रीउर्मिलादेवी कलकत्तेसे आयीं ॥ ९४ ॥

स्वरूपरानी सद्दीमन्मोतीलालस्य भार्यिका ।

जराजीर्णशरीरापि सपद्यात्कृपापरा ॥९५॥

परमविद्वान् पण्डित श्रीमोतीलाल नेहरूजीकी धर्मपत्नी श्रीमती सरूपरानीजी शरीरसे अत्यन्त वृद्ध थीं तो भी कृपावश वहाँ शीघ्र ही आ गयीं ॥ ९५ ॥

पमलानेहरू श्रीमन्नाहिरखुदुम्बिनी ।

पमलेय धराया सा तत्रागच्छत्या सह ॥९६॥

पृथिवीकी कमला—लक्ष्मीके समान, पण्डित श्रीनवाहिरलाञ् नेहरूजी-
की कुटुम्बिनी श्रीमती कमलानेहरू भी श्रीमती स्वरूपरानीके साथ आयीं ॥९६॥

साराभाईतनूजोऽसावम्बालालो धनीश्वरः ।

कौटुम्बिकैः जनैः साकं झटित्यागात्तमर्चितुम् ॥९७॥

श्रीमान् शेठ अम्बालाल साराभाई भी अपने सभी परिवारके लोगोंके
साथ शीघ्र यरोडा आ गये ॥ ९७ ॥

समस्ते भारते नूनमार्तरावः समुत्थितः ।

दिव च पृथिवीं चैव सहसा व्यानशे चिरम् ॥९८॥

समस्त भारतमें अतिस्वर—हाहाकार मच गया । वह अतिस्वर—
हाहाकार आकाश और पृथिवीमें भी व्याप्त हो गया ॥ ९८ ॥

शतानि च सहस्राणि देवतायतनान्यपि ।

अन्यजेभ्यो निरादायं विवृतद्वारतां ययुः ॥९९॥

सैकड़ों और सहस्रों मन्दिर भी अन्यजोंकेलिये विना किसी रुकावटके
खुल गये ॥ ९९ ॥

व्रतामौ तप्यमानस्य विशुद्धस्य महात्मनः ।

अहान्येवं व्यतीतानि क्रमशः पञ्च तन्मुनेः ॥१००॥

व्रतामिमें तपस्या करते हुए परमपवित्र श्रीमहात्माजीके इस प्रकार
श्रमसे पाँच दिन बीत गये ॥ १०० ॥

सर्वेषां नेतृवर्याणामश्रमैश्च परिश्रमैः ।

पृथङ्निर्वाचनं नामास्पृश्यानां विलयं गतम् ॥१०१॥

सभी बड़े बड़े नेताओंके अथक परिश्रमसे अस्पृश्योंका पृथक् निर्वाचन
बन्द हो गया ॥ १०१ ॥

विजयश्रीर्यतीन्द्रस्य घरमालां यशस्विनीम् ।

पठे सुदिवसे कण्ठे निचिक्षेप स्वयं मुदा ॥१०२॥

विजय लक्ष्मीने स्वयं प्रसन्न होकर उपवासके छठे दिन श्रीमहात्माजीके कण्ठमें यशस्विनी वरमाला डाल दी ॥ १०२ ॥

चित्तरञ्जनदासस्य धर्मपत्नी पतिव्रता ।

निर्मला चोर्मिला देवी विदुषी च सरोजिनी ॥१०३॥

श्रीचित्तरञ्जनदासजीकी धर्मपत्नी श्रीवासन्तोदेवी, श्रीउर्मिलादेवी, श्रीसरोजिनी नायहू—॥ १०३ ॥

श्रीमत्स्वरूपरानी च मोतीलालस्य रोहिणी ।

अमला कमलादेवी जवाहिरबिनोदिनी ॥१०४॥

पण्डित श्रीमोतीलालनेहरूकी पत्नी श्रीस्वरूप रानीजी तथा श्रीमती कमलानेहरू—॥ १०४ ॥

श्रीमती मृदुलादेवी तन्माता च यशस्विनी ।

अम्बालालः पिता तस्या धनिश्रेष्ठ उदारधीः ॥१०५॥

श्रीमती बहिन मृदुला, उनकी माता और उनके पिता श्रीअम्बालालभाई १०५

तत्रैव कारानियतो धीरवर्षो विवेकवान् ।

याग्निप्रवर एषोऽपि श्रद्धावान्वहमः सुधीः ॥१०६॥

उसी जेलके कैदी धीरवर्षभाई— ॥ १०६ ॥

महात्मनः कृपापात्रं महादेवो विदांबरः ।

तदन्तेवासितां यातः प्यारेलालो महोदयः ॥१०७॥

श्रीमहात्माजीके कृपापात्र विद्वान् श्रीमहादेवभाई देवाई और श्रीमहात्माजी के शिष्य श्रीप्यारेलालभाई—॥ १०७ ॥

सत्यामहाश्रमाः प्राप्ता षड्वः प्रेमविह्वलाः ।

रषीन्द्रनाथटंगोरः शास्त्री परचुरेरपि ॥१०८॥

सत्यामहा आश्रम (साबरमती) से आये हुए बहुतसे लोग, श्रीरषीन्द्रनाथ टंगोर, और श्रीपरचुरेशास्त्री—॥ १०८ ॥

दिव्यशक्तिधरैरेतैर्दिव्यः स परिवारितः ।

कस्तूरवार्द्धहस्तेन दीयमान रसं पपौ ॥१०९॥

दिव्यशक्तिसम्पन्न इन उपर्युक्त लोगोसे घिरे हुए श्रीमहात्माजीने श्रीमती कस्तूरबाके हाथसे दिये गये रस, फलरसका पान किया ॥ १०९ ॥

तस्मिन्दिने सुखावेशो निखिले भूमिमण्डले ।

सत्रा विवेश सर्वाश्च विजयात्तस्य सर्वथा ॥११०॥

उक्त दिन समस्त भूमण्डलमें, सब किसीको, श्रीमहात्माजीके विजयसे आनन्द प्राप्त हुआ ॥ ११० ॥

मृत्युञ्जयो महाबाहुर्महाकर्णो मद्देक्षणः ।

महायशा महात्माऽसौ पूर्णायुपमवाप्नुयात् ॥१११॥

मृत्युको जीतनेवाले, विशालभुजावाले, बड़े बड़े कानवाले, बड़ी बड़ी ओंखोंवाले, महान् यशस्वी श्रीमहात्माजी सौ वर्ष तक जीवें ॥ १११ ॥

ॐ जग्मुरेव सकला इतस्ततो दर्शनाय यतिमेदिनीपतेः ।

दीनदु खहरणक्षमःप्रभुःसोऽप्यमुच्यत च वन्दिवन्धनात् ॥११२॥

इधर उधरसे सब लोग यतिराज श्रीमहात्माजीके दर्शनकेलिये वहाँ गये । और दीनदुःखहरण वह महात्माजी भी जेलसे छोड़ दिये गये ॥११२॥

+ भेत्ता यः सर्वबन्धव्यतिकरनिकरस्यापि सच्चित्स्वरूपो

मुक्तिं प्राप्यैव दैहीप रिहततनुतादात्म्यमोक्षैकरूपः ॥११३॥

सर्वैःकाम्यकृपालुकृतिचिदपि दिनान्येप वासं विधातुं

यातः श्रीश्रीमलीलाभवनमनुपदं चाधिपूनं परात्मा ॥११४॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजाते

चतुर्विंश सर्गं

ॐ रथोद्गता छन्द ।

+ स्रग्धरा छन्द ।

जो सर्वबन्धनोंके काटनेवाले हैं, जो सत्स्वरूप और चित्स्वरूप हैं, जिन्होंने शरीरके साथ तादात्म्य सम्बन्धका त्याग कर दिया है और अत एव जो मोक्षस्वरूप हैं, जिनकी प्राप्तिकी सभी इच्छा करते हैं, वही कृपालु श्रीमहात्माजी पूनामें कुछ दिन निवास करनेकेलिये श्रीमती प्रेमलीला बहिनके बङ्गले—पर्णकुटीमें गये ॥ ११४ ॥

इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्वामिश्रीमद्भागवदाचार्यमहाराजप्रणीते
स्वोपज्ञराष्ट्रभाषाटीका सहिते
भारतपारिजाते चतुर्विंशः सर्गः



❀ पञ्चविंशः सर्गः

स यदा शरीरबलमाप योगिराड्नुपशासनावमतिमादधे पुनः ।
निगृहीत एव स पुनर्महायतिर्नृपनीतिरक्षणपराधिशासनात् ॥१॥

बीमारीके बाद जब शरीरमें बल प्राप्त हुआ तब योगिराजजी।श्रीमहात्माजी ने सर्कारी कायदेका भङ्ग करना शुरू किया। वाइसरायकी आज्ञासे वह पुनः पकड़ लिये गये ॥ १ ॥

अधिगत्य बन्धभवनं यतीश्वरः स यवाब्ध कर्तुमथ सेवया निजम् ।
फलि जन्म हन्त हृदयादरान्मुहुर्दलितस्य तस्य निचयस्य दीनश्रुत् ॥२॥

जेलमें जाकर दयालु यतिराज श्रीमहात्माजीने उस दलित समाज-अन्त्यजसमाजकी सेवासे, अपने जन्मको सफल करनेकेलिये, हृदयसे इच्छाकी ॥ २ ॥

निपिपेध तं रचयितुं तथाविधं नृपशासनं पुनरयं सदाग्रहम् ।
चरितुं समारभत तेन मोचितोऽभवदत्र तीव्रतपसि व्यवस्थितः ॥३॥

सर्कारने उन्हें वैसा करनेसे मना किया। अतः उन्होंने पुनः सत्याग्रह (जेलमें ही) किया। अतः वह छोड़ दिये गये और तीव्र तपस्या करनेमें लग गये ॥ ३ ॥

अधिपर्णकुट्ययमपास्तकित्बिपः पुनरप्यवाप्य गुणि पुण्यपत्तनम् ।
विततान तस्य परया मुदा तनोः परिरक्षणं बहु निकेतनाधिपा ॥४॥

❀ इस सर्गमें मञ्जुभाषिणी छन्द है ।

÷ दक्षिण आफ्रिकामें जब पहिले पहल श्रीमहात्माजीने लड़ाईका आरंभ किया तो उन्होंने एक घोषणा निकाली थी कि मेरी इस लड़ाईका जिसमें मार खाता है—मारना नहीं है, दुःख सहन करना है—दुःख देना नहीं, नहीं, शत्रुके साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है—क्या नाम रखा जाय ? जिसकी सूचना सर्वोत्तम होगी उसे इनाम भी दिया जायगा। श्रीभाई मगनलाल गांधीजीने सदाग्रह इस नामकी सूचना की। श्रीमहात्माजीने इसमें एक य बड़ाकर सत्याग्रह नाम रख दिया। सदाग्रह यह मूल नाम है।

श्रीमहात्माजी पुनः पूनामें श्रीमती प्रेमखीला बहिनकी पर्णकुटी (बङ्गले) में आये । उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे श्रीमहात्माजीके शरीरकी रक्षा की ॥४॥
 अनुभूय देहबलितां ततोऽचलत्समथापदाश्रमभुवं निजां यतिः ।
 परिभङ्गनाय कृतनिश्चयो निजाश्रमकस्य मोहममतापरिच्युतः ॥५॥

शरीरमें बलका अनुभव करके श्रीमहात्माजी वहाँसे चले और अपने आश्रम (सावरमती) में आये ॥ मोह और ममतासे रहित उन्होंने उक्त अपने आश्रमको तोड़ डालनेका निश्चय कर लिया था ॥ ५ ॥

यदि नाभविष्यदयमाश्रमोऽपि मे ननु नाभविष्यदिह कापि शुद्धान् ।
 इति नन्दनप्रभमपास्य तं क्षणत्स निरञ्जतोऽभवदतीतचिन्तकः ॥६॥

यदि यह आश्रम मैं भी भंग न हो तो मुझे कोई शोक भी न हो
 ऐसा समझकर इन्होंने नन्दन वन खामान उक्त आश्रमको क्षणभरमें उखाड़
 करके निश्चिन्त होकर निरञ्जन बन गये ॥ ६ ॥

यसुधाधिपत्वमथ कामितं न चेन्न समीहितं मुरपतित्वमप्यहो ।
 स तदाश्रमाधिपतितां कथं मुनिश्चिरमावहेत् निजचन्धनं परम् ॥७॥

बिनको न चारुभौम राजकी इच्छा है और न स्वर्गीय साम्राज्यका
 अभिलाष है वह श्रीमहात्माजी अपनेलिये कन्धनरमान आश्रमके अधि-
 पतित्वको चिरकालतक कैसे धारण कर सकते थे ॥ ७ ॥

परिभासमानममुनाश्रमं त्यजन्नातरागतां जगति भासयन्निजाम् ।
 श्रजितुं स यसमभि भूपतिप्रतिनिधिद्यासनेन सपदि न्यगृह्यत ॥८॥

ॐ सावरमती आश्रममें निवासेके लिये नहीं किन्तु उसके वितर्जन
 के लिये महात्माजी गये थे ।

† परमविरक्तशिरोमणि श्रीमहात्माजीके पास "वह मेरी चीज
 है" ऐसा कहनेके लिये कुछ भी नहीं था । केवल आश्रमकी व्यवस्थाकी
 ही उन्हें चिन्ता रहती थी । भवः उन्होंने उसे तोड़ दिया ।

रास जानेकेलिये देदीप्यमान इस आश्रमको छोड़ते हुए, जगत्में अपनी वीतरागताको प्रकाशित करते हुए, यादसरायकी आशासे वह शीघ्र ही पकड़ लिये गये ॥ ८ ॥

कतिभिश्चिदेव समवाप चन्धनाद्यतिरेप मुक्तिमथ माभिरद्वयः ।
प्रमना व्यचारयत कार्यपद्धतौ परिवर्तनं किमपि कालभेदतः ॥१॥

और थोड़े महीनोंमें ही श्रीमहात्माजी जेलसे छोड़ दिये गये । उस समय प्रसन्नमनसे उन्होंने विचार किया कि समयानुसार अपना कार्यप्रणाली-में कुछ परिवर्तन करना चाहिये ॥ ९ ॥

तपसार्जितं सुरगणेन सर्वदा दलमासुरं प्रथलशक्तिसंयुतम् ।
तप एव तद्भवतु मे समोहितं पुनरेव तेन यतिनेति चिन्तितम् ॥१०॥

श्रीयतिराज महात्माजीने विचार किया कि तपस्यासे ही देवोंने बलवान् असुरदलपर विजय प्राप्त किया था । अतः मुझे भी फिरसे तपस्या ही करनी चाहिये ॥ १० ॥

मुनिनाऽथ कार्यसचिवार्यमण्डलं स्वमघस्थितं चरितुमस्य शासनम् ।
विनियुज्य दीनजनसेवने स्वयं निरचायि तीव्रतपसे क्वचिद्भक्तिः ॥११॥

विचारशील श्रीमहात्माजीने कार्य करनेवाले अपने मन्त्रिमण्डलको-जो कि उनकी आज्ञाके पालनेकेलिये उपस्थित था,—गुरीब्र प्रजाकी सेवामें लगाकर, स्वयं तीव्रतपस्याकेलिये कहीं जानेका निश्चय करलिया ॥ ११ ॥

स वजाज आत्तमुनिवृत्त आकुलः सहसा जगाम यतिराजसन्निधौ ।
विनयेन चार्तवचनेन तं ततः समदो निनाय चरघां धनेश्वरः ॥१२॥

श्रीयुत वजाजजी—श्रीसेठ यमुनालाल वजाजजी इस समाचारको सुनकर व्याकुल हो गये । एकदम श्रीमहात्माजीके पास गये । विनयसे और बुद्धित वचनसे श्रीमहात्माजीको सेठजी वर्धा ले गये ॥ १२ ॥

उट्टरं मनीषितमुदात्मानसः कृतवानतीव रमणीयमस्य सः ।
विमले तदावसथके शिर्गाँवके न्यवसन्महामुनिवरोऽपि तत्र सः ॥१३॥

उदार मनवाले भीमजात्रजीने श्रीमहात्माजीकेलिये एक झोपड़ी लो
कि उन्हें इष्ट और प्रिय थी शैर्गाँव नामक ग्राममें क्षणभरमें तैयार कर
दी । श्रीमहात्माजी उसी झोपड़ीमें रहने ला गये ॥ १३ ॥

स्थितमार्तचन्द्रमुच्यते तत्र तं पडपि क्रमेण ऋतवस्तुमाययुः ।
यतिराजपादजलजे प्रवीक्ष्यते गमयान्चभूवुरखिलां जनिं शिवम् ॥१४॥

दीनचन्द्रु श्रीमहात्माजीको शैर्गाँवमें निवास करते देखकर क्रमसे
उहाँ शत्रु वहाँ आये । यतिराजके चरणफलके दर्शन करके समस्त
जीवनको शिव-फल बना दिया ॥ १४ ॥

तपसि स्थिताय यतये महैर्ष्याया प्रथमं चुकोप सहसैव तत्तपः ।
अयमिच्छतीव तपसा तु मामतिक्रमितुं कदाचिदिति मानसे तपन् ॥१५॥

“कदाचित् यह (श्रीमहात्माजी) तपस्या करके मुझसे आगे बढ़
जाना चाहते हैं—मुझसे अधिक प्रतापी बनना चाहते हैं” ऐसा विचारकर
मनमें जलता हुआ भीष्मशत्रु महात्माजीपर एकदम क्रुद्ध हो गया ॥१५॥

परिचित्य तस्य परिवीतरागितां जगतः शिवानि सततं विकीर्षितः ।
तदनु द्विधाऽभयदमुष्यद्दन्धुचा नयने अलं वधुपतुर्जलावल्लिम् ॥१६॥

जगत्के कल्याण करनेकी उदा इच्छा करनेवाले श्रीमहात्माजीकी
वीतरागताको पहिचानकर हम भीष्म शत्रुका हृदय शोकसे भर गया और
उत्कर्षी भाँगे बल बरछाने लगीं ॥ १६ ॥

अयमात्मपाच्छित्तपदं यथासुखं पदयोत्पद्य सुकृतादितिच्छया ।
उपगम्य तत्र जलदागमो यतिं जलसेचनेन शिशिरं सदा व्यधात् ॥१७॥

यह महात्माजी अपने पाच्छित्त पदको सुखपूर्वक अपने अधिपारमें
कर रहे, इस इच्छासे यथाशक्तु वहाँ जाकर, बल चींच कर, उन्हें ठंडा
रगने लगा ॥ १७ ॥

पपनीय सर्वेनयनाभिरामतां स नदीर्नदाश्च सरसीः सरासि षा ।
यदियं ऋपादजलजाभितोषर्गं तपसाश्चकार पिनयेन सन्ततः ॥१८॥

वर्षांप्रतुने नदियों, नदों, तलाइयों ओर तालाओंको सबकी ओंलोंके लिये सुन्दर बनाकर—अर्थात् सगरी जलसे भरकर विनयपूर्वक झुककर श्रीमहात्माजीके चरणकमलोंको प्रसन्न कर लिया ॥ १८ ॥

तिमिरावगुण्ठनमये विहायसे तडिता प्रकाशमभिताय वारिदः ।

अभिगर्ज्य तत्र किल घादनोत्तामपनीय विन्दुरवमार्दवं व्यधात् ॥१९॥

अन्धकारके अवगुण्ठनमय आकाशमें—अन्धकारपूर्ण आकाश में बिजलीसे प्रकाश पैलाकर, गर्जना करके बाजेकी कमीको पूरा करके, पानीके बूंदोंके शब्दको बादलोंने कोमल बना दिया । गाना, बजाना प्रकाशमें ही शोभता है । आकाशके अन्धकार को बिजली फाड़ रही थी । बाजा नहीं था । इस कमीको बादलकी गर्जना पूर्ण कर रही थी । बाजेके बिना शब्दमें मधुरिमा नहीं होती है । बुन्दरूप शब्द तो हो रहे थे परन्तु मधुर नहीं थे । इस मेघगर्जनरूप बाजेने उन्हें मधुर बना दिया ॥ १९ ॥

कुशकाशदाशपुर भार्गवीलतातरुगुल्महारिहरिताधिसम्पदा ।

युगदेववीक्षणयुगं समर्चयन्कृतकृत्यतामुपगत. स सुन्दरः ॥ २० ॥

कुश, काश, मोथा, दूब, लता, तरु—वृक्ष, गुल्म इन सबके मनोहर हरे रङ्गकी सम्पदासे यह वर्षात्रितु, युगदेवता श्री महात्माजीके दोनों नेत्रोंकी पूजा करता हुआ कृतकृत्य हो गया ॥ २० ॥

अणुकहुकोद्रवकमापकादिभिर्बहुशालिभिश्च दधती मनोज्ञताम् ।

हृलफालदीर्णहृदयापिकाश्यपी जलदागमे यतिपतेर्मुद्देऽभवत् ॥२१॥

यद्यपि पृथिवीका हृदय हलके फालसे फाड़ दिया गया था तो भी श्वीणा, कगनी, कोदव, उड़द आदि अन्नोसे तथा बहुत प्रकारके धानोसे सुन्दरताको धारण करती हुई यह, उस वर्षाऋतुमें यतिराजको प्रसन्न कर रही थी ॥ २१ ॥

विमलाभ्रमण्डपममुष्य हेतवे जटितं प्रतारकमहाव्यञ्जकैः ।

परितत्य हृन्नयनमोहनैरसौ शरदागमोऽपि सिपिवेयतीश्वरम् ॥२२॥

श्रीमहात्माजीकेलिये हृदय और नेत्रोंको मोहित करनेवाले सुन्दर तारारूप-महामूल्य रत्नोंसे जटित निर्मल आकाशरूप मण्डप चन्द्रवाक्को पैलाकर शरद्वृक्षतुने श्रीमहात्माजीकी सेवा की ॥ २२ ॥

पथि कर्दमादि विलयं गर्तं तदा सरितोऽभर्षदच सुतराः समन्ततः ।
तनुतां गतैश्च दिवसैर्निरभ्रकैः शरदागमो यतिपतिं समार्चयत् ॥२३॥

रास्तेके कीचड आदि सूख गये । नदियाँ पार करने लायक हो गयीं ।
दिन छोटे हो गये । बादल नहीं दीखते थे । शरद्वृक्ष इन सुन्दर दिवसोंसे
श्रीमहात्माजीकी पूजा करने लगा ॥ २३ ॥

अवसीकदम्बकसुरापूजासुरीसितसर्पपादिसुमनोभिरीश्वरम् ।
सहकारकोकिलसुहृद्भ्रसन्तकः शुभगन्धवाहपवनैरसेवत ॥२४॥

अलसी, सरसो, अरहर, राई, सफेद सरसो आदिके फूलोंसे, आम्र
और कोइलोंको साथ लिये हुए बसन्तने, सुन्दरगन्धयुक्त वायुसे श्रीमहात्मा-
जीकी सेवा की ॥ २४ ॥

तपसः प्रभावमवलम्ब्य तस्य तां विजयो घवार मुदितो महासभाम् ।
चरितं हि शुद्धमनसा तपः क्व नो फलमाददाति सुपथि प्रधायताम् ॥२५॥

श्रीमहात्माजीके प्रभावका अवलम्बनकरके, प्रसन्न होकर विजयने
महासभाको अङ्गीकार कर लिया अर्थात् महासभाका विजय हुआ । सत्य
है, सन्मार्गमें चलनेवालोंकी, शुद्धमनसे की गयी हुई तपस्या कहीं फल
नहीं देती है ! अर्थात् यह तपस्या सर्वत्र फलदायिनी होती ही है ॥ २५ ॥

अधिशासतीह रत्नपूजबाहिरे नरपीरमानितवरे महासभाम् ।
नियतं च सप्तसु बभूव शासनं परिमण्डलेषु सदसः शुभङ्करम् ॥२६॥

उसी विजयज्ञा वर्णन करते हैं । रत्न लोगोकी पवित्र बनानेवाले
पण्डित जवाहिरलालके महासभाका शासन करनेपर भारतके ११ प्रान्तोंमें-
से ७ प्रान्तोंमें महासभाका शासन प्रवृत्त हुआ ॥ २६ ॥

प्रतिमण्डलं सचिवमण्डलं महज्जनतोपकारनिरतं निरन्तरम् ।
यतिराजसन्मतिमतं पुरश्चरज्जयतात्सदा स्वजनिभूमिमुद्धरत् ॥२७॥

प्रत्येक प्रान्तमें यह महान् मन्त्रिमण्डल निरन्तर जनताके उपकारमें लगा हुआ है । श्रीमहात्माजीकी सम्मतिका अनुग्रह करता है । अपनी मातृभूमिका उद्धार कर रहा है । इसका जय हो ॥ २७ ॥

युधि या ह्यता अवनयोऽनयानुगैरथ यानि वृत्तपरिवोधकान्यपि ।
दलितानि राजपुरूपैर्दलानि वा भरतप्रजाः परिलभन्त उद्विग्नः ॥२८॥

सत्याग्रहयुद्धमें अनीतिमार्गके अनुयायी उद्विग्न लोगोंने जिन जमीनोंको छीन लिया था, जो समाचारपर बन्द कर दिये गये थे, प्रजा उन सब जमीनों और पत्रोंको पा रही है ॥ २८ ॥

भवनानि यानि धलतो नृपानुगैः प्रधनेहृतानि धलवद्विरासुरैः ।
सहसा महासदस आर्यमन्त्रिणो ददतेऽद्य तानि मुखिनः सुखाय नः ॥२९॥

राजाके अनार्य अनुयायियोंने महासभाके जिन मकानोंको—
समितियोंको बलात्कारसे छीन लिया था आज यह श्रेष्ठ मन्त्रिमण्डल,
हमारे मुखकेलिये, प्रसन्न होकर हमें दे रहा है ॥ २९ ॥

अथ पुस्तकान्यपि बहूनि राज्यतः प्रतिबन्धितानि निखिलानि तान्यपि ।
शुभमन्त्रिमण्डलमिदं सभाजितं निखिलैर्ददाति निखिलेभ्य ईश्वरम् ३०

सर्कारने बहुतसे पुस्तकों को भी जन्त कर लिया था । सबसे पूजित
शासक यह शुभमन्त्रिमण्डल उन सब पुस्तकोंको, सबको दे रहा है ॥३०॥

अथ भारते प्रचुरसंख्यकेषु तन्न निरक्षरत्वमिह शोभते नृपु ।
इति शोभनं मनसिकृत्य मण्डलैस्तदपाकृते, प्रयतनं विधीयते ॥३१॥

भारतवर्षमें अधिक लोगोंमें निरक्षरता (लिखना पढ़ना न जानना)
शोभा नहीं देती है, ऐसा मनमें निश्चय करके यह काग्रेसी मन्त्रिमण्डल
उस निरक्षरताको कॅपानेकेलिये—दूर करनेकेलिये सदा सुन्दर प्रयत्न
कर रहा है ॥ ३१ ॥

अतिपीडिता दयितभारतप्रजा मधुसेवनाञ्जनितपापतापतः ।

परिवीक्ष्य तत्परिहृतेःसदिच्छया नियमं नवं विदधतेऽपि तान्यथा ॥३२॥

शराबखोरीसे पैदा हुए पापके तापसे, भारतीय प्रजाको अत्यन्त पीड़ित देखकर, शराबखोरी दूर करनेकी सत् इच्छासे वह सब मन्त्रिमण्डल नये नियम बना रहे हैं ॥ ३२ ॥

कृपकेषु खेलदथ निर्भयं च नैः सततं प्रयामवलमार्तचिन्तकैः ।

परिहर्तुमेभिरनिशं विचिन्त्यते मुलभं किमप्युपयनं सदातनम् ॥३३॥

किसानोंमें दुर्मिष्ठ—दुष्कालका ब्रत निर्भय होकर खेल रहा है । दुःखितोंकी चिन्ता करनेवाले यह वाग्रेसी मन्त्रिमहोदय उसे दूर करनेके लिये किसी श्वायी मुलम उपायको सोच रहे हैं ॥ ३३ ॥

अथ यत्सर्ना प्रणयनानि मन्त्रिणः परिकल्पयन्त्यवसथेषु शोभनम् ।

अधिकः करश्च यदि वायिको भवेदथ कामितं तदनुशोधनं च तैः ॥३४॥

यह मन्त्रिमण्डल गाँवोंमें सड़कोंके बनानेका विचार कर रहा है । खेतकी मालगुजारी यदि अधिक हो तो उसे भी तोड़नेकी यह छेता इच्छा कर रहे हैं ॥ ३४ ॥

एतत्सर्घं समापन्नं मुनीन्द्रस्य प्रभावतः ।

अपहमन्स्थानसमर्थः को रक्षितुं भारतावनो ॥३५॥

यह सब श्रीमहात्माजीके प्रभावसे ही हुआ । नहीं तो अन्धमन (कालापानी) में रहनेवालोंको भारतभूमिमें कौन रक्ष सकता था ॥३५॥

अप्रीकात इदागत्य स्थिते तस्मिन्महात्मनि ।

निर्भयत्वं गताः सर्वाः प्रजाः भारतभूमिजाः ॥३६॥

दक्षिण अक्रिकासे आकर जब महात्माजी भारतमें रहने लगे तब भारतकी समस्त प्रजा निर्भय बन गयी ॥ ३६ ॥

सिताज्ञानां नरान्दृष्टु सोप्योऽहन्दण्डधारिणः ।

विभ्यनो निशिडा जाना भयभूमिपिलङ्घिनः ॥३७॥

जो लोग अंग्रेजोंके लान पगड़ीवाले और डढावाले सिपाहियोंको
देखकर डर खाया करते थे वह सभी मयरहित हो गये ॥ १७ ॥

पामरौंहंसिताऽहिंसा पुनरुञ्जीविता सती ।

सर्वान्पापात्प्ररक्षन्ती निर्भयाऽद्य पितिष्ठते ॥३८॥

दुष्टोंने अहिंसाको मार डाला था । वह फिर जीवित हुई और अब
निर्भय होकर सबको पापोंसे बचाती हुई भारतमें स्थिर है ॥ ३८ ॥

निरिन्द्रान्विदुषो भूपान्दरिद्रान्धनिकानपि ।

मोहनोऽयं महाभागः साम्येऽकार्षीत्स्थितानिह ॥३९॥

महात्माजीने सभी विद्वानोंको, राजाओंको, धनिकोंको, दरिद्रोंको,
समान भावसे रहना सिखाया ॥ ३९ ॥

अस्पृश्यत्वमहाघोरराक्षसं स निपूदयन् ।

हिन्दूधर्मस्य संशुद्धिं महतीमकरोन्मुनिः ॥४०॥

अस्पृश्यतारूप महाभयङ्कर राक्षसको मारकर महात्माजीने हिन्दुधर्मको
अत्यन्त पावन बना दिया ॥ ४० ॥

हिन्दूकौटानयीशायीपारसीकाः परस्परम् ।

समचिन्वत सौहार्दं प्रयत्नात्तस्य सद्यतेः ॥४१॥

उन्हींके शुभप्रयत्नसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी परस्पर
प्रेम करने लग गये ॥ ४१ ॥

भगवत्पद्मनाभस्य द्रावन्कोरे विराजतः ।

दर्शनाय कृता राज्ञा निर्वन्धा अन्त्यजादयः ॥४२॥

द्रावन्कोर (मद्रास) में विराजमान भगवान् पद्मनाभके दर्शनके
लिये अन्त्यजोंको वहाँके महाराज हिज्जहाइनेस् श्रीपद्मनाभदास वंशीपाला
भीरामवर्मा महोदयने छूट दे दी है ॥ ४२ ॥

प्राचीनं परमं गुह्यं पद्मनाभस्य मन्दिरम् ।

ततः पूर्वं कदाचिन्नो प्राविशन्नन्त्यजादयः ॥४३॥

वह पद्मनाभ भगवान्का मन्दिर बहुत प्राचीन और गुह्य है । इससे पहिले उसमें अन्त्यज आदि कभी प्रवेश नहीं पा सके थे ॥ ४३ ॥

लोकोत्तरेण तपसा मूर्धन्यभ्य तपस्विनाम् ।

गतमोहं जगज्जातं मोहनस्य महात्मनः ॥४४॥

तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ महात्माजीकी लोकोत्तर तपस्यासे सम्पूर्ण जगत्का अज्ञान जाता रहा ॥ ४४ ॥

श्रीसेतुपार्वतीबाई द्रायन्कोरमहीभुज ।

प्राणप्रिया महाराज्ञी साहाय्यमतनोदिह ॥४५॥

द्राघन्कोर महाराजकी महारानी श्रीसेतु पार्वतीबाईने इस मन्दिर-प्रवेशरूप कार्यमें अपने पतिकी सहायता की थी ॥ ४५ ॥

अन्यान्यपि प्रभूतानि देवतायतनानि सः ।

स्वराज्यस्थानि कृतवानन्त्यजार्हाणि सन्मतिः ॥४६॥

उन महाराजने अपने राज्यके अन्य भी बहुतसे मन्दिरोंमें अन्त्यजोंको दर्शनार्थ जानेकेलिये आशा दे दी है ॥ ४६ ॥

सर्वेष्वेव प्रदेशेषु भारतेऽस्पृश्यता मृता ।

प्रयत्नेन मुनीन्द्रस्य मोहनस्य दयानिवेः ॥४७॥

महात्माजीकी ही दया और प्रयत्नसे भारतके सभी प्रदेशोंमेंसे अस्पृश्यता चली गयी है ॥ ४७ ॥

भारते तीर्णतिमिरे प्रियस्थाधीनतेऽधुना ।

राष्ट्रभाषापदं प्रापद्धिन्दी वस्य प्रभावतः ॥४८॥

महात्माजीके ही प्रभावसे जिनको स्वार्थीनता प्रिय है और जो अन्धकारका पारकर गया है उस भारतमें हिन्दीको राष्ट्रभाषाका पद मिला है ॥४८॥

पटनानगरे पुण्ये पूनानगर उत्तमे ।

षाड्यामहम्मदायादे विभागेऽनतिष्ठिषन् ॥४९॥

पटना, पूना, काशी, अहमदाबादमें उन्होंने विद्यापीठों की स्थापना की ॥ ४९ ॥

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायं वीर्यलाभः पवित्रता ।

शान्तिः सौजन्यमित्येतान्गुणान्स प्रत्यपीपदत् ॥५०॥

ब्रह्मचर्य पालन करनेसे वीर्यलाभ, पवित्रता, शान्ति, सौजन्य आदि गुणोंकी प्राप्तिका उन्होंने प्रतिपादन किया ॥ ५० ॥

आहारे व्यवहारे च भाषणे लेखनेऽपि च ।

निर्व्याजता पदं चक्रे तस्मिस्तपति मोहने ॥५१॥

महात्माजीके यहाँ रहनेसे आहार, व्यवहार, भाषण, लेख आदिमें सादगी और स्वाभाविकता आ गयी ॥ ५१ ॥

सुदूरारोहिणी विद्या कामसंमोहनं वपुः ।

अव्ययं द्रव्यमीहन्ते स्वदीप्त्यै निर्व्यलीकताम् ॥५२॥

बहुत बड़ी विद्या, सुन्दर रूप और अखूद धन अपनी शोभाके लिये आज सादगी ढूँढ रहे हैं ॥ ५२ ॥

स्वदेशगौरवस्यर्द्धरभिलाषो नृपून्मिपन् ।

प्रतिक्षणं यतीशस्य माहात्म्यं बोधयत्यलम् ॥५३॥

आज मनुष्योंमें स्वदेशगौरवकी वृद्धिकी इच्छा उत्पन्न हो गयी है यही महात्माजीके माहात्म्य बतानेकेलिये पर्याप्त है ॥ ५३ ॥

देशोद्धारार्थं यतिराजस्तपसैवं,

सन्तोष्यात्मानं परमं सत्यमहीन्द्रः ।

सम्प्राप्य स्वल्पान्परिगृह्यान्धिकारा—

त्रिःशेषान्प्राप्तुं तपसीद्धे निरतोऽस्ति ॥५४॥

देशोद्धारकी इच्छावाले महात्माजी तपस्यासे अपनेको सन्तुष्ट करके मिलनेवाले अधिकारोंमेंसे थोड़ेसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त करके सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त करनेके लिये अभी महान् तपमें बैठे हुए हैं ॥ ५४ ॥

धन्या शेगांवधरणी धन्याः शेगांवधूरयः ।

ललितान्यङ्घ्रिचिह्नानि विघत्ते यत्र स प्रभुः ॥५५॥

शेगाँव (सेवाग्राम—वर्धा) की धरणी और धूर दोनों ही धन्य हैं जिनके ऊपर महात्माजी अपने पवित्र चरण रखते हैं ॥ ५५ ॥

धन्याः शेगांवसम्भूता लोका यत्रयनाजिरे ।

मोहनाख्यं परं ज्योतिः सततं ज्योततेऽमरम् ॥५६॥

शेगाँव (सेवाग्राम) के लोग धन्य हैं जिनकी ओंलोंके सामने वह अमरज्योति (श्री महात्माजी) जल रही है ॥ ५६ ॥

धन्यास्तत्पादपुण्याब्जं ललयन्तस्तदन्तिके ।

निघसन्तोऽद्य सन्तस्ते सौभाग्यैरनुकम्पिताः ॥५७॥

वह धन्य हैं जो उनके पास रहकर उनके चरणोंकी सेवा करते हैं ॥५७॥

अस्मिन्महाकाव्ये चदारवृत्तेः श्रीमोहनस्योत्तमचन्द्रसूनोः ।

महापवित्रं चरितप्रसूनारिं व्यचैपं महता श्रेण ॥५८॥

इस महाकाव्यमें श्रीमहात्माजीके पवित्र चरितरूप पुष्पोंकी मैंने बहुत श्रमसे संगृहीत किया है ॥ ५८ ॥

यद्यत्कृतं तेन महात्मनाऽत्र साक्षी स्वयं तस्य सुकर्मराशेः ।

अहं भवामीति न कोऽपि विद्वान्सन्देहदेहं जनयेदमुष्मिन् ॥५९॥

इसमें जो कुछ चरित लिखा है—यह सब उनके ही किये गये कार्य हैं । मैं स्वयं इसका साक्षी हूँ । इसमें किसीको सन्देह नहीं होना चाहिये ॥ ५९ ॥

अस्मिन्कथा कापि न कल्पितास्ति नात्युक्तिलेशोऽपि क्यञ्चिद्दृष्ट ।

सत्यो महात्मा चरितं च सत्यं तद्देवकोऽयं यत्तिरहित सत्यः ॥६०॥

इस काव्यमें कोई भी कथा कल्पित नहीं है । अतिशयोक्तिपूर्ण भी कोई कथा नहीं है । महात्माजी सत्य हैं, उनका चरित सत्य है और उसका लेखक यह संन्यासी भी सत्य है ॥ ६० ॥

पूर्वं यदाहं प्रथमाश्रमस्थ श्रीमोहनस्याश्रम एव बालान् ।
न्यवात्समध्यापयितुं सुराणा गिर च हिन्दीमथ फारसी च ॥६१॥

जब मैं (काव्यनिर्माता) ब्रह्मचर्याश्रममें था तब महात्माजीके आश्रम (साबरमती) में बच्चोंको संस्कृत, हिन्दी, फारसी पढ़ानेको, रहा करता था ॥ ६१ ॥

सम्यङ्निरीक्षानिपुणो निरीक्षामतानिपं तस्य किलाश्रमस्य ।
मिथ्योक्तिमिथ्याचरणादि तत्राचरन्न कोपि प्रतिवासमाप ॥६२॥

परीक्षा करनेमें निपुण मैंने उनके आश्रमकी भले प्रकार परीक्षाकी है । जो कोई मिथ्याभाषी हो अथवा मिथ्याचरणवाला हो वह उस आश्रम में निवास नहीं पा सकता था ॥ ६२ ॥

यदा महात्मा परिहृत्य साश्रमतीतटस्थं स्वमहाश्रम तम् ।
श्रीमोहनोऽगादवदातकीर्तिर्वर्धा तदाप्यासमह तदीय ॥६३॥

जब महात्माजी साबरमतीके तटपर बनाये हुए अपने आश्रमको— सत्याग्रह आश्रमको छोड़कर बर्धा गये, तब भी मैं उस आश्रम का ही बना हुआ था ॥ ६३ ॥

यद्यप्यह तत्र निवासशीलो नासं तथाप्यासममुष्य नित्यम् ।
स्मर्तव्य एतेन तदाश्रमीय इवास्मि वृत्तः परमोऽधुनापि ॥६४॥

यद्यपि मैं वहाँ रहता नहीं था तो भी मैं आश्रमका ही था । आज भी मैं आश्रमवासीके ही समान हूँ और महात्माजीका स्मरणपात्र हूँ ॥६४॥

ततश्च तद्वृत्तमवैमि सन्यग्भूत भवञ्चापि सदाऽविकल्पम् ।
ततो न सशीतिरिहास्ति कार्या जडोपमेनापि बुधेन वापि ॥६५॥

अत एव मैं आश्रममें जो कुछ हुआ है, होता है उस सबको अविकल्परूपसे जानता हूँ और अतः इस काव्यमें जो लिखा गया है उसपर विद्वान् और मूर्ख किसीको भी सन्देहकेलिये अवकाश नहीं है ॥६५॥

पूर्वं मयैतन्महनीयकाव्यं मुद्रापयित्वाल्पतमैश्च कालैः ।
प्रकाशितं तेन विलोकितोऽत्र राशिस्त्रुदीनां बहुषु स्थलेषु ॥६६॥

पहले मैंने इस काव्यको बहुत थोड़े दिनोंमें छपवाकर प्रकाशित
किया था। अतः बहुतसे स्थलोंमें छुटियों देरनेमें आयी थीं ॥ ३६ ॥

ततोऽस्य काव्यस्य मया द्वितीयावृत्तिः श्रमेणातिरहस्य दोषान् ।
प्रकाशयते तद्विदुषां वरेषु प्रामाण्यमाप्नोतु विदीर्णदोषम् ॥६७॥

अतः सब दोषोंको दूर करके मैं इसकी यह दूसरी आवृत्ति छपवा
रहा हूँ। विद्वान् इसे ही प्रमाण मानें ॥ ६७ ॥

मनुष्यमेधा भ्रममाभजन्ते सदेति वागस्तु यदीह सत्यम् ।
कृपालवस्तद्भ्रममत्र वीक्ष्य क्षाम्यन्तु मानल्पमर्ति सुबोधः ॥६८॥

यदि यह कथन सत्य हो कि मनुष्यकी बुद्धिको भ्रम होता ही रहता
है, तो कृपाळु विद्वान् इसमें भी मेरा भ्रम देखकर मुझे क्षमा करेंगे ॥६८॥

अशुद्धं शुद्धं वा हृदयलहरीसंगतमिति,
महाकाव्यं श्राव्यं भवतु परिमोदाय विदुषाम् ।
यदि स्कन्धं किञ्चिद्भवति मन युद्धेस्तनुतया,
क्षमन्तां विद्वांसः परमकर्णाचारिनिधयः ॥६९॥

यह काव्य पाहे शुद्ध हो पाहे अशुद्ध, परन्तु मेरे हृदयकी लहरीके
साथ ही इसका सम्बन्ध है। इसे विद्वान् मुझे और उन्हें आनन्द हो,
इतनी ही इच्छा है। यदि इसमें मेरी बुद्धिकी अल्पताके कारण कोई श्रुति
हो तो परम करणाकार विद्वान् मुझे क्षमा करें ॥ ६९ ॥

शुक्तिकामु पतित्वैते स्वातियारिदमिन्द्वयः ।
मुक्ताभावं भजन्तेऽद्धा स्वाश्रयस्य प्रभायतः ॥७०॥

स्वाती नक्षत्रके मेघके बिन्दु छीपमें पड़कर मोती बन जाते हैं।
यह उन धूँदोंके आश्रयका प्रभाव है ॥ ७० ॥

सदोपमपि मत्काव्यमिदं सम्प्राप्य धीमतः ।

भविष्यत्येव निर्दोषं निर्दोषदृग्गुपाश्रयात् ॥७१॥

मेरा यह काव्य सदोष होगा तो भी विद्वानोंके पास जाकर, उनकी निर्दोष दृष्टिसे यह भी निर्दोष हो जायगा ॥ ७१ ॥

गुणग्रहप्रह्वद्भ्रमामिते विक्रमवत्सरे ।

महाकाव्यमिदं प्राप्नोत्पूर्णतां श्रावणे सुदि ॥७२॥

१९९३ विक्रम संवत्सरमें श्रावण सुदीमें इस काव्यको मैंने लिखकर पूरा किया था ॥ ७२ ॥

खखखान्निमित्ते श्रीमद्विक्रमादित्यवत्सरे ।

द्वितीयावृत्तिरेपाऽभूत्प्रस्तुता श्रावणे सुदि ॥७३॥

तथा विक्रमके ही २००० संवत्सरमें श्रावण सुदीमें ही इसकी द्वितीयावृत्ति हुई है ॥ ७३ ॥

काव्यस्यैतस्य पङ्क्तिंशः सर्गोऽपि रचितो मया ।

प्रकाशितश्च पूर्वं स परमत्र तिरोहितः ॥७४॥

पहले मैंने इस काव्यका २६ वॉ सर्ग भी लिखा और प्रकाशित किया था परन्तु इस द्वितीयावृत्तिमें वह सर्ग छोड़ दिया गया है ॥ ७४ ॥

कर्गजस्य महार्घ्यत्वं निरणद्धि प्रकाशनात् ।

तस्येति तं परित्यज्य ग्रन्थोऽयं पूर्णतामगात् ॥७५॥

कागज बहुत महँगा है अतः उसका प्रकाशन कठिन है । अतः उस एक सर्गको छोड़कर यह ग्रन्थ पूरा समझना ॥ ७५ ॥

तन्नत्या विषयाः सर्वे संक्षेपेण निवेशिताः ।

अस्मिन्नेवान्तिमे सर्गे ततः सन्तोपमाभजे ॥७६॥

उस २६ वॉ सर्गमें जो विषय थे, संक्षेपमें वह सब यहाँ २५ वॉ सर्गमें छे लिये गये हैं । इतनेसे ही मैं सन्तोप मानता हूँ ॥ ७६ ॥

पूर्वीय अफ्रिकादेशे मोम्बासाख्ये महापुरे ।

श्रीमन्भोजिसत्सूनु रामजिः फ्रानजिस्ताथा ॥७७॥

पूर्वीय अफ्रिकाके मोम्बासा नगरमें श्रीमान्भोजनी भाईके श्रीरामजी और श्रीकानजी यह दो पुत्र हैं ॥ ७७ ॥

फनीयान्कानजि श्रीमान्पुष्ट्या ज्यायांसमात्मनः ।

आज्ञामादाय पूज्याया जनन्या आत्मनः शिवाम् ॥७८॥

एतद्गन्धप्रकाशाय सर्वं सच्छुद्धया न्ययम् ।

अकरोद्देशसेवायै यादान्यं पूजयन्निद्धया ॥७९॥

छोटे पुत्र श्रीमान्कानजी भाईने अपने बड़े भाई श्रीरामजीको पूछकर और अपनी पूज्यमाताजीकी पवित्र आका लेकर इस ग्रन्थके प्रकाशनकेलिये, सर्वव्यय देकर, देशसेवाकेलिये महती तदारता दिलायी है ॥ ७८-७९ ॥

यसुज्योमनभोनेत्रमिते वैक्रमवत्सरे ।

चैत्रमासे सिते पक्षे नवम्या रविवासरे ॥८०॥

साक्षात्प्यनेतदाश्रित्य तृतीयावृत्तिरेषिका ।

अस्य ग्रन्थस्य संजाता महाविद्वद्दिनोदिनः ॥८१॥

चैत्रमास, शुक्लपक्ष, नवमीतिथि, रविवार, विक्रम संवत् २००८ में ऊपर बताया गयी सहायतारो लेकर इस ग्रन्थकी यह तृतीयावृत्ति हुई है ॥८०-८१॥

जयन्तु गुरुपादाब्जरेणवः सुप्रकाशिताः ।

जनुपाण्धोऽपि याच्छुद्ध्या गन्तव्यं याति निर्भयम् ॥८२॥

श्रीगुरुदेवके चरणोंके रेणुओंका विशय हो जिनका आशय लेकर जन्मान्ध भी अपने गन्तव्य स्थानपर निर्भय पहुँच जाता है ॥ ८२ ॥

श्रीसावेतपुरीललामललनालीलेकसरसाधनं

श्रीमद्राममनोहरार्यचरणाम्भोजेषु भृङ्गायितः ।

रागद्वेषकुलानलो भगवदाचार्य सुधी सद्गती
 कृत्वा कोठयमिदं शान्तिं स्वहृदय शान्तिं परा प्रापयत् ॥८३॥

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

इति सर्गत्रयस्वतंत्रपरमहंसपरिव्राजकस्वामिश्रीमद्भगवदाचार्यमहाराजप्रणीते

भारतपारिजात

पञ्चविंश सर्ग



भारतपारिजातस्य गिरणभृता गूढस्थलोपकारिण्यः काचित्कव्यटिप्पणयः ।

प्रथमसर्गे

Prime minister—प्रधानमन्त्री दीवान इति कथ्यते बम्बई-
मान्तेषु । श्लो० ३६ ॥

जूनागढ इत्याख्य सौराष्ट्रे (काठियावाडे) मुसल्मानभूपालाधिष्ठित-
मासीपुरा राज्यम् । अत्रैव मशकविमाघेन, केनविजैनकविना मया च
भीरामानन्ददिग्विजयमहानाट्ये वर्णितौ रैवतकाभिध. गिरनार इत्याख्य-
येदानीं सर्वत्र प्रसिद्धिं गत पवित्रस्तीर्थीभूतः पर्वतो विद्यते । अस्मिन्नेव
राज्ये राजनी-पादशाहेन बहुकृत्वो लुण्ठित प्रोटित भ्रष्टीकृत च विमुक्ते-
भवोपेत नयनावर्णि स्पृशदेश निखिलहिन्दुमनोहरमहर्निश महता समुद्रेश
प्रकाशितपाद भगवत सोमनाथस्य प्रसिद्ध मन्दिरमासीत् । इदानीमपि
तस्य भग्नावशेषस्तत्र दृश्यते स्म । अद्युनेन तत्र सर्दार श्रीवल्लभभाईप्रयत्नतो
नूतने मन्दिरे विनिर्मिते भगवान् सोमनाथो विराजते । अत्रैव प्रभासो,
यत्र युद्धचलाविशारदेन नीतिनिपुणेन योगिमहाराजेन श्रीकृष्णेन यदवो
विनाशिता । अस्मिन्नेव प्रभासे व्याधेन निहत शरीरमुत्सृज्य च
यदुत्कृलालङ्कारभूतः स्वलीलामुपसजहार । श्लो० ३६ ॥

राजकोटेत्याख्य नागानेरेत्याख्य च हिन्दुराज्ये सौराष्ट्रान्तर्गते । ते
एवात्र राजकोटक इति वाकानिरक इति निर्दिष्टे । श्लो० ४० ॥

गुजरातेषु सौराष्ट्रेषु च व्यापारशुद्धैवादर्शोपारम्य वार्तिकशक्तै-
कादर्शी यावन्लास्यशामनुसृत्य स्वातुमांस्यनियमा प्रायेण पालिता भवन्ति ।
एषु चतुर्षु मासेषु अतदानादिकानि बहूनि पुण्योत्पादकानि कार्याणि प्राय-
सर्वैरेव हिन्दुभिः क्रियन्ते । श्लो० ५० ॥

द्वितीये सर्गे

एकस्मिन्समये चर्मकारभक्षाराधितो भगवाञ् श्रीकृष्णः प्रसन्नो भूत्वा सस्य समक्षं प्राकश्यमुपगत्य तद्वसाधित भोजन स्वीकृतमिति भक्षेण प्रसिद्धिः । श्रीरामोपि शशरीसेवया प्रसन्नस्तदास्वादितानि वन्यानि फलानि मूलानि चासस्वद इति पद्मपुराणप्रसिद्धिः । श्लो० २९ ॥

श्रीकर्मचन्द्रगाधिरेव “कावागाधी” इति नाम्नापि प्रसिद्ध आसीत् । श्लो० ४२ ॥

तृतीये सर्गे

श्रवण इति नामधेयं पुत्रस्य वा पितुर्वेति मेऽरपष्टम् । श्लो० १९ ॥

पष्ठे सर्गे

श्रीमग्नलालभाइतिनाम्ना प्रसिद्धोऽतीव कार्यपटुर्मितमृदुभाषी सदाचारपरायणः श्रीमहात्मनो भ्रातुः पुत्र आसीत् । १९२३ तमे वैशव-सवत्सरे स तदानीं सत्याग्रहमधिवसतो मद् भारतपारिजातकर्तुः उपनिषद उर्दूभाषा चाधीतवान् । श्लो० २७ ॥

सप्तमे सर्गे

विहारप्रान्ते चम्पारनप्रदेशे क्षेत्राणां ३/४ तमे भागे क्षेत्रस्वामिभ्यो नीलामुत्पादयितुं कृपका नियमबद्धा आसन् । कट्टेति प्रसिद्ध भूमिमानम् । एकड इत्यपि भूमिमानमेव । विंशत्या कट्टाभिरेकमेकडं भवति । यस्य सविधे यावत्यो भूमय आसन्क्षेत्ररूपास्तासु प्रत्येकड तिस्रसु कट्टासु वैवश्येन नीलाया उत्पादनं कर्तव्यमासीत् । एतदेव तिनकट्टियेति नाम । श्लो० १० ॥

अववादः = आश । श्लो० ३५ ॥

अवगीर्णम् = स्तुतम् । श्लो० ४३ ॥

भोगपतिः = गवर्नर इत्याख्यः प्रान्ताधीशः । तदानीं तस्यस्य गवर्न-रस्य नाम सर् एडवर्ड गेइट् इत्यासीत् । श्लो० ५७ ॥

अष्टमे सर्गे

तेषु दिनेषु गुजरातउभेतिनाम्नी राजनीतिकी काचित्सस्याऽऽसीत् । तस्या एवैते माननीयाः सम्भ्या आसन् । श्लो० ७ ॥

मि० ग्रेट इतीदं खेडाकमिडनस्य नामासीत् । श्लो० ११ ॥

यस्मिन्वर्षे चतुर्थीशादपि न्यूनः क्षेत्रपाकः त्याद्राशे भूमिकरो न देय इति नियम आसीत् । श्लो० १६ ॥

ग्रामिका मुखीपदवाच्याः । ग्रामस्य सर्व एव प्रबन्धस्तेषु नियतस्तिष्ठति । प्रतिग्राममेको मुखी भवति ।

तलाटीति हिन्दीमायाया पटवारीत्युच्यते । क्षेत्रकरः कृषकेभ्योऽनेनैव संगृह्यते । श्लो० २० ॥

चम्पारनसत्याग्रहयुद्धसमये ग्रामसेवायामियं श्रीमती आनन्दीबाई नियोजिताऽऽसीत् । श्लो० ३१ ॥

नवमे सर्गे

अमृतसरे (पन्नावे) बालियानवालेति प्रसिद्ध मध्यनगरमिदमुद्यान-
मस्ति । अधुना राष्ट्रियमहासभाधिकारे तद्विद्यते । प्रत्येकं गावी तत्र
गतोऽवश्यमिदं पश्यति । श्लो० ४४ ॥

प्राङ्बिवाक् = वकील इति चैरिष्टर इति वा । प्राङ्बिवाको न्याया-
धीशः । श्लो० ५६ ॥

दशमे सर्गे

यद्वा इण्डियेत्वाख्य छात्राहिक पत्रमासीत् । तस्य सत्यादकः महात्मा
श्रीगाधिरेव । तत्र राजद्रोहः (२-१०-१९२१ ई०) चाइसरायस्य
व्याकुलता (१५-१२-१९२१ ई०) हुक्कारः (२३-२-१९२२) इति
लेखत्रयलेखनेन महात्मानि अभियोगः प्रवर्तित आसीत् श्लो० १५ ॥

त्रेष्वेव दिनेषु सत्याग्रहाभंगे राष्ट्रियमहासभायाः कार्यकारिण्याः
समितेरधिवेशनमासीत् । तत्र समागताः सर्व एव प्रसिद्धा नेतारो न्यायालये
समुपस्थिता आसन् । श्लो० १७२ ॥

एकादशे सर्गे

सर्वसहायः = राजा । श्लो० २२ ॥

अरेजिनेल्ट आसीददृष्टेवजाशीवो मुवा । दीनवन्धुना एन्डू-

ब्रह्महोदयेन श्रीमहात्मसविधेऽयं प्रेषित आसीत् । अयमहिंसा मार्गश्रद्धाङ्गरासीत् । श्लो० ६७ ॥

त्रयोदशे सर्गे

इण् घातोर्लटि अकचि च “एतकि” इति रूपम् । श्लो० ३१ ॥

एलिसेतिनामा कश्चन अंग्रेज आसीत् । तस्य स्मरणार्थमयं सेतुः सम्पन्नः । तत एव एलिससेतुः (एलिष ब्रिज) इत्युच्यते । श्लो० ३८ ।

चतुर्दशे सर्गे

कस्यापि महापुरुषस्य स्वागतावसरे गुर्जरदेशभुवो महिलाः सजलान्वलशानादाय पुरो गच्छन्तीति सम्प्रदायः श्लो० ५ ॥

पञ्चदशे सर्गे

राष्ट्रियमहासभायाः कार्यसहिनी समितिः कुत्राऽऽवाहनीयेति प्रष्टुं नेहरूपण्डितजवाहिरलालस्य तडित्पत्रमायातमासीत् । तदेवादाय श्रीमहादेवदेसाई श्रीमहात्मनः सविधे समायातः । समितिस्मेलनस्थलनिर्देशेन पण्डितजवाहिरलालस्य मनोरथः पूरितः । श्लो० ११ ॥

काकासाहेबेति प्रसिद्धिं गतस्य श्रीदत्तात्रेयस्य शङ्करो बालश्चेति द्वौ पुत्रौ स्तः । बालस्तु आश्रमादेव सैनिकता प्राप्तः । शङ्करः फर्ग्युसनकालेजे पुण्यपत्तने पठन्नासीत् । स्वकीययोग्यतया छान्दवृत्तिद्वयं तेन समुपाज्यं बम्बईविश्वविद्यालयस्य तृतीया वृत्तिमधिगन्तु सोद्यम आसीत् । कालेजपरीक्षा परित्यज्य महात्मनः सैनिको भवितुमह्मदात्रादमागत्य पितृश्वरणयोर्न्यसत् । पितुरानन्दो हृदये न माति स्म । काकासाहेबस्तमादाय महात्मसविधे समागात् । शङ्करं स्वप्तेनाया निवेशयन् मुखसमीपस्थं पक्वं फलं त्यचारो यदि युष्मादृशः सन्ति तर्हि स्वराज्यमवश्यमस्माभिः प्राप्यमिति महात्मोवाच । “एष स शङ्करेण मनोऽरक्षि,” इत्युक्त्वा तस्वागतमाततानेत्यस्वायमाशयः—जन्मदानुः पितुर्धर्मपितुश्च प्रतिष्ठाऽनेन कर्मणा शङ्करेण रक्षितेति । श्लो० १२ ॥

सैनिकाः प्रत्यहं गव्यूतित्रयं गव्यूतिचतुष्टयं वा गच्छन्ति स्म ।
स्नानादिभोजनावधिकासु क्रियास्वपि कालव्ययं भासीत् । ततः परं सर्वं एव
सैनिकाः श्रीमहात्मना अन्येष्वपि कार्येषु नियोज्यन्ते स्म । केचन
पाकशालायां केचन ग्राम्यजनतायाः सुखं दुःखं (आदिविज्ञाने ग्राम्यजीवनानुभवे
च केचन रोगिसेवायां केचन उपहाररूपेणागतानां मुद्राणां व्यवहारशुद्धौ च
नियोज्यन्ते स्म । सूत्रचक्राणां सख्या नासीत्पर्याप्ता । तन्त्या द्वादशाधिक-
शतद्वयगणपरिमितसूत्रोत्पादने होरात्रयं व्ययितं भवति स्म । केचन कारणै-
रेतैर्नियतपरिमाणं सूत्रं निर्मातुं न शक्नुवन्ति स्म । एतेनैव दुःखेन महात्मन
इदं प्रवचनम् । श्लो० १६ ॥

अहमदाबादीयविद्यापीठस्य विद्यार्थिनामेकः संघो गाधिसेनायाः
पुरश्चलति स्म । यत्र गाधिसेना निश्चिता स्यात्त एव स संघो दांडीयात्रा
प्रारम्भेति योजनाऽऽसीत् । श्लो० ३७ ॥

एकोनविंशो सर्गः

श्रीरामनादरजसा यदि मदीयेयं नौरहस्यावत्स्त्रीदेहधारिणी भवेन्मम
नावा जीविका कुर्वतो महत्कष्टं भवेदिति गुह्यचिन्तेति हिन्दीकविसम्राजः
श्रीतुलसीदासस्य कल्पना । अयं महात्मा गाधिस्तु दीननाथतया न कस्यापि
जीविकां विनाशयिष्यतीति निर्भयत्वेन नौस्वामिनस्तस्य पादप्रक्षालनेन
धूलिनिराकरणोद्योगं न समपीपदत् । श्लो० ६९ ॥

विंशो सर्गः

यदा कुत्रचित्समाभूमौ जनानां सम्मर्देनाशान्तिरनुभूयते स्म श्रीमहा-
त्मना तदा मीनमास्थाय तकली—तर्कुं गृहीत्वा केवलं प्रवचनमञ्जमादृष्य
सूत्रसर्जनं क्रियते स्मेत्येव तकलीभाषणमित्युच्यते । श्लो० ११२ ॥

(१) श्रीज्यारेलालः—श्रीमहात्मगाधेः सचिवः (प्राइवेटसेक्रेटरी)
पञ्जाबविद्वद्विद्यालयस्य बी० ए० पदवीधारी । १९२० तमे वैश्वसंवत्सरे
एम० ए० श्रेणीतो बहिर्निर्गतोऽसहयोगेन । ययत्किञ्चिदर्थमितम् । (२)
श्रीलुगनलालजोशी बी० ए० (मुम्बई) । गाधिमगनलाले दिव गतेऽय-

मेव सावरमती-आश्रमस्य व्यवस्थापक आसीत् । प्रो० पेट्रिकगोडिसस्य छात्रः । १९२० तमे वैश्ववत्सरेऽसहयोगाश्रयी । वयः ३५ वर्षमितम् । (३) श्रीस्वरे-श्रीत्रिष्णुदिगम्बरस्थापितगान्धर्वमहाविद्यालये द्वादशवर्षाणि सङ्गीतशास्त्रमधीत्य सत्याग्रहाश्रमस्य संगीतशिक्षकः । वयः ४२ वर्षमितम् । (४) गणपतिरावगोडसे-अहमदाबादविद्यापीठस्य स्नातकः । शिक्षकः । वयः २५ वर्षमितम् । (५) पृथिवीराज आसरः-सत्याग्रहाश्रमविद्यालयस्य छात्रः । वयः १६ वर्षमितम् । (६) महावीरः-नयपालदेशीय आश्रमच्छात्रः । वयः १९ वर्षमितम् । (७) बालः-काकासाहेबदत्तात्रेयस्य कनिष्ठः पुत्रः । आश्रमच्छात्रः । वयः १८ वर्षमितम् । (८) खड्गबहादुरः-पर्वतीयः । श्रीमहात्मन आज्ञाविशेषेण पश्चान्मार्गे सेनाया निविष्टः । (९) रसिकदेसाई-आश्रमच्छात्रः । वयः १९ वर्षमितम् । (१०) विठ्ठलः-आश्रमच्छात्रः । वयः २० वर्षमितम् । (११) हर्षः-हरिजनः (अन्यजः) वयः १८ वर्षमितम् । (१२) तनसुखभट्टः-गोसेवासघस्य कार्यकर्ता । वयः २० वर्षमितम् । (१३) कान्तिगांधिः-महात्मनः पौत्रः । वयः २० वर्षमितम् । (१४) शङ्करकालेलकरः-श्रीदत्तात्रेयकालेलकरस्य ज्येष्ठः पुत्रः । (१५) आनन्दहिङ्गाराणी बी० ए० (बम्बई) । अस्य पितृपादा एग्निक्यूटिय इञ्जिनियर आसन् । वयः २४ वर्षमितम् । (१६) मोदीरमणोकलालः, बी० ए० (बम्बई) । आश्रमविद्यालयस्य शिक्षकः । वयः ३८ वर्षमितम् । (१७) छोट्टभाई पटेलः-खादीकार्यकर्ता । वयः २२ वर्षमितम् । (१८) अब्बासजी-मुसल्मानः । साधुयोगशालायाः शिक्षकः । वयः २० वर्षमितम् । (१९) नारायणः-उत्कलदेशीयः खादीकार्यकर्ता । वयः २५ वर्षमितम् । (२०) पूंजाभाईशाहः-ब्रह्मनि वर्षाणि आश्रमे न्यवात्सीत् । वयः २५ वर्षमितम् । (२१) माधवलालः-बी० ए० (बम्बई) । शिक्षकः । (२२) बुद्धरशीभाई-रुच्छदेशे खादीकार्यकर्ता । वयः २७ वर्षमितम् । (२३) सोमाभाई-आश्रमे कृपिरक्षकः । नागपुरे स्वजसत्याग्रहेऽपि सम्मिलितः । वयः २५ वर्षमितम् । (२४) द्वारकानाथः-बी एस् सी० (केलिफोर्निया) । दुग्धालयकार्यनिपुणः । अमेरिका-

देसो बहूनि वर्षाणि शिक्षणमनुभवं च गृहीतवान् । बहुलधनगमदातुपदं
 परित्यज्य आश्रमे दुग्धालयस्याध्यधत्वं स्वीकृतवान् । वयः ३० वर्ष-
 मितम् । (२६) रामजीभाई-हरिजनः । द्वादशभिर्येराश्रमे एव
 तिष्ठति धम । वयः ४५ वर्षमितम् । (२७) दाऊदभाई-सुसल्मानः ।
 पूर्वं फरीमभाईमिल्लसकार्यालये कृतवैद्य्यः । वयः २५ वर्षमितम् ।
 (२८) भानुशाङ्करः खादीविद्यार्थी । वयः २२ वर्षमितम् । (२९)
 गजाननः-खादीशालाया रङ्गशिक्षकः । (३०) हंसमुखरामः-कृषिकार्य-
 कर्ता । वयः २२ वर्षमितम् । (३१) कृष्णनाथरः-जामियाविद्या-
 पीठस्य स्नातकः । खादीविद्यार्थी । वयः २५ वर्षमितम् । (३२)
 जेठालालः-खादीकार्यकर्ता । वयः २५ वर्षमितम् । (३३) गोविन्द-
 हरकरे-खादीविद्यार्थी । वयः २५ वर्षमितम् । (३४) शाङ्करन्-
 खादीविद्यार्थी । वयः २५ वर्षमितम् । (३५) मुन्शीलालः-खादी-
 विद्यार्थी । वयः ३७ वर्षमितम् । (३६) पाण्डुरङ्गः-खादीविद्यार्थी ।
 वयः २२ वर्षमितम् । (३७) राघवन्-खादीविद्यार्थी । वयः २५
 वर्षमितम् । (३८) सुलतानसिंहः-खादीविद्यार्थी । वयः २५ वर्ष-
 मितम् । (३९) तपननाथरः-खादीविद्यार्थी । वयः २५ वर्षमि-
 तम् । (४०) प्रेमराजजी-खादीकार्यकर्ता । वयः २२ वर्षमितम्
 (४१) शिवाभाई-गुजरातविद्यापीठस्य स्नातकः । कार्यालये नियुक्त
 आसीत् । वयः २७ वर्ष मितम् । (४२) जशभाई-खादीविद्यार्थी
 वयः २० वर्षमितम् । (४३) राघजीभाई पटेलः-१९२० तमे
 वैद्यवसवत्सरेउसदयोगमाहात्य भाग्य मेडिकल कॉलेजत आगतः ।
 गुजरेषु प्राचीनः खादीकार्यकर्ता । जलप्रलयवासरे दुष्कालसङ्कट-
 निवारणे च श्रीवल्लभभाईपटेलस्य स्वयत्वेवकः । वयः ३० वर्षमितम् ।
 (४४) टाइट्सजी-ईसाई । इण्डियन डेरीतः लज्जप्रमाणपत्रः ।
 (४५) रत्नजी-गोधरा-आश्रमीनोऽन्वजः । वयः २८ वर्षमितम् ।
 (४६) दुर्गेशचन्द्रदासः-बङ्गदेशे राजकीयकैर्य परित्यज्य खादीवि-
 द्यार्थी । वय ४४ वर्षमितम् । (४७) केशवचित्रे-खादीविद्यार्थी ।

वयः २५ वर्षमितम् । (४८) अम्बालालपटेलः—१९२० तमे वैश्व-
 वासरे ग्रान्ट मेडिकल कालेजमसहयोगेन परित्यज्यागतः । प्रथमत एव
 खादीकार्यकर्ता । दुष्काले जलप्रलये च श्रीवल्लभभाईपटेलस्य स्वयं-
 सेवकः । वयः ३० वर्षमितम् । (४९) ज्योतीरामः—खादीवि-
 चार्थी । वयः ३० वर्षमितम् । (५०) जयन्तीपारिखः—(५१)
 विष्णुदामो—शिक्षकः । वयः ३० वर्षमितम् । (५२) सुरेन्द्रजी-
 संस्कृतविद्यारदः । आश्रमे स्वर्नालयाध्यक्षः । (५३) मणिलालगांधिः—
 इन्डियन ओपीनियनाख्यस्य आश्रमीकातः प्रकाशयमानस्य समाचारपत्रस्य
 सम्पादकः । श्रीगांधिमहात्मना द्वितीयः पुत्रः । वयः ३८ वर्षमितम् ।
 (५४) हरिभाऊमोहिनी—बी० ए०—शिक्षकः । वयः ३२ वर्षमितम् ।
 (५५) चिन्तामणिशास्त्री—शशिवने इत्याख्ये स्थाने राष्ट्रियशाला-
 कार्यकर्ता । भूतपूर्व आश्रमवासी च । वयः ४० वर्षमितम् । (५६)
 नारायणजीभाई—गुजरातकालेजस्य भूतपूर्व—इङ्ग्लिशभाषाध्यापकः ।
 हिन्दूविश्वविद्यालयेऽप्यध्यापक आसीत् । तदानीं गुजरातविद्यापीठेऽध्यापक
 आसीत् । यङ्गइण्डियापत्रेऽपि तस्य साहाय्यमासीत् । वयः ३५ वर्षमितम् ।
 (५८) विष्णुपन्तः—खादीविद्यार्थी । वयः २५ वर्षमितम् । (५९)
 श्रीदिनकररावः । (६०) सुब्रह्मण्यम्—खादीविद्यार्थी । वयः २५ वर्ष-
 मितम् । (६१) हरिलालमाहीमतुरा बी. ए. एल. बी. [बम्बई]—
 खादीविद्यार्थी । वयः २७ वर्षमितम् । (६२) मोतीवासदासः—खादी-
 विद्यार्थी । वयः २० वर्षमितम् । (६३) सूर्यभानुः—(६४)
 मदनमोहनचतुर्वेदी—(६५) हरिदासमजूमदारः, एम्. ए. पी.
 एच. डी [विसकोनसीन]—सद्य एवाश्रमीकात आयात आसीत् । वयः
 २५ वर्षमितम् । (६६) हरिप्रसादः—फीजीद्वीपजः । राष्ट्रियकार्येषु दक्षो
 भवितुं भारतमागत आसीत् । वयः २० वर्षमितम् । (६७) महादेव-
 मार्तण्डः—खादीविद्यार्थी । वयः १८ वर्षमितम् । (६८) चिमन-
 लालः—गुजरातमलबसङ्घटनियारणकार्यकर्ता खादीकार्यकर्ता च । वयः
 २४ वर्षमितम् । (६९) सुमङ्गलप्रकाशः—काशीविद्यार्थी हिन्दी-

भाषाध्यापकः । वयः २५ वर्षमितम् । (७०) पुरातनबुधः—गुज-
 रातविद्यापीठस्य स्नातकः । वयः २५ वर्षमितम् । (७१) हरिदास-
 गांधी—भूतपूर्वः कार्पासव्यापारी । वयः २५ वर्षमितम् । (७२)
 पन्नालालजौहरी—पन्नाराज्यस्य भूतपूर्वदीवानसाहस्य पुत्रः । तदानीं
 गोसेवासंघकार्यकर्ता आसीत् । वयः २५ वर्षमितम् । (७३)
 गिरिवरधारी चौधुरी—खादीविद्यार्थी । वयः २० वर्षमितम् । (७४)
 भैरवदत्तः—खादीविद्यार्थी । वयः २५ वर्षमितम् । (७५) माधवलालः
 —बी. ए. (बम्बई)—शिक्षकः । (७६) रामधीररायः—ब्रह्मदेशे
 पूर्वमासीत् । तत्रस्ये पत्रालये पत्रप्रापककैङ्कर्यं विहायात्र खादीविभागे
 कार्यं करोति स्म । वयः ३० वर्षमितम् । (७७) माधवजीभाई—
 लन्दने प्रतिष्ठितो महान् व्यापारी आसीत् । कालिकातानगरेऽपि व्यापार
 आसीत् । सर्वं विहाय कतिचिद्भय एव कालेभ्यः पूर्वमाश्रम आयात
 आसीत् । वयः ४० वर्षमितम् । (७८) विनायकरायः—महाराष्ट्रेषु
 खादीकार्यकर्ता । वयः ३३ वर्षमितम् । (७९) शङ्करभाई—खादी-
 विद्यार्थी । वयः २० वर्षमितम् । (८०) लालजी—हरिजनः । वयः
 २५ वर्षमितम् । (८१) जयन्तीप्रसादः—खादीविद्यार्थी । वयः ३०
 वर्षमितम् । श्लो० १४७-१६४ ॥

द्वाविंशो सर्गो

आटियानामधेय एकः सार्जेन्ट आसीत् स च लगुडप्रहारेऽतीव प्रख्यात
 आसीत् । श्लो० ३७ ॥

पञ्चविंशो सर्गो

दक्षिणाप्रिकाया यदा महात्मना युद्धारम्भः कृतस्तदा तेनैका सूचना
 प्रकाशिता । सा चेदृशी,—अस्मिन्मया प्रारब्धे युद्धे मत्सैनिकस्ताडितोऽपि
 शत्रु न ताडयेत्, घातितोऽपि न घातयेत्, दुःखानि विषयापि
 नान्यान् पीडयेत्, शत्रुष्वपि प्रेमपूर्णा व्यवहारं कुर्यादिति म आग्रहः ।

वयः २५ वर्षमितम् । (४८) अम्बालालपटेलः—
 वत्सरे ग्रान्ट मेडिकल कालेजमसहयोगेन परित्यज्याग
 सादीकार्यकर्ता । दुष्फाले जलप्रलये च श्रीवहः
 सेवकः । वयः ३० वर्षमितम् । (४९) ज्ये.
 थार्पा । वयः ३० वर्षमितम् । (५०) जयन्
 विष्णुशर्मा—शिक्षकः । वयः ३० वर्षमितम् ।
 संस्कृतविशारदः । आश्रमे चर्माख्याध्यक्षः । (५३)
 इन्डियन ओपीनियनाख्यस्य आश्रीकातः प्रकाशयमा
 सम्पादकः । श्रीगांधिमहात्मना द्वितीयः पुत्रः ।
 (५४) हरिभाऊमोहिनी—बी० ए०—शिक्षकः ।
 (५५) चिन्तामणिशास्त्री—शशिवने इत्यादि
 कार्यकर्ता । भूतपूर्व आश्रमवासी च । वयः ४
 नारायणजीभाई—गुजरातकालेजस्य भूतपूर्व—
 हिन्दूविद्वत्विद्यालयेऽप्यध्यापक आसीत् । तदानीं
 आसीत् । यङ्गइण्डियापत्रेऽपि तस्य साहाय्यमासी
 (५८) विष्णुपन्तः—खादीविद्यार्थी । वयः
 श्रीदिनकररावः । (६०) सुब्रह्मण्यम्—खादी
 मितम् । (६१) हरिलालमाहीमतुरा बी. ए.
 खादीविद्यार्थी । वयः २७ वर्षमितम् । (६२)
 विद्यार्थी । वयः २० वर्षमितम् । (६३)
 मदनमोहनचतुर्वेदी—(६५) हरिदासम
 एच. डी [विसकोनसीन]—सद्य एवाश्रीकात
 २५ वर्षमितम् । (६६) हरिप्रसादः—फीज
 भवितुं भारतमागत आसीत् । वयः २० वर्षमि
 मार्तण्डः—खादीविद्यार्थी । वयः १८ वर्ष
 लालः—गुजरातप्रलयसङ्कटनिवारणकार्यकर्ता
 २४ वर्षमितम् । (६९) सुमङ्गलप्रकाश

भारतपारिजातमें आपे हुअे अन्य नेताओं और सैनिकोंके नाम

	सर्ग	श्लोक	अनुवाक	सर्ग	श्लोक
				२०	५५
अ				२४	५८
कान्दुवा	८	२७		"	१०५
भुक्तलाम आरिद	९	९		"	१५५
" "	१०	९		१८	४४
भुक्तला	५	३	अम्बालाज साराभाई		
		५			
		३९	आ		
		४९	आनन्द हिगोराणी	२०	१४९
अबुदुलकफ़ार	२३	८५	आनन्दी बाई	८	३१
		७०			
		२२	इ		
		१३	इन्दुलाल	८	३०
अ.वास	२२	९	इमाम सादिक	२९	२
		१३		"	२९
अ.वासजी शैयब	१९	२९	इसाम्	९	३६
	२०	१४५			
	२२	८			
	८	२८	उ		
अमृतकोर	६	२०	उत्तमच द	१	६५
अमृतलाल ठपर	८	७	उद्भव	१९	४५
	२२	५५	ऊ		
			छमिला देवी	२४	९

घ		ग	
एनी बिसेन्ट		गजानन	२० ११
एन्ड्रुज			" "
	फ	गणपति	" १६
कथा गाधी	२ ४२	गणेश वामुदेव भास्कर	८ ३
कमचन्द	५ ४२	गयाप्रसाद	७ ६
कस्तूरदेवी	१ ३९	गिरिधारीलाल चौधरी	२० १६
	८ २७	गोडमे	" १४
	१९ २८	गोरखप्रसाद	७ ६
कान्तिलाल गाधी	२० १५५	गोविन्द हरकरे	२० १५
कालिदास जोषी	" १४९		
	२४ ८९	घ	
	६ ३७	घनदयामदास विडला	२४ २
किषलू	९ ३३		
कुबर बहिन	८ २८	च	
कृपालानी	७ ९	चन्दूलाल	१८ ३
कृष्ण नायर	२० १५३		१९ २
कृष्णशङ्कर	८ २८		२१ ३
केदारनाथ	३ ७५	चमनलाल	२० १६
केशव चित्रक	९ ३५	चित्तरञ्जनदास	१०
			"
	ख	चिन्तामणि शास्त्री	२० ११
सहजबहादुर	१५ १८	चेम्स फोर्डे	१० ७
	२० १४८	चोइयाराम	१९ २
खरे	२० १४७		
खुरशेद बहिन	१८ ४३	छ	
	२० ६५	छगनलाल	२० १४
	" ६७	छोटालाल	" १५

दाशरथ पुराणी	१८	६	ड	
रुमाई पटेल	२०	१५०	शयर	९ ४४
				" ५२
			डूगरशी	२० १५१
चकर	८	२८		
बन्तीप्रसाद	२०	१६३	त	
बन्तीलाल परीख	"	१५६	तनसुख भट	२० १४९
यराम	"	१६३	तपननाथर	" १५३
	"	८	तेजबहादुर सप्रू	२४ २०
	२१	४३	त्रिभुवनदास	२२ ५३
	"	४४		
	"	४८	द	
वाहरलाल नेहरू	११	४	दत्तात्रेय कालेलकर	१५ १२
	१२	३२	" "	२१ ४५
	१५	११	दाऊदभाई	२० १५१
	"	५६	दाशभाई नौरोजी	२३ ४
	१७	७	दादा किरोजशाह	२२ ४
	१८	२९	दादू	६ ३९
	"	५५	दानी	६ २२
अशभाई पटेल	२०	१५४	दिनकर राव	२० १५८
जानसी देवी बजाज	२४	६५	दुर्गेशचन्द्र दास	२० १५४
जुगताराम इवे	२२	२	दूदा	५ १२
जेठालाल	२०	१५२	दूनीचन्द्र	६ ६४
ज्योतीराम	२०	१५५	द्वारकानाथ	१० १५१
			घ	
टाईट्स	२०	१५४		
ठामसन्	९	४०	घण्डीधर मानू	

न

व

नरहरि परीख

२२ २

बदरी वर्मा

८ ३१

" ३८

बलवन्तराय

२२ ६३

" ४०

बालगङ्गाधर तिलक

८ २९

" ४१

१० १५१

" ५०

" १५२

नारायण

२० १५०

" १५५

नारायणजी भाई

" १५७

दालाजीभाई

२० १५७

२२ २

प

पन्नाल ल जौहरी

२० १६१

ब्रूमफोर्ड

१० १५४

पाण्डुरङ्ग

२० १५३

ब्रजकिशोर बाबू

७ ९

पाशा मुस्तफा तहस

२४ ४४

" ६७

पुरातन बुच

२० १६१

पुत्तलि बाई

१ ४६

भ

भाईलाल

२२ ४५

पूताभाई शाह

२० १५०

मुभाशंकर

२० १५१

पृथिवीराज आसुर

" १४७

भैरवदत्त

" १६२

पोलक

२४ ३८

प्यारेलाल

२० १४७

म

२२ ३०

मगनभाइ

६ २७

२४ १०७

मणिभाई

१८ ३९

प्रेट

८ ११

मणिलाल गाधी

२० १५६

प्रेमराजजी

२० १५३

२२ २

प्रेमलीला

२५ ४

" ३७

फ

पादर एलविन्

२४ ९

मणिनाथ मेहता

८ २६

फीरोज शाह

४ २६

मदन मोहन चतुर्वेदी

२० १५९

पृथ्वीचन्द

८ २८

मदन मोहन माठवीर

९ २७

२४ ३५

महादेव देसाई	१५	११		२	
	२१	४६	रणछोडलाल	२२	६२
	२४	१०७	रत्नजी	२०	१५४
महादेव भातण्ड	२०	१६०	रमणभाई महीपतराम		
महारीर	,,	१४८	नीलकण्ठ	८	७
माधवलाल	,,	१५०	रमणीकलाल	२०	१४९
मिठू देवी	,,	१३८	रवीन्द्रनाथ	२४	४६
	,,	१४४		,,	११
मुन्शीलाल	,,	१५०		,,	१०८
	,,	१५३	रत्नक	२०	१४८
मुहम्मद अली	२२	६	राघन्	,,	१५३
सुदुला	१८	४४	राजकुमार	७	३
	,,	४६	राजगोपालाचार्य	२४	३६
	२०	६७		७	९
	२४	१०५	राजेन्द्रप्रसादजी	,,	६७
मेघराज	२१	४५		८	३१
मोतीभाई अमीन	१५	३२		२४	३४
मोतीलाल नेहरू	९	७३		१०	८
	१०	८	रानाडे	२३	७
	१८	२८	रामधीराय	२०	१६२
	,,	४६	रामनवमीप्रसाद	७	६७
			रामभज चौधरी	९	६४
			रावजी भाई	२०	१५४
			राव गंगाधर पाण्डे	१०	१०
			राजिन्सन्	९	४०
यमुनाबाळजी	२४	६५	रेड्डीनाड	११	६८
याकूम हुसेन	,,	३२	रोलेण्ड	९	४०
यादव चिन्तामणि	,,	५१			

	ल	
लक्ष्मी	६	२२
लच्छुभाई किशोरभाई	—	—
लालजी	२०	१६२
लाला लजपतराय	१०	९
लैल	२०	१२६

विठ्ठलभाई

विडला
विनायकराव
विष्णुपन्त
विष्णु शर्मा

	घ	
वल्लभभाई पटेल	८	७
	”	२६
	”	२८
	१२	१
	१५	३२
	१६	४१
	१७	३
	”	८
	”	९
	”	१०
	”	१६
	”	१८
	”	२१
	”	३०
	२०	१०९
	२४	१०६
वामन	८	२८
वासन्ती	२४	९२

श

शङ्कर कालेलकर
शङ्करन्
शङ्करलाल परीख
शङ्करलाल वैकर

शिवजी
शिवराम
शिवाभाई
शेरवानी

सत्यपाल

सरोजिनी

अप्रम्य	२०	१५८		ह	
अप्रम्य प्रकाश	२०	१६२	हरिकृष्णमाल		९ ६४
अप्रम्य	२०	१५६	हरिप्रसाद		२० १६०
अप्रम्य	"	१०३	हरिप्रसाद मेहता		८ २६
अप्रम्य	"	१५९	हरिभाऊ मोहिनी		२० १५६
अप्रम्य होर	२४	१२	हरिलाल देसाई		८ ७
	"	१९			११ ८
	"	५०	हरिलाल मादिमपुरा		२० १५८
अप्रम्य जुगुल	२४	४४	हसमुखराम		२० १५२
अप्रम्य	२०	१५१	हार्निमेन		८ २८
अप्रम्य	२४	५९	हेकोक		७ ५४
अप्रम्य	२४	५५			

अशुद्ध पाठ	शुद्ध पाठ	पृष्ठे
शक्ति प्र	शक्तिप्र	७०
पद	पद	७१
तेप द्रा	तेपद्रा	
घैयां दी	घैय दी	७३
अजिह्य	अजिह्य	
भुवितस्थि	भुवि नस्थि	७५
सुग्रदेने	सुखा देने	७६
शिवे	शिव	
श्रम कम	श्रमकर्म	,
तत्स विधे	तत्सविधे	१०
ह्युप	ह्युप	८७
दि सु	दिसु	१०२
दुग्गर्वि	दु खैर्वि	१०३
नये न	विनयन	१०६
चलने	चलन	११०
स्या द्य	स्याद्य	
था स्यमू	थेत्यमू	१२२
रोगी	गोरा	१२९
त्तु	त्तु	१२७
माघ	फाल्गुन	१२१
विधि	विवि	१३२
ङ्ग्लण्ड	ङ्ग्लण्ड	१३८
दिं तम	तिं दम	

अशुद्ध पाठ	शुद्धः पाठ	पृष्ठे	पङ्क्तौ
...त्या परत्यापर .	१३९	२२
...सीनां	...सानां	१४०	..
...तुमनामहा...	...तुमना महा...	१५४	२५
कावि	त्र वि	१५७	२४
...शनंतशनं त .	१५९	२३
जनाह्...	जनान्ह...	१६३	६
चिन्ता	चिता	.	२०
शक्तः	शक्ताः	१६५	१७
.. श्रध .	.. श्र ध...	१७०	५
.. याभार...	...या भार...	१७४	१
...द्रवि	...द्रुवि	१७६	१६
. देशसायम्	देश सायम्	१७८	..
तद्रवे .	तद्रवे	२०१	६
कलङ्कस्यमियेव	कलङ्कस्य मियेव	२१६	२
मिथ्या	मिथ्या		
शान्त्यास	शान्त्या स	"	"
मृत्युर्नमदी ..	मृत्युर्न मदी...		
भान्यद्यवि ..	भान्यद्य वि...	२१८	२६
विधानिचिद्वा	...विधानि चिद्वा
. फल्पकल्प	२२०	..
.. शुळ	शुळक...	२४३	२४
.. नतायतो	जनता यतो	२४४	
वष सुधा ..	वषःसुधा .	२४९	३

अशुद्ध. पाठ	शुद्ध पाठ :	पृष्ठे
स्मृताय स्मृता य	२५५
विमलोहितस्मात्त,-	विमलो हि तस्मात्त..	२५८
समाप्यं	समाप्य	२६२
वाध्य	बोध्य ..	२६४
.. श्रमा	!.. श्र मा ..	२६५
स्तारैजया	स्तारैजया	२७३
चाद्गत ..	चाद्गत ..	२७६
नित्य	नित्यं	२८१
...दव	.. देव	२८५
...डम्बरोमहान्	. डम्बरो महान्	२९०
नेऽद्भुते	नेऽद्भुते	२९७
मद्यमा	मद्यपाः	२९८
त्यागिनेः	त्यागिनी	३०२
अप्रता	अप्रतो	"
श्रागण	श्रीगण	३०३
...माधायके	. माधाय के	३१४
लवण नियम...	लवणनियम...	३१८
दित	विदित ...	३१९
.. करो	करी...	३३४
निंशा .	. निंशा	३३७
हुंगरी स्थले .	हु गरीस्थले...	३३९
तीनेमि	तीने स्थानेमि	"
...नरा न्यती ..	नरान्यती ..	३४०

अधुद्धः पाठः	शुद्धः पाठ	पृष्ठे	पङ्क्तौ
गतोनर....	गतो नर....	३४०	६
भवेच्चबलि....	भवेच्च बलि....	३४२	१५
...मनः स्थिति....	...मनःस्थिति...	३४४	९
श्चनिस्थिलाजनानि	श्च निस्थिला जनानि .	३४६	२३
असीत्	आसीत्	३५०	२३
स	सा	३५४	९
स्वीकृत्यमत्र	स्वीकृत्य तत्र	३५७	२६
हिन्दि ..	राष्ट्र...	३६३	६
भारतार्थ....	भारतार्थ....	”	१७
योपिद्रुणै...	योपितगणै...	”	१९
भूयश्च	भूयश्च	”	२४
पत्य...	पत्य....	३७३	५
प्रपयत्पत्र .	प्रपयत्पत्र....	३७६	२
विपरीतं भवद्...	विपरीतं भवद्....	३७७	१२
....मासजाम...	३७८	१३
आफ्	आफ्	३८१	११
दुःखिनीम्	सुदुःखिनीम्	३८४	११
देहीप रि...	देही परि...	३९२	१८
...पुर भार्ग....पुरभार्ग....	३९८	१३
तन्वागत	तन्वागत	४१४	२४
साद्युलोग	साद्युलोग	४१६	२०
कतिचिद्भ्यः	कतिभ्याश्चित्	४१९	१२

पृष्ठ ५ में १९ वें श्लोकको व्याख्या अपूर्ण रह गयी है उसमें १६ वीं पङ्क्तिमें “सुवर्णमय” से आगे इतना जोड़ कर पढ़ें—‘शिशिररूप-पद्मपद्मोसे सूर्य के रोकने के लिये खड़े हुए हैं’ ॥१९॥

(८)

सर्गे	छन्दानाम्	श्लोकसंख्या
२६	मालिनी	६८
	मेघविस्फूर्जितम्	१
	शार्दूलविक्रीडितम्	१
२२	जलोद्धतगतिः	८२
	उपजातिः	१
२३	वसन्ततिलका	७८
	शिशुरिणी	१
२४	अनुष्टुप्	१११
	रथोद्धता	१
	स्रग्धरा	१
२५	मञ्जुभाषिणी	३४
	अनुष्टुप्	१९
	मत्तमयूरम्	१
	अनुष्टुप्	३
	उपजातिः	११
	शिशुरिणी	१
	अनुष्टुप्	१३
	शार्दूलविक्रीडितम्	१